



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, सुकामा, जनवरी 10, 2003/पौष 20, 1924

No. 15]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2003/PAUSA 20, 1924

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2003

सा.कर.नि. 20(अ).—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) का धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर बनाये रखने की अपेक्षा की गई है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे जो मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता धारण करते हैं और जो उस राज्य/संघ की पशु चिकित्सा के पास तत्समय नामावलीगत है जिस पर अधिनियम का विस्तार है।

सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर, 2001 का अनुपूरक साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

[फा. सं. 10-7/2001-बी सी आई]

डॉ अनुप भौमिक, सचिव

भारतीय पशुचिकित्सक रजिस्टर, अनुपूरक 2001

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|----------|
| 1 | ए पारी | पॉण्डी / 83 / 2000 | 52, सुब्रमनलाल कोइल, रस्ट्रीट, मुथियलपेट, पॉण्डीचेरी—3 | बी वी एस सी/टी एन बी एंड ए एस यू/98 | 5.12.74 |
| 2 | ए एच एम अबीदुर रहमान | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2822 / 2000 | ग्राम—उत्तर दत्तापारा, डाक—मोल्लाबेलिया, जिला: नाडिया | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस / 2000 | |
| 3 | आमोद प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह | बिहार एस वी सी / 1351 / 2000 | ग्राम नवरतनहाटा, डाक—पूर्णिया, थाना के हाट, जिला पूर्णिया, 854301 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू / 88 | 4.9.64 |
| 4 | अवधेश प्रसाद सिंह, पुत्र श्री प्रभुनाथ प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1276 / 2000 | ग्राम एवं डाक तमरजापुर, थाना वानीवानपुर, जिला—छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू / 87 | 12.3.57 |
| 5 | अब्दुल अजीज एन पी | ए एंड एन एस वी सी / 78 / 2000 | मथुरा, विष्वरले गंज, दक्षिणी अंडमान—44206 | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/2000 | 21.12.76 |
| 6 | अब्दुल बारी, पुत्र स्व. श्री अब्दुल हमीद | बिहार एस वी सी / 1105 / 2000 | ग्राम चट्यान, डाक चट्यान, थाना केओती, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू / 69 | 16.2.45 |
| 7 | अब्दल बासे, पुत्र स्व. श्री अब्दुल सबूर | बिहार एस वी सी / 1531 / 2000 | ग्राम एवं डाक—मलाठी, मखदमपुर, जिला—जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/70 | 1.3.47 |
| 8 | अब्दुल हकीम, पुत्र श्री अब्दुल अजीज | बिहार एस वी सी / 1171 / 2000 | ग्राम सुलसाबाद, डाक एवं थाना—मेहसी, जिला—मोतीहारी (पू. चम्पारन) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/67 | 1.1.44 |
| 9 | अब्दुल मलिक, पुत्र श्री हकीम मौहम्मद शर्फुद्दीन | बिहार एस वी सी / 1565 / 2000 | मौह.—पठिया बाजार, डाक एवं थाना फुलवारी शरीफ, जिला' पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/81 | 31.3.56 |
| 10 | अब्दुल मोघनी, पुत्र श्री शेख मौहम्मद जुबैर | बिहार एस वी सी / 1192 / 2000 | ग्राम थेंगपुर, डाक एवं थाना पाणि, जिला—मुजफ्फरपुर, 834001 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/66 | 21.10.42 |
| 11 | अब्दुर रहमान, पुत्र स्व. श्री अब्दुर रज्जाक | बिहार एस वी सी / 970 / 2000 | मौह. एवं ग्राम—फैज महल मुगलपुरा, डाक एवं थाना सासाराम, जिला—रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/66 | 10.5.42 |
| 12 | अब्दुर रकीब, पुत्र स्व. श्री अब्दुस सत्तार | बिहार एस वी सी / 1629 / 2000 | ग्राम लाहतोरा, डाक बड़नगर, थाना एवं जिला अरेरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू /71 | 3.5.47 |
| 13 | अब्दुर रशीद, पुत्र श्री अब्दुर रोफ | बिहार एस वी सी / 1299 / 2000 | ग्राम मैगनवा, डाक गैयारी, थाना एवं जिला अरेरिया, पिन— 854311 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू /89 | 22.12.62 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|--|---|----------|
| 14 | अम्य कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री भगवत् प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1505 / 2000 | ग्राम एवं डाक— बारिल, थाना एवं जिला—सुपौल | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/72 | 14.7.48 |
| 15 | अम्य कुमार सिन्हा, पुत्र डॉ. गोपी नाथ सिन्हा | बिहार एस वी सी/ 832 / 2000 | एम— बी /50, इंदिरापुरी को. ऑप., आशियाना रोड, डाक बी वी सी, थाना शास्त्रीनगर, पटना 23 | बी वी एस सी एड ए एच/ एम यू/64 | 22.7.41 |
| 16 | अम्य प्रसाद सिंह, पुत्र स्व.श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 959 / 2000 | मेन रोड, लाटेचोर, डाक लाटेचोर, थाना लाटेचोर, जिला पलामू | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/82 | 15.1.57 |
| 17 | अभिमन्यु प्रसाद, पुत्र श्री सरयू महतो | बिहार एस वी सी/ 1286 / 2000 | ग्राम— कौरियादीन, डाक नागर बरसौत, थाना बारही | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/93 | 10.2.87 |
| 18 | अभिनेश पाल सिंह, पुत्र श्री दरियाई सिंह | यू. पी. वी. सी / 3223 | 19 ए, बैंक कॉलोनी, जयपुर हाउस, आगरा, उ.प्र. | बी वी एस सी एड ए एच/सी एस एयू ए एंड टी/81 | 2.7.58 |
| 19 | अभिषेक गर्ग, पुत्र श्री जी एस गर्ग | यू. पी. वी. सी / 3227 | 110—ए. के पी रोड, बुलंदशहर | बी वी एस सी एड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/2000 | 14.1.76 |
| 20 | अभिषेक गोयल | आर ए जे एस वी सी/2653 / 2000 | पुत्र श्री दयाराम, अग्रवाल भवन के पीछे, नादबाई, भरतपुर | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 10.9.72 |
| 21 | अबी जॉर्ज एलियास | केरल एस वी सी/ 2515 / 2000 | करीमपन्नकल (एच), विनय नगर, पार्वतनी, थ्रिसूर, पिन 680005 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 3.7.76 |
| 22 | अबुजर मौह. जहीर, पुत्र स्व. मौह. मोहजीबुर रहमान | बिहार एस वी सी/ 1939 / 2000 | ग्राम मन्जान नगर, डाक—आगापुर, थाना पुपरी, जिला सीतामढ़ी | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/66 | 6.1.42 |
| 23 | आदमशफीउल्ला सी एच, पुत्र स्व. श्री होन्नुर शेब | कर्ना एस वी सी/ 3172 | 111 वार्ड, कोटदूर डाक, कुडलिगी तालुक, बेलारी जिला | बी वी एस सी एड ए एच/यू ए एस बंगलौर/2000 | 23.10.73 |
| 24 | अदीबुर रहमान, पुत्र स्व. मौह. वावज | बिहार एस वी सी/ 1078 / 2000 | ग्राम दोस्तपुर, डाक कर मौली, थाना खजामली, जिला मधुबनी— 847279 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/82 | 15.8.60 |
| 25 | ऐजाज अहमद मिलिक | वी सी आई/ 2215 / 2000 | अयाथमूला, बांदीपुर, बाड़मूला, कश्मीर, पिन—193502 | बी वी एस सी एड ए एच/एस के यू ए एस एंड टी/99 | 8.12.71 |
| 26 | अहेर अरुण सीताराम | एम एस वी सी/ 6347 / 2000 | डॉडी डाक— परवारा नगर, तालुक रहाटा, जिला अहमदनगर— 413712 | बी वी एस सी एड ए एच/पी डी के वी/ 2000 | 21.10.75 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| 27 | अजय | डी वी सी / 0557 / 2000 | श्रीमती सत्यावती, अशोक मौहल्ला, म.न.186, गली न.6, नांगलोई, नई दिल्ली- 41 | बी वी एस सी एंड ए एच / सी सी एस एच ए यू / 97 | 6.8.74 |
| 28 | अजय कुमार चौधरी, पुत्र श्री सूर्य नारायण चौधरी | बिहार एस वी सी / 1048 / 2000 | ग्राम मोहनबदियाम, डाक- कनहौली, थाना- साकरी, जिला- मधुबनी 647239 | बी वी एस सी एंड ए एच / बी ए यू / 83 | 3.1.81 |
| 29 | अजय कुमार सिन्हा, पुत्र श्री अलक कुमार सिन्हा | बिहार एस वी सी / 853 / 2000 | मौ. हसनपुर, चायटोला, नाहरपुर, डाक बांकीपुर,, थाना राजेंद्र नगर, पटना | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 89 | 2.12.63 |
| 30 | अजय कुमार ईश्वर, पुत्र श्री हरीश चंद्र ईश्वर | बिहार एस वी सी / 2025 / 2000 | मौह. डाक एवं थाना- कनके, जिला- रांची | बी वी एस सी एंड ए एच / जी बी पी यू ए एंड टी / 77 | 2.9.53 |
| 31 | अजय कु. माडिलवर, पुत्र स्व. श्री ब्रजनंदन प्रसाद माडिलवर | बिहार एस वी सी / 1543 / 2000 | मौ. दस आना कचहरी, डाक एवं थाना- फरबीस गंज, जिला- अरेरिया 854318 | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 83 | 12.11.59 |
| 32 | अजय कुमार पांडे, पुत्र डॉ. शांतनु कुमार पांडे | बिहार एस वी सी / 903 / 2000 | मौह. पटेलनगर, डाक पटेल नगर, थाना- फुलपरास, जिला- मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच / बी ए यू / 84 | 9.4.60 |
| 33 | अजय कुमार यादव, पुत्र श्री रामकैलाश प्रसाद यादव | बिहार एस वी सी / 1329 / 2000 | ग्राम एवं डाक साकरी, थाना भवनाथपुर, जिला- गढ़वा, पिन 822112 | बी वी एस सी एंड ए एच / बी ए यू / 88 | 10.9.64 |
| 34 | अजय कुमार, पुत्र डॉ. बालेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 2044 / 2000 | ग्राम एवं डाक शेरगढ़, थाना गोगरी जमालपुर, जिला- खगरिया | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 96 | 2.1.70 |
| 35 | अजय कुमार पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद | बिहार एस वी सी / 854 / 2000 | मौह. कलब रोड एरिया, डाक कलब रोड, थाना औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच / बी ए यू / 89 | 3.12.64 |
| 36 | अजय, पुत्र श्री राजिन्दर पाल | पी वी एस वी सी / 2177 / 2000 | 10- डी, अमन पार्क, लुधियाना विलेज, ठरीके | बी वी एस सी एंड ए एच / पी ए यू / 2000 | 16.12.75 |
| 37 | अजयशंकर सिंह, पुत्र स्व. श्रीकात्यायनी शंकर सिंह | बिहार एस वी सी / 1773 / 2000 | ग्राम एवं डाक- मदार, थाना बारबीघा, जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 83 | 2.1.57 |
| 38 | अजय वी एस | केरल एस वी सी / 2462 / 2000 | मन्नटाजीकम, कन्नीमेल चेरी, किलिकोल्लूर डाक, कोल्लम, पिन 691004 | बी वी एस सी एंड ए एच / के ए यू / 2000 | 20.4.76 |
| 39 | अजय कुमार वी | केरल एस वी सी / 2446 / 2000 | गीथा भवन, डाक- कोल्लाड, कोट्टायम - 686029 | बी वी एस सी एंड ए एच / के ए यू / 2000 | 29.5.72 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मस्थिति |
|---------|--|---|---|--|------------|
| 40 | अजय कुमार वी जे | पॉण्डी / 102 / 2000 | 44, पुरुषेट, लॉसपेट, मेन रोड, पॉण्डीचेरी 605008 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/95 | 1.3.72 |
| 41 | अजीश कोशी चेरियन | केरल एस बी सी / रंजिनी, टीसी 18 / 1825(1), 2490 / 2000 | थिविला लेन, थिरुमला डाक, त्रिवेन्द्रम, पिन- 695006 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 28.5.75 |
| 42 | अजीत कमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री सिंदेश्वर प्रसाद | बिहार एस बी सी / 1558 / 2000 | ग्राम— मेठारा, डाक— अतिपनवा, थाना घोसी, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 3.3.45 |
| 43 | अजीत कुमार, पुत्र श्री यमुना प्रसाद सिंह | बिहार एस बी सी / 1140 / 2000 | ग्राम सिमरी, डाक एवं थाना— कोगुट, जिला— पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 28.9.52 |
| 44 | अजीत सिंह, पुत्र श्री दशरथ सिंह | बिहार एस बी सी / 1478 / 2000 | ग्राम नौदीहार, डाक— रतीहमपुर, थाना सोनपुर, जिला— छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 15.7.68 |
| 45 | अजेंद्र कुमार पुत्र स्व. श्री चंडेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस बी सी / 1690 / 2000 | ग्राम कुशाहान, डाक एवं थाना— सिरदाला, जिला— नवादा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 22.7.58 |
| 46 | अजीत भौमिक, पुत्र श्री बलराम भौमिक | त्रिपुरा / 48 / 2000 | वेट, क्या, कॉम्प्लेक्स, ब्रामाबारी, उदयगुप्त, त्रिपुरा (एस) | बी वी एस सी एंड ए एच / बी सी के वी वी / 81 | 12.1.59 |
| 47 | अजीत कुमार सिन्हा, पुत्र श्री शिरोमनी प्रसाद | बिहार एस बी सी / 1720 / 2000 | मौह. पुरेंदु नगर, डाक एवं थाना — फुलवारी शरीफ, जिला— पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 29.9.45 |
| 48 | अजीत कुमार श्री वास्तव, पुत्र स्व. श्री सुरेश प्रसाद | बिहार एस बी सी / 850 / 2000 | मौह. मन.ए / 57, इंदिरा पुरी, डाक बी वी कॉलेज, थाना शास्त्रीनगर, पटना 800014 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 1.7.42 |
| 49 | अजीत कुमार शर्मा, पुत्र श्री राज नंदन शर्मा | बिहार एस बी सी / 1921 / 2000 | ग्राम— बिधजपुर, डाक करौटा, थाना— बख्तायार पुर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 23.1.62 |
| 50 | अजीत कुमार सिंह, पुत्र श्री महेश्वरी प्रसाद सिंह | बिहार एस बी सी / 2015 / 2000 | एम— 5ए / 13, नार्थ एसके पुरी, डाक पाटलीपुत्र कॉ. थाना ए एच / एम यू/ एस के पुरी, पटना 800013 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 63 | 25.10.39 |
| 51 | अजीत कुमार सिन्हा, पुत्र श्री सदाशिव प्रसाद | बिहार एस बी सी / 1936 / 2000 | एम— 343, अनुग्रह पुरी कॉलोनी, थाना समपुर, डाक / जिला गया, 823001 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 17.8.50 |
| 52 | अजीत शरण, पुत्र श्री किशोरी रमन शरण | बिहार एस बी सी / 1683 / 2000 | मौ. एच आई जी, 7 / 44, डाक लिहियानगर, थाना सुल्तानगंज, पटना 800020 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 95 | 20.7.69 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|----------|
| 53 | अजीत सिंह, पुत्र श्री अहाम्ना कंवर यादव | आर ए जे एस वी सी/2753/ 2001 | ग्राम मुरलीपुर, डाक मंगल पठानी, तह. कोरली, जिला रिवाड़ी, हरियाणा | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/96 | 21.3.73 |
| 54 | अजो जोसेफ | केरल एस वी सी/ 2468/ 2000 | वलियाकंडाथिल हाउस, नाज़रथ हिल डाक, कुराविलं गंड, कोट्टायम— 686633 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 26.3.76 |
| 55 | आकाश बाघमारे, पुत्र श्री बालाजी राव | एम पी एस वी सी/ 1904/ 2000 | म.न. 224, पुराना अशोका गार्डन, भोपाल— 462023 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/98— 99 | 9.6.72 |
| 56 | अकबर मिवान, पुत्र स्व. श्री कासिम मिवान | बिहार एस वी सी/ 1361/ 2000 | ग्राम एवं डाक— खजुरी, थाना— नौबतपुर, जिला— पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 2.9.48 |
| 57 | अखिलाश कुमार सिंह, पुत्र श्री पारस नाथ सिंह | बिहार एस वी सी/ 1229/ 2000 | ग्राम बड़ा तेलपा, थाना चपरा, टाउन, जिला एवं डाक चपरा, पिन 841301 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 89 | 12.1.64 |
| 58 | अखिलेश कुमार, पुत्र श्री ईश्वरी दयाल सिंह | बिहार एस वी सी/ 1268/ 2000 | मौह. रोड न. 1, सलीमपुर, अहारा, डाक एवं थाना कदमकुआं, जिला—पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 5.1.65 |
| 59 | अखिलेश पांडे, पुत्र रव. श्री रामनन्दन पांडे | बिहार एस वी सी/ 101/ 2000 | ग्राम— अरबी, डाक— अम्बा, थाना— कुटुम्बा, जिला— औरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 26.7.47 |
| 60 | अक्षय कुमार मुखर्जी, पुत्र स्व. श्री सुरेंद्र नाथ | बिहार एस वी सी/ 1560/ 2000 | ग्राम उदयपुर (रामगंज), डाक कर्णजोरा, जिला— उ.दिनाज पुर, राज्य प.बंगाल | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 1.1.43 |
| 61 | अक्षयवत् प्रसाद सिंह, पुत्र श्री राम सिवन सिंह | बिहार एस वी सी/ 1392/ 2000 | ग्राम एवं थाना दानियाबन, थाना अकंगेर सोर्व, जिला नालंदा, पिन— 801301 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 11.3.60 |
| 62 | अक्षयन् हाल केशा रु स्व. श्री माता राद | बिहार एस वी सी/ 1243/ 2000 | एम—16, डिफेंस कॉलोनी, डाक—दीघा, थाना— दानापुर, जिला— पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 4.7.44 |
| 63 | अलख कुमार सिन्हा, पुत्र रव. श्री रामानंद प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1346/ 2000 | एम—ए/56, इंद्रापुरी कॉलोनी, डाक वेट कॉलेज, थाना शास्त्रीनगर, पटना 800014 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 25.2.43 |
| 64 | अलख निरंजन, पुत्र श्री राम हरि प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी/ 1848/ 2000 | ग्राम गोमहर, डाक जगये, थाना एकंगरसराय, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 86 | 1.10.60 |
| 65 | एल्फेड मिंज, पुत्र रव. श्री तिक्टर मिंज | बिहार एस वी सी/ 1728/ 2000 | ग्राम—सिमटोली, डाक— गोत्रा, थाना—सिमडेगा, जिला गुमला, पिन 835223 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 16.8.66 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|---|----------|
| 66 | अली अकबर अन्सारी, पुत्र स्व. श्री अब्दुल हकीम अन्सारी | बिहार एस वी सी / 962 / 2000 | ग्राम शिवगंज, डाक एवं थाना— देहमी, जिला रोहतास, पिन— 821307 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 14.6.49 |
| 67 | अली हेयोगे | केरल एस वी सी / 2527 / 2001 | xvi / 1710, टी आर कॉस रोड, थोप्पुमपडी, कोचीन— 5 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 9.10.70 |
| 68 | अलाउदीन अहमद, पुत्र स्व. मौह. ईशा | बिहार एस वी सी / 2088 / 2000 | एम— 30ए, इंदिरापुरी कॉलोनी, डाक बिहार वेट कॉलेज, थाना शास्त्री नगर जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी यू/ 55 | 15.1.36 |
| 69 | अल्लीदा एस्ट्रिड जॉर्जिना | जी ओ ए एस वी सी / 118 / 01 | 67, सागर कॉलोनी सोसायटी, डोना पॉला | बी वी एस सी एंड ए एच/ जी ए यू/ 98 | 28.7.75 |
| 70 | आलोक कुमार सिन्हा, पुत्र श्री सुरेश चंद्र प्रसाद | बिहार एस वी सी / 947 / 2000 | मौ. कैलाश कुंज, भागल बपार, डाक, थाना एवं जिला—मुगेर, पिन—811201 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 89 | 3.1.66 |
| 71 | आलोक कुमार शर्मा, पुत्र श्री सुरेंद्र शर्मा | ए पी एस वी सी / 03567 / 2000 | 203, श्री राम अपार्ट., म्युनिसिपल कॉलोनी, मलकपेट, हैदराबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/ जी बी पी यू ए एंड टी / 93 | 31.8.69 |
| 72 | आलोक कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री सत्यिदानंद सिंह | बिहार एस वी सी / 1950 / 2000 | मौ.— कविता कुंज, इंद्रा पुरी, रोड न. 1, डाक रातु रोड, जिला रांची 834005 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 3.1.70 |
| 73 | आलोक शुक्ला, पुत्र श्री आर एस शुक्ला | यू पी वी सी / 3254 | 25 / 13, रिंग रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ, उ. प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जीबीपीयू ए एंड टी / 2000 | 30.8.78 |
| 74 | आलोक सिंह, पुत्र श्री अवधेश कुमार सिंह | बिहार एस वी सी / 2084 / 2001 | मौ. सीडीए कॉलोनी, डाक लाल बहादुर शास्त्री नगर, थाना शास्त्री नगर, पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/के के वी / 2000 | 2.5.75 |
| 75 | अमन दीपसिंह रियार, पुत्र श्री परगन सिंह रियार | पी बी एस वी सी / 2180 / 2000 | ग्राम एवं डाक— धपाई, वाया: कुआदिन, जिला गुरदासपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 1999 | 19.3.76 |
| 76 | अमर देव द्विवेदी, पुत्र स्व. श्री राजेश्वर द्विवेदी | बिहार एस वी सी / 1663 / 2000 | ग्राम एवं डाक— हिकाहान, भावनीपुर, थाना संग्रामपुर, जिला पूर्वी चम्पारन | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 4.3.46 |
| 77 | अमर कुमार सिंह, पुत्र श्री राम जी लाल | यू पी वी सी / 3234 | पेट केयर विलनिक, मसीही स्कूल मार्केट, डीएम कॉलोनी रोड, बुलदशहर | बी वी एस सी एंड ए.एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 90 | 22.4.65 |
| 78 | अमर कुमार वर्मा, पुत्र स्व. श्री दिनेश प्रसाद | बिहार एस वी सी / 2043 / 2000 | ग्राम रामपुर, डाक— अम्बा, थाना— टेघरा, जिला— बेगूसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 64 | 4.1.45 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैलफिल अड्डताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|-------------------------------|---|---|----------|
| 79 | अमर नाथ, पुत्र श्री राम अवतार कटियार | यू.पी.वी.सी./ 3306 | ग्राम- ढिकची, डाक रुगांव, जिला- कानपुर (देहात), उ.प्र. | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/जी.बी.पी यू.ए.एंड.टी./94 | 2.2.67 |
| 80 | अमर दीप सिंह, पुत्र श्री जसपाल सिंह | पी.बी.एस.वी.सी./ 2224/ 2001 | 77, गुरु हर राय एवेन्यू डाक- खालसा कॉलेज, अमृतसर | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/पी.ए.यू./ 1999 | 19.6.75 |
| 81 | अम्बोज कुमार महतो, पुत्र श्री भिखनू महतो | बिहार एस.वी.सी./ 1099/ 2000 | ग्राम टुन्कू, डाक दोवारु, थाना सिल्ली, जिला रांची, पिन- 835102 | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/बी.ए.यू./ 93 | 15.1.67 |
| 82 | अमित अत्री | वी.सी.आई./ 2288/ 01 | बी- 12, विश्वाल क्रॉलोनी, नांगलौर, दिल्ली- 110041 | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/सी.सी.एस.एच.ए.यू./ 2000 | 1.7.76 |
| 83 | अमित कुमार टिरकी, पुत्र श्री हेजेल टिरकी | बिहार एस.वी.सी./ 1825/ 2000 | मौ. कदरु सरना टोली, डाक दोरांडा, थाना अरणोडा, जिला रांची, पिन 834002 | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/बी.ए.यू./ 93 | 24.1.67 |
| 84 | अमित कुमार गुप्ता, पुत्र डॉ. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता | बिहार एस.वी.सी./ 1937/ 2000 | ग्राम डाक एवं थाना झामगढ़ कैंट, जिला हजारीबाग, पिन 829122 | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/जी.बी.पी यू.ए.एंड.टी./2000 | 2.8.72 |
| 85 | अमित कुमार पांडे, पुत्र श्री डी.एस.पांडे | यू.पी.वी.सी./ 3243 | ग्राम कोनी, डाक लहसाडी, जिला- गोरखपुर, उ.प्र. | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/ओ.यू.ए.एंड.टी./96 | 13.4.73 |
| 86 | अमित कुमार राय, पुत्र श्री डी.एन.राय | यू.पी.वी.सी./ 3248 | बी- 97, सेक्टर 1, दूरभाष नगर, बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/जी.बी.पी यू.ए.एंड.टी./2000 | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/जी.बी.पी यू.ए.एंड.टी./2000 | 8.4.77 |
| 87 | अमित कुमार शर्मा | आर.ए.जे.एस.वी.सी./ 2662/ 2000 | शिव मंदिर के निकट, सुभाषपुरा, बीकानेर- 334001 | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/आर.ए.यू./2000 | 6.1.77 |
| 88 | अमित सक्सेना, पुत्र श्री सतप्रकाश सक्सेना | पी.बी.एस.वी.सी./ 2206/ 2000 | अशोक विहार, फेज़- 2, सर्कुलर रोड, कपूरथला | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/एम.ए.यू./2000 | 8.8.76 |
| 89 | अमित त्रिपाठी, पुत्र डॉ. बी.के.त्रिपाठी | यू.पी.वी.सी./ 3281 | 19/786, इंदिरा नगर, लखनऊ, उ.प्र. | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/ओ.यू.ए.एंड.टी./98 | 15.4.73 |
| 90 | अमिताभ धर, पुत्र श्री अमल कुमार धर | बिहार एस.वी.सी./ 1469/ 2000 | ग्राम बेला नगर, डाक अभय नगर, थाना दोमजुर, जिला हावड़ा, पिन- 712021 | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/आर.ए.यू./83 | 21.11.59 |
| 91 | अमरेंद्र कुमार पांडे, पुत्र श्री रेवती रमन पांडे | बिहार एस.वी.सी./ 1837/ 2000 | ग्राम एवं डाक बैजानी, थाना जगदीशपुर, जिला भागलपुर | बी.वी.एस.सी.एड. ए एच/आर.ए.यू./95 | 5.1.70 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---|--|---|----------|
| 92 | अमरेंद्र कुमार श्रीकास्तव, पुत्र स्व. श्री विष्णुदेव प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1363 / 2000 | एम. पन्नकी रोड, बीआईपी कार्यालय के निकट, थाना डल्टनगंज, पलामू 822101 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/93 | 12.1.64 |
| 93 | अमरेंद्र कुमार, पुत्र श्री जगमाहान प्रसाद यादव | बिहार एस वी सी / 1248 / 2000 | ग्राम— मटखोरा, डाक एवं थाना— मुरलीगंज, जिला माधेपुरा, पिन— 852113 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 88 | 24.3.64 |
| 94 | अमरेंद्र कुमार, पुत्र श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव | बिहार एस वी सी / 1311 / 2000 | ग्राम रमजानीपुर, डाक कलगी गंज, थाना कोहल गांव, जिला भागलपुर, पिन— 812000 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 87 | 5.5.63 |
| 95 | अमरेंद्र प्रसाद, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1706 / 2000 | ग्राम, डाक एवं थाना मलयपुर, जिला जमुर्झ, पिन— 811313 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 29.7.69 |
| 96 | अमरेश नारायण सिन्हा, पुत्र डॉ. गणेश प्रसाद साहा | बिहार एस वी सी / 1496 / 2000 | ग्राम एवं डाक— अस्सनडे, थाना— कनके, जिला रांची, पिन— 834006 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 95 | 6.3.71 |
| 97 | अमरेश्वर प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्व. श्री राजेश्वर प्रसिन्हा | बिहार एस वी सी / 2007 / 2000 | मौ. हरमू हाऊसिंग कॉलोनी, डाकघर हरमू, जिला रांची | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 5.2.46 |
| 98 | अमृत कुमार नायक | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2785 / 2000 | ग्राम बांसगोरा, डाक ब्रजलाल चक, जिला— मिदनापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 99 | अमूल्य देब नाथ, पुत्र श्री रमेश देबनाथ | त्रिपुरा / 49 / 2000 | ग्राम दक्षिणी बधरघाट (हाफानिया), डाक ओएनजीसी, थाना अमताली, त्रिपुरा प. | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 81 | 30.6.50 |
| 100 | आनंदी शंकर भट्टाचार्य, पुत्र ले. अविनाश | त्रिपुरा / 69 / 2000 | डाक कल्याणपुर, त्रिपुरा वेस्ट जिला, पिन— 799203 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/87 | 16.5.63 |
| 101 | अनामिका कुमारी, पुत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार तिवारी | बिहार एस वी सी / 1213 / 2000 | ग्राम एवं डाक— नया गांव (सत खुट) थाना— परवत्ता, जिला खगरिया, पिन 851215 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 16.1.72 |
| 102 | आनंद के जे, पुत्र श्री जावारे गौडा | के ए आर एस वी सी / 3177 | बालेगरे स्ट्रीट, कोनानूर, अराकलागुड तालुक, हसन जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू एस बंगलौर / 2000 | 6.5.76 |
| 103 | आनंद कुमार त्रिवेदी, पुत्र प्रेम चंद्र त्रिवेदी | बिहार एस वी सी / 953 / 2000 | मौ. रेलवे स्टेशन कोओप. कॉलानी, डाक दीघा चाट, थाना दीघा, पटना 800011 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 82 | 4.6.58 |
| 104 | आनंद कुमार | डी वी सी / 0566 / 2000 | जी डी दास क्वार्टर न.जी / 8.आईओसी नगर, साइट 2, सेक्टर 55, नौएडा 201301 | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | 15.8.76 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|---|---|---|----------|
| 105 | आनंद कुमार, पुत्र श्री सिवा राम रे | बिहार एस वी सी / 1969 / 2000 | क्वा. न. सी डी 275 / 11, डाक धुवा, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची, पिन- 834004 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 97 | 15.12.72 |
| 106 | आनंद लाल, पुत्र स्त. श्री राम रतन लाल | बिहार एस वी सी / 1533 / 2000 | ग्राम बारहोरा, डाक शिवपुर, थाना संदेश, जिला मोजपुर (आराह) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 30.11.48 |
| 107 | आनंद प्रकाश सिंह, पुत्र श्री दया राम सिंह | यू पी वी सी / 3212 | ग्राम गरौंडी, डाकघर अदलहाट, जिला मिर्जापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एसएयू ए एंड टी/ 2000 | 1.10.69 |
| 108 | आनंद सिंह, पुत्र श्री रामेश्वर सिंह | एच ए आर एस वी सी / 1623 | म.न. 4518, डिफेंस कॉलोनी, जींद | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 99 | 13.6.75 |
| 109 | आनंद वी पादियप्पनावर, पुत्र श्री वीरभद्रप्पा | कर्ना एस वी सी / 3122 | दत्तात्रेय मंदिर के निकट, नोसेगल डाक, रोआन तालुक, गडग जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस घारवाड/ 99 | 22.7.76 |
| 110 | आनंद बी आर, पुत्र श्री रामानाइक | कर्ना एस वी सी / 3174 | बैंडेकारे थण्ड्या, बैंडेकारे डाक, अरासीकोरे तालुक, हसन जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 20.8.75 |
| 111 | आनंदी प्रसाद सिंह, पुत्र स्त. श्री मेघू प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1765 / 2000 | ग्राम कमलपुर, डाक— परमानंदपुर, थाना बलीवा, जिला— बैगूसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 2.12.61 |
| 112 | आनंदी प्रसाद सिंह, पुत्र श्री राम स्वरूप प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1933 / 2000 | ग्राम चाक जैनव, डाक गोनावन, थाना— हरनौट, जिला— नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 72 | 15.8.47 |
| 113 | अनंत कुमार सिन्हा, पुत्र स्त. श्री वृस्पति प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 891 / 2000 | ग्राम एवं डाक नया टोला, रानी दियारा, थाना काहल गांव, जिला— भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 18.7.51 |
| 114 | अनंत कुमार दास | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2797 / 2000 | ग्राम सागर माधबपुर, डाक दक्षिण शिवपुर, जिला 24 परगना (द.) | बी वी एस सी एंड ए एच/ डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/ 2000 | |
| 115 | अनंत राव च., पुत्र श्री सुब्बारायुडु | ए पी एस वी सी / 03556 / 2000 | रिटा. असि. वेट. सर्जन, मचारा, कपिलेश्वरपुरम(एम), पूर्वी गोदावरी जिला | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 38 | 30.6.75 |
| 116 | अनंतवर अविनाश नरेंद्र | एम एस वी सी / 6295 / 2000 | ओम साई(144), वैभव नगर, कोरेगांव रोड, परभनी जिला, परभनी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 5.1.74 |
| 117 | अंगद कुमार सिंह, पुत्र स्त. श्री जमुना सिंह | बिहार एस वी सी / 1763 / 2000 | मौ. दलजीत टोला, डाक— जयप्रकाश नगर, थाना बैरीवा, जिला बलिया, राज्य उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 2.1.54 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मविवर |
|---------|---|-------------------------------------|--|--|----------|
| 118 | अनिल कुमार पांडे, पुत्र श्री महेंद्र पांडे | बिहार एस.वी. सी / 1328 / 2000 | ग्राम एवं डाक—बरहोग, थाना विंड, जिला नालंदा, पिन— 803107 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 3.10.68 |
| 119 | अनिल कुमार सिंह, पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 1443 / 2000 | ग्राम एवं डाक—मेठवालिया, थाना—रिविलगंज, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 3.8.62 |
| 120 | अनिल कुमार सिन्हा, पुत्र श्री सुखदेव प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1458 / 2000 | मौ. आर एन कॉलेज का पश्चिम, डाक थाना हाजीपुर, जिला वैशाली, पिन 844101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 1.12.68 |
| 121 | अनिल कुमार वर्मा, पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र प्रसाद | बिहार एस वी सी / 943 / 2000 | ग्राम सिमरी, डाक कांसी सिमरी, जिला—दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 21.10.46 |
| 122 | अनिल कुमार दूबे, पुत्र श्री हीरा चंद्र दूबे | बिहार एस वी सी / 1162 / 2000 | ग्राम एवं डाक नौर, थाना नवीनगर, जिला औरंगाबाद, पिन— 824301 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 16.7.50 |
| 123 | अनिल कुमार जी, पुत्र श्री जी जानकी रामझया | ए पी एस वी सी / 03636 / 2000 | डी.न. 3-28-63/के, राजेंद्र नगर, गुन्टूर— 6 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 14.3.75 |
| 124 | अनिल कुमार गंगवार, पुत्र श्री एम एस गंगवार | यू.पी.वी.सी./ 3210 | 414, नई बस्ती, पीलीभीत, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एसएयू ए एंड टी/ 2000 | 7.10.71 |
| 125 | अनिल कुमार जी के, पुत्र श्री केडे गौडा | कर्ना एस वी सी / 3085 | डाक गोपालपुरा, तालुक मांड्या, जिला मांड्या, 571402 | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 98 | 8.6.75 |
| 126 | अनिल कुमार नायक, पुत्र श्री केदार नाथ नायक | बिहार एस वी सी / 1821 / 2000 | ग्राम ओबारिया, डाक हटिया, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची, पिन— 834003 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 19.1.71 |
| 127 | अनिल कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री द्वारिका प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1656 / 2000 | ग्राम कर्णपुरा, डाक जघुआ, थाना गंजाब्रिज, जिला वैशाली, पिन— 844101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 91 | 10.7.61 |
| 128 | अनिल कुमार सिन्हा, पुत्र श्री कैलाश प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1298 / 2000 | ग्राम मरायरा, डाक मायरा बरियथ, थाना कटारी सराय, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 9.4.68 |
| 129 | अनिल कुमार, पुत्र श्री योगेन्द्र प्रसाद राय | बिहार एस वी सी / 1774 / 2000 | ग्राम एवं डाक— चथार, थाना शम्भूगंज, जिला बंका | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 1.4.67 |
| 130 | अनिल कुमार ,पुत्र श्री दर्शन कुमार | आर ए जे एस वी सी/2757 / 2001 | म. न.0 .169, एम सी कॉलोनी, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सीएस एच ए यू/ 98 | 29.7.76 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---------------------------------|---|---|----------|
| 131 | अनिलावा देस गुप्ता, पुत्र श्री अमिया बंधु दास गुप्ता | त्रिपुरा/27/ 2000 | कृष्णानगर, प्रगति रोड, अगरतला, त्रिपुरा प. | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/ 77 | 1.5.55 |
| 132 | अनिल कुमार पी, पुत्र श्री टी पुट्टा स्वामी | कर्ना/3193 | अर्गओदानाडोड्डी, बेसागरा हल्ली डाक, तालुक मददूर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 8.5.77 |
| 133 | अनिरुद्धप्रसाद शर्मा, पुत्र स्व. श्री दशरथ प्रसाद शर्मा | बिहार एस वी सी/1166/ 2000 | ग्राम एवं डाक— दाहपार सर्गो, थाना नूरसराय, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 12.3.47 |
| 134 | अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री जगदेव प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/1360/ 2000 | ग्राम एवं डाक— बिजौली, थाना एवं जिला— औरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 1.2.47 |
| 135 | अनीस असलम | केरल एस वी सी/2484/ 2000 | वल्लक्कडाबु थोटापल्ली डाक, अलपुज्जा, पिन— 688563 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 29.4.73 |
| 136 | अनीश एंटोनी | केरल एस वी सी/2514/ 2000 | मेडेक्कल हाउस, अदूपरम्भ डाक मुवट्टुपुजा, जिला अर्नाकुलम | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 20.5.76 |
| 137 | अनिता कुमारी, पुत्री डॉ. अवधि बिहारी गुप्ता | बिहार एस वी सी/1035/ 2000 | एम— बी/103, मोनिका अर्पार्ट, जगदेव मार्ग के निकट, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 8.6.68 |
| 138 | अनिता कुमारी, पुत्री श्री जगदीश प्रसाद | बिहार एस वी सी/897/ 2000 | ग्राम धमौली, डाक मूयेगांव, थाना इस्लामपुर, जिला- नालंदा, पिन— 801303 | बी वी एस सी एंड एच/आर ए यू/ 96 | 24.5.70 |
| 139 | अनिथा एम जी | केरल एस वी सी/2452/ 2000 | कोट्टूर हाउस, नेनमेनीकुन्नू डाक चीराल(वाया), जिला वायनाड | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 19.5.75 |
| 140 | अंजलि कुमारी सिन्हा, पुत्री श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी/930/ 2000 | एम—एम एफ 3, एमआइजी, ब्लॉक न. 6, बहादुरपुर हाउ. कालो, थाना अगमकुआं, पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 2.11.68 |
| 141 | अंजन साहा, पुत्र श्री दुलाल चंद साहा | त्रिपुरा/55/ 2000 | द्वारा: सुब्रत चक्कर्ता, रामकृष्णमिशन रोड, धर्म नगर, | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/ 81 | 6.1.60 |
| 142 | अंजनेयुलु वी, पुत्र श्री वी लक्ष्मीकांता रायडु | ए पी एस वी सी/03655/ 2000 | म.न. 54-20 / 7-4, दूसरी लाइन, कनकदुर्गा ऑफिसर्स कॉलोनी, विजयवाडा 8 | बी वी एस सी एंड ए एच/एस वी यू/ 64 | 15.7.40 |
| 143 | अंजनी कुमार सिन्हा, पुत्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी/1449/ 2000 | ग्राम— बाराह, डाक मुआपुर, थाना बेलची, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 87 | 25.12.62 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मसंख्या |
|---------|--|------------------------------------|---|--|------------|
| 144 | अंजनी कुमार सिन्हा, पुत्र श्री बृजेश कुमार सिन्हा। | बिहार एस वी सी / 1550 / 2000 | ग्राम वालुहीपुर, डाक आराह, थाना आराह, जिला आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/68 | 17.11.46 |
| 145 | अंजनी कुसिन्हा, पुत्र श्री गोरेश्वर प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 2049 / 2000 | ग्राम चेरिया बरियारपुर, डाक श्रीपुर, थाना चेरिया बेरियार पुर, जिला बेगुसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 79 | 17.1.54 |
| 146 | अनूप मूर्ति विरायानी | केरल एस वी सी / 2466 / 2000 | 5 / 519, पैनिशिया, पेरिगाबु डाक, त्रिसूर, पिन- 680018 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 29.5.76 |
| 147 | अंशद एम एच | केरल एस वी सी / 2502 / 2000 | असारीकुन्नू, वेलियान्नूर, थिसूर, पिन- 680021 | बी वी एस सी एंड एच/के ए यू/ 2000 | 16.3.77 |
| 148 | एंटोइन डी | पॉण्डी / 97 / 2000 | 19. ॥ क्रॉस, सत्या नगर, ईस्ट कामराज सलाई, पॉण्डीचेरी- 605013 | बी वी एस सी / टी एन ए यू/84 | 7.6.60 |
| 149 | एंटोनी पी एक्स | पॉण्डी / 88 / 2000 | 408, भास्ती स्ट्रीट, पॉण्डीचेरी- 1 | बी वी एस सी / टी एन ए यू/87 | 16.12.59 |
| 150 | अनु अरोडा, पुत्री श्री निर्भल कुमार | एच ए आर एस वी सी / 1677 | 1788, सेक्टर- 28, फरीदाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सीएस एच ए यू/ 99 | 8.1.76 |
| 151 | अनुज कुमार चौहान, पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र | यू पी वी सी / 3257 | द्वारा पी सी चौहान, 156, आदर्श कॉलोनी, मुजफ्फरनगर, उ. प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बीपीयू ए एंड टी/2000 | 20.7.77 |
| 152 | अनु सिंधल | डी वी सी / 0570 / 2001 | 84, मौसम अपार्ट., सी-2, वेस्ट एन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली -34 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 87 | 30.9.66 |
| 153 | अनूप चौधरी, पुत्र श्री पुरेन्दु बिकाश चौधरी | त्रिपुरा / 47 / 2000 | सरत पल्ली, 79-तिल्ला, डाक- कुंजाबन, अगरतला, त्रिपुरा ज. | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/80 | 10.2.58 |
| 154 | अनूप कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री अशोक कु अग्रवाल | बिहार एस वी सी / 835 / 2000 | मौह- चौक बाजार, डाक एवं थाना- बढ, जिला पटना, पिन- 803213 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 16.12.71 |
| 155 | अनूप सरकार, पुत्र श्री जात्रा मोहन सरकार | त्रिपुरा / 20 / 2000 | धालेश्वर नूतन पल्लू रोड-5, डाक- धालेश्वर, अगरतला, प. त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/ 76 | 16.11.53 |
| 156 | अनुपमा शर्मा, पुत्र श्री ए के शर्मा | यू पी वी सी / 3241 | 36, नेहरू मार्ग, अशुतोष नगर, ऋषिकेश, देहरादून, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/2000 | 12.9.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्मतिथि |
|---------|---|---|--|---|----------|
| 157 | अनवर आलम, पुत्र श्री निजामुद्दीन अंसारी | यू पी वी सी/ 3270 | द्वारा श्री रियाजुद्दीन अंसारी, मियां बाजार, ईस्ट गेट, गोरखपुर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एसएयू ए एंड टी/92 | 9.2.66 |
| 158 | आराधना, पुत्री श्री जीवन लाल गुप्ता | पी बी एस वी सी / 2213 / 2000 | 398— ए, नंगल कोटली, मंडी, गुरदासपुर 143521 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 12.11.76 |
| 159 | अरविन्द राव ई, पुत्र श्री ई. नवनीत राव | ए पी एस वी सी / 03550 / 2000 | कमानपूर (पी एंड एम), करीमनगर— 505188 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/99 | 17.6.76 |
| 160 | अर्चना सोलंकी, पुत्री श्री जी एस सोलंकी | एम पी एस वी सी / 1929 / 2001 | 9—बी, 664, साकेत नगर, भोपाल— 462024 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 98—99 | 21.12.73 |
| 161 | अरविद कुमार सिंह, पुत्र श्री रामखेलावन सिंह | बिहार एस वी सी / 1201 / 2000 | ग्राम— करियावान, डाक— भातार, थाना— चंडी, जिला— नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 82 | 15.1.60 |
| 162 | अर्जन सिंह, पुत्र श्री मुसाफिर सिंह | बिहार एस वी सी / 1494 / 2000 | ग्राम कमालपुर, डाक इरकी, थाना— बेलागंज, जिला— गया। | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 3.1.44 |
| 163 | अर्जुन प्रसाद साह, पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद साह | बिहार एस वी सी / 889 / 2000 | मौह, नयाटोला, डाक टीका मांझी, थाना कोतवाली, जिला भागलपुर, पिन— 843125 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 21.7.44 |
| 164 | अर्जुन प्रसाद, पुत्र श्री मगरु महतो | बिहार एस वी सी / 1884 / 2000 | ग्राम— दसवान, डाक चंद्रदीप, थाना कउआकोल, जिला— नवादा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 1.6.57 |
| 165 | अर्जुन सिंह, पुत्र श्री गणेश प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1692 / 2000 | ग्राम एवं डाक भागवतपुर, थाना तराइवा, जिला छपरा (सारन) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 2.7.57 |
| 166 | अर्शद हुसैन | वी सी आई / 2214 / 00 | रेशी बाजार, खाकी मस्जिद, अनंतनाग, कश्मीर— 192101 | बी वी एस सी एंड ए एच/एसकेयूऑफ ए एस एंड टी/99 | 11.4.73 |
| 167 | अर्शन शाहिद ए, पुत्र श्री के अल्लाबद्दश | कर्ना/3211 | मुबारक मौहल्ला, मोलाकलमुरु, चित्रदुर्ग जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 29.7.74 |
| 168 | अरूण कुमार वर्मा, पुत्र श्री नाथुन प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1318 / 2000 | ग्राम घोसी, डाक दाह बिगाहा, थाना— हिलसा, जिला— नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 6.9.56 |
| 169 | अरूण कुमार दास | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2783 / 2000 | ग्राम एवं डाक सपखली, थाना सागर द्वीप, जिला 24 परगना | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्ममतिथि |
|---------|--|-------------------------------------|---|--|-----------|
| 170 | अरुण कुमार महंता, पुत्र डॉ. गणेश चंद्र महंता | बिहार एस वी सी / 1138 / 2000 | ग्राम, डाक एवं थाना— राज नगर, जिला सिंगभूम | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 82 | 4.8.56 |
| 171 | अरुण कुमार राम, पुत्र श्री मिश्री राम | बिहार एस वी सी / 1396 / 2000 | मौह, अरसनदेव, डाक एवं थाना— कनके, जिला— रांची, पिन 834007 | बी वी एस सी एंड एच/बी ए यू/ 94 | 6.11.66 |
| 172 | अरुण कुमार राव, पुत्र श्री गणेश राव | बिहार एस वी सी / 18907 / 2000 | ग्राम— मारवा, डाक एवं थाना— बिहुपुर, जिला— भागलपुर ए एच/आर ए यू/ 93 | बी वी एस सी एंड | 7.1.65 |
| 173 | अरुण कुमार सिंह, पुत्र श्री राजेंद्र सिंह | यू पी वी सी / 3253 | टैक्स इंस्पेक्टर, सदरखोड (माझेरा पेरबो), बाजपुर, यू एस नगर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/99 | 8.8.73 |
| 174 | अरुण कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री जगत नारायण सिंह | बिहार एस वी सी / 1413 / 2000 | ग्राम एवं मौ.— शिवाला रोड, डाक थाना एवं जिला— पलामू पिन— 822101 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 5.5.62 |
| 175 | अरुण कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री मुरली प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1891 / 2000 | ग्राम एवं डाक सोहा, थाना— सोनवर्षा, जिला सहरसा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/66 | 5.2.43 |
| 176 | अरुण कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1888 / 2000 | ग्राम — बखोरिया, डाक व थाना सुरसांड, जिला सहरसा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 5.11.46 |
| 177 | अरुण कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री राम नरेश सिंह | बिहार एस वी सी / 1306 / 2000 | ग्राम एवं डाक— बाड़नाओं (पू.), थाना जगदीशपुर, जिला आराह, पिन 802203 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 88 | 24.10.63 |
| 178 | अरुण कुमार सिन्हा, पुत्र डॉ. ज्वाला प्रसाद | बिहार एस वी सी / 2002 / 2000 | ग्राम अम्बेडकर नगर, डाक मोरारी, जिला— हासीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 1.10.47 |
| 179 | अरुण कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री श्याम नारायण प्रसाद | बिहार एस वी सी / 993 / 2000 | ग्राम जोहनी, डाक जोहनी, थाना— बिक्रमगंज, जिला रोहतास, पिन— 802211 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 5.1.60 |
| 180 | अरुण कुमार, पुत्र श्री शोषण प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1235 / 2000 | मौह. एवं ग्राम— श्रीकांत, डाक एवं थाना— बाराहिया, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 86 | 12.3.61 |
| 181 | अरुण कुमार, पुत्र श्री रामेश्वर राम | बिहार एस वी सी / 1322 / 2000 | मौह. सोराय, डाक एवं थाना पनकी, जिला पलामू पिन— 822122 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 7.2.67 |
| 182 | अरुण प्रकाश सिन्हा, पुत्र स्व. श्री दामोदर चरण सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1060 / 2000 | एम—ए / 83, पीपल्स कोऑपरेटिव, कंकरबाग, पटना— 800020 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 12.2.46 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|----------|
| 183 | अरुण प्रसाद, पुत्र स्व. डॉ. परमेश्वरी नारायण | बिहार एस वी सी / 1966 / 2000 | मौह.— जगदेवपथ, डाक / थाना गुरुदानीबाग, जिला— पटना, पिन— 800014 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 68 | 1.8.54 |
| 184 | अरुण एस जे, पुत्र श्री एन एस जयपा | कर्ना एस वी सी / 3175 | न.1783 / 3, सोंदूर नीलखा, एमसीसीबी ब्लॉक, पुराने आर टी ओ के पीछे, निकट पिसालेथोटा, धावागे | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 4.5.78 |
| 185 | अरुण सिंह परदेसी, पुत्र श्री हरि सिंह के परदेसी | कर्ना एस वी सी / 3072 | म.न.डी / 103, एटी डाक अलमटी डेम साइट, बासवानबागेवाड़ी | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 99 | 4.1.76 |
| 186 | अरुण उरांव, पुत्र श्री गंडरु उरांव | बिहार एस वी सी / 1940 / 2000 | ग्राम बानपुर दासरा टोली, डाक बी वी एस सी एंड जोरी, थाना किसक्के, जिला लोहारडगा 835302 | ए एच/बी ए यू/ 90 | 20.1.73 |
| 187 | अरुणा पाल | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2827 / 2000 | श्रीनगर ईशापोर, डाक ईशापोर नवाबगंज, जिला 24 परगना (उ.) | बी बी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 188 | अरुणा श्री एस, पत्नी श्री पी श्रीनिवास | ए पी एस वी सी / 03594 / 2000 | वेट. असि. सर्जन, बी / 184, पाइलोन कॉलोनी, नागार्जुन नगर, नालमोंडा | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 96 | 17.12.70 |
| 189 | अरुणाचलम आर | केरल एस वी सी / 2522 / 2000 | 42, वार्ड 11, करिंगजा कुनेल हाउस, कुमिली, पिन— 685509 | बी वी एस सी/टी एन 3.5.52 वी एंड ए एस यू/ 91 | |
| 190 | अरुण कुमार गौड़, पुत्र श्री हरप्रसाद गौड़ | एम पी एस वी सी / 1876 / 00 | डाक उदयपुरा, जिला रायसेन, म.प्र.— 464888 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 75 | 3.5.52 |
| 191 | अरुण कुमार पी एस | केरल एस वी सी / 2493 / 2000 | ओम निवास, डाक कुन्नी कोडू, कोल्लम, पिन— 691508 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 29.5.76 |
| 192 | अरुप कुमार डे, पुत्र स्व. श्री अनिल कुमार डे | त्रिपुरा / 68 / 2000 | डाकघर कुंजावैन, मलचा नगर, अगरतला, त्रिपुरा प. | बी वी एस सी एंड ए एच/ओ यू ए एंड टी / 85— 88 | 10.11.82 |
| 193 | अरविन्द कुमार करन, पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1241 / 2000 | ग्राम एवं डाक— नासुनगंज, थाना— असारगंज, जिला— मुर्गेर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 13.8.45 |
| 194 | अरविन्द कुमार जोशी | आर ए जे एस वी सी / 2674 / 2000 | द्वारा: श्री बसंत जोशी, सूरज भवन, शेखपुरा मौह., म.न. 1216, भगत | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 6.12.75 |
| 195 | अरविन्द कुमार सारस्वत | आर ए जे एस वी सी / 2657 / 2000 | 2 ई. 8., तलवंडी, कोटा | बी वी एस सी एंड ए एच/राज.कृषि वि / 2000 | 23.4.75 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मसंदिति |
|---------|--|--------------------------------------|--|---|------------|
| 196 | अरविन्द कुमार, पुत्र श्री देवनंदन प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1485/ 2000 | ग्राम एंड डाक— विष्णु बीघा, थाना एकांगरसाय, जिला— नालंदा | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 83 | 3.5.58. |
| 197 | अरविन्द कुमार, पुत्र श्री राम अनुग्रह प्रसाद गुप्ता | बिहार एस वी सी/ 1730/ 2000 | ग्राम चंद्रपुरबेला, बनवारी लोल पथ(सिंगमा इलेक्ट्रो.केनिकट) लोने, डाक थाना एवं जिला | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 86 | 3.5.61 |
| 198 | अरविन्द कुमार पुत्र श्री परमेश्वर दयाल | बिहार एस वी सी/ 851/ 2000 | ग्राम— सीमा, डाक एवं थाना— सिलाओ, जिला नालंदा | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 84 | 8.11.57 |
| 199 | आशा के पी | केरल एस वी सी/ 2491/ 2000 | सांदी सदन, कूवेरी डाक, चप्पलमड्डू, (वाया), कम्पूर जिला | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 1.6.77 |
| 200 | आशा एल | केरल एस वी सी/ 2442/ 2000 | पत्तायिलाकम हाउस, टी सी 29/535, कवारडी जबलपुर, पालकुलंगा | बी वी एस सी/टी एन वी एड ए एस यू/ 2000 | 30.4.76 |
| 201 | आशा लक्ष्मी पी, पुत्री श्री पी स्वतंत्र कुमार | ए पी एस वी सी/ 03631/ 2000 | सी एस आई एले स्कूल, ओटलावल्लुर (पी एड एम), कृष्णा जिला— 521163 | बी वी एस सी एड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 15.8.77 |
| 202 | आशा राजगोपल | केरल एस वी सी/ 2460/ 2000 | रामम, टी सी 30/1609-1, फलीमुक्कु, पेट्टाह डाक,, त्रिवेदीम— 695024 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 3.2.77 |
| 203 | आशा एल | ए एड एन एस वी सी/ 75/ 2000 | द्वारा लीलामल, व्यास, एस्ट- 67, हड्डो, फोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वीप | बी वी एस सी/टी एन वी एड ए एस यू/ 2000 | 30.4.78 |
| 204 | आशीष कुमार तिवारी, पुत्र डॉ एस एन तिवारी | यू. पी. वी. सी./ 3265 | 20, चंद्रिका कॉलोनी, सिंगरा, वाराणसी, उ.प्र. | बी वी एस सी एड ए एच/जी वी पीयू ए एड टी/ 2000 | 8.8.78 |
| 205 | आशीषकुमार कैनर्जी, पुत्र स्व. श्री दिग्भेद लाल कैनर्जी | त्रिपुरा/ 7/ 2000 | द्वारा वी एस कैनर्जी, ईस्ट जोनाली थाना रोड, बन मालीपुर, अगरतला, त्रिपुरा प. | बी वी एस सी एड ए एच/ए ए यू/ 69 | 22.12.47 |
| 206 | आशीष कुमार विस्वामी | उद्यू. वी एस वी सी/ 2805/ 2000 | ग्राम मिल्लन नगर, डाक— बगुला, जिला नाडिया | बी वी एस सी एड ए एच/उद्यू. वीयू ए एफ एस/ 2000 | |
| 207 | आशीष जैन | आर ए जे एस वी सी/ 2848/ 2000 | इल पी. वी 40, महावीर नगर- 1, कोटा— आरआर | बी वी एस सी एड ए एच/राज कृ. वि वि/ 2000 | 18.12.75 |
| 208 | आशीष कुमार धाकड़, पुत्र श्री गिरिराज | यू. पी. वी. सी./ 3310 | 32.ए/ 2वी, मधु नगर, आगरा, उ.प्र. | बी वी एस सी एड ए एच/सी एस ए यू. ए एड टी/ | 18.12.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---------------------------------|--|--|----------|
| 209 | अशोक दयाल, पुत्र श्री कामेश्वर दयाल | बिहार एस वी सी/955/ 2000 | मौ. कदमकुआं, डाक एवं थाना कदमकुआं, जिला पटना, पिन- 800003 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 1.8.44 |
| 210 | अशोक कुमार शर्मा, पुत्र श्री धनश्याम शर्मा | बिहार एस वी सी/966/ 2000 | ग्राम धौलपुर, डाक धौल पुर, थाना एवं जिला धौलपुर, राज्य राजस्थान | बिहार एस वी सी/ आर यू/70 | 15.1.47 |
| 211 | अशोक कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री ब्रह्म देव नारायण सिंह | बिहार एस वी सी/1662/ 2000 | ग्राम मुकुंदपुर, डाक कादिलपुर, थाना— जनदाहा, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 1.4.51 |
| 212 | अशोक कुमार सिंह, पुत्र श्री रामेश्वर सिंह | बिहार एस वी सी/1480/ 2000 | ग्राम एवं डाक— रामचंद्र, थाना— मधेपुरा, जिला— मधुबनी, पिन- 847408 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 87 | 17.1.62 |
| 213 | अशोक कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री राम प्रवेश सिंह | बिहार एस वी सी/1796/ 2000 | ग्राम मालपुरा, डाक— साकला बाजार, थाना काराकाट, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 2.7.55 |
| 214 | अशोक कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/1259/ 2000 | ग्राम हसनपुर, थाना महनार, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 1.7.66 |
| 215 | अशोक कुमार सिंह, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण सिंह | बिहार एस वी सी/1863/ 2000 | ग्राम एवं डाक— करजन, थाना— बढ़, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 11.1.53 |
| 216 | अशोक कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री बच्चन प्रसाद | बिहार एस वी सी/1915/ 2000 | मौह, आरवी कॉलेज, डाक एवं थाना कनके, जिला रांची, पिन- 834008 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 6.1.53 |
| 217 | अशोक कुमार, पुत्र स्व. श्री कमला चरन | बिहार एस वी सी/2011/ 2000 | ग्राम सशोरा, डाक आई ई गोमिया, थाना गोमिया, जिला बोकारो, 829111 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 10.1.48 |
| 218 | अशोक कुमार, पुत्र स्व. श्री रघुनंदन महतो | बिहार एस वी सी/1277/ 2000 | ग्राम मानिकपुर, डाक कवाद पुर, थाना सूर्यगढ़, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 81 | 6.1.56 |
| 219 | अशोक कुमार, पुत्र श्री राम कृष्ण सिंह | बिहार एस वी सी/1549/ 2000 | ग्राम सुहिदा, डाक पारसा, थाना फतुहा, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 82 | 1.11.55 |
| 220 | अशोक कुमार, पुत्र श्री राम लखन महतो | बिहार एस वी सी/883/ 2000 | ग्राम शाहपुर, डाक बौलिवा, थाना नौहाटा, जिला रोहतास, पिन- 821304 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 12.8.67 |
| 221 | अशोक कुमार, पुत्र श्री राम लखन प्रसाद | बिहार एस वी सी/988/ 2000 | मौ.रिविर साइड,ओल्ड बासार, वा.न.3, डाक व थाना सराय केला,जिला चाईबासा,833210 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 97 | 28.3.72 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|---|---|----------|
| 222 | अशोक कुमार, पुत्र श्री रामचंद्र यादव | बिहार एस वी सी/1499/ 2000 | मौ.— वार्ड न.16, डाक ^{थाना} एवं जिला मधुबनी, पिन— 847211 | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/98 | 7.10.70 |
| 223 | अशोक कुमार, पुत्र श्री तिलकधारी राम | बिहार एस वी सी/1492/ 2000 | एम. एयरपोर्ट रोड, डाक ^{थाना— दोरांडा, जिला} रांची, पिन 834002 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 6.1.72 |
| 224 | अशोक कुमार, पुत्र श्री रामचंद्र | एच ए आर एस वी सी/1645 | ग्राम एवं डाक अलेवा (मान पाल पट्ट) जींद | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/2000 | 15.11.74 |
| 225 | आशुमा तूली, पुत्री श्री अशोक कुमार तूली | पी बी एस वी सी/2218/ 2001 | 215, टैगोर नगर, कुलदीप नर्सिंग होम के सामने, होशियारपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 21.11.76 |
| 226 | आशुतोष मधुकर, पुत्र श्री सुधाकर त्रिपाठी | बिहार एस वी सी/1379/ 2000 | मौह. छत्तर बगीचा, डाक ^{थाना} एवं जिला— लोहार डगा, पिन— 835302 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 92 | 21.8.68 |
| 227 | आशुतोष माझी, पुत्र श्री घाशी राम माझी | बिहार एस वी सी/1599/ 2000 | ग्राम नोवाडीह, डाक देवलतन, थाना— इच्छागढ़, जिला— प. सिंघमूम— 832401 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 2.1.67 |
| 228 | आशुतोष रंजन प्रसाद, पुत्र स्व. श्री चितरंजन प्रसाद | बिहार एस वी सी/1303/ 2000 | ग्राम रामपुर, डाक एवं थाना— मठनगर, जिला भागलपुर, पिन— 812006 | बी वी एस सी एंड एच/आर ए यू/ 87 | 9.2.61 |
| 229 | अश्वनी कुमार, पुत्र श्री दीवान चंद | एच ए आर एस वी सी/1659 | म.न.4, एच बी कॉलोनी, सिरसा रोड, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 1.8.77 |
| 230 | असीम कुमार मन्ना | डब्ल्यू बी एस वी सी/2781/ 2000 | ग्राम चखरीबारपुर, डाक— झंजिया, थाना— डेबरा, जिला मिदनापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 231 | असित रंजन देव, पुत्र स्व. श्री सत्येंद्र रंजन देव | बिहार एस वी सी/1990/ 2000 | एम आनंदमयी अपार्ट., साउथ ऑफिस पाड़ा, डाक एवं थाना डोरांडा, जिला रांची 834002 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 2.8.53 |
| 232 | आशुतोष सिन्हा, पुत्र श्री सतीश लाल सिन्हा | त्रिपुरा/8/ 2000 | द्वारा श्री सतीशलाल सिन्हा, एच जी बासक रोड, ओल्ड कर्नल पाड़ा, डाक अगरतला | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए ए यू/ 70 | 31.12.46 |
| 233 | आता करीम शौकत, पुत्र डॉ. मौह.दाउद शौकत | बिहार एस वी सी/1520/ 2000 | ग्राम सुंदरपुर, डाक खरूआ, थाना दरभंगा सदर, जिला दरभंगा, पिन— 847115 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 12.5.48 |
| 234 | अतौर रहमान, पुत्र मौह. खलीलुर रहमान | बिहार एस वी सी/961/ 2000 | ग्राम कुकराऊ, अमारी, डाक ^{कुकराऊ} अमारी, थाना धमदाहा, जिला—पूर्णिया, पिन 854205 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 3.1.73 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------------|---|--|----------|
| 235 | अतुल कु. श्रीवास्तव, पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव | बिहार एस वी सी/1738/ 2000 | एम—2/105,आवास विकास कॉलोनी, डाक थाना व जिला बाराबंकी, उ.प्र.— 225001 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/93 | 27.12.67 |
| 236 | अतुल कुमार वर्मा, पुत्र डॉ. अपूर्व नारायण | बिहार एस वी सी/1994/ 2000 | ग्राम एवं डाक चनपटिया, थाना चनपटिया, जिला प.चम्पारन, पिन— 845449 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 24.2.47 |
| 237 | अतुल शंकर अरोड़ा | आर ए जे एस वी सी/2681/ 2000 | पुत्र श्री नटवर लाल अरोड़ा, खेडा फालशा,लाडजी के कुरुं के पास, जोधपुर 342001 | बी वी एस सी एंड ए एच/राज वि वि/2000 | 14.8.73 |
| 238 | अवधेश कुमार, पुत्र श्री चोखे लाल | यू पी वी सी/ 3188 | ग्राम सैजाना, डाक सिंधौली, जिला शाहजहांपुर (उ.प्र.) | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी/2000 | 22.3.70 |
| 239 | अवनी भूषण भारतीय, पुत्र ख.श्री सिद्धेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी/1172/ 2000 | ग्राम बारदीन, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 87 | 9.10.58 |
| 240 | अविनाश प्रसाद, पुत्र श्री हुलास साऊ | बिहार एस वी सी/1210 / 2000 | ग्राम एवं डाक— दोसुत, थाना वेना, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 69 | 12.8.45 |
| 241 | अविशेक विरास | डब्ल्यू वी एस वी सी/2794/ 2000 | 497 / 5, कल्याणगढ़, डाक कल्याणगढ़, जिला 24 परगना (उ.) | बी वी एस सी एंड ए एच/ डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 242 | अवध बिहारी सिंह, पुत्र ख. श्री रामचंद्र सिंह | बिहार एस वी सी/1689 / 2000 | ग्राम वसगीतिया, डाक जमोधी, थाना विक्रमगंज, जिला —रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 16.6.53 |
| 243 | अवध किशोर सिन्हा, पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी/1437 / 2000 | ग्राम मुजाफरा, डाक— वरदिन, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 95 | 31.12.66 |
| 244 | अवधेश कुमार पोद्दार | बिहार एस वी सी/1489 / 2000 | ग्राम एवं डाक बैसा, माहचीपुर, थाना परबता, जिला खगरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 1.4.46 |
| 245 | अवधेश कुमार,पुत्र ख. श्री सीताराम प्रसाद रिंह | बिहार एस वी सी/1621 / 2000 | ग्राम माधेपुर, डाक एवं थाना— काशीचाक, जिला नवादा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 18.10.50 |
| 246 | अवधेश प्रसाद सिंह, पुत्र श्री मुंद्रिका सिंह | बिहार एस वी सी/1186 / 2000 | ग्राम एवं डाक— केशरी, थाना— जगदीशपुर, जिला आराह (भोजपुर) | बी वी एस सी एंड ए एच/ आर यू/ 69 | 2.7.47 |
| 247 | आवारे मनोज कुमार जनार्दन | एम एस वी सी / 6316 / 2000 | अनंतकृपा,डी फार्मेसी कॉलेज के निकट,उम्बरें कोठा,तालुक उस्मानाबाद— 413501 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 7.6.78 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|---------------------------|---|--|----------|
| 248 | अवतारे कैलाश ध्यानेश्वर | एम एस वी सी/6411/ 2001 | एटी डाक—फलघानी, तालुक—मालशिरोर, जिला सोलापुर—413306 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 1.6.77 |
| 249 | आयिशा सिदिका, पुत्र श्री सी एम अब्दुलगनी | कर्ना एस वी सी/3117 | न. 288/43, प्रथम मेन, पांचवा क्रॉस, डाक आरटी नगर, कनकनगर, बंगलौर ९८ | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ | 27.9.75 |
| 250 | अयोध्या प्रसाद, पुत्र श्री सिवप्रल्लभ सरन | बिहार एस वी सी/1929/ 2000 | एम—फ्रैंडस कॉलोनी, डाक आशियाना नगर, थाना शास्त्रीनगर, पटना ८०००२५ | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ ८८ | 13.7.46 |
| 251 | अजाज अकबर, पुत्र स्व. श्री अलीअकबर | बिहार एस वी सी/1545/ 2000 | मौह. विजियक, डाक तातोर पुर, थाना कोतवाली, जिला भागलपुर, पिन—812002 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ ८८ | 17.1.64 |
| 252 | बी ब्रह्मानंद रेड्डी | पॉण्डी/114/ 2000 | म.न.३, कनगवल्ली स्ट्रीट, पुडुपेट, पॉण्डीचेरी— ६०५००८ | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ ७६ | 13.3.54 |
| 253 | बी जी मंजप्पा | केरल एस वी सी/2511/ 2000 | वेट डिस्पेंसरी क्वार्टर्स, राजापुरम डाक, कासरगोड—671532 | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ ९२ | 18.5.65 |
| 254 | बी रमेश कुमार | पॉण्डी/113/ 2000 | ७, ॥ मेन रोड, अकाई नगर, पॉण्डीचेरी—४ | बी वी एस सी/टी ए यू/८० | 5.1.57 |
| 255 | बी थुलासेरमन | पॉण्डी/127/ 2000 | ११, आस्ती मिल स्ट्रीट, मुदलिकास्पेट, पॉण्डीचेरी | बी वी एस सी (ओव.) /टी वी एंड ए एस यू/ २००० | 9.5.76 |
| 256 | बी यू देचम्मा | वी सी आई/ 2294/2001 | पल्ली डॉ. भूपेंद्र नाथ, ४/२, पते नगर, जंगपुरा, नई दिल्ली—१४ | बी वी एस सी/यू ए एस वी/८७ | 10.5.65 |
| 257 | बाबा बुडेन जे के, पुत्र श्री जे के रशीद | कर्ना एस वी सी/3152 | वेटरिनरी हॉस्पिटल के पीछे, तालुक एवं डाक जगलूर, दावणगेरे | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ २००० | 1.2.78 |
| 258 | बबन चौधरी, पुत्र स्व. श्री जोमधारी चौधरी | बिहार एस वी सी/1411/ 2000 | ग्राम बाशुदेव दिहारी, डाक गंज भोरसारा, थाना दिनारा, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ ७१ | 4.1.49 |
| 259 | बबन प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री बैजनाथ सिंह | बिहार एस वी सी/908/ 2000 | ग्राम महाबीरगंज (सोहगा), डाक डागरी, थाना कोचाग, जिला टोटाग | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ ७३ | 1.5.49 |
| 260 | बबीथा वी | केरल एस वी सी/2464/ 2000 | वडूर हाउस, १८/७३०, इंगिलिश कर्वे रौड, पलक्कड—678014 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ २००० | 12.5.76 |

| क्रांति | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|----------------------------------|--|---|----------|
| 261 | बाबूमल तिवारी, पुत्र श्री मणि प्रसाद तिवारी | एम पी एस वी सी/ 1913/ 2000 | बार्ड न.11, म.न.116, तिलक नगर, रीवा— 486001 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 78—79 | 23.5.56 |
| 262 | बाबू जी, पुत्र श्री जी ओबुल रेड्डी | ए पी एस वी सी/ 03616/ 2000 | द्वारा: के उदय शंकर रेड्डी, डी.न.2—463—4, पेनुकोडा, अनंतपुर जिला— 515110 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 3.7.77 |
| 263 | बाबुल चक्रबर्ती, पुत्र श्री हरेंद्र कुमार चक्रबर्ती | त्रिपुरा/ 53/ 2000 | ग्राम बृद्धानगर, डाक— रानीबाजार, त्रिपुरा (प.) | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/ 82 | 14.4.57 |
| 264 | बेबी प्रभा, पुत्री श्री बांके बिहारी मिश्रा | बिहार एस वी सी/ 1051/ 2000 | ग्राम एवं डाक— सुइया बाजार, थाना कटोरिया, जिला बंका, पिन— 813106 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 5.7.71 |
| 265 | बच्चू सिंह, पुत्र श्री हरचंद | यू पी वी सी/ 3192 | ग्राम झुधावाई, जिला मथुरा, उ. प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी/2000 | 1.10.52 |
| 266 | बदरी विशाल मिश्रा, पुत्र स्व. श्री गोपाल जी मिश्रा | बिहार एस वी सी/ 1748/ 2000 | मौह. 31/40, बी—1, एम योगदीर, डाक एवं थाना— लांका, जिला वाराणसी | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 65 | 28.4.45 |
| 267 | बागची डॉ. बिट्टन बिण्डी, पुत्र श्री बिमल कांता बागची | ए एस एम/ 1881 / 2000 | क्वा.न.34/बी, नामबारी, माली गांव, जी एच वाई 11, मा आनंदगढ़ी कोओप हा, नातुन | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 99 | |
| 268 | बैद्य नाथ प्रसाद, पुत्र स्व. श्री राम स्वरूप प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 904/ 2000 | ग्राम बेल्हा, डाक बेल्हा, थाना फूलप्रास, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 63 | 1.3.41 |
| 269 | बजरंग प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री राम दास सिंह | बिहार एस वी सी/ 1589/ 2000 | ग्राम पोखराहा, डाक अतीभी, थाना नसारीगंज, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 1.12.50 |
| 270 | बख्शी कामेश्वर, पुत्र स्व. श्री जंग बहादुर प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 2070/ 2000 | ग्राम मुरार, डाक एवं थाना मुरार, जिला बुज़ार | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 66 | 25.2.44 |
| 271 | बख्शी तारकेश्वर प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1867/ 2000 | ग्राम ठोरी पांडेपुर, डाक एवं थाना— मुरार, जिला बक्सर | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 69 | 1.8.46 |
| 272 | बाल कृष्ण अग्निहोत्री, पुत्र श्री एन के अग्निहोत्री | यू पी वी सी/ 3202 | 22, चंद्रलोक, अलीगंज, लखनऊ, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/94 | 12.12.70 |
| 273 | बाल मुकुद कुमार, पुत्र स्व. श्री शिव शरण प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 989/ 2000 | ग्राम भदौल, डाक— पुना, थाना— हिलसा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 1.7.73 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मदिन |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|----------|
| 274 | बाल मुकुंद प्रसाद, पुत्र स्व.श्री बासुदेव नारायण | बिहार एस वी सी/ 1512/ 2000 | मौह, झौर, डाक-कचगुआ, थाना- वरसालीगंज | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 86 | 3.9.58 |
| 275 | बाला मुरुगन वी | वी सी आई/ 2272/2001 | न्यू न. 22, अप्पादुराई, मेन स्ट्रीट, अयनावरम, चेन्नई— 600023, तमिलनाडु | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/97 | 22.10.73 |
| 276 | बाला साहेब सुरेशराव कुलकर्णी | आर ए जे एस वी सी/2605/ 2000 | ए/ पी, चेंची, तह. बेगुन, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान | बी वी एस सी एड ए एच/एम ए यू/ 93 | 2.10.71 |
| 277 | बालाकृष्णा रेड्डी ए, पुत्र श्री ए रामना रेड्डी | ए पी एस वी सी/03573/ 20001 | 106, सचिनाम, रहेजा कॉम्प्लेक्स, मलाड (ईस्ट), मुम्बई— 400097 | बी वी एस सी एड ए एच/ए पी ए यू/ 74 | 1.7.48 |
| 278 | बालदेव प्रसाद गुप्ता, पुत्र स्व. श्री गनौरी साहू | बिहार एस वी सी/1856/ 2000 | ग्राम एवं डाक— पदमारा, थाना— तारापुर, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 66 | 1.1.43 |
| 279 | बालेश्वर प्रसाद निराला, पुत्र स्व.श्री नेवा लाल सिंह | बिहार एस वी सी/1399/ 2000 | ग्राम दयालपुर, डाक संगीत बैटा, थाना काहलगांव, जिला भागलपुर, पिन— 813203 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 97 | 2.7.73 |
| 280 | बालेश्वर प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री गोविंद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1384/ 2000 | ग्राम नोआवान, डाक एवं थाना— अस्थानवा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 68 | 4.1.45 |
| 281 | बालेश्वर प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्व. श्री राम नंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1163/ 2000 | मौ. मादीपुर, रामजी रोड, थाना काजी मौहमदपुर, डाक/जिला मुजफ्फरपुर | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 82 | 3.1.56 |
| 282 | बालेश्वर प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्व. श्री दुर्गा सिन्हा | बिहार एस वी सी/ 2085/ 2001 | मौ. ईस्ट इंद्रपुरी रोड न. 15, डाक केशरीनगर, थाना पाटलीपुत्र, जिला पटना | बी वी एस सी एड ए एच/बी यू/60 | 1.8.38 |
| 283 | बालेश्वर मंडल, पुत्र श्री विश्वन मंडल | बिहार एस वी सी/ 971/ 2000 | ग्राम एवं डाक— बुधचाक, थाना काहलगांव, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 98 | 8.5.75 |
| 284 | बाली रेड्डी वाई, पुत्र श्री वाई मल्ला रेड्डी | ए पी एस वी सी/ 03659/ 2000 | सहा, निदेशक (ए एच), वंश परीक्षण यूनिट, बानावासी, कुर्नूल जिला | बी वी एस सी/ए पी ए यू/72 | 1.7.52 |
| 285 | बलखार सिंह, पुत्र श्री चमेल सिंह | एच ए आर एस वी सी/ 1647 | ग्राम मुन्नारेहरी, डाक हाबरी, तालुक पुंड्री, जिला कैथल | बी वी एस सी एड ए एच/सी सी एस एच ए यू/2000 | 2.7.75 |
| 286 | बाल्मीकी शर्मा, पुत्र श्री सत्यदेव शर्मा | बिहार एस वी सी/829/ 2000 | ग्राम एवं डाक— मौहम्मद पुर, थाना— बिक्रम, जिला —पटना | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 82 | 4.2.58 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | सैक्षणिक आहताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---------------------------------------|---|--|----------|
| 287 | बलराज सिंह, पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1998/ 2000 | ग्राम एवं डाक— जोनही, थाना बिक्रमगंज, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 70 | 16.7.49 |
| 288 | बलराम गुप्ता, पुत्र स्व. श्री भगवान राम | बिहार एस वी सी/ 1203/ 2000 | एम— वार्ड न.10, डाक एवं थाना— देहरी ओन सोन, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 9.1.47 |
| 289 | बालु भास्कर | केरल एस वी सी/ 2482/ 2000 | चिसाक टी सी, 2 / 2208, आदर्शनगर 73, डाक पट्टोम पैलेस, त्रिवेंद्रम— 695004 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 31.5.77 |
| 290 | बाने क्षितिज बालकृष्णा | एम एस वी सी/ 6378/ 2000 | मोना रेबेलो हाउस, क.न.3, कोँडी विटा गांव, अंधेरी (इस्ट), मुम्बई | बी वी एस सी एंड ए एच/के के वी/ 2000 | 13.3.78 |
| 291 | बंगथाई डॉ. अजित, पुत्र श्री फुकन च. बंगथाई | ए एस एम/ 1889/2000 | ग्राम तेतेलीगुरी, डाक गांधीनगर, जिला कामरूप, असम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 292 | बानीब्रत मैती | डब्ल्यू वी एस वी सी/ 2834/ 2000 | ग्राम हरि रामपुर, डाक लक्ष्याकुरी, जिला मिदनापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू वीयू ए एफ एस/2000 | |
| 293 | बांके विहारी प्रसाद सिंह, पुत्र श्री शिव नंदन प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1709/ 2000 | ग्राम रसालपुर, डाक— जागव, थाना एकंगरसराय, जिला नालंदा, पिन 801301 | बी वी एस सी एंड ए एच/ आर यू/ 67 | 22.7.43 |
| 294 | बनलाम कूपर माओथोह, पुत्र श्री बी खोगवीर | मेघ/ 167/ 2001 | नॉग्रिम हिल्स, शिलौग | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए ए यू/ 91 | 4.5.67 |
| 295 | बंश बहादुर, पुत्र श्री बलदेव प्रसाद चौधरी | एम पी एस वी सी/ 1916/ 2000 | ग्राम एवं डाक पडरिया, तह. रायपुर, करचुलियोन, जिला रीवा— 486001 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 98— 99 | 5.12.66 |
| 296 | बंशी प्रसाद सिंह, पुत्र रव. श्री धर भरन सिंह | बिहार एस वी सी/ 1125/ 2000 | ग्राम बहुआराह, वाया: कोआथ, डाक दावथ, थाना दावथ, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 1.1.49 |
| 297 | बंसोड नीलेश जगन्नाथ | एम एस वी सी/ 6319/ 2000 | भीमनगर, एटी डाक— संगोला, लालुक संगोला, जिला सोलापुर— 413307 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी/ 2000 | 7.2.77 |
| 298 | बारडे अनिल दयाराम | एम एस वी सी/ 6280/ 2000 | ए टी/ डाक टांडली (बी के), तहसील पातुर, जिला अकोला— 444501 | बी वी एस सी एंड एच/ डॉ. पी के वी/ 98 | 24.8.74 |
| 299 | बर्मेश्वर नाथ प्रसाद, पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 909/ 2000 | ग्राम बिहिया, डाक— बिहिया, जिला आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 79 | 5.1.54 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | रौप्यांकिक आहताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------|--|---|----------|
| 300 | बरुआ डॉ. कश्यप कुमार, पुत्र डॉ. पी. के बरुआ | ए एस एम/ 1898 / 2000 | जोया नगर, सिक्षण माइल, खानापाड़ा, गुकाहाटी- 781022 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 301 | बसंत कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री मुनोरवर प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1859 / 2000 | ग्राम एवं डाक- लालमूर, थाना- रुमी सैदपुर, जिल्हा सीलमढ़ी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 17.3.44 |
| 302 | बासवराज बिन जावदगी, पुत्र श्री सांगप्पा बिन | कर्ना एस वी सी/ 3156 | कालीदास हाई स्कूल के सामने, बी वी एस सी एंड बन्नीकट्टे एरिया, कोम्प्ल | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/2000 | 4.4.77 |
| 303 | बासवराज हीरेमठ, पुत्र श्री हरेश्वररैया हीरेमठ | कर्ना एस वी सी/ 3142 | प्रिसिपल, एस वी एल ई जे ई, हेरूर, कलकारी हंगल तालुक, हावेरी जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/2000 | 20.7.75 |
| 304 | बासवराज जे गौदार, पुत्र श्री सोमाना गौदार | कर्ना एस वी सी/ 3146 | केसरभावी दुम्ब डाक, हुंगुड तालुक, बगलकोट जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ 2000 | 17.7.77 |
| 305 | बशिष्ठ राम, पुत्र स्व. श्री शिओपूजन राम | बिहार एस वी सी/ 975 / 2000 | ग्राम नरौरा, डाक चंद्रा कैथी, थाना- चेनारी, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 5.7.52 |
| 306 | बशिष्ठ नाथ रौय, पुत्र स्व. श्री राम कवल रौय | बिहार एस वी सी/ 1801 / 2000 | ग्राम- उत्तम पुर, डाक- हेठवा राजपुर, थाना राजपुर, जिला बक्सर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 31.1.61 |
| 307 | बासप्पा गुलप्पागोल, पुत्र श्री श्रीशेल्प्पा | कर्ना एस वी सी/ 3130 | ओंगलामी डाक, मुधोल तालुक, बी वी एस सी एंड बगलकोट जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ 2000 | 1.6.76 |
| 308 | बासुमतारी डॉ. रनतु, पुत्र श्री मृगेन च. | ए एस एम/ 1930 / 2000 | दारंग गिरि, जिला गोआलभाड़ा, पिन- 783134 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 309 | बाटे कृष्णन सिंह, पुत्र स्व. श्री राम रोहगे सिंह | बिहार एस वी सी/ 1142 / 2000 | ग्राम एवं डाक धानगाही, थाना बिक्रमगंज, जिला रोहतास, पिन- 802101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 21.7.47 |
| 310 | बावाने नीलराम चित्रम | एम एस वी सी/ 6308 / 2000 | नर्मदा कॉलोनी, प्लॉट न.40, कटोल रोड, नागपुर- 440013 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ थी ली के वी/ 1999 | 24.11.73 |
| 311 | बेगम डा. (श्रीमती) शमीम आरा, पुत्री मौह. कुतुबुद्दीन अहमद | ए एस एम/ 1913 / 2000 | द्वारा मौ. कुतुबुद्दीन अहमद, कल्याणपुर मरिजिद के पास, गणेशपुरी, डाकदिसपुर 781006 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 312 | बेन्नो सूलया, पुत्र श्री लोखा सूलया | एम पी एस वी सी/ 1895 / 2000 | ग्राम पेंडेरिया, डाक बारला, तह. सैंधवा, जिला बदवानी | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 98- 99 | 15.7.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|----------|
| 313 | भागेश्वर सिंह, पुत्र श्री रघुनाथ सिंह | बिहार एस वी सी/1883/ 2000 | ग्राम एवं डाक— रामपुर खजूरिया, थाना दुमरिया, जिला पू. घम्पारन | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 72 | 10.12.47 |
| 314 | भागीरथ प्रसाद, पुत्र श्री महादेव प्रसाद यादव | बिहार एस वी सी/2079/ 2001 | ग्राम माधराजगंज, डाक— सुधारी, थाना— गोबिंदपुर, जिला नावादा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 12.12.72 |
| 315 | भागीरथ सोनी | आर ए जे एस वी सी/2632/ 2000 | श्री सम्पत सदर, प्लॉट न.230, आदर्श नगर, फलदी, जोधपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ. वि वि/ 2000 | 16.8.75 |
| 316 | भागुरे तातनलाल छोटूराम | एम एस वी सी/ 6394/ 2000 | जिनफार रोड, सर्वोदय नगर, सैलू ताल, जिला परम्बनी— 430153 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 5.1.74 |
| 317 | भगवान प्रसाद, पुत्र स्व. श्री केशव प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1178/ 2000 | ग्राम बलुआ ताल, डाक एवं थाना मोतीहारी, जिला मोतीहारी | बी वी एस सी एंड ए एच/ आर यू/ 69 | 2.1.48 |
| 318 | भगवान सिंह, पुत्र स्व. श्री राम नरेश सिंह | बिहार एस वी सी/ 1555/ 2000 | ग्राम कल्याणपुर, डाक— सिलारी, थाना— करगाहर, जिला— रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/ आर यू/ 70 | 2.9.47 |
| 319 | भगवत प्रसाद मंडल, पुत्र स्व. श्री शीना लाल मंडल | बिहार एस वी सी/ 1652/ 2000 | ग्राम एवं डाक पाठरा, थाना— पिपरा, जिला सुपौल, पिन— 852131 | बी वी एस सी एंड ए एच/ आर यू/ 70 | 20.7.46 |
| 320 | भगवती चौधरी, पुत्र स्व. श्री पृथ्वी चौधरी | बिहार एस वी सी/ 1641/ 2000 | ग्राम एवं डाक— सुखपुर, थाना एवं जिला— सुपौल, पिन— 852131 | बी वी एस सी एंड ए एच/ आर यू/ 67 | 30.10.44 |
| 321 | भगवती शरण शर्मा, पुत्र श्री आर एस शर्मा | यू. पी. वी. सी./ 3246. | मौ.— अगरवालान, डाक— सासनी, जिला हाथरस, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/83 | 12.2.61 |
| 322 | भानु प्रताप सिंह, पुत्र श्री नथू सिंह चौहान | यू. पी. वी. सी./ 3298 | 237, चौक पूरणपुर, पीलीभीत, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/2000 | 1.7.78 |
| 323 | भानु शंकर, पुत्र श्री हरि प्रसाद साह | बिहार एस वी सी/935/ 2000 | ग्राम मदमुचाक, डाक मिरान हाट, थाना मोजाहिदपुर, जिला भागलपुर— 812005 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 31.12.62 |
| 324 | भानु प्रकाश, पुत्र श्री एस सिद्धयाह | कर्ना/3205 | माठीगट्टा, चिक्कनायकन हल्ली तालुक, जिला तुमकुर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ 2000 | 2.5.77 |
| 325 | भारत भूषण रावत, पुत्र श्री झम्मन लाल रावत | आर ए जे एस वी सी/2747/ 2001 | 1416, विजय नगर, विजय मंदिर रोड, लाइवस्टॉक विकास कार्यालय | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए यू/ 76 | 9.7.55 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|----------------------------|---|---|----------|
| 326 | भरत प्रसाद, पुत्र स्व. श्री कमला प्रसाद | बिहार एस वी सी/887/ 2000 | मौह. काचानोरी माता, डाक हातना, थाना भीरगंज, जिला गोपालगंज, पिन 831436 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 31.7.45 |
| 327 | भरत साहू, पुत्र श्री हीरा लाल साहू | बिहार एस वी सी/1036/ 2000 | ग्राम एवं डाक— बधीमा, थाना— पालकोट, जिला कुमला, पिन- 835207 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 88 | 28.1.61 |
| 328 | भरत सिंह, पुत्र स्व. श्री हरिद्वार सिंह | बिहार एस वी सी/1407/ 2000 | ग्राम एवं डाक दक्षिणी अकोना, थाना उदवंत नगर, जिला भोजपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 21.7.49 |
| 329 | भारती डी एन | ए एंड एन एस वी सी/80/ 2000 | द्वारा एस सुनील, वेतन एवं लेखा कार्या, पोर्टब्लेयर, पुत्री एस दोराई खासी, गोलघर | बी वी एस सी/ टी एन वी एंड ए एस यू/2000 | 9.9.76 |
| 330 | भारती पी, पुत्री श्री पी रंगा स्वामी | ए पी एस वी सी/03619/ 2000 | डाक गोनेगांडला, जिला कुर्नूल | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 1.6.75 |
| 331 | भारद्वाज ऋषि, पुत्र स्व. श्री छोटे लाल | बिहार एस वी सी/1110/ 2000 | एम -64, स्टेटबैंक कॉलोनी, डाक एवं थाना दीघा घाट, जिला पटना, पिन 800011 | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 65 | 10.1.43 |
| 332 | भारतेन्दु प्रसाद, पुत्र श्री श्रीराम | बिहार एस वी सी/1179/ 2000 | मौ. वसंत बिहार, रोड न. 13, डाक एवं थाना— हरमन, जिला— राँची | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 82 | 6.11.57 |
| 333 | भास्कर एस, पुत्र श्री एस नारायण | ए पी एस वी सी/03640/ 2000 | म.न.9, अपस्टेयर्स, एस वी आई कॉलोनी, दूसरा रोड, अदोनी डाक, कुर्नूल जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 92 | 1.6.66 |
| 334 | भट्टा डॉ. मनोज कुमार, पुत्र स्व. श्री नागेन भट्टा | ए एस एम/ 1920/2000 | काहिलीपाड़ा (दक्खिन गाव पथ), डाक काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी- 781019 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 335 | भट्टाचार्य अंजन | पॉण्डी/99/ 2000 | 12- डी, वी वी पी नगर, पॉण्डीचेरी- 605009 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/79 | 20.12.56 |
| 336 | भावन्नारायण के एस, पुत्र श्री रामा सुब्बा राव | ए पी एस वी सी/03628/ 2000 | पलापरु डाक, पेडानंदीपडु मौ. गुंदूर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 25.6.73 |
| 337 | भीम शंकर कन्नूर, पुत्र श्री हनमत कन्नूर | कर्ना एस वी सी/3155 | अर्थगा डाक, इंडी तालुक, बीजापुर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/2000 | 1.2.78 |
| 338 | भीमेश्वर राव एम, पुत्र श्री एम वेंकट राव | ए पी एस वी सी/03535/ 2000 | चल्लावारीगुडेम (डाक), जंगा रेडीगुडेम (एम), पश्चिम गोदावरी जिला 534447 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर यू/99 | 9.6.75 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्मातीथे |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|-----------|
| 339 | भीषम शर्मा, पुत्र श्री लेख राम | एच पी एस वी सी/589/ 2000 | ग्राम ढाला, डाक देओरी, तह. एवं जिला सोलन, हिं.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/एच पी के वी/ 2000 | |
| 340 | भोखरे चेतना मोहनराव | गोआ एस वी सी/114/ 01 | ए जी— 1, ड्यूलक्स अपा., टोंका, मिरामार | बी वी एस सी एंड ए एच/के के वी/ 83 | 19.4.62 |
| 341 | भोला प्रसाद गुप्ता, पुत्र स्व. श्री बाबूजी प्रसाद साह | बिहार एस वी सी/1497/ 2000 | मौह. वार्ड न. 2, डाक एवं थाना— निरमाली, जिला— सुपौल, पिन— 847452 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 6.1.53 |
| 342 | भोला प्रसाद, पुत्र स्व. श्री बूदी शाँ | बिहार एस वी सी/1631/ 2000 | ग्राम माधोपुर, डाक बासु देव पुर, थाना एवं जिला— मुगेर, पिन— 811202 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 31.12.45 |
| 343 | भोसले राव साहेब बालू, पुत्र श्री बालू साहेबराव भोसले | आर ए जे एस वी सी/2729/ 2001 | गवर्नरेट, हॉस्पिटल, मिन्याड, तह. सेओ, जिला बाड़मेर— 344705 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी वी/95 | 1.6.72 |
| 344 | भोटे रतन रामचंद्र | एम एस वी सी/6362/ 2000 | एटी डाक वाघोले, तालुक कोरेगांव, जिला सतारा— 415525 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी /2000 | 21.5.78 |
| 345 | भूपेंद्र प्रकाश, पुत्र श्री बाबू लाल | यू पी वी सी/ 3232 | म.न. 378/ 17/ 14, गोपालपुरा, ग्वालियर रोड, आगरा— 282001 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/2000 | 14.7.75 |
| 346 | भूपेश कुमार, पुत्र श्री केवल कृष्ण | एच पी एस वी सी/586/ 2000 | म.न. 3248, सेक्टर 47— डी, चंडीगढ़ | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 98 | 1.4.75 |
| 347 | भूपेश नंदन प्रसाद, पुत्र स्व. श्री बृज नंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी/865/ 2000 | मौह.— अवस्थी घाट, डाक एवं थाना दानापुर दीघा, जिला पटना, पिन 800012 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 6.10.43 |
| 348 | भुयन डॉ. (श्रीमती) संगीता, पत्नी श्री दीपकर बोराह | ए एस एम/ 1926/2000 | माधव ग्राम, डाक जामुगुरी हाट, जिला सोनितपुर, पिन— 784180 | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए ए यू/ 99 | |
| 349 | बिभा कुमारी, पुत्री श्री रणजीत सिंह | बिहार एस वी सी/1321/ 2000 | मौ. सिकंदपुर, डाक जमाल पुर, थाना इस्ट कॉलोनी, जमालपुर, मुगेर 811244 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 14.9.65 |
| 350 | बिभूति भूषण दास, पुत्र श्री चितरंजन दास | त्रिपुरा/77/ 2000 | द्वारा टी आर दास, रामनगर— 9, अगरतला, त्रिपुरा परिचय | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी एयू/ 90 | 15.2.64 |
| 351 | बिभूति नाथ ठाकुर, पुत्र रत. श्री राम इकवाल ठाकुर | बिहार एस वी सी/2062/ 2000 | ग्राम फुलपारसी, डाक— सिंगडिया, थाना बठनाहा, जिला— सीतामढी | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 77 | 8.1.54 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------|--|--|----------|
| 352 | विद्या संतोष बासुदेव | एम एस बी सी / 6380 / 2000 | 16 / 494, शोशरी नगर, गोरेगांव (वेस्ट), मुम्बई— 400104 | बी बी एस सी एड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 31.5.78 |
| 353 | विगान सिंह, पुत्र स्व. श्री किशनसिंह | बिहार एस बी सी / 966 / 2000 | ग्राम डेरवान, डाक डेरवान, थाना कुदरा, जिला कैम्बू | बी बी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 82 | 19.8.57 |
| 354 | विजान कुमार भट्टाचार्यजी, पुत्र श्री जतिन्दर च. | त्रिपुरा / 25 / 2000 | टी जी रोड, कृष्णा नेगर, अगरतला, त्रिपुरा | बी बी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 77 | 1.6.51 |
| 355 | विजय कुमार पाण्डे, पुत्र स्व. श्री बलदेव पाण्डे | बिहार एस बी सी / 1789 / 2000 | वी—एफ / 43, पीपल्स को. ऑफ. कॉलोनी, डाक/थाना कंकरबाग, जिला पटना | बी बी एस सी एड ए एच/एम यू/ 69 | 4.3.45 |
| 356 | विमल कृष्ण दास, पुत्र श्री बिनौय कृष्ण दास | त्रिपुरा / 75 / 2000 | अरुंधती नगर, 6 / 1, रामठाकुर लेन, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम | बी बी एस सी एड ए एच/बी सी के बी बी / 88 | 15.11.66 |
| 357 | विमान बिहारी पौल चौधरी, पुत्र श्री बरदा च. पौल | त्रिपुरा / 36 / 2000 | गनोराज, चौमोहोनी, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम, बनमालीपुर | बी बी एस सी एड ए एच/बी सी के बी बी / 78 | 1.11.51 |
| 358 | बिंदेश्वर ज्ञा, पुत्र स्व. श्री सत्यदेव ज्ञा | बिहार एस बी सी / 1223 / 2000 | ग्राम एवं डाक—वरौर, थाना—लोकोही, जिला—मधुबनी | बी बी एस सी एड ए एच/आर यू/ 70 | 7.5.47 |
| 359 | बिन्दू पी | केरल एस बी सी / 2486 / 2000 | पदमापिलासम, किङ्गाके कारा, कोट्टाराकारा, कोल्लम— 691506 | बी बी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 26.4.75 |
| 360 | बिन्दू राघवन | डी बी सी / 0555 / 2000 | एम पी विजय राघवन, बी बी / 27—बी, जनकपुरी, नई दिल्ली— 58 | बी बी एस सी एड ए एच/जी बी पी यू ए एड टी / 2000 | 18.5.75 |
| 361 | बिंदु आर राज | केरल एस बी सी / 2475 / | पंडिजात्तेमुरियिल, आर के हाउस, ममूद, कोन्नी डाक, पथानमथिट्टा, पिन 689691 | बी बी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 25.4.76 |
| 362 | बिनिता कुमार, पुत्री डॉ. भुवनेश्वर राव | बिहार एस बी सी / 1906 / 2000 | ग्राम मारद्या, डाक एवं थाना: बिहपुर, जिला—भागलपुर | बी बी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 94 | 8.12.67 |
| 363 | बिनोद बिहारी सिन्हा, पुत्र स्व. श्री के पी सिन्हा | बिहार एस बी सी / 1916 / 2000 | मौह/डाक: 5 / 2, डालमिया नगर, थाना देहरी ओन सोन, जिला रोहतास— 831505 | बी बी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 72 | 11.2.49 |
| 364 | बिनोद कुमार, पुत्र डॉ. पी एस माल | बिहार एस बी सी / 2037 / 2000 | ग्राम एवं डाक—पुनाक, थाना—दारौली, जिला—सीवम | बी बी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 81 | 14.11.55 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---------------------------------|---|--|----------|
| 365 | बिनोद कुमार ,पुत्र ख. श्री फौदी साहू | बिहार एस वी सी/1359/ 2000 | एम बेन रोड, गुदडी बाजार, डाक, थाना एवं जिला— लोहारडगगा, पिन— 835302 | बी बी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 4.5.59 |
| 366 | बिनोद पी जी | केरल एस वी सी/2467/ 2000 | गोकुलम, एफ सी आई गोडाउन, पुरुमपुजा डाक, कोल्लम— 691504 | बी बी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 22.1.77 |
| 367 | बिनोद प्रसाद सिंह, पुत्र ख. श्री भुवन महतो | बिहार एस वी सी/2061/ 2000 | ग्राम एवं डाक— पिलिच, थानी— एकंगरसराय, जिला— नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 11.11.49 |
| 368 | बिपिन बिहारी प्रसाद, पुत्र श्री सत्यदेब प्रसाद | बिहार एस वी सी/1874/ 2000 | ग्राम निग्रायनपुर, डाक एवं थाना विंद, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 84 | 8.5.56 |
| 369 | बिपिन बिहारी सिंह, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/1107/ 2000 | ग्राम, डाक एवं थाना— शास्त्रा, जिला— बेगुसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 86 | 9.4.62 |
| 370 | बिपिन बिहारी श्री वास्तव,पुत्र श्री कपिल देव लाल श्रीवास्तव | बिहार एस वी सी/1183/ 2000 | ग्राम एवं डाक हाजीपुर, थाना हाजीपुर, जिला वैशाली, पिन— 844101 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/67 | 1.7.43 |
| 371 | बिपिन बिहारी वर्मा, पुत्र ख. श्री बजरंग सहाय | बिहार एस वी सी/2052/ 2000 | ग्राम दामोदरपुर, डाक सिरनी बसार, थाना गोविंद गंज, जिला चम्पारन | बी वी एस सी एंड ए एच/बी यू/58 | 19.1.37 |
| 372 | बिपिन खालखो, पुत्र श्री जाफरीन खालखो | बिहार एस वी सी/1530/ 2000 | ग्राम पुराना लोयाङ्गी, डाक एवं थाना नामकुम, जिला रांची, पिन— 834010 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 90 | 28.10.65 |
| 373 | बिपिन कुमार सिन्हा, पुत्र श्री राधा कांत प्रसाद | बिहार एस वी सी/1053/ 2000 | मौ, इंदिरा नगर,काचीपक्की, डाक एवं थाना मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर | बी वी एस सी एंड ए ए एच/आर यू/ 66 | 15.6.42 |
| 374 | बिपिन कुमार सिन्हा, पुत्र ख. श्री नंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी/847/ 2000 | ग्राम लक्ष्मीपुर, डाक लोध धानी, थाना पिरो बागेर, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 1.7.58 |
| 375 | बिपिन कुमार, पुत्र श्री गुलजार प्रसाद | बिहार एस वी सी/1011/ 2000 | ग्राम हैदरचाक, डाक खोरामपुर,, थाना इस्लाम पुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 79 | 2.7.55 |
| 376 | बिपिन कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद रिंह | बिहार एस वी सी/1604/ 2000 | ग्राम बरुनटोर,डाक सलीमपुर, थाना हरनौट, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 3.1.70 |
| 377 | बिपुल कुमार डे, पुत्र श्री धनीराम डे | त्रिपुरा/106/ 2001 | बरदोवाली, डाक अरुंधुती नगर, जवाहर ब्रिज के पूर्व, अगरतला, त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए ए यू/ 92 | 31.12.63 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|----------|
| 378 | बिपुल पाल | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2833 / 2000 | ग्राम पट्टाबुका, डाक नटग्राम, जिला 24 परगना (उ.) | बी वी एस सी एंड ए एच/ डब्ल्यू बीयू ए एफ एस/ 2000 | |
| 379 | बीरेंद्र प्रसाद, पुत्र स्व. श्री रामावतार प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1464 / 2000 | ग्राम—बुजाकीपुर, डाक कमराऊ, थाना डालसिंह सराय | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 67 | 4.1.46 |
| 380 | बिरजू लिण्डा, पुत्र श्री मीना उरांव | बिहार एस वी सी / 1818 / 2000 | मौ. नयासराव, डाक सपारोम पिलकानगर, थाना जगन्नाथ पुर, जिला रांची— 835302 | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी ए यू/ 88 | 13.5.63 |
| 381 | बिरसा ओराओं, पुत्र श्री मांगरा ओराओं | बिहार एस वी सी / 2001 / 2000 | ग्राम होचे, डाक सादमा, थाना—ओरमांझी, जिला रांची | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी ए यू/ 82 | 8.1.58 |
| 382 | बिरसा ओराओं, पुत्र श्री रतिया ओराओं | बिहार एस वी सी / 1148 / 2000 | ग्राम चोरदेन, डाक एवं थाना पलकेत, जिला गुमला, पिन— 835220 | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी ए यू/ 93 | 2.2.66 |
| 383 | बिशेश्वर प्रसाद, पुत्र श्री बैद्यनाथ प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1312 / 2000 | ग्राम एवं डाक पुनहा, थाना रांची, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 84 | 13.1.57 |
| 384 | बिशेश्वर प्रसाद, पुत्र श्री तुलमोहन राम | बिहार एस वी सी / 1974 / 2000 | ग्राम एवं डाक— श्रीपुर सुखासन, थाना विसानपुर, जिला सुपौल, पिन 852138 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 6.2.71 |
| 385 | बिश्राम भगत, पुत्र स्व. श्री गंडूर भगत | बिहार एस वी सी / 1374 / 2000 | ग्राम रनहेन, डाक कुगानू, थाना घघोरा, जिला गुमला | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 29.1.47 |
| 386 | बिसि टी वी | केरल एस वी सी / 2478 / 2000 | वेबिटा, डाक चेलान्नूर, कोज़ीकोड, पिन— 673616 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 31.8.75 |
| 387 | बिस्व प्रिया दत्ता, पुत्र श्री प्रफुल्ल आर एन दत्ता | त्रिपुरा / 104 / 2000 | द्वारा प्रफुल्ल आर एन दत्ता, प्रताप रे रोड, कृष्णानगर, अगरतला | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए ए यू/ 84 | 29.4.60 |
| 388 | बिस्वजीत ब्रह्मा | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2837 / 2001 | ग्राम मेउदीपुर, डाक कुलियारा, जिला मिदनापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/ डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/ 2000 | |
| 389 | बिस्वनाथ भट्टा चार्य, पुत्र ले. श्री भूपति कुमार | त्रिपुरा / 14 / 2000 | डॉ. एन एन भट्टाचार्या, अगरतला डेसरी के पीछे, इंद्रानगर, कुंजबन, पिन— 799006 | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी सी के वी वी/ 75 | 12.10.49 |
| 390 | बिस्वरूप गोस्वामी | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2784 / 2000 | कटवा ठाकुर पुकुर पार (नार्थ वेस्ट कॉर्नर), डाक कटवा, जिला बर्दवान | बी वी एस सी एंड ए एच/ डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/ 2000 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|---|---|--|----------|
| 391 | बितान बिदू बागची | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2831 / 2000 | मा आनंदमयी हाउसिंग, नतून कलीपुर, डाक भटजांगला | बी वी एस सी एंड ए एच/असम कृ वि वि / 2000 | |
| 392 | ब्लॉटिनो लिंगडोह, पुत्र (एल) इस्कत सिंह थॉमुइत | मेघ / 180 / 2001 | उमलिंगका, शिलोंग— 793005 | बी वी एस सी एंड ए एच/एच ए यू/ 80 | 1.1.55 |
| 393 | बोरा डॉ श्रीमती मालोश्री, पुत्री श्री टी सी बोरा | ए एस एम / 1932 / 2000 | न. 2, बामुनगांव, केंदुगुरी, जोरहाट— 10, असम | बी वी एस सी एंड ए एच ए ए यू/ 2000 | |
| 394 | बोरा डॉ. (श्रीमती) मोनालिसा, पुत्री श्री देबेन्द्र नाथ | ए एस एम / 1936 / 2000 | द्वारा:श्री डी एन बोरा, बी आर रोड, ऊधानगर, डाक काचरी गांव, तेजपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 395 | बोराह डॉ. गुनीन्द्र, पुत्र श्री महिम च. बोराह | ए एस एम / 1922 / 2000 | द्वारा श्री महिम च.बोराह, ग्राम नाओकाटा, डाक दलाई चुबा, जिला मोरी | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 396 | बोराह डॉ. प्रांजल, पुत्र श्री पदम कांत बोराह | ए एस एम / 1938 / 2000 | द्वारा पदम कांत बोराह, ग्राम एवं डाक देसोइनगर, जिला जोरहाट , असम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 397 | बोराह डॉ. रूपम कुमार, पुत्र श्री पदम कांत बोराह | ए एस एम / 1883 / 2000 | द्वारा पी के बोराह, तारा डूबी, कार्बी, अंगलोंग, पिन— 782485, असम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 99 | |
| 398 | बोरइयाह डी, पुत्र श्री डोड्डा बोरइयाह | कर्ना एस वी सी / 3124 | चित्रहानाहटी, चल्लाकोरे, नगर एवं डाक, चित्रदुर्ग जिला | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 9.10.68 |
| 399 | बोरदलाई डॉ.(श्रीमती) मोनिका, पुत्री ख. श्री प्रफुल्ल शर्मा | ए एस एम / 1918 / 2000 | ग्राम भगवोती चक, डाक सालामुरी (जम्मुगुरीहाट), जिला सोनितपुर, असम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 400 | बोरो डॉ. प्रशांत कुमार, पुत्र श्री कुलेन्द्र कुमार बोरो | ए एस एम / 1890 / 2000 | जतिया, डाकघर दिसपुर (सचिबालय), पिन— 781006 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 401 | ब्रह्मदेब प्रसाद यादव, पुत्र डा. रामेश्वर प्रसाद यादव | बिहार एस वी सी / 1807 / 2000 | ग्राम आसुआ चक, डाक मनानपुर, थाना चानन, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 6.1.57 |
| 402 | ब्रह्मेश्वर चौबे, पुत्र ख. श्री राजनाथ चौबे | बिहार एस वी सी / 1225 / 2000 | ग्राम एवं डाक मसूधी, थाना जगदीशपुर, जिला भोजपुर, आराह— 802158 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 1.7.44 |
| 403 | ब्रैनव कुमार, पुत्र श्री राम किशोर प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1778 / 2000 | एम—पी / 165, पीपल्स कॉऑप, कॉलोनी, डाक एवं थाना कंकरबाग,जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 88 | 15.1.62 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|--|---|----------|
| 404 | ब्रज किशोर पांडे, पुत्र स्व. श्री मुख लाल शर्मा | बिहार एस वी सी/1834/ 2000 | ग्राम एवं थाना— थेरथारी, डाक रायपुर कोल बीघा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 63 | 16.2.40 |
| 405 | ब्रज नंदन सिंह, पुत्र स्व. श्री यमुना प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/1022/ 2000 | ग्राम मुरली, डाक भवानीपुर, थाना गोपालपुर, जिला— भागलपुर, पिन्ड 853204 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 2.5.61 |
| 406 | ब्रजेश कुमार प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री राम बालक सिंह | बिहार एस वी सी/1733/ 2000 | ग्राम एवं डाक सराय वाके, थाना अमनौर, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 20.3.45 |
| 407 | ब्रजेश कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री राज नारायण सिंह | बिहार एस वी सी/1488/ 2000 | ग्राम साय साहेब पोखर, डाक लहरिया सराय, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 3.8.42 |
| 408 | ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह, पुत्र श्री राम स्वारथ सिंह | बिहार एस वी सी/1047/ 2000 | ग्राम ढंडानाचौक, डाक मिस्ट्रीपुर, थाना फुलकरी, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 88 | 15.6.64 |
| 409 | ब्रजनंदन कुमार, पुत्र श्री कृष्णदेव प्रसाद | बिहार एस वी सी/5192/ 2000 | ग्राम एवं डाक— शावानी, थाना बख्तायारपुर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 82 | 5.7.53 |
| 410 | ब्रजनंदन प्रसाद सिंह, पुत्र रव. श्री राम शरण प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/1870/ 2000 | ग्राम— अहियाचक, डाक जमकारी, थाना बिंड, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 57 | 5.1.38 |
| 411 | ब्रज नंदन प्रसाद शर्मा, पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण सिंह | बिहार एस वी सी/870/ 2000 | मो.लक्ष्मीनिवास, भूतनाथ रोड, डाक एवं थाना कंकरबाग, अगमकुआं, पटना— 800008 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 23.5.45 |
| 412 | ब्रजवासी प्रसाद रातनामी, पुत्र श्री रामचंद्र | एम पी एस वी सी/1884 /2000 | वैअ.एक्स. अधिकारी, जिला कासनवेल, जाशपुर नगर— 496220 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/89— 90 | 5.9.84 |
| 413 | बृज लाल, पुत्र श्री काशी लाल | एच ए आर एस वी सी/ 1624 | ग्राम एवं डाक— कैरु, तहसील तोशाम, जिला भिवानी | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/99 | 12.12.74 |
| 414 | बृज मोहन, पुत्र श्री सत्य नारायण | एच ए आर एस वी सी/ 1665 | 770/ 8, सोनू सिलाई सेंटर, सी पुरा, (आर टी के) | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/2000 | 26.2.70 |
| 415 | बृजेंद्र प्रताप सिंह यादव, पुत्र श्री वी एस यादव | यू पी वी सी/ 3291 | जी— 178, पांडव नगर, मेरठ | बी वी एस सी एंड ए एच/जी वी पी यूए एंड टी/2000 | 2.9.77 |
| 416 | बृज लाल, पुत्र श्री मेहर चंद | आर ए जे एस वी सी/ 2714/2000 | ग्राम एवं डाक— गुसाईकला, जिला सिरसा, हरियाणा | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/98 | 5.4.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------------|---|--|----------|
| 417 | बृदावन प्रसाद, पुत्र श्री परमेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी/1058/ 2000 | ग्राम एवं डाक पीरो, थाना— पीरो, जिला आराह (भोजपुर) | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 7.6.46 |
| 418 | बुत्यां रामइया शास्त्री डी, पुत्र श्री डी रामा | ए पी एस वी सी/03641/ 2000 | 76/366, खाजीपुरा, पुराने पोस्टऑफिस के पीछे, डाक अडोनी, कुर्नूलजिला 518301 | बी वी एस सी/ए एन जी आर ए यू/ 75 | 8.2.53 |
| 419 | सी लालमुआंथंगा | एम जेड/ 01/0134 | डिनथर वेंग सेरछिप, जिला सेरछिप, डाक सेरछिप, मिज़ोरम | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 26.2.76 |
| 420 | सी रिनाउमा | डी. वी सी/ 0560/2000 | श्री सी एंजलिना, 86/ सेक्टर—xii, आर के पुरम | बी वी एस सी एंड ए एच/एम के वी/ 2000 | 7.2.75 |
| 421 | सी रिनाउमा | वी सी आई/ 2252/2000 | 86, सेक्टर—12, आर के पुरम, नई दिल्ली—110022 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 7.2.75 |
| 422 | सी सारुमधी | पॉण्डी/137/ 2000 | 21, दसवां क्रॉस, बृदावन, पॉण्डीचेरी— 605013 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 3.11.77 |
| 423 | सी विजय लक्ष्मी | पॉण्डी/136/ 2000 | 11, चर्च स्ट्रीट, डॉन बॉस्को स्कूल के निकट, पॉण्डीचेरी | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 24.5.78 |
| 424 | च. वी के एस किरन कुमार, पुत्र श्री सुब्बा राव | ए पी एस वी सी/03663/ 2000 | डी न. 10-5-21/2, रामा राव पेट, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला— 533004 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 11.8.77 |
| 425 | चैतन्यन किशोर जे, पुत्र श्री जे वेंकटइयाह | ए पी एस वी सी/03607/ 2000 | 27-1-885, लक्ष्मी नगर, नेल्लोर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 26.6.78 |
| 426 | चक्रबर्ती डॉ. सुजौय, पुत्र श्री जी के चक्रबर्ती | ए एस एम/ 1885/ 2000 | बकरापारा, डाक मोइदम, बेलटोला चराली, गुवाहाटी— 28 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 427 | चंदन धर | डब्ल्यू बी एस वी सी/2798/ 2000 | ग्राम एवं डाक औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस/2000 | |
| 428 | चंदन गोविंद देब, पुत्र श्री कमल गोविंद देब | बिहार एस वी सी/1194/ 2000 | मौ. पसौडीह, 5, प्रमथा नगर, डाक— तासानगर, थाना परसौडीह, जिला जमशेदपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 17.1.68 |
| 429 | चंदन कुमार रे, पुत्र श्री नित्यानंद रे | त्रिपुरा/ 24/ 2000 | जेल आश्रम रोड, डाक धालेश्वर, अगरतला, त्रिपुरा (प.), पिन—799007 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 21.9.54 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|--|---|----------|
| 430 | चंदन सिंह राठौड़, पुत्र श्री जी एस राठौड़ | आर ए जे एस वी सी/2762/ 2001 | ग्राम एवं डाक रणसिंहमांव, जिला जोधपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम एस यू/85 | 15.8.81 |
| 431 | चंदलेकर मनोहर भास्कर राव | एम एस वी सी/6277/ 2000 | गुरुकृपा, म.न.39, बी डब्ल्यू एस कॉलेज के पीछे, साकरी रोड, धुले— 424001 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम वी के वी /73 | 24.2.49 |
| 432 | चंदेश्वर पांडे, पुत्र स्व. श्री राम लखन पांडे | बिहार एस वी सी/1000/ 2000 | ग्राम पिरती, डाक पिरती, थाना बाबू बढ़ी, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 7.8.46 |
| 433 | चंद्र भूषण प्रसाद, पुत्र स्व. श्री विशुन धारी सिंह | बिहार एस वी सी/2032/ 2000 | ग्राम एवं डाक— टोपे, थाना— शाहजहांपुर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी यू/ 60 | 6.7.38 |
| 434 | चंद्र भूषण प्रसाद, पुत्र स्व. श्री शिव नंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी/1017/ 2000 | ग्राम नरसंदा, डाक— नरसंदा, थाना चांदी, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 2.3.46 |
| 435 | चंद्र भूषण त्रिपाठी, पुत्र स्व. पंडित देवदत्त त्रिपाठी | बिहार एस वी सी/888/ 2000 | मौह. खास महल, बी— ब्लॉक, रोड न.1, डाक विभागतार, थाना जक्कनपुर, जि. पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 2.1.45 |
| 436 | चंद्र भूषण कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री हरीन्द्र प्रसाद वर्मा | बिहार एस वी सी/839/ 2000 | ग्राम एवं डाक— कोइली, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 5.1.46 |
| 437 | चंद्र खूब | पॉण्डी/07/ 2000 | 6, प्रथम तल, पांचवा क्रॉस, राजाजीनगर, लॉसेप्ट, पॉण्डीचेरी— 605008 | बीवीएससीएंडएच / जीबीपीकेइबीपीबीवी / पीएनएजीएआर / 76 | 4.1.54 |
| 438 | चंद्र किशोर लाल, पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी लाल | बिहार एस वी सी/982/ 2000 | ग्राम बारा, डाक बारा, थाना— खड़वांपुर, जिला बेगुसराय, पिन— 846210 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 10.1.54 |
| 439 | चंद्र मोहन रेढ़ी, पुत्र श्री सी चेन्ना रेढ़ी | ए पी एस वी सी/03543/ 2000 | 14/ 1, आर एस रोड, कमलापुरम, कुड्याह— 516289 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/99 | 15.8.75 |
| 440 | चंद्र मोहन, पुत्र श्री सिद्धियाह | कर्ना एस वी सी/3135 | परनामी न. 2035, 28वां क्रॉस, के आर रोड, बी एस के 11 स्टेज, बंगलौर | बी वी एस सी/यू ए एस, बंगलौर/ 99 | 5.6.75 |
| 441 | चंद्रा नाइक, पुत्र श्री मारी नाइक | कर्ना एस वी सी/3168 | बासवेंगौडनाडोड्डी, व्यादरा हल्ली डाक, हलागुर होबिल, मलावल्ली, तालु माण्ड्या जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर /2000 | 11.6.77 |
| 442 | चंद्र शेखर आजाद, पुत्र श्री प्रभुनारायण यादव | बिहार एस वी सी/1607/ 2000 | ग्राम बलैता, छाड़क महुआ बाजार, थाना बसानोही, जिला सहरसा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 6.11.80 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|--|---|----------|
| 443 | चंद्र शेखर प्रसाद सिंह, पुत्र श्री सौदागर सिंह | बिहार एस वी सी / 1143 / 2000 | ग्राम नीमी, डाक निश्चल गंज, थाना एकांगरसराय, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 4.5.46 |
| 444 | चंद्र शेखर पोददार, पुत्र श्री अर्जुन पोददार | बिहार एस वी सी / 1676 / 2000 | ग्राम एवं डाक गोरगामा, थाना बैंसी, जिला बंका | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 8.11.52 |
| 445 | चंद्र शेखर सिन्हा, पुत्र स्व. श्री उमेश प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 924 / 2000 | ग्राम मंचार अली लेन, डाक थोपराकोरा, थाना लालपुर, जिला रोयी, पिन 834001 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 88 | 11.12.64 |
| 446 | चंद्र शेखर, पुत्र श्री रामदाहिन सिंह | बिहार एस वी सी / 972 / 2000 | मौ. विकास नगर कॉलोनी, रोड न. 1, डाक महेन्द्र, थाना आलमगंज, पटना 800006 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 1.11.59 |
| 447 | चंद्र देव नारायण सिंह, पुत्र रत्न श्री दीपनारायण सिंह | बिहार एस वी सी / 1244 / 2000 | मौह. राजीव नगर, डाक केशरीनगर, थाना दीधा, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 1.11.46 |
| 448 | चंद्र देव प्रसाद सिंह, पुत्र रव. श्री लाला प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1880 / 2000 | ग्राम अहियाचक, डाक जमसारी, थाना बिड़, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 5.7.36 |
| 449 | चंद्र देव प्रसाद, पुत्र श्री राम किश्तर सिंह | बिहार एस वी सी / 1290 / 2000 | ग्राम तिलैया, डाक पथरौरा, थाना राजगीर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 82 | 14.3.57 |
| 450 | चंद्र कात द्विवेदी, पुत्र श्री जे एन द्विवेदी | एम पी एस वी सी / 1893 / 2000 | 43-ए, एकता नगर, उखरिया रोड, जबलपुर-482004 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 60 | 9.6.41 |
| 451 | चंद्रमणि प्रसाद, पुत्र स्व. श्री लाला प्रसाद | बिहार एस वी सी / 2018 / 2000 | ग्राम सुआौफर डीह, डाक नीरपुर, थाना एवं जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 1.12.46 |
| 452 | चंद्रमणि, पुत्र श्री युगल किशोर प्रसाद सन्हा | बिहार एस वी सी / 1609 / 2000 | मौह. म.न. 27, न्यू पुनाई चक, हनुमान नगर, जिला पटना, पिन 800023 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 80 | 2.6.57 |
| 453 | चंद्र मोहन जे | केरल एस वी सी / 2523 / 2000 | प्लावरथला पुथेन वीडू, कुवालाकुलम, नेयाटिकारा डाक | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 87 | 29.5.59 |
| 454 | चंद्र मोली च., पुत्र श्री च. कोमालु | ए पी एस वी सी / 03668 / 2001 | म.न. 11-26-172, कोठवाडा, वारंगल जिला- 506102 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 92 | 5.4.68 |
| 455 | चंद्र शेखर रेड्डी पी, पुत्र श्री पी पिच्ची रेड्डी | ए पी एस वी सी / 03670 / 2001 | पामुरुपल्ली (ग्राम), कोमारुतु (एम), प्रकासम जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 93 | 24.1.68 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|---------------------------------|---|---|----------|
| 456 | चंद्रशेखर जी, पुत्र श्री ईश्वरप्पा | कर्ना एस वी सी/3150 | हादरामग्गी, कठाराकी, गुडलनूर, कोप्पल जिला | बी वी एस सी इंड ए एच/यू ए एस धारवाड/2000 | 1.4.77 |
| 457 | चंद्रशेखर मधुकर अम्बुलकर | एम पी एस वी सी/1890/ 2000 | गवर्नर्सॉलिटेक्निक होस्टल, फैमिली ब्लॉक, श्यामला हिल्स, भोपाल— 462011 | बी वी एस सी इंड ए एच/डॉ. पी.डी. के वी पी/98 | 15.7.71 |
| 458 | चंद्र शेखर प्रसाद, पुत्र स्व. श्री जनक प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/1991/ 2000 | ग्राम एवं डाक छाप सुदर्शन चापीवन, थाना मुशराक, जिला सारन | बी वी एस सी इंड ए एच/एम यू/ 62 | 15.2.42 |
| 459 | चंद्रशेखर सिंह, पुत्र स्व. श्री विश्वामीर दयाल | एम पी एस वी सी/1918/ 2000 | गवर्नर्सॉलिटेक्निक होस्टल, अहमदपुर, जिला सिहोर— 466001 | बी वी एस सी इंड ए एच/जे एन के वी वी/80-81 | 12.12.55 |
| 460 | चंद्रिका प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री अर्जुन प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/925/ 2000 | ग्राम हासीपुर, डाक मिरगा चौकी, थाना एवं जिला साहेंगज, पिन— 813208 | बी वी एस सी इंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 15.4.74 |
| 461 | चंगमई डॉ. सुखेन, पुत्र श्री जॉयनाथ चंगमई | ए एस एम/ 1923/2000 | ग्राम नागांव, डाक बोरदा लोनी, जिला धीमाजी, पिन— 787026 | बी वी एस सी इंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 462 | चरनजीत, पुत्र श्री छोटू राम | पी बी एस वी सी/2186/ 2000 | म.न.बी-756, सिटी पुलिस स्टेशन के निकट, बटाला— 143505 | बी वी एस सी इंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 25.9.75 |
| 463 | चरजन रूपाली यशवंत राव | एम एस वी सी/6361/ 2000 | काशीनगर, प्लॉट न. 54, रामेश्वरी नागपुर— 440027 | बी वी एस सी इंड ए एच/डॉ.पी. डी के वी/2000 | 21.5.77 |
| 464 | चतुरराम सिंह, पुत्र श्री राजेश्वर सिंह | बिहार एस वी सी/ 871/ 2000 | ग्राम सॉंडनिला, डाक सॉंडनिला, थाना बक्सर, जिला बक्सर | बी वी एस सी इंड ए एच/एम यू/70 | 18.2.47 |
| 465 | चौधरी कमलाकर सुधाकर | एम एस वी सी/400/ 2000 | एटी डाक मस्कावाड(ब्लॉक), सुभाष चौक, तालुक रावर, जिला जलगांव | बी वी एस सी इंड ए एच/के के वी/ 2000 | 13.8.77 |
| 466 | चौधरी डॉ. अंकन, पुत्र श्री जगाधर | ए एस एम/ 1897/2000 | ग्राम कांडपुर, डाक मिरजा, जिला कामरूप, असम | बी वी एस सी इंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 467 | चवन प्रभाकर साहेबराव | एम एस वी सी/ 6322/ 2000 | एटी साम्बर, डाक सादेगांव, तालुक परभनी, जिला परभनी— 431401 | बी वी एस सी इंड ए एच/एम ए यू/ 99 | 9.2.78 |
| 468 | चवन रंजना महादेव | एम एस वी सी/ 6300/ 2000 | बी के रोड, वेंगुरला, जिला सिंधुदुर्ग— 416516 | बी वी एस सी इंड ए एच/ के के वी/ 2000 | 30.5.77 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---|--|---|----------|
| 469 | चवन संग्राम शंकरराव | एम एस वी सी / 6354 / 2000 | सोमेश्वर कॉलोनी, घटनंदूर, तालुक अम्बाजोगई, जिला बीड— 411519 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 11.6.77 |
| 470 | छवि नाथ मिश्रा, पुत्र स्व. पण्डित ज्यालाप्रसाद मिश्रा | बिहार एस वी सी / 1849 / 2000 | ग्राम मोहनपुर, डाक वसंत पुर, थाना आराह मुफासिल, जिला शोजपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 2.1.44 |
| 471 | छत्रपति शुक्ला, पुत्र स्व. श्री राम बृक्ष शुक्ला | बिहार एस वी सी / 1890 / 2000 | एम: शेखपुरा बेलदार टोला, डाक बी. वी कॉलेज, थाना शास्त्रीनगर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 61 | 1.10.38 |
| 472 | चेतन शर्मा, पुत्र श्री सुरिन्दर शर्मा | पी बी एस वी सी / 2233 / 2001 | 115, न्यू फैड्स कॉलोनी, डी ए वी कॉलेज के सामने, जालधर— 144008 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 31.12.76 |
| 473 | चेतिया डॉ. धुबज्योति, पुत्र श्री प्रेम कांता चेतिया | ए एस एम / 1899 / 2000 | ग्राम घरियालझुबी गांव, डाक बोकाजन, जिला कारबी, अगलोंग (असम) | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 474 | चिंटू रविशंकर | केरल एस वी सी / 2463 / 2000 | अनिथा सदस्य, टीसी 13 / 335, एमआर ए हाउस न. 96, डाक कुन्नूकुझी, त्रिवेंद्रम— 695037 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 9.6.76 |
| 475 | चिरंजीब भुयन | मेघ / 155 / 01 | जिंगकींग, शिलौंग— 793003 | बी वी एस सी एंड ए एच/वी ए यू/ 92 | 16.1.67 |
| 476 | चिटनिस अदिति अजय | एम एस वी सी / 6356 / 2000 | विजया म.न. 18, नोफरा कोलाबा, मुम्बई— 400005 | बी वी एस सी एंड ए एच/के के वी/ 2000 | 8.7.77 |
| 477 | चित्त प्रिय घोष | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2838 / 2001 | ग्राम एवं डाक— तालित, जिला— बर्दगान | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 478 | चित्त रंजन रौय, पुत्र ले. श्री अमूल्य कुमार रौय | त्रिपुरा / 6 / 2000 | काशीपुर, मिशन रोड, डाक रेशमबागान, त्रिपुरा (प.) | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 69 | 17.10.45 |
| 479 | चौडे मंगेश शिवाजी राव | एम एस वी सी / 6321 / 2000 | टीचर्स कॉलोनी, दांडनिक कॉम्प्लेक्स, उस्मानाबाद— 413501 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 10.6.77 |
| 480 | चोपडे रमेश निम्बाहीराव | एम एस वी सी / 6329 / 2000 | बुद्ध गया, प्लॉट न. 37, परली रोड, सिराला, तानुक परदी (वी), बीड | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 7.6.77 |
| 481 | छोटे लाल चौधरी, पुत्र स्व. श्री बिहारी चौधरी | बिहार एस वी सी / 1414 / 2000 | मौ. रोशन लाल कॉ., डाक अनीसाबाद, थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 12.7.44 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. नं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|----------------------------|--|--|----------|
| 482 | चौधरी डॉ. (श्रीमती) सांतना, पुत्री डॉ. भावनंद | ए एस एम/ 1914/ 2000 | द्वारा: डॉ. बी एन चौधरी, शिव मंदिर रोड, खानापाड़ा, गुवाहाटी | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 3.12 |
| 483 | चौधरी डॉ. भास्कर, पुत्र स्व. श्री तरुण चौधरी | ए एस एम/ 1948/ 2000 | सिक्ष साइल, आनन्दनगर, मुवाहाटी- 22 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 99 | 2.12 |
| 484 | चौधरी डॉ. जयंत, पुत्र श्री. माहीधर | ए एस एम/ 1886/ 2000 | ग्राम भालीकुची, जिला नलबारी, पिन- 781335 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 1.12 |
| 485 | चौधरी डॉ. कमल बिहारी देब, पुत्र श्री पुलिन बिहारी देब | ए एस एम/ 1908/ 2000 | ग्राम सारिहा चाकला, डाक फाटाधाकूची, जिला बारपेटा, पिन- 781326, असम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 3.12 |
| 486 | क्रिस्टाइन वानस्पेट | मेघ/ 162/ 2001 | ज्येष्ठाओ शियाप, शिलोग | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 25.12.73 |
| 487 | चुबायांगला, पुत्री श्री वाटीकुम्हा | एन एस वी सी/ 83/ 98 | द्वारा मेरेज पॉल, डिप्टी कमिश्नर, ड्रासपोर्ट, कोहिमा | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी. डी. के वी/ 98 | 5.3.73 |
| 488 | चूडामणि तिवारी | पॉण्डी/ 111/ 2000 | बी-1, 'बी' जोन कैम्पस, रामाकोवास, पॉण्डीचेरी- 605009 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे. एन के वी वी/ 83 | 30.4.60 |
| 489 | सायरिल रॉय आर | वी सी आई/ 2292/ 2001 | चम्पारथिविलई डाक, धुक्कालय, वाया, कन्या कुमारी, जिला तमिलनाडु | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 95 | 9.6.72 |
| 490 | डी वेंका रेड्डी | पॉण्डी/ 118/ 2000 | 27, पहला क्रॉस, भारती नगर, पॉण्डीचेरी 605008 | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 78 | 15.8.54 |
| 491 | डागा शिव प्रसाद श्रीरामजी | एम एस वी सी/ 6376/ 2000 | मारवाड़ी गली, एटी डाक बोरी, तालुक जिन्नूर, जिला परभनी- 431508 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 28.6.78 |
| 492 | डालु सोरेन, पुत्र श्री लखन सोरेन | बिहार एस वी सी/ 1094/ 2000 | ग्राम चटकुरमा, डाक श्रीपुर, थाना मिरसाचौकी, साहेबगंज 813208 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ | |
| 493 | दलवी गिरीश बामन | एम एस वी सी/ 6363/ 2000 | एटी डाक महोदी(दलवी), तालुक नारडेड, जिला नागपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी. डी. के वी/ 2000 | 1.9.78 |
| 494 | दामोदर प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री राम चंद्र सिंह | बिहार एस वी सी/ 1705/ 2000 | ग्राम एवं डाक मइदाह, थाना बारबीघा, जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 5.7.53 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | परा | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| 495 | दामोदर प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री सिव रघुवर शरण सिंह | बिहार एस बी सी / 2031 / 2000 | ग्राम पहाड़ी चाक, डाक एवं थाना सोनपुर, जिला सारन | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 7.10.37 |
| 496 | दारा शिकोह, पुत्र श्री सैयद सुजाउद्दीन अहमद | बिहार एस बी सी / 1288 / 2000 | मौ. चिश्तीनगर, डाक थाना एवं जिला— हजारीबाग— 825301 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 88 | 10.12.63 |
| 497 | दर्शन राज जी, पुत्र श्री गंगा राज | कर्ना / 3198 | न. 246, शिल्प दर्शन, गासान्दा रोड, मारालुर, तुमकुर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 4.5.77 |
| 498 | दास डॉ. धुबज्योति, पुत्र श्री रामानी मोहन दास | ए एस एम / 1884 / 2000 | पाठशाला टाउन, डाक पाठशाला, जिला बारपेटा | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 99 | |
| 499 | दास डॉ. हिरण्य कुमार, पुत्र श्री दिनेश च. दास | ए एस एम / 1888 / 2000 | जानिया चौड़ (एस सी पथ), डाक एवं जिला बारपेटा— 781301 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 500 | दास डॉ. हंदुल लाल, पुत्र श्री धीरेंद्र लाल दास | ए एस एम / 1945 / 2001 | ग्राम हरिपुर, डाक पाठशाला, जिला बारपेटा, असम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 501 | दास डॉ. जादूमणि, पुत्र श्री चक्रधर दास | ए एस एम / 1946 / 2001 | डॉ. जादूमणिदास, डाक एवं ग्राम कुलहाटी, थाना हाजो, जिला कामरूप— 781104 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 502 | दास डॉ. कल्याण कुमार, पुत्र श्री बिनान्दी दास | ए एस एम / 1911 / 2000 | द्वारा श्री बिनांदी दास, ग्राम एवं डाक कुलहाटी, जिला कामरूप, पिन— 781104 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 503 | दास डॉ. मानबेंद्र, पुत्र स्व. श्री गिरीन्द्र नाथ दास | ए एस एम / 1895 / 2000 | ग्राम चरिहा चाकला, डाक पटाचरकुठी, जिला बारपेटा | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 504 | दास डॉ. मुकुट, पुत्र श्री नरेन दास | ए एस एम / 1900 / 2000 | ग्राम एवं डाक बैजेरा, जिला कामरूप पिन— 781121 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 505 | दास डॉ. प्रशांत कुमार, पुत्र श्री पोगिन्द्र च.दास | ए एस एम / 1887 / 2000 | ग्राम उत्तर जनापार (सोल कुची), डाक सोलकुची, जिला कामरूप, असम— 781103 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 506 | दौलत सिंह रावत, पुत्र स्व. श्री वी वी रावत | यू. पी. वी. री / 3244 | कादम्बरी भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी वी यू ए एंड टी / 2000 | 16.1.75 |
| 507 | देवेन्द्र पाल, पुत्र श्री हुकम चंद | एच ए आर एस वी वी / 1664 | ग्राम एवं डाक मोटला कला, जिला— रिवाड़ी | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 31.7.76 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अईतारं | जन्मनि |
|---------|---|-----------------------------------|--|---|----------|
| 508 | देवेंद्र कुमार | वी. सी.आई./ 2248/2000 | वैज्ञानिक, एन आई आर एस (सी एस डब्ल्यू आर आई) गारसा कुल्लू (हि.प्र.) 257141 | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./जी.बी.पी. यू.ए.एंड.टी./93 | 8.7.68 |
| 509 | देवेंद्र कुमार, पुत्र श्री फूल सिंह | एच.पी.एस.वी. सी./588/ 2000 | ग्राम खानपुर, डाक, थाना एवं जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. 247777 | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./जी.बी.पी. यू.ए.एंड.टी./94 | 8.7.68 |
| 510 | दविन्दर कूड़ा, पुत्र श्री राम नारायण | एच.ए.आर.एस. वी.सी./1669 | 1851/30, छोटू राम कॉलोनी, खनाली रोड, रोहतक | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./सी.सी.एस एच.ए.यू./2000 | 21.7.76 |
| 511 | दविन्दर पाल सिंह, पुत्र श्री तेहल सिंह | पी.वी.एस.वी. सी./2209/ 2000 | 145, सास्टर तेरा सिंह नगर, जालंधर सिटी | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./पी.ए.यू./ 2000 | 11.6.77 |
| 512 | दयानंद कुमार, पुत्र स्व. श्री चंद्र दीप कुंवर | बिहार एस.वी. सी./1669/ 2000 | ग्राम एवं डाक—मारवा, थाना—विहापुर, जिला भागलपुर | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./आर.ए.यू./ 79 | 1.1.54 |
| 513 | दयाल कुमार बालानी | वी.सी.आई./ 2271/2001 | एफ, 17-18, एफ ब्लॉक, स्ट्रीट-3, पांडवनगर, पटपड़गंज, दिल्ली 110091 | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./ए.वी./ 63 | 25.5.40 |
| 514 | दयानंद प्रसाद, पुत्र श्री लाला प्रसाद | बिहार एस.वी. सी./1811/ 2000 | ग्राम एवं डाक—बिंड, थाना बिंड, जिला नालंदा, पिन- 811108 | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./आर.ए.यू./ 83 | 3.4.61 |
| 515 | दयानंद प्रसाद, पुत्र श्री सत्यदेव प्रसाद | बिहार एस.वी. सी./1606/ 2000 | ग्राम गोसाइपुर, डाक योगीपुर, थाना हिलसा, जिला नालंदा | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./बी.ए.यू./ 86 | 2.11.56 |
| 516 | दयाराम अहिरवार, पुत्र श्री राम दास अहिरवार | एम.पी.एस.वी. सी./1898/ 2000 | ग्राम कुराई, डाक रामनगर, तह. जतारा, जिला टीकमगढ़— 472001 | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./जे.एन.के वी.वी./98-99 | 1.7.69 |
| 517 | दायुहन पापांगा | मेघ/166/ 2001 | शांगपुरा, जयन्तिया पहाड़ीया | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./ए.ए.यू./ 92 | 31.10.67 |
| 518 | देबानंद देब, पुत्र श्री दीपि लाल देब | त्रिपुरा/72/ 2000 | ग्राम गोबिंदपुर, डाक कैलाशहर, नार्थ. त्रिपुरा | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./पी.ए.यू./ 86 | 8.6.62 |
| 519 | देबाशीष चक्रबर्ती, पुत्र श्री रविन्द्र कुमार | त्रिपुरा/97/ 2000 | बोरड्येवाली, पश्चिमी प्रतापगढ़, अरुणधतीनगर, अगरतला—3 | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./सी.एस.एके ई.पी.वी./87 | 23.8.65 |
| 520 | देबाशीष बोस, पुत्र स्व. श्री प्रणब कुमार बोस | बिहार एस.वी. सी./1963/ 2000 | एम-486, बासु वगार कॉ., डाक थाना मध्यम ग्राम, जिला 24 परगना—743275 | बी.वी.एस.सी.एंड ए.एच./बी.ए.यू./ 82 | 13.4.39 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारे | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|----------|
| 521 | देवाशीष देब, पुत्र स्व. श्री देब रंजन देब | बिहार एस वी सी / 1766 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना— बगुइहाटी, लिंग 24 परगना, पिन- 700057 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 88 | 2.7.60 |
| 522 | देवाशीष भट्टाचार्य | अरुणा / 199 / 2000 | लुमला, त्वांग जिला, अरुणाचल प्रदेश | बी वी एस सी एंड ए एच/ओ यू ए एंड टी/85 | 6.4.62 |
| 523 | देवाशीष घोष | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2835 / 2000 | ग्राम मुतरा, डाक बरावा मोहेश, जिला बर्दवान | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू एएफएस/2000 | |
| 524 | देवराज नदी | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2823 / 2000 | राठेर सड़क, चंदन नगर, जिला हुगली, (नवीन सिंह कलब के निकट) | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 525 | दीनानाथ शर्मा, पुत्र श्री चादेश्वर शर्मा | बिहार एस वी सी / 906 / 2000 | ग्राम नोआवन, डाक नोआवन, थाना शकूराबाद, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 95 | 3.5.68 |
| 526 | दीनबंधु शर्मा, पुत्र श्री मथुरा प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1525 / 2000 | ग्राम एवं डाक— मदवन, थाना धनरुआ, जिला पट्टना, पिन- 804453 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 11.11.48 |
| 527 | दीनदयाल | आर ए जे एस वी सी / 2655 / 2000 | पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल, लाल निशान प्रैस के सामने, मथुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृष्ण वि/ 2000 | 15.7.76 |
| 528 | दीपा ए के | केरल एस वी सी / 2492 / 2000 | 24 / 614, ऐश्वर्या, लिटिल नगर, डाक नूरानी, पलक्कड़, पिन- 678004 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 31.12.75 |
| 529 | दीपक कुमार सिंह, पुत्र श्री बासुकी प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1353 / 2000 | ग्राम एवं डाक विंडी, थाना बंका, जिला बंका | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 3.3.64 |
| 530 | दीपक कुमार शर्मा | आर ए जे एस वी सी / 2675 / 2000 | ग्राम एवं डाक पोहुना, जिला चित्तौड़गढ़ | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृष्ण वि/ 2000 | 13.6.75 |
| 531 | दीपम कुमार, पुत्र श्री कैलाश नाथ गुप्ता | बिहार एस वी सी / 2082 / 2000 | ग्राम एवं डाक विदुपुर, बाजार, थाना विदुपुर बाजार, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 5.1.76 |
| 532 | दीपक ओराओ, पुत्र श्री स्व. भीखा खालको | बिहार एस वी सी / 1976 / 2000 | ग्राम नंगरटोली, डाक एवं थाना लालपुर, जिला रांची, पिन- 834001 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 23.8.70 |
| 533 | दीपिका लाठेर, पुत्र श्री बी पी एस लाठेर | एच ए आर एस वी सी / 1616 | म.न. 9 बी-2, ओल्ड कैम्पस, एच ए यू, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 99 | 26.12.77 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| 534 | डेका डॉ. धनजीत, पुत्र श्री प्रसन्ना च. डेका | ए एस एम/ 1896 / 2000 | ग्राम एवं डाक निज़ नमाती, जिला नलबारी, पिन 781355 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 535 | डेका डॉ. दीपक, पुत्र श्री नरेंद्र नाथ डेका | ए एस एम/ 1917 / 2000 | द्वारा श्री नरेंद्र नाथ डेका, ग्राम एवं डाक हरिभंगा, तीहु जिला, नलबारी | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 536 | देव कुमार मुखर्जी, पुत्र श्री अमीरचंद मुखर्जी | बिहार एस वी सी / 1902 / 2000 | मौ. अर्सनडे, डाक बोरैया, थाना कनके, जिला रांची, पिन- 835240 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 63 | 8.12.40 |
| 537 | देव प्रकाश आर्या, पुत्र स्व. श्री भुवनेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1069 / 2000 | मौ. स्टेशन बाजार, डाक रेलवे स्टेशन, थाना बढ़, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 7.4.47 |
| 538 | देव प्रसाद, पुत्र श्री दीना नाथ | बिहार एस वी सी / 1869 / 2000 | ग्राम नारायण पुर, डाक नियाजीपुर, थाना सिमरी जिला बक्सर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 7.7.68 |
| 539 | देव प्रसानन सिंह, पुत्र रव. श्री राम नाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 846 / 2000 | ग्राम एवं डाक— खानोरी कलां, थाना अग्रियांव बागेर, जिला आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 1.6.47 |
| 540 | देओकी नंदन प्रसाद, पुत्र श्री शिओ नंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1097 / 2000 | ग्राम पताम्बर, डाक पताम्बर, थाना सिकंदरा, जिला जमुई | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 81 | 8.9.55 |
| 541 | देओनंदन चौधरी, पुत्र रव. श्री विश्वनाथ चौधरी | बिहार एस वी सी / 1806 / 2000 | ग्राम बावनगाम, डाक एवं थाना त्रिवेणीगंज, जिला सुपौल | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 1.7.48 |
| 542 | देओ नौथ सिंह, पुत्र रव. श्री फुलेना सिंह | बिहार एस वी सी / 1754 / 2000 | ग्राम दुमारा, डाक कला— दुमारा, थाना जी बी नगर, जिला सीकन | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 17.7.46 |
| 543 | देओ पूजन सिंह पुत्र श्री यदुराम सिंह | बिहार एस वी सी / 1426 / 2000 | मौह, महावीर टोला, डाक एवं थाना आराह, जिला आराह (भोजपुर) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 9.1.45 |
| 544 | देओरी डॉ. सौरभ, पुत्र श्री उमेश च. देओरी | ए एस एम/ 1927 / 2000 | ग्राम कोलोलोवा देओरी गांव, डाक आदर्श देओरी गांव, जिला डिब्रूगढ़ | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 545 | देसाई कबीर रासुलसो | एम एस वी सी/ 6314 / 2000 | उच्चांवकर गली शिरोली (डाक), हटकनोंगेल, जिला कोल्हापुर- 416122 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 21.1.78 |
| 546 | देशमुख गणपत भास्कर राव | एम एस वी सी/ 6279 / 2000 | बी-20, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ कॉलोनी, कृष्णा नगर, अकोला- 444104 | बी वी एस सी एंड ए एच/ पी के वी/ 77 | 24.8.95 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|--|---|----------|
| 547 | देशपांडे महेंद्र प्रभाकर | एम एस वी सी / 6312 / 2000 | द्वारा पी जी देशपांडे, पितृ छाया, रामकृष्ण नगर, बासमत | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 20.5.78 |
| 548 | देशरथ प्रसाद गुप्ता, पुत्र श्री कगलेश्वरी प्रसाद गुप्ता | बिहार एस वी सी / 1472 / 2000 | ग्राम मराइवा, डाक पीपरा लतीफ, थाना परबत्ता, जिला खगरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 17.7.47 |
| 549 | देव राज, पुत्र श्री मेला राम | पी वी एस वी सी / 2207 / 2000 | म.न.101, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, लहरगंगा 148031, जिला संगरुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 20.3.77 |
| 550 | देवा लक्ष्मी एन, पुत्री श्री एन देव श्याम | ए पी एस वी सी / 03632 / 2000 | म.न. 1-13-13, तेलगापेलेम, । वार्ड, धोन्नूर, गुंटूर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 10.8.77 |
| 551 | देवानंद साम्मा राव, पुत्र श्री के साम्मा राव | ए पी एस वी सी / 03678 / 2001 | द्वारा बालाजी राव पी जाधव, सिंगागोवे, तनूर (एम), मुधोल तालुक | बी वी एस सी एंड ए एच/पी डी के वी / 98 | 7.1.76 |
| 552 | देवेंद्र कुमार | आर ए जे एस वी सी / 2673 / 2000 | द्वारा हरिचरन लाल गुप्ता, म.न. 7, किला, निकट अग्रवाल अस्पताल, भरतपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 91 | 1.1.67 |
| 553 | देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा, पुत्र श्री एच के दास | एम पी एस वी सी / 1932 / 2001 | म.न.1, गर्ल्स कॉलेज के सामने, जेल रोड, टीकमगढ़—472001 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी / 84- 85 | 1.9.62 |
| 554 | देवेंद्र नाथ द्विवेदी, पुत्र श्री गुप्त नाथ द्विवेदी | बिहार एस वी सी / 1632 / 2000 | ग्राम रोजा की अमिधी, थाना रामपुर, जिला भमुआ | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 19.2.59 |
| 555 | देवेंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र श्री देओशरण सिंह | बिहार एस वी सी / 1397 / 2000 | ग्राम हेमनचाक, डाक शोरामपुर, थाना नौबतपुर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 80 | 4.1.55 |
| 556 | देवेंद्र प्रसाद, पुत्र श्री वैद्यनाथ लाल दास | बिहार एस वी सी / 1598 / 2000 | मौह, चित्रगुप्त नगर, डाक थाना एवं जिला सहरसा, पिन—852201 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 15.12.49 |
| 557 | देवेन्द्र कुमार | पॉण्डी / 106 / 2000 | 99, राजाजी नगर एक्स., 32, दूसरा क्रॉस, अवर्झननगर, चौथा मेन, पॉण्डीचेरी | बीबीएससीएंडएच/ जीबीपीकेइवीपीवीवी/ पीएनएजीएआर / 76 | 22.11.51 |
| 558 | देवेश कुमार सिंह, पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1466 / 2000 | मौह, डाक एवं थाना-लाटेहर, जिला पलामू | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 28.1.66 |
| 559 | देवी प्रसाद ईसोरे | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2804 / 2000 | डाक तूफानगंज, जिला कूचबिहार | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------------|--|--|----------|
| 560 | देवी शंकर राजोरिया, पुत्र श्री शम्भू लाल राजोरिया | आर ए जे एस वी. सी./ 2626/ 2000 | ग्राम एवं डाक रामगढ़ पचवाड़ा, दौसा | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 23.4.71 |
| 561 | देवी सिंह राजपूत, पुत्र श्री माल सिंह | आर ए जे एस वी. सी./ 2672/ 2000 | कचवा आइस फैक्ट्री विलिंग, गजनेर रोड, बीकानेर— 334001 | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 23.12.74 |
| 562 | देवनन्दन प्रसाद, पुत्र स्व. श्री चोटी महतो | बिहार एस वी सी / 1098/ 2000 | ग्राम निमनावाड़ा, थाना एवं जिला जमुई | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 83 | 1.4.58 |
| 563 | दामोदरन एन | केरल एस वी सी / 2440/ 2000 | IV / 303, वरियथ परम्पुरु केरलासेरी, पलककड जिला | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 94 | 15.3.71 |
| 564 | धनंजय कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री पराण नाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 849/ 2000 | ग्राम एवं डाक भोहनपुर कारिया, थाना बारहोरा, जिला आशाह | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 10.7.44 |
| 565 | धनंजय कुमार सिन्हा, पुत्र डॉ. राम दास सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1189/ 2000 | मौ. बोरिंग रोड, डाक जी पी ओ, थाना डिघा, जिला पटना— 800001 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 28.11.67 |
| 566 | धनंजय कुमार, पुत्र श्री रामविलास प्रसाद | बिहार एस वी सी / 845/ 2000 | ग्राम नरोत्तम चाक, डाक चिश्तीपुर, थाना नगर नौसा, जिला नालंदा— 803202 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 89 | 25.5.64 |
| 567 | धनंजय कुमार, पुत्र श्री सरयू सिंह | बिहार एस वी सी / 1185/ 2000 | ग्राम एवं डाक— धान दिहारी, थाना कुरथा, जिला जहानाबाद, पिन— 804429 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 27.9.68 |
| 568 | धनंजय प्रसाद सिंह, पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह | बिहार एस वी सी / 873/ 2000 | ग्राम हकीकतपुर, डाक एवं थाना बख्तियारपुर, जिला— पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 88 | 20.3.62 |
| 569 | धनंजॉय घोष, पुत्र श्री रबीन्द्र नाथ घोष | त्रिपुरा / 22/ 2000 | श्रीनगर, मिलानचक्र, डाक आद. नागर, त्रिपुरा पश्चिम— 799003 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 11.7.53 |
| 570 | धनदार चंद्रकांत रामकृष्ण | एम एस वी. सी./ 6301 / 2000 | द्वारा धनदार एम एन. एडव. भीमनगर, भाओसिंगपुर, औरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी / 2000 | 19.8.73 |
| 571 | धनिक लाल मंडल, पुत्र स्व. श्री भुरुत्तु मंडल | बिहार एस वी सी / 944/ 2000 | ग्राम बारी चैतड़िया, डाक खवासपुर, थाना पीरपेंती, जिला भागलपुर—813209 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 91 | 26.1.67 |
| 572 | धनीराम प्रधान, पुत्र श्री लालाराम प्रधान | एम पी. एस वी सी / 1907/ 2000 | ब्लौक कॉलोनी, लैलूगा जिला, रायगढ़— 496113 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 91— 92 | 15.8.64 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|---|--|----------|
| 573 | धनराज प्रसाद, पुत्र स्व. श्री बलदेव प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 877/ 2000 | ग्राम पोडिया, डाक पोडिया, थाना फाल्का, जिला - कटिहार | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 18.1.45 |
| 574 | धारास्कर समराधनी धूव | एम एस वी सी/ 6342/ 2000 | नीलगिरि, 156, रामदासपेठ, नागपुर, जिला नागपुर- 440010 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी /2000 | 13.12.77 |
| 575 | धर्म देव प्रसाद सिंह, पुत्र रव. श्री रामपुकार सिंह | बिहार एस वी सी/ 1593/ 2000 | ग्राम एवं डाक नेऊर, थाना लंकाही, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 82 | 6.11.59 |
| 576 | धर्म देव प्रसाद, पुत्र स्व. श्री दारोगी शौ | बिहार एस वी सी/ 1685/ 2000 | ग्राम डाक एवं थाना- हरनौट, जिला नालंदा, पिन- 803110 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 8.4.44 |
| 577 | धर्मदेव तिवारी, पुत्र श्री सरयुग तिवारी | बिहार एस वी सी/ 1746/ 2000 | ग्राम सहलादपुर, डाक कोर हुआ, थाना मोमागढ़, जिला गोपालगंज, पिन- 841427 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 2.7.43 |
| 578 | धर्मेंद्र कुमार | आर ए जे एस वी सी/ 2659/ 2000 | 172 बी, तलवंडी, कोटा | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 15.10.71 |
| 579 | धर्मेंद्र कुमार, पुत्र श्री नरेंद्र मोहन प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 2090/ 2001 | ग्राम चंधेरी, डाक साबौर, थाना साबौर, जिला- भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 2000 | 25.6.74 |
| 580 | धीरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र रव. श्री शिवेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 2080/ 2001 | ग्राम एवं डाक- खुरहान, थाना आलमनगर, जिला माधेपुरा ए एच/आर ए यू/ 78 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 17.8.55 |
| 581 | धीरेंद्र, कुमार, पुत्र श्री प्रयाग नारायण सिंह | बिहार एस वी सी/ 2086/ 2001 | ग्राम परसुराई, डाक पनहार, थाना खुदागंज, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/के के वी/ 2000 | 21.5.74 |
| 582 | धूलपा मेलिनामानी, पुत्र श्री सिद्धपा | कर्ना एस वी सी/ 3164 | कन्नाल पोस्ट, बसावना, बेगावाडी तालुक, बीजापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 1.6.77 |
| 583 | धोते शीतल ध्यानेश्वर | एम एस वी सी/ 6297/ 2000 | मथुरा निवास, राठी नगर, अमरावती, कम्प्यूटर सर्कल रोड, अमरावती- 444606 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/ 2000 | 21.12.76 |
| 584 | धूव देव शंकर पांडे, पुत्र स्व. श्री गोकुला नंद पांडे | बिहार एस वी सी/ 1582/ 2000 | ग्राम चखारी, डाक राज वटिया, थाना बगाहा, जिला प. चम्पारन, पिन- 845101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 21.7.44 |
| 585 | धुरखोली राम, पुत्र स्व. श्री मुखलाल राम | बिहार एस वी सी/ 1388/ 2000 | ग्राम डेकुली, डाक मूसेपुर, थाना बिहटा, जिला पटना, पिन- 801103 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 8.2.48 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---|---|--|----------|
| 586 | दिगम्बर प्रसाद सिंह, पुत्र श्री ज्योतिश प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1679 / 2000 | ग्राम न्यू शिवपुरी, डाक पॉलीटेक्निक, थाना के हाट, जिला पूर्णिया— 854301 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 30.3.58 |
| 587 | दिल नारायण घौधरी, पुत्र श्री नाथुन घौधरी | बिहार एस वी सी / 1204 / 2000 | ग्राम अकल वीघा, डाक एवं थाना— बेलांगंज, जिला गया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 3.7.53 |
| 588 | दिलीप देबनाथ, पुत्र ले. श्री अतुल देबनाथ | त्रिपुरा / 65 / 2000 | इंद्रानगर, डाक इंद्रानगर, त्रिपुरा (प.), पिन— 799006 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 83 | 12.1.61 |
| 589 | दिलीप कुमार झा, पुत्र श्री राम रत्न झा | बिहार एस वी सी / 1310 / 2000 | ग्राम एवं डाक पांचाय, थाना विसानपुर, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 15.7.52 |
| 590 | दिलीप कुमार नाथ, पुत्र श्री उमेश च. नाथ | त्रिपुरा / 21 / 2000 | धालेश्वर, जेल आश्रम रोड, डाक धालेश्वर, त्रिपुरा पश्चिम | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 11.4.54 |
| 591 | दिलीप कुमार रजाक, पुत्र श्री शंकर लाल रजाक | बिहार एस वी सी / 1750 / 2000 | मौ. अपर बाजार, खाला टोली, थाना कोतवाली, जिला रांची, पिन— 834001 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 26.1.66 |
| 592 | दिलीप कुमार दास, पुत्र श्री मदन मोहन दास | कर्ना एस वी सी / 3149 | पी एन 54 / 2, सी आर एस एरिया, एवर फोर्स स्टेशन, बिदर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 22.9.77 |
| 593 | दिलीप कुमार झा, पुत्र श्री तेज नारायण झा | बिहार एस वी सी / 1313 / 2000 | ग्राम एवं डाक— पाढी, थाना माधेपुर, जिला मधुबनी, पिन— 847408 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 95 | 4.3.69 |
| 594 | दिलीप कुमार कछप, पुत्र स्व. श्री अगाधित कछप | बिहार एस वी सी / 1597 / 2000 | मौह. कनके, पतराटोली, डाक आर वी सी, थाना कनके, जिला रांची: 834007 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 86 | 1.1.59 |
| 595 | दिलीप कुमार प्रसाद | डब्ल्यू वी एस वी सी / 2782 / 2000 | 2 / 18, अशोक एवेन्यू (ए जोन), दुर्गापुर— 713204, जिला बर्दिवान | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू वी यूए एफ एस / 2000 | |
| 596 | दिलीप कुमार सिंह द्वान, पुत्र स्व. श्री तेज नारायण सिंह | बिहार एस वी सी / 2004 / 2000 | ग्राम एवं डाक— आराह, थाना धौलार, जिला— माधेपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 14.9.54 |
| 597 | दिलीप कुमार, पुत्र श्री नागेश्वर | बिहार एस वी सी / 1578 / 2000 | ग्राम धुनहा, डाक बंसानी, थाना कमनारिया, जिला— माधेपुरा, पिन— 852131 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 6.1.73 |
| 598 | दिलीप कुमार, पुत्र श्री मथुरा नाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 1021 / 2000 | ग्राम एवं डाक नरहिंदियारा, थाना साहेबगंज, जिला साहेबगंज | बी वी एस सी एंड एच/आर ए यू/ 94 | 6.3.69 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------------|---|---|----------|
| 599 | दीनदयाल प्रसाद, पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1573 / 2000 | ग्राम माहडेरा, डाक एवं थाना ब्रियासपुर, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 1.1.46 |
| 600 | दिनेश चंद्र, पुत्र स्व. श्री गुन प्रकाश | यू पी वी सी / 3197 | द्वारा: आर सी जिन्दल, 54 / 4, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ | बी वी एस सी एंड ए एच/आगरा वि वि / 72 | 24.11.47 |
| 601 | दिनेश चौधरी, पुत्र स्व. श्री कपूर चंद्र चौधरी | बिहार एस वी सी / 833 / 2000 | ग्राम तेंदुवहार, डाक रंजनडीह, थाना राजपुर, जिला रोहतास- 802219 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 80 | 2.5.56 |
| 602 | दिनेश जैन | आर ए जे एस वी सी / 2651 / 2000 | 22, वीर लोक्षा कॉलोनी, अजमेर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 19.12.73 |
| 603 | दिनेश कांत ठाकुर, पुत्र तेजनारायण ठाकुर | बिहार एस वी सी / 1509 / 2000 | ग्राम एवं डाक- करियान, थाना- रासीड़ा, जिला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 11.10.40 |
| 604 | दिनेश कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री प्रियदर्शिनी सिंह | बिहार एस वी सी / 931 / 2000 | मौ.- श्री कृष्णा नगर, डाक एवं थाना- औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद- 824101 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 8.8.42 |
| 605 | दिनेश कुमार सिंह, पुत्र श्री कैलाश प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1721 / 2000 | ग्राम बनिया, डाक भवानीपुर, थाना गोपालपुर, जिला भागलपुर, पिन 853204 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 20.9.70 |
| 606 | दिनेश कुमार चौधरी, पुत्र श्री रामदेव चौधरी | बिहार एस वी सी / 1309 / 2000 | ग्राम एवं डाक: साहारी, थाना बढ़, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 87 | 5.10.59 |
| 607 | दिनेश कुञ्जनपुरी पुत्र श्री सत्यम नारायण चौधरी | बिहार एस वी सी / 1571 / 2000 | मौ. मिस्चर्व वाडी, डाक मिस्चर्व वाडी चौक, थाना एवं जिला कटिहार | बी वी एस सी एंड ए एच/ओ यू ए एंड टी / 91 | 14.12.67 |
| 608 | दिनेश कुमार शर्मा | आर ए जे एस वी सी / 2664 / 2000 | पी. न. 169, स्ट्रीट न. 3, विजय वाडी, सीकर रोड, जयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 1.5.75 |
| 609 | दिनेश कुमार शिवराइन पुत्र श्री भरम पाल शिवराइन | आर ए जे एस वी सी / 2752 / 2001 | ग्राम एवं डाक ककरोले हठी, जिला भिवानी, हरियाणा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 27.9.68 |
| 610 | दिनेश कुमार वैष्णव, पुत्र श्री सुरेश कुमार | आर ए जे एस वी सी / 2671 / 2000 | म.न. 38, न्यू जवाहर नगर, कोटा- 324005 | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 13.12.75 |
| 611 | दिनेश सिंह नेहरा, पुत्र श्री एम आर नेहरा | आर ए जे एस वी सी / 2708 / 2000 | जरसी का वाश चाला, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/ राज कृषि वि वि / 2000 | 27.12.75 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अवस्थाएं | जन्मतिथि |
|---------|--|--|---|--|----------|
| 612 | दिनेश सिंह राक्ता, पुत्र श्री वी. पी. सिंह | यू. पी. वी. सी./ 3247 | iv/1882, जा. कॉलोनी, पंत नगर, यू. एस नगर, उ.प्र. | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/जी. वी. पी. यू. ए. एंड. टी/2000 | 28.3.78 |
| 613 | दिनेश कुमार गौतम, पुत्र श्री राम सुंदर गौतम | एम. पी. एस. वी. सी./ 1931/ 2001 | ग्राम. एवं डाक बड़े गाँव, जिला टीकमगढ़—472001 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/जे. एन. के वी. वी./74 | 6.6.51 |
| 614 | दिनेश्वर प्रसाद शर्मा, पुत्र स्व. श्री रामाशीष सिंह | बिहार एस. वी. सी./ 913/ 2000 | ग्राम सायवान—यदगारा, डाक गोरखारी, थाना—विक्रम, जिला पटना | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/आर. ए. यू./ 76 | 8.2.52 |
| 615 | दिनिज एलिजाबेथ जयगूड़ दो कार्मा | एम. एस. वी. सी./ 6285/ 2000 | 14/ 7, मोलविका कांति नगर, जे. वी. नगर, अधेरी (पू.), मुखई—400059 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/के. के. वी./ 98 | 12.1.77 |
| 616 | दिनकर कुमार, पुत्र श्री वीरेंद्र प्रसाद | बिहार एस. वी. सी./ 928/ 2000 | मौह. लश्करी चाक, डाक पारसा, थाना पतुआ, जिला पटना | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/आर. ए. यू./ 93 | 3.1.70 |
| 617 | दीपांजीत पुरकायस्थ, पुत्र श्री रासमय पुरकायस्थ | त्रिपुरा/ 52/ 2000 | संकर चौमहानी (पूर्व), कृष्णनगर, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/आर. ए. यू./ 82 | 2.10.57 |
| 618 | दीपांशु चौधरी, पुत्र श्री सचीन्द्र मोहन | त्रिपुरा/ 51/ 2000 | ठाकुरपत्ती, रोड, कृष्णनगर (निकट स्काई लार्क लेब), डाक अगरतला, त्रिपुरा | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/बी. सी. के वी. वी./ 82 | 18.12.58 |
| 619 | दीप्ती रंग | डब्ल्यू. वी. एस. वी. सी./ 2788/ 2000 | ब्लॉक न.2/6, टाइप3, डाक लाटबागान, गवर्नर हाउस, बैरक पार, जिला 24 परगना (उ.) | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/डब्ल्यू. वी. यू. ए. एफ. एस./2000 | |
| 620 | दिव्यांशु प्रकाश, पुत्र स्व. श्री उत्तम चंद्र सिंह | बिहार एस. वी. सी./ 1866/ 2000 | ग्राम दौलतपुर, डाक खानपुर माल, थाना सुल्तानगंज, जिला भागलपुर—814113 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/आर. ए. यू./ 76 | 1.4.58 |
| 621 | दिवाकर प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री चंगा प्रसाद सिंह | बिहार एस. वी. सी./ 1591/ 2000 | ग्राम एवं डाक कुटौट, थाना बारबींधा, जिला शेखपुरा, पिन—811101 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/एम. यू./ 65 | 1.1.43 |
| 622 | दिवाकर रेड्डी पी., पुत्र श्री पी. वेंकट रमन रेड्डी | ए. पी. एस. वी. सी./ 03599/ 2000 | प्लॉट न. 8८, साई नगर, ममतानगर, नागोले (डाक), आर. आर. जिला—500068 | बी. वी. एस. सी./ ए. पी. ए. यू./ 77 | 1.1.53 |
| 623 | ध्यानेश्वर काम्बले, पुत्र श्री जोतिवा काम्बले | कर्ना एस. वी. सी./ 3077 | जामलस्ती डाक, अथानी ताम्लुक, बेसगाम जिला | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/यू. ए. एस धारवाड/ 99 | 20.7.76 |
| 624 | डॉ. मुकेश कुमार गौड़, पुत्र स्व. श्री चमन लाल शर्मा | यू. पी. वी. सी./ 3259 | एस. डी.—144, शास्त्री नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/जी. वी. पी. यू. ए. एंड. टी/2000 | 25.4.77 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|-------------------------------|--|---|----------|
| 625 | डॉ. संदीप कुमार सिंह, पुत्र श्री आर पी सिंह | यू. पी. वी. सी./ 3289 | 112, प्रदीप भवन, नई बस्ती, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उ.प्र. | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/जी. बी. पी. यू. ए. एंड टी/2000 | 1.5.77 |
| 626 | दुर्गा राम, पुत्र स्व. श्री भग्नूती राम | बिहार एस.वी. सी./ 1106/ 2000 | मौ. कोइरी टोला, डाक एवं थाना बेतिया, जिला बेतिया, पिन- 845438 | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/आर.ए.यू./75 | 12.1.50 |
| 627 | दुर्गा सिंह, पुत्र श्री भूपाल सिंह | यू. पी. वी. सी./ 3216 | ग्राम. धिघराना, डाक गोपेश्वर, जिला चमोली, उ.प्र. | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/सी.एस.ए.यू.ए.एंड.टी/2000 | 12.3.72 |
| 628 | दत्ता भुयन डॉ. द्विपेंद्र, पुत्र स्व. श्री नरेंद्र नाथ | ए.एस.एम./ 1893/ 2000 | ग्राम चमाता, डाक पश्चिम, जिला नलबारी, पिन- 781306, चाहाटा | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/ए.ए.यू./2000 | |
| 629 | द्विजेन्द्र देव, पुत्र स्व. श्री नारेंद्र देव बर्मा | त्रिपुरा/ 40/ 2000 | जॉय नगर (देशमीघाट) डाक अगरतला, त्रिपुरा(प.) | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/बी.सी.के.वी.वी./80 | 10.3.55 |
| 630 | इलान्धेजियान एन | पॉण्डी/ 87/ 2000 | 97, पांचवा क्रॉस, कुमरान नगर, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी - 8 | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/मारवाड़ कृषि वि.वि./95 | 10.5.73 |
| 631 | एंगतिपि डॉ.(श्रीमती) होंगबारी, पुत्री स्व. श्री हरसिंग एंगती | ए.एस.एम./ 1891/ 2000 | झारा तेनजिंग एंगती, रोगमिति दीफु, कारबी-एंगलोंग, पिन- 782460 | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/ए.ए.यू./2000 | |
| 632 | फणिन्द्र नाथ द्विवेदी, पुत्र रव. श्री बद्री नारायण द्विवेदी | बिहार एस.वी.सी./ 1649/ 2000 | ग्राम कृतपुर मदियान, डाक एवं थाना हरसिधि, जिला प. चम्पारन | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/आर.यू./68 | 7.6.46 |
| 633 | फतेहुज्मा मौह., पुत्र हकीम अब्दुल अली | बिहार एस.वी.सी./ 1019/ 2000 | मौ. न्यू कॉलोनी, मिल्की मौह, डाक आरा, थाना टाउनथाना, जिला भोजपुर, पिन 802301 | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/आर.ए.यू./93 | 5.1.69 |
| 634 | फणी शंकर श्रीनाथ के, पुत्र श्री के चंद्रशेखर राव | ए.पी.एस.वी.सी./ 03660/ 2000 | 49-1-133, पावर हाउस के सामने, गुनडाला, विजयवाड़ा | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/ए.एन.जी.आर.ए.यू./2000 | 16.11.75 |
| 635 | जी. कांडीपन | पॉण्डी/ 134/ 2001 | 24, कुड्डीरुप्पु पलयम, डाक सेलियामेहु, पॉण्डीचेरी-607402 | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/पी.यू./2000 | 22.8.77 |
| 636 | जी. युवराज | पॉण्डी/ 133/ 2001 | 190, कुड्डलोर मेन रोड, मुथलियारपेट, पॉण्डीचेरी-605004 | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/पी.यू./2000 | 5.8.76 |
| 637 | गबर सिंह विष्ट, पुत्र रव. श्री डी.एस.विष्ट | आर.ए.जे.एस.वी.सी./ 2669/ 2000 | म.न. 171, ईदगाह के पीछे, किशोरपुरा, कोटा- 324009 | बी. वी. एस. सी. एंड ए एच/राज कृषि वि./2000 | 1.6.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|---|----------|
| 638 | गदाधर प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री राम सिंगार सिंह | बिहार एस वी सी / 1126 / 2000 | ग्राम सैदनपुर, डाक मंडलाबाद, थाना पटुआ, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/65 | 12.5.42 |
| 639 | गडे पृथ्वी राज लक्ष्मण | एम पी एस वी सी / 6389 / 2000 | एटी डाक बोरीबेल, (गडेवाडी), तालुक दौँड, जिला पुणे— 413801 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी / 2000 | 5.7.78 |
| 640 | गडगे विजय कुमार भास्कर राव | एम पी एस वी सी / 6306 / 2000 | टेली. एक्सचेंज कार्यालय के निकट, सावरकर पेठ, अंजनगांव, सुरजी | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी / 1999 | 2.7.76 |
| 641 | गदिया राम कृष्ण मोहन, पुत्र श्री सेषफणि | ए पी एस वी सी / 03548 / 2000 | कवा.न. ए ई— 28, बी, कॉलोनी, न्यू पलांचा, खम्मम जिला 507115 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/99 | 30.1.75 |
| 642 | गगन दीप गुप्ता, पुत्र श्री शाम लाल गुप्ता | पी बी एस वी सी / 2246 / 2001 | म.न. 1895, सेक्टर 22— बी, चण्डीगढ़ | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 18.10.75 |
| 643 | गगन दीप सिंह, पुत्र श्री बचन सिंह | एम पी एस वी सी / 6340 / 2000 | म.न. 2019, मौह, बागवाला, गली न. 6, ग्राम एवं डाक शाहकोट, जालंधर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 11.2.78 |
| 644 | ग्राहडगे रणजीत सिंह बालंसो | एम एस वी सी / 6340 / 2000 | श्रद्धा, अकोला रोड, एटी डाक संगोला, तालुक संगोला | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 20.7.78 |
| 645 | गायकवाड संतोष सीताराम | एम एस वी सी / 6346 / 2000 | विठाई माणिकनगर, पुणे रोड के निकट, शिल्पा अपा. के निकट, अहमदनगर | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी / 2000 | 20.7.77 |
| 646 | गायकवाड. विलास तुकाराम | एम एस वी सी / 6303 / 2000 | एटी पोर्गांव, तह. खंडाला, जिला सतारा— 412802 | बी वी एस सी एंड ए एच/के के वी/ 1998 | 17.5.76 |
| 647 | गजानन अथानी, पुत्र श्री गुलपा तमन्ना अथानी | कर्ना एस वी सी / 3108 | अथानी डाक, अलकनूर, रायबाग तालुक, बेलगाम जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 98 | 1.8.69 |
| 648 | गजेंद्र प्रसाद रौय, पुत्र रव. श्री रामेश्वलोक रौय | बिहार एस वी सी / 1441 / 2000 | ग्राम बरियारपुर, डाक बघारा, थाना शाहपुर, फैकट्री, जिला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 9.7.48 |
| 649 | गजराज गिरि, पुत्र स्व. श्री आर आर गिरि | एम पी एस वी सी / 1879 / 2000 | रघुराज तुलसी छाया, साई मंदिर रोड, जडा भाटा, बिलासपुर— 495115 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 69 | 13.1.43 |
| 650 | गाकारे माधुरी उत्तमराव | एम एस वी सी / 6407 / 2001 | प्लॉट न. 221, वार्ड न. 22, सदाम पुरी, वर्धा, जिला वर्धा— 442001 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी / 2000 | 6.9.77 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|---|--|----------|
| 651 | गलधर चंद्रकांत नारायण राव | एम एस वी सी/ 6373 / 2000 | द्वारा सखाराम काकडे, किराना मर्चेंट, काकडे वाडा, मलीगल्ली, परम्बनी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 29.5.77 |
| 652 | गणेश कुमार झा, पुत्र श्री भोला नाथ झा | बिहार एस वी सी / 1665 / 2000 | ग्राम सिकंदरपुर, डाक मिरजन हाट, थाना मजाहीपुर, जिला भागलपुर, पिन-800005 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 82 | 27.2.57 |
| 653 | गणेश कुमार दूबे, पुत्र श्री के एल दूबे | एम पी एस वी सी / 1900 / 2000 | 7— ए एस पी / ए-सेक्टर 9, भिलई जिला दुर्ग- 490006 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 87 | 2.9.62 |
| 654 | गणेश लाल नायक | आर ए जे एस वी सी / 2661 / 2000 | 20, नायक कॉलोनी, झोतवाडा, जयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृषि वि / 2000 | 6.12.70 |
| 655 | गणेश प्रसाद यादव, पुत्र श्री मौजी लाल यादव | बिहार एस वी सी / 1594 / 2000 | ग्राम भालनी, डाक- गंगापुर, थाना मुरलीगंज, जिला माधेपुरा, पिन- 852112 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 18.7.49 |
| 656 | गणेश प्रसाद वर्मा, पुत्र रव. श्री विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा | बिहार एस वी सी / *1327 / 2000 | मौह. वरसाई घाट, थाना वरसाई, जिला कटिहार | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 71 | 16.6.45 |
| 657 | गंगा नाइक, पुत्र श्री शेक्या नाइक | कर्ना एस वी सी / 3165 | रोपाड्टी, डाक राजगोडानाहल्ली, तालुक चन्नागिरि, जिला दावणगेरे | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 18.6.75 |
| 658 | गंगाधरइयाह एच के, पुत्र श्री कामइयाह | कर्ना एस वी सी / 3202 | होयसालाकटटे, चिककनायकनाहल्ली तालुक, तुमकुर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 21.7.75 |
| 659 | गंगानंद झा, पुत्र स्व. श्री कुमुदानंद झा | बिहार एस वी सी / 1724 / 2000 | ग्राम एवं डाक मिरदौल, थाना नरपटगंज, जिला अरेरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 17.5.47 |
| 660 | गंगू नायडू एस, पुत्र श्री एस रामू नायडू | ए पी एस वी सी / 03648 / 74 | एस आर पेटा (पी), कोटनंदुरु (एम), जिला पूर्णी गोदावरी- 522410 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू / 2000 | 15.2.74 |
| 661 | गौरव राठौड़, पुत्र डॉ. वी एस राठौड़ | यू पी वी सी / 3283 | 146, जनकपुरी, इज्जत नगर, बरेली, उ.प्र.- 243122 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी वी पी यू ए एंड टी / 91 | 23.6.69 |
| 662 | गौरी शंकर प्रसाद, पुत्र रव. श्री वाखोरी शाह | बिहार एस वी सी / 1075 / 2000 | ग्राम एवं डाक- गुलजारपुर थाना सहर, जिला भोजपुर (आराह) | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 10.1.48 |
| 663 | गौतम दास गुप्ता, पुत्र श्री सत्य रंजन दास गुप्ता | त्रिपुरा / 44 / 2000 | आई टी आई रोड, डाक इंद्रानगर, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम, पिन- 799006 | बी वी एस सी एंड ए एच/वी सी के वी वी / 79 | 9.1.59 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|---|--|----------|
| 664 | गौतम प्रसाद, पुत्र स्व.श्री त्रिवेनी प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1895/ 2000 | ग्राम एवं डाक सिंधिया, थाना रामनगर, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 16.1.51 |
| 665 | गया नंद सिंह, पुत्र स्व. श्री श्रीनिवास सिंह | बिहार एस वी सी/ 1020/ 2000 | ग्राम एवं डाक सिंधिया, थाना कोइलवार, जिला भोजपुर आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 5.5.44 |
| 666 | गायत्री रामनाथन | पॉण्डी/ 140/ 2001 | 2, अग्रहारम स्ट्रीट, बहौर, पॉण्डीचेरी- 607402 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 4.2.78 |
| 667 | गीता मलिक, पुत्री श्री ओम प्रकाश | एच ए आर एस वी सी/ 1620 | म.न. 219— एकर, पीलीकोठी, जवाहर नगर, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 99 | 1.1.77 |
| 668 | घडगे जयेश पानाचंद | एम एस वी सी/ 6349/ 2000 | एटी देगांव रोड, अहीरे कॉलोनी, एम आई डी सी तालुक, जिला सतारा-415004 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम शी के वी/ 2000 | 16.5.78 |
| 669 | घनश्याम प्रसाद, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1340/ 2000 | ग्राम एवं डाक सौन्सा, थाना राहुई, जिला नालंदा, पिन- 803119 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 15.12.62 |
| 670 | घेवर सिंह | आर ए जे एस वी सी/ 2608/ 2000 | राणा प्रताप बाजार गुडमा- लानी, बाडमेर, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 90 | 13.8.73 |
| 671 | घोके सुरेश समाधान | एम एस वी सी/ 6417/ 2001 | असल्का गांव, सन एस एम रोड, अम्बालीपाड़ा, घाटकोपर वेस्ट | बी वी एस सी एंड ए एच/के के वी/ 2000 | 25.6.77 |
| 672 | घुरुडे प्रवीन शालिग्राम जी | एम एस वी सी/ 6305/ 2000 | एटी डाक दारापुर, तालुक दरयापुर, जिला अमरावती- 444814 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/ 2000 | 1.9.74 |
| 673 | गीबा प्रसाद सेन गुप्ता, पुत्र ले. श्री एस के सेन गुप्ता | त्रिपुरा/ 5/ 2000 | जूनियर बेसिक स्कूल के सामने, अमोयनगर, त्रिपुरा (प.), पिन- 799005 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 68 | 2.1.42 |
| 674 | गिरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र श्री आर पी सिंह | यू.पी.वी.सी/ 3269 | द्वारा श्री आरपी सिंह वकील, एसबीआई के निकट, सिविल लाइन्स, कोटचेरी रोड, जौनपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू. ए एंड टी/ 68 | 2.10.64 |
| 675 | गिरि डॉ. सुरेंद्र, पुत्र श्री नाथरुनी गिरि | ए एस एम/ 1902/ 2000 | ग्राम एवं डाक जागीरोड़, जिला मोरीगांव, असम, पिन- 782410 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2030 | |
| 676 | गिरिजा सी आर | पॉण्डी/ 92/ 2000 | न. 5, श्रुति चौथा कॉस, नतेसन नगर, पॉण्डीचेरी- 605005 | बी वी एस सी एंड ए एच/केरल कृ वि वि/ 78 | 30.11.56 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मसिधि |
|---------|---|--------------------------------------|---|--|----------|
| 677 | गिरीश चंद्र झा, पुत्र श्री ताराकांत झा | बिहार एस वी सी / 1551 / 2000 | ग्राम एवं डाक हरिहरपुर, थाना कमतौल, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 81 | 9.6.56 |
| 678 | गिरीश चंद्र रॉय, पुत्र रव. श्री दशरथ रॉय | बिहार एस वी सी / 1160 / 2000 | ग्राम उकाई, डाक मनिगढ़ी, थाना सरवन, जिला देवघर, पिन- 814112 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 1.1.43 |
| 679 | गिरीश चंद्र शर्मा | वी सी आई / 2251 / 2000 | कांग मेंशन, इलाहाबाद बैंक के पीछे, वार्ड न. 18, सूरलगढ़, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 26.9.74 |
| 680 | गिरीश चंद्र शर्मा | आर ए जे एस वी रो / 2689 / 2000 | कांग मेंशन, इलाहाबाद बैंक के पीछे, वार्ड न. 18, सूरलगढ़- 335804 | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 26.9.74 |
| 681 | गिरीश कुमार सिन्हा, पुत्र श्री रिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 2048 / 2000 | ग्राम एवं डाक- चैवसा, थाना शेखपुरा, जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 12.12.70 |
| 682 | गिरीश प्रसाद, पुत्र रव. श्री जगन्नाथ प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1116 / 2000 | ग्राम योगिनी, डाक: कोआथ, थाना दावथ, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 18.8.42 |
| 683 | गोगोई डॉ. (श्रीमती) रुमी, पुत्री रव. श्री रवी राम गोगोई | ए एस एम / 1906 / 2000 | द्वारा श्रीमती मंजू गोगोई, सेवाली पथ, प्रगति नगर, डाक उडयन | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 684 | गोगोई डॉ. दीपोक, पुत्र श्री मुनिन चंद गोगोई | ए एस एम / 1904 / 2000 | तेपोर ग्राम, डाक हफ्तुलातिंग, जिला सिबसागर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 685 | गोगोई डॉ. प्रशन्ना, पुत्र श्री भुबन च. गोगोई | ए एस एम / 1912 / 2000 | द्वारा श्री भुबन च.गोगोई, ग्राम कोवर गांव, डाक लखीमपुर, जिला उत्तरी लखीमपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 686 | गोगोई डॉ. (श्रीमती) श्यामालिमा, पुत्री श्री जाजनेश्वर गोगोई | ए एस एम / 1941 / 2000 | द्वारा जे गोगोई, एन एन बरुहा लेन, रुदिमनी गांव, डाक खानापाड़ा, गुवाहाटी | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 687 | गोकुला नंद चर्मा, पुत्र रव. श्री राम जानेकी प्रसाद चर्मा | बिहार एस वी सी / 1917 / 2000 | ग्राम शिवनगर भंडारी, डाक भंडारी, थाना बेलसांड, जिला सीतामढ़ी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 21.6.43 |
| 688 | गोपाल बी, पुत्र श्री बी उरुकुण्डप्पा | ए पी एस वी सी / 03673 / 2001 | वेट असि. सर्जन, वज्रकारू (एम), अनंतपुर- 515812 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 89 | 5.6.66 |
| 689 | गोपाल कृष्ण अग्रवाल | आर ए जे एस वी रो / 2666 / 2000 | बी 260 बी, एस न. 5, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर- 433245 | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 17.7.73 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|---|---|--|----------|
| 690 | गोपाल कृष्ण गुप्ता, पुत्र स्व. श्री राम दास साह | बिहार एस वी सी / 1072 / 2000 | मौह. दुमुहान पथ, डाक एवं थाना मंदूरपुर, जिला पश्चिमी सिंगभूम | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 21.2.46 |
| 691 | गोपाल कृष्ण, पुत्र श्री लखन लाल जायसवाल | यू. पी. वी. सी / 3214 | द्वारा श्री एल एल जाय सवाल, मौह. चिलबिला, डाक माधोगंज, जिला प्रतापगढ़ | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी/2000 | 15.6.74 |
| 692 | गोपाल कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री नागरमल अग्रवाल | बिहार एस वी सी / 1978 / 2000 | मौ. खारांगतार, डाक एवं थाना. टेल्को, जिला पूर्वी सिंगभूम, पिन- 831004 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 95 | 15.12.68 |
| 693 | गोपाल नारायण सिंह, पुत्र स्व. श्री नैन दग्गाल सिंह | बिहार एस वी सी / 1345 / 2000 | ग्राम पियम कला, डाक तेलारी, थाना घेनारी, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 4.2.44 |
| 694 | गोपाल प्रसाद शुक्ला, पुत्र रव. श्री ननखु शुक्ला | बिहार एस वी सी / 1282 / 2000 | मौह. टैगोर हिल रोड, डाक मोरा बाड़ी, थाना बरियातु जिला रांची | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 10.2.46 |
| 695 | गोपाल प्रसाद सिंह, पुत्र रव. श्री घोलटन सिंह | बिहार एस वी सी / 1799 / 2000 | थाना पीरपेंती, जिला भौंगलपुर, पिन- 813209 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 8.12.68 |
| 696 | गोपाल प्रसाद, पुत्र स्व. श्री देवी महतो | बिहार एस वी सी / 1286 / 2000 | ग्राम एवं डाक बड़ा मालवा, थाना सरमेरा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 19.11.47 |
| 697 | गोपाल राम रैगर | आर ए जे एस वी. सी / 2035 / 2000 | गर्ल्स स्कूल के निकट, उदयपुर वाटी, झुंझुनू | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | |
| 698 | गोपाल शामता | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2825 / 2000 | ग्राम एवं डाक साहापुर वाया खुकुरडाहा, जिला मिदनापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस / 2000 | |
| 699 | गोपी कांत ज्ञा, पुत्र रव. श्री चंद्र कुमार ज्ञा | बिहार एस वी सी / 1813 / 2000 | ग्राम एवं डाक राजरी बाबन गाम, थाना बिहारी गंज, जिला मध्यपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 9.6.52 |
| 700 | गोपी कृष्ण बोहरा, पुत्र श्री राधा कृष्ण बोहरा | आर ए जे एस वी सी / 2759 / 2001 | नव घौकिया दामजी व्यास का चौक, रामदेव स्ट्रीट, जोधपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 60 | 16.10.31 |
| 701 | गोपी नाथ पी, पुत्र श्री पी श्रीरामुल | ए पी एस वी सी / 03666 / 2000 | डी न. 6/ 471-8 बी 1 रामनगर, अनंतपुर, जिला | बी वी एस सी/ए पी ए यू / 76 | 16.10.50 |
| 702 | गोरख प्रसाद यादव, पुत्र श्री मटुकधारी प्रसाद, यादव | बिहार एस वी सी / 1752 / 2000 | ग्राम एवं डाक बेलवा बाहौरी, थाना गौनोहा, जिला प. घम्पारन, पिन- 845455 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 12.6.49 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------------|---|--|----------|
| 703 | गोरखामी अविनाश रामगीर | एम एस वी सी / 6313 / 2000 | अल लोहगांव, तालुक बिलोली, जिला नाडेड 431732 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम र यू/ 2000 | 6.2.78 |
| 704 | गोरखामी सुनील नरसिंहगिरि | एम एस वी सी / 6282 / 2000 | दाहापुटे विलिंग, अस्थिका नगर, परखला, जिला यवतमाल- 445202 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी के वी/ 92 | 17.6.69 |
| 705 | गोविंद यादव | आर ए जे एस वी सी / 2676 / 2000 | ग्राम एवं डाक मेलखारी, जिला ब्रान | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृषि वि / 2000 | 1.7.72 |
| 706 | गोविंद मेनन आर, पुत्र स्व. श्री टी रंगइयाह | कर्ना एस वी सी / 3134 | द्वारा टी के निंगप्पा, सेगुरइयाह स्ट्रीट, तारीकेरे, चिकमगलूर | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 83 | 1.8.59 |
| 707 | गोविंद राम मेघवाल | आर ए जे एस वी सी / 2629 / 2000 | ग्राम एवं डाक झाझू, तह. कोलायत, बीकानेर | बी वी.एस सी एंड ए एच/ राज कृ वि वि / 2000 | 3.12.74 |
| 708 | गौडा बी एल, पुत्र श्री भूतइयाह | कर्ना / 3192 | थोविनेकेरे, कोराटागेरे तालुक, तुमकुर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 20.4.77 |
| 709 | ग्रीशा सी एम, पुत्र श्री मोक्षनाथइयाह सी | कर्ना / 3196 | गिरीशा सी एम, चिथाना नीलया, गोपालपुरा एक्सटैं हिरियूर डाक, चित्रदुर्ग | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 5.5.76 |
| 710 | ग्रेनबर्ग हिनिल्टा | मेघ / 164 / 2001 | मदन लाबान, शिलौंग | बी वी एस सी एंड ए एच/ओ यू ए एंड टी / 97 | 30.7.72 |
| 711 | गुलाब चंद भगत, पुत्र स्व. श्री सुख लाल भगत | बिहार एस वी सी / 910 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना बोरहारवा, जिला साहेबगंज, पिन- 816101 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 82 | 6.5.57 |
| 712 | गुलाब चंद, पुत्र श्री राम प्रसाद साह | बिहार एस वी सी / 1628 / 2000 | ग्राम ईस्ट आजिमगंज, डाक एवं थाना हवेली कोजाईपुर, जिला मुंधेर, पिन- 811213 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 5.1.74 |
| 713 | गुनानंद प्रसाद सिंह, पुत्र श्री कृष्ण मोहन सिंह | बिहार एस वी सी / 1949 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना भपतियाही झाजास., जिला सुपौल, पिन- 852105 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 9.5.70 |
| 714 | गुजन दास, पुत्र श्री रम्भान च. दास | त्रिपुरा / 98 / 2000 | रविन्द्रपल्ली, गवर्न. क्वा. न. 17 / 4, अगरतला, त्रिपुरा प. | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 99 | 4.2.75 |
| 715 | गुटूर बुधइयाह | पॉण्डी / 82 / 2000 | बी- 4, गवर्न. क्वार्टर्स, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी- 8 | बी वी एस सी/ए पी ए यू / 69 | 1.7.46 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक आहताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|---|---|----------|
| 716 | गुरनाम सिंह गिल, पुत्र श्री श्रीपाल सिंह गिल | पी बी एस वी सी / 2010 / 2000 | 88, एस बी एस कॉलोनी, राजपुरा— 140401, पंजाब | बी बी एस सी एड ए एच/पी ए यू/ 1998 | 15.12.75 |
| 717 | गुरप्रीत सिंह, पुत्र श्री बलबीर सिंह | पी बी एस वी सी / 2211 / 2000 | म.न. 98, स्ट्रीट न. 3, बस स्टैंड के पास, शरीफपुरा, अमृतसर | बी बी एस सी एड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 29.10.76 |
| 718 | गुरप्रीत सिंह, पुत्र श्री प्रेम सिंह | पी बी एस वी सी / 2251 / 2001 | मैसर्स जीवन सिंह करनैल सिंह, कलोथ मर्चेंट, मेन बाजार, खन्ना | बी बी एस सी एड ए एच/पी ए यू/ 2001 | 8.6.76 |
| 719 | गुरुमूर्ति एन एम, पुत्र श्री मंजूनाथ एन आर | कर्ना एस वी सी / 3103 | छठा क्रॉस, आदर्श नगर, हसन | बी बी एस सी/यू ए एस बंगलौर/99 | 10.2.76 |
| 720 | गुरुंग डॉ. (श्रीमती) मीना, पुत्री श्री चंद्र बहादुर गुरुंग | ए एस एम / 1905 / 2000 | पुत्री सी बी गुरुंग, डाक पासीधाट, जिला ईस्ट इयांगंग, अरुणाचल प्रदेश— 791102 | बी बी एस सी एड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 721 | गुरुज्या रेड्डी पी, पुत्र श्री पी बाली रेड्डी | ए पी एस वी सी / 03677 / 2001 | वेट. असि. सर्जन, वेट. डिस्पेंसरी, पिंडूर, मनुबोलू (एम), नेल्लोर जिला | बी बी एस सी एड ए एच/ए पी ए यू/ 93 | 16.4.68 |
| 722 | गुरविंद सिंह, पुत्र श्री मिल्खा सिंह | पी बी एस वी सी / 2227 / 2001 | म.न. 239, घार कमरों का सेट, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, फिरोजपुर-सिटी | बी बी एस सी एड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 4.9.78 |
| 723 | ज्ञान प्रकाश श्री वास्तव, पुत्र स्व. श्री रामबहादुर लाल | बिहार एस वी सी / 1836 / 2000 | ग्राम जापलीगंज (नया चौक), डाक एवं जिला— अलिंगा, थाना कोतवाली | बी बी एस सी एड ए एच/एम यू/ 66 | 3.9.42 |
| 724 | ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पुत्र स्व. श्री रामदेव प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1521 / 2000 | ग्राम एवं डाक— माणिक चौक, थाना रुन्नी सैंदपुर, जिला सीतामढ़ी | बी बी एस सी एड ए एच/एम यू/ 68 | 22.8.45 |
| 725 | ज्ञानेन्द्र शर्मा, पुत्र स्व. श्री प्यारे लाल शर्मा | बिहार एस वी सी / 1086 / 2000 | ग्राम फगीरागंज, डाक कांथ, थाना कांथ, जिला मुरादाबाद, पिन— 244001 | बी बी एस सी एड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/93 | 25.3.68 |
| 726 | एच एन कर्मा, पुत्र श्री महेन्द्र कर्मा | बिहार एस वी सी / 1294 / 2000 | मौह. जनता रोड, न्यू यारपुर, डाक जी पी ओ, थाना गरबानीगंज, पटना— 800001 | बी बी एस सी एड ए एच/एम यू/ 67 | 1.10.44 |
| 727 | हलदर रौय, पुत्र स्व. श्री राम भवन रौय | बिहार एस वी सी / 1440 / 2000 | ग्राम एवं डाक— चिलहारी, थाना दुमरांव, जिला बक्सर | बी बी एस सी एड ए एच/एम यू/ 64 | 12.2.44 |
| 728 | हांडे अमोल दत्ताग्रेय | एम एस वी सी / 6388 / 2000 | निगोटवाडी, कॉलोनी मंदार, तालुक अम्बेगांव, जिला पुणे— 410503 | बी बी एस सी एड ए एच/एम पी के वी वी / 2000 | 19.6.78 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------|--|--|----------|
| 729 | हांडे प्रशांत, पुत्र श्री महादेव राव बी हांडे | आर ए जे एस वी सी/2749/ 2001 | 1/ सी, गवर्न. वेट, हॉस्पिटल, वाया: देगना, जिला नागौर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी के वी/ 94 | 9.11.71 |
| 730 | हनुमान प्रसाद वर्मा, पुत्र रव. श्री डांगरमल वर्मा | बिहार एस वी सी/ 1463/ 2000 | मौ. कल्पना सिनेमा रोड, डाक एवं थाना काहलगंव, जिला भागलपुर, 813203 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 1.1.50 |
| 731 | हाओबीजाम मंगोलजाओ सिंह | मणि/ 369/ 2000 | थंगा चिंगखा लेइकई | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 1.3.74 |
| 732 | हरदेव सिंह, पुत्र स्व. श्री सीताराम सिंह | बिहार एस वी सी/ 1113/ 2000 | ग्राम एवं डाक महुली, थाना आराह फील्ड, जिला भोजपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 28.6.44 |
| 733 | हरेंद्र प्रकाश, पुत्र श्री एस पी चौरसिया | यू पी वी सी/ 3198 | झारा डॉ. एस पी चौरसिया, 5/1308, ठी ए कॉलोनी, पंत नगर जिला, यू एस नगर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/91 | 20.6.68 |
| 734 | हरेंद्र रौय, पुत्र श्री कुंज बिहारी रौय | बिहार एस वी सी/ 143/ 2000 | ग्राम एवं डाक सासामूसा, थाना कुर्चीकाट, जिला गोपालेगज | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/84 | 1.3.63 |
| 735 | हरि बाबू एस, पुत्र श्री एस चंद्रशेखर रेड्डी | ए पी एस वी सी/ 03617/ 2000 | तिरुपति रोड, पचिकापलेम, चित्तूर जिला— 512569 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 6.3.77 |
| 736 | हरि बाबू वाई, पुत्र श्री वाई मुनि रामझाह | कर्ना एस वी सी/ 3212 | एसो. प्रोफेसर, डिपा.वेट. माइक्रोबायोलॉजी, वेट कॉलेज, बिदर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू हैद./ 74 | 20.6.52 |
| 737 | हरि शंकर झा, पुत्र श्री मुकुंद झा | बिहार एस वी सी/ 915/ 2000 | मौह. दुमरिया, डाक चापरी, थाना ठाकुर गंज, जिला गोड्डा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 91 | 21.1.65 |
| 738 | हरि शंकर कुमार, पुत्र श्री चंद्र नारायण जायसवाल | बिहार एस वी सी/ 1959/ 2000 | ग्राम एवं डाक— दौलतपुर, थाना राधोपुर, जिला सुपौल, पिन— 852215 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 99 | 15.7.75 |
| 739 | हरि भान सिंह भदोरिया, पुत्र श्री एम एस भदोरिया | एम पी एस वी सी/ 1925/ 2001 | एफ— 93/ 211, तुलसी नगर, भोपाल— 462023 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के बी वी/ 79— 80 | 20.7.59 |
| 740 | हरिहर प्रसाद चौधरी, पुत्र श्री राम चलितर चौधरी | बिहार एस वी सी/ 1584/ 2000 | मोह. आनंदपुरी, डाक हरमू हाउ.कॉलोनी, थाना अरोरा, जिला रांची, पिन— 240137 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 26.12.42 |
| 741 | हरिहर प्रसाद सिंह, पुत्र रव. श्री विशुम प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1344/ 2000 | ग्राम जीर्वकनंदा, डाक चिकसौरा, थाना हिलसा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 16.12.45 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| 742 | हरिहर प्रसाद सिंह, पुत्र श्री कामता प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1934 / 2000 | ग्राम एवं डाक बारहारी, थाना करगाहार, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 21.5.45 |
| 743 | हरिहर प्रसाद, पुत्र श्री राम सागर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1130 / 2000 | ग्राम साहूबासा, डाक सोरकंदा, थाना इशीपुर, बाराहाट, भागलपुर 813209 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 92 | 10.1.66 |
| 744 | हरिहरन ए के | केरल एस वी सी / 2512 / 2000 | एडप्पारा हाउस, कराटटु पल्लीकारा, पेरुम्बवूर, अर्नाकुलम- 42 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 4.3.71 |
| 745 | हरि कुमार एम | केरल एस वी सी / 2503 / 2000 | श्री भवन, पुथेनकुरुज, अर्नाकुलम- 682308 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 20.5.76 |
| 746 | हरिनंदन पांडे, पुत्र रत. श्री रामचंद्रमा पांडे | बिहार एस वी सी / 1224 / 2000 | ग्राम खर्ज, डाक एवं थाना सूरजपुरा, जिला रोहतास, पिन- 802221 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 1.2.46 |
| 747 | हरिप्रसाद शुक्ला, पुत्र श्री पी डी शुक्ला | एम पी एस वी सी / 1892 / 2000 | ब्लॉक कॉलोनी, पल्ली जिला, उमरिया- 484551 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 92- 93 | 27.9.71 |
| 748 | हरीश वी टी, पुत्र श्री वी रामनायक | कर्ना एस वी सी / 3079 | बलूर, कगिनाहल्ली डाक, शिकारीपुर, तालुक, शिवमोगा जिला | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 97 | 12.5.75 |
| 749 | हरीश कुमार तशिष्ठ, पुत्र श्री मुकंद लाल वरिष्ठ | एच ए आर एस वी सी / 1661 | ग्राम एवं डाक गढ़ी, तह. हांसी, हिंसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 23.11.77 |
| 750 | हरीश चंद्र, पुत्र ख्व श्री रामजनम सिंह | बिहार एस वी सी / 1208 / 2000 | ग्राम खोरैठा, डाक एवं थाना विक्रम, जिला पटना, पिन- 800114 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 20.1.50 |
| 751 | हरनंदन साह, पुत्र श्री गणेशी साह | बिहार एस वी सी / 1790 / 2000 | ग्राम एवं डाक— राकसा, थाना करेजा, जिला मुजाफ़रपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 12.8.46 |
| 752 | हाटले केतकी मधुसूदन | एम एस वी सी / 6422 / 2001 | 201 / 6 -ए, मधु मिलन गोवन्डी स्टेशन रोड, गोवन्डी पूर्व, मुम्बई- 400088 | बी वी एस सी एंड ए एच/के के वी / 2000 | 1.5.78 |
| 753 | हीरा रजक, पुत्र रत. श्री रामधारी रजक | बिहार एस वी सी / 1803 / 2000 | ग्राम पैठाना, डाक भगन बीघा, थाना रहई, जिला नालंदा, पिन- 803118 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 16.11.72 |
| 754 | हेमंत कुमार तर्मा, पुत्र रत. श्री द्वारका प्रसाद तर्मा | बिहार एस वी सी / 1723 / 2000 | ग्राम मौना, डाक छपरा, थाना सदर, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 25.2.47 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---|--|---|----------|
| 755 | हेमत कुमार पांडे, पुत्र डॉ. एस एन पांडे | बिहार एस ती सी / 1952 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना पांडेपट्टी, जिला बक्सर | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 97 | 10.12.69 |
| 756 | हेमत गिरटर शॉ, पुत्र रख. श्री गोडविल शॉ | बिहार एस ती सी / 921 / 2000 | मौह. भद्रा घाट, डाक कुलेर बाग, थाना आलमगंज, जिला पटना, पिन 800007 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 88 | 22.7.62 |
| 757 | हेमेंद्र कुमार शर्मा | आर ए जे एस ती सी / 2656 / 2000 | खादी भंडार के निकट, भुसावर, भरतपुर 321406 | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृषि वि / 2000 | 10.11.75 |
| 758 | हेम नरायण सिंह, पुत्र रख. श्री हंस नाथ सिंह | बिहार एस ती सी / 1428 / 2000 | ग्राम बेनॉट, डाक सारेनी, थाना रायुलपुर, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 15.7.48 |
| 759 | हिताल मुरादिक खान | आर ए जे एस ती सी / 2609 / 2000 | पुत्र रहमतुल्लाह खान, सोपोर, श्रीनगर, ज.एवं क. | बी वी एस सी एंड ए एच/एस के यू ए एस टी / 94 | 7.3.70 |
| 760 | हिमाद्री पेगु गादग, पल्ली डॉ. राजेय कुमार | गू. पी ती सी / 3302 | ग्राम— लांकेशर, डाक इस्माइल गंज, जिला इलाहाबाद (उ.प्र.) | बी वी एस सी एंड ए एच/असम कृ वि वि / 95 | 1.3.68 |
| 761 | हिमांशु कुमार सोनी, पुत्र रख. श्री महेश प्रसाद सोनी | बिहार एस ती सी / 1220 / 2000 | मौ. छोटी बादलपुरा, डाक एवं थाना थाना रोड, खगौल, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 82 | 1.2.57 |
| 762 | हिमांशु, पुत्र श्री तिलक राज गुप्ता | पी बी एस ती सी / 2237 / 2002 | अविनंदन सरना कनाल, डाकघर मलिकपुर, तहसील पठानकोट | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 99 | 19.3.77 |
| 763 | हीरक विस्तारा | डब्ल्यू बी एस ती सी / 2808 / 2000 | बी / 1 / 1 / 2, जयांगरा, रबीन्द्रपल्ली, डाक बगुइआती, जिला 24 परगना (उ.) | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 764 | हीरक कुमार मुख्योपाध्याय | पॉण्डी / 89 / 2000 | 11, सेकंड स्ट्रीट, कैलाश नगर, लॉरसफेट, पॉण्डीचेरी— 8 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 88 | 3.1.66 |
| 765 | होराकेरपा एस, पुत्र श्री सेशन्ना | कर्ना एस ती सी / 3115 | द्वारा हेंजेरपा, एस के एच रकूल, चन्नमा, मेगाटी हल्ली, चल्लाकेरे | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 99 | 22.2.73 |
| 766 | हृदय शंकर रिन्हा, पुत्र रख. श्री शंकर दग्गाल रिन्हा | कर्ना एस ती सी / 1089 / 2000 | मौ. यमुना अपार्ट, एफ न. 1, थाना गोड़दा टाउन, डाक कनके रोड, रांची— 834008 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 27.10.43 |
| 767 | हुकुम चंद, पुत्र श्री रूप चंद | एव ए आर एस ती सी / 1638 | ग्राम एवं डाक बल्लाह, तालुक असंद (करनाल) | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 12.4.75 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मस्थिति |
|---------|---|--|---|---|------------|
| 768 | हुसैन डॉ. मुस्तफा मुर्तजा, पुत्र मौह. मुर्तजा हुसैन | ए एस एम/ 1925 / 2000 | मीठापुखारी रोड, जोरहाट, असम, पिन- 785001 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 769 | इबानिला डैमोन रलोग | मेघ/ 170 / 2001 | लाइट्मुखरा, शिलैंग | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 9.11.76 |
| 770 | इला पांडे, पुत्री स्व. मेजर टी सी पाडे | यू पी वी सी/ 3275 | द्वारा श्रीमती गिरिजा पांडे, ताराभवन, रामनगर, नेपीताल | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/00 | 18.3.76 |
| 771 | इलांगो आई | पॉण्डी/ 85 / 2000 | 1, 13वां क्रॉस, अव्वई नगर, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी- 8 | बी वी एस/टी एन पी एंड ए एस यू/00 | 28.2.76 |
| 772 | इमलीदांगित, पुत्र श्री मेरेचुंगबा | एन एस वी सी/ 62 /98 | द्वारा एस अतुला, निदेशक, मृदा एवं जल संरक्षण | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/ 97 | 27.10.69 |
| 773 | इमनानारो जयीर, पुत्री श्री ताकुसांगबा जयीर | एन एस वी सी/ 80 /98 | ए पी ओ, वेटरिनरी, हॉस्पिटल, कोहिमा, नागालैंड | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/ 98 | 7.3.73 |
| 774 | इंद्र देव प्रसाद शर्मा, पुत्र स्व. श्री राम देव प्रसाद रिंग | बिहार एस वी री/ 1833 / 2000 | ग्राम माणिकपुर, डाक सरैया फैक्ट्री, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर, पिन- 84312 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/64 | 24.12.39 |
| 775 | इंद्रजीत प्रसाद शर्मा, पुत्र स्व. श्री केशव प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1919 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना बोरडीह, जिला देवरिया, राज्य उ. प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 1.5.43 |
| 776 | इंद्राणी मंडल | डब्ल्यू बी एस वी सी/ 2801 / 2000 | डी-11/ 21, जे सी बोस रोड, दुर्गापुर- 713205 | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 777 | इंदू शेखर, पुत्र श्री सीमा मंदिर रौय | बिहार एस वी सी/ 1261 / 2000 | ग्राम सेंदौर, डाक दयालपुर थाना जनता बाजार, जिला छपरा, पिन- 841206 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 5.11.62 |
| 778 | इंदुलकर रोशमी भारमू | एम एस वी सी/ 6344 / 2000 | मोडा बिल्डिंग, 1-ए, 105, प्रतीक्षा नगर, सिओन, मुम्बई- 400022 | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 2000 | 26.6.77 |
| 779 | इंगावले महेशकुमार गिट्ठलराव | एम एस वी सी/ 6345 / 2000 | एटी डाक मेदीशिंगई, तालुक संगोला, जिला सोलापुर- 413307 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी वी/ 1999 | 20.12.76 |
| 780 | इंगोले रणजीत सुरेश | एम एस वी सी/ 6364 / 2000 | पासेदान, प्लॉट न. 2, यवतमाल, जिला यवतमाल- 445001 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/2000 | 12.4.77 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|---|---|----------|
| 781 | इंतेखाब अख्तर, पुत्र प्रोफेसर मेंहदी अख्तर | बिहार एस वी सी / 1544 / 2000 | ग्राम, डाक एवं थाना तातारपुर, जिला भागलपुर, पिन- 812002 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 14.2.70 |
| 782 | इतवाले विजय आनंदराव | एम एस वी सी / 6367 / 2000 | द्वारा ए. जी इतवाले, रुरल हॉस्पिट, अर्जुनी मोरगांव, तालुक अर्जुनी मोरगांडिया 441701 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/2000 | 13.10.76 |
| 783 | जे बालामुरुगन | पॉण्डी / 135 / 2000 | 42, हैल्थ कॉलोनी, दिवान कंडप्पा नगर, नैनांडाबा | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 8.4.78 |
| 784 | जे सांथी | पॉण्डी / 128 / 2001 | 16, कुड़ालोर रोड, टोलघेट, अरियंकुप्पा डाक, पॉण्डीचेरी | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 99 | 1.9.76 |
| 785 | जबीना मार्था फिलिप | केरल एस वी सी / 2454 / 2000 | वलियमथडाथिल हाउस, उरुम्बिल ब्रिज के निकट, कांगिरामाट्टोम . | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 8.10.73 |
| 786 | जाधव सचिन सदाशिव | एम एस वी सी / 6320 / 2000 | एटी डाक पारे, तालुक खानपुर, जिला सांगली- 415311 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम शी के वी वी/2000 | 7.10.77 |
| 787 | जगन्नाथ झा वसंत, पुत्र ख. श्री विश्व नाथ झा | बिहार एस वी सी / 1297 / 2000 | ग्राम कुरसो, डाक कुरसो नरिवामी, थाना सकालपुर, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 2.7.51 |
| 788 | जगन्नाथ राव एम, पुत्र श्री एम सम्बा रिता राव | ए पी एस वी सी / 03572 / 2000 | आई सी: 163, एरामजिल कॉलोनी, हैदराबाद- 500082 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 96 | 18.8.71 |
| 789 | जगन्नाथ वानिक, पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार वानिक | त्रिपुरा / 86 / 2000 | डाक एवं ग्राम महेशपुर, थाना जात्रापुर, सोनामुरा, त्रिपुरा पश्चिम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 92 | 23.1.67 |
| 790 | जगर नाथ उरांव, पुत्र श्री सुकरा उरांव | बिहार एस वी सी / 1699 / 2000 | मौ. पात्रा टोली कनके, डाक आर वी सी, थाना कनके, जिला रांची, पिन 834007 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 86 | 19.5.60 |
| 791 | जगत नारायण चौधरी, पुत्र ख. श्री चानंद चौधरी | बिहार एस वी सी / 1026 / 2000 | मौ. न्यू कंवर सिंह कॉ. डाक डीएमसीएच, लहरिया सराय, थाना बेला, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 2.2.54 |
| 792 | जगत प्रसाद, पुत्र श्री अशर्फी प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1585 / 2000 | ग्राम ढोकरोहा, डाक एवं थाना रामनगर, जिला प्र. चम्पारन, पिन- 845106 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 25.1.56 |
| 793 | जगवीर रिंह | आर ए जे एस वी सी / 2607 / 2000 | इंचार्ज, गवर्नर वेटरिनरी हॉस्पिटल, सांखुफोर्ट, चुरु | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 17.11.69 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------------|---|---|----------|
| 794 | जगदले रविकांत बाबू राव | एम एस वी सी / 6385 / 2000 | एटी जाधववाडी, डाक बीजावाडी, तालुक मान, जिला सतारा— 415508 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम. पी के वी/2000 | 1.12.77 |
| 795 | जगदले सुरेश दत्ताव्रेय | एम एस. वी. सी / 6419 / 2001 | एटी पचवाड, डाक बीजावाडी, तालुक मान, जिला सतारा— 415508 | बी वी. एस सी एंड ए एच/के के वी/ 2000 | 17.4.77 |
| 796 | जगदीप सिंह, पुत्र श्री वलविंदर सिंह | पी वी एस वी सी / 2918 / 2000 | ग्राम कुठा खेरी, डाक हरपालपुर तह, राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 1998 | 22.8.73 |
| 797 | जगदीश चंद्र जीगर | आर ए जे एस वी सी / 2679 / 2000 | पुत्र श्री रामपाल जीगर, डाक महाग्रोप, वाया: हमीरगढ़ जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ षि/ 2000 | 8.12.72 |
| 798 | जगदीश चंद्र, पुत्र श्री भगत राम | एच ए आर एस वी सी / 1643 | द्वारा बी आर शीला, ग्राम एतं डाक उमेदपुरा, जिला सिरसा | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 10.3.77 |
| 799 | जगदीश शर्मा, पुत्र रव. श्री कुमार सिंह | बिहार एस वी सी / 990 / 2000 | ग्राम मुरौरा, डाक मुरौरा, थाना बिहार शरीफ, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 1.1.45 |
| 800 | जगदीश, पुत्र श्री डी आर सुखीजा | एच ए आर एस वी सी / 1646 | म.न. 1135, सेक्टर 6, अर्बन एस्टेट, करनाल | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 9.10.76 |
| 801 | जागेश्वर लाल, पुत्र श्री शशि कांत लाल दास | बिहार एस वी सी / 1567 / 2000 | ग्राम बेलारी, डाक लोहार, थाना पंडौल, मधुबनी, पिन— 847231 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 80 | 3.9.57 |
| 802 | जगजीवन राम, पुत्र रव. श्री वीर चंद | आर ए जे एस वी सी / 2711 / 2000 | ग्राम एवं डाक बलारवा, तहरील ओसियान, जिला जोधपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृषि/ वि/ 2000 | 13.7.71 |
| 803 | जगजीत सिंह, पुत्र श्री गुलजार सिंह | पी वी एस वी सी / 2183 / 2000 | 353, तिलक नगर, अमृतसर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 15.3.74 |
| 804 | जगमोहन झा, पुत्र स्त्र. श्री शशिकांत झा | बिहार एस वी सी / 1008 / 2000 | ग्राम एवं डाक बोरहारवा, सीतन, थाना छजाला, जिला मोतीहारी (पूर्वमारन) | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 24.4.49 |
| 805 | जगमोहन प्रसाद, पुत्र स्त्र. श्री भान काश | बिहार एस वी सी / 1234 / 2000 | ग्राम पोबी, डाक एवं थाना जमुआ, जिला गिरिढीह | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 7.5.47 |
| 806 | जगमोहन सिंह, पुत्र श्री दयाल सिंह | पी वी एस वी सी / 2176 / 2000 | राम नगर, अजनाला, जिला अमृतसर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 13.8.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|--|--|----------|
| 807 | जगमुनि, तिवारी, पुत्र स्व. श्री गजा धर तिवारी | बिहार एस वी सी / 1005 / 2000 | ग्राम खेरमुद्धार, डाक नटवर, थाना बिक्रमगंज, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 5.7.47 |
| 808 | जगन्नाथ बैठा, पुत्र श्री सुखावम बैठा | बिहार एस वी सी / 1805 / 2000 | ग्राम कुशियारी, डाक करुआ (पूसा), थाना चाकमेहासी, जिला समस्तीपुर 848125 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 88 | 13.3.59 |
| 809 | जगन्नाथ प्रसाद, पुत्र स्व. श्री महादेव राउत | बिहार एस वी सी / 2057 / 2000 | एम रांची पेट. कॉलेज कैम्पस, डाक आर वी सी, थाना कनके, जिला रांची | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 61 | 1.6.38 |
| 810 | जगराम प्रसाद सोमन, पुत्र श्री भरत राम | बिहार एस वी सी / 2013 / 2000 | ग्राम एवं डाक आवाजपुर, थाना धानापुर, जिला वाराणसी, पिन- 232108 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 66 | 30.7.42 |
| 811 | जागृति प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री सुरेंद्र नारायण सिंह | बिहार एस वी सी / 1068 / 2000 | ग्राम एवं डाक बधौनिया, थाना संग्रामपुर, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 82 | 20.1.59 |
| 812 | जहानारा यासमीन | ए एंड एन एस वी सी / 81 / 2000 | हड्डो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वी, द्वारा मौह परवेज, सीनियर नेजर एनआईआईडीसीओ, पोर्ट ब्ले | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/2000 | 12.9.74 |
| 813 | जय प्रकाश मेहरदा | आर ए जे एस वी सी / 2628 / 2000 | वार्ड न. 7, भीनो का मौहल्ला, श्री माधोपुर, सीकर, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि | 30.10.75 |
| 814 | जयसवाल शैलेंद्र, पुत्र श्री जयसवाल बाबू लाल | ए पी एस वी सी / 03546 / 2000 | द्वारा शंकरलाल जयसवाल, म.न.3-6-823/ए/7दत्ता नगर, नारायणगुडा, हैदरा. 29 | वि / 2000 बी वी एस सी एंड ए एच/मराठवाडा कृ वि वि / 89 | 26.2.67 |
| 815 | जलालुदीन अहमद, पुत्र स्व. श्री मद्दीक | बिहार एस वी सी / 1475 / 2000 | मौह. सलापट गंज, गुदडी बाजार, डाक, थाना व जिला- छपरा (सारन) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 10.3.43 |
| 816 | जमालुदीन, पुत्र मौह. अब्दुल शकूर | बिहार एस वी सी / 1839 / 2000 | ग्राम दारजी मौहल्ला खीर गांव, डाक, थाना एवं जिला हजारीबाग, पिन- 825301 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 92 | 1.3.66 |
| 817 | जम्बुला दिलीप पत्रकी | एम एस वी सी / 6302 / 2000 | कुकाधारी, डाक कल्याण गांव, (गन्ना), तालुक सिधेवाही, जिला चंद्रपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी / 2000 | 30.5.71 |
| 818 | जमील अहमद, पुत्र स्व. श्री अब्दुल हमीद अंसारी | बिहार एस वी सी / 1886 / 2000 | ग्राम करबला, डाक एवं थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 10.6.46 |
| 819 | जनकवाडे कामाजी बादेशाव | एम एस वी सी / 6248 / 2000 | एटी नंदूसा, डाक नंदूसा, तालुक नांडेड, जिला नांडेड- 431704 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 1.6.77 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| 820 | जनादन मौर्या, पुत्र श्री रघुनाथ मौर्या | आर ए जे एस ती सी/ 2719/ 2000 | इंचार्ज गवर्नर, वेट हॉस्पिटल, बेतू, बाड़मेर | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए कोई पी वी वी/99 | 15.6.69 |
| 821 | जसवीर सिंह, पुत्र श्री नरवंत सिंह | पी वी एस वी सी/ 2228/ 2001 | बी- 278, रणजीत एवेन्यू, अमृतसर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 25.5.78 |
| 822 | जसजीत जोसन | वी सी आई/ 2250 / 2000 | 20-ए, भवानी कुंज, डी-11, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070 | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/94 | 25.7.71 |
| 823 | जैसमिन देब बर्मा कुमारी, पुत्री स्त्री श्री राजेंद्र | त्रिपुरा/ 96/ 2000 | द्वारा विशु देब बर्मा, प्रताप रौय रोड, अगरतला, कृष्णनगर | बी वी एस सी एंड ए एच/ओ यू ए एंड टी/99 | 27.12.75 |
| 824 | जसपाल सिंह हुंडल, पत्र श्री बलदेव सिंह | पी वी एस वी सी/ 2231/ 2000 | ग्राम एवं डाक सरोबाध, वाया: आदमपुर, जिला जालंधर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 1999 | 15.10.75 |
| 825 | जसप्रीत कौर, पुत्री श्री पियारा सिंह | पी वी एस वी सी/ 2249/ 2001 | म.न. 22009, स्ट्रीट न. 12/ 1, पावर हाउस रोड, भटिणडा | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 9.1.77 |
| 826 | जस्टिन घिरातियम एस | केरल एस वी सी/ 2443/ 2000 | 7-32 बी.साईराम बिल्डिंग, एस आर के नगर, ओट्टा पलम, पलक्कड़ जिला | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 91 | 3.5.67 |
| 827 | जसविंदर कौर पुत्र श्री हर मोहिन्दर सिंह | पी वी एस वी सी/ 2214/ 2000 | 29- ए, हीरा नगर, पटियाला- 147001 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 28.4.77 |
| 828 | जवाहर लाल सिंह, पुत्र स्त्री श्री रामा सिंह | बिहार एस वी सी/ 1296/ 2000 | ग्राम खलारिया, डाक गोहाया, थाना बिक्रमगंज, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 80 | 12.2.57 |
| 829 | जवाहर लाल, पुत्र स्त्री श्री बच्चू लाल | बिहार एस वी सी/ 1122/ 2000 | ग्राम जानकी नगर, डाक नौवागढ़ी, थाना मुंगेर, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 1.1.46 |
| 830 | जवाहर प्रसाद सिंह, पुत्र रत, श्री चति नाथ सिंह | बिहार एस वी री/ 983/ 2000 | ग्राम बावनडीह, डाक चितंखार, थाना नासरी गंज, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 10.12.53 |
| 831 | जातले महेश रत्नन्दर | एम एस वी सी/ 6382/ 2000 | कांशतुम, एटी डाक अनगाव, तालुक भिवंडी, जिला थाणे- 421302 | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 2000 | 22.4.78 |
| 832 | जय गोविंद राम, पुत्र स्त्री श्री रामधारी राम | बिहार एस वी सी/ 1156/ 2000 | ग्राम रामपुर भीखनपुरा, डाक बसतपुर, थाना साहेबगंज जिला, | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 9.8.48 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|---|---|--|----------|
| 833 | जय गोविंद रिंह, पुत्र रव. श्री सूरज वंश रिंह | बिहार एस वी री / 1703 / 2000 | ग्राम अनायेध, डाक एवं थाना नावादा, जिला भोजपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 61 | 20.10.39 |
| 834 | जय प्रकाश महतो, पुत्र श्री भीम महतो | बिहार एस वी री / 1061 / 2000 | ग्राम ओकेरिया, डाक करकाघाट, थाना पाथरगाम, जिला गोड्डा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 89 | 21.2.59 |
| 835 | जय प्रकाश नारायण, पुत्र श्री बिहारी शरण रिंह | बिहार एस वी री / 1280 / 2000 | ग्राम गौराबनगर, डाक गौराबनगर, थाना परबलपुर, जिला नालंदा, पिन 803114 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 87 | 8.9.60 |
| 836 | जय प्रकाश नारायण, पुत्र रव. श्री रमेश प्रसाद रिंह | बिहार एस वी री / 1430 / 2000 | ग्राम इंदुपुर, डाक एवं थाना बराहिया, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 73 | 13.1.53 |
| 837 | जय प्रकाश नारायण, पुत्र श्री वीरन कोप | बिहार एस वी री / 1170 / 2000 | ग्राम बाचा, डाक एवं थाना सहिदयनगर, जिला बेगुसराय, पिन— 851218 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 82 | 25.1.61 |
| 838 | जय प्रकाश ठाकुर, पुत्र श्री सूर्य नंद ठाकुर | बिहार एस वी री / 1507 / 2000 | ग्राम भल्लू, डाक सुखारी, थाना महेरमा, जिला गोड्डा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 1.1.54 |
| 839 | जय प्रकाश भगत, पुत्र श्री बिन्देश्वरी भगत | बिहार एस वी री / 1541 / 2000 | ग्राम गमहारिया बाजार, डाक एवं थाना गमहारिया, जिला गाधेपुरा, पिन— 852108 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 5.8.58 |
| 840 | जय राम रिंह, पुत्र रव. श्री उदय नारायण रिंह | बिहार एस वी री / 1838 / 2000 | ग्राम भगतपुर, डाक एवं थाना मनीषी, जिला सहरसा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 7.1.56 |
| 841 | जय रिंह सिकरवार | आर ए जे एस वी री / 2644 / 2000 | ग्राम एवं डाक सार मथुरा, झौलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ ष्ण वी / 2000 | 14.2.69 |
| 842 | जय फिलिप | केरल एस वी री / 2498 / 2000 | कराथेडथु मैसूर रोड, सुल्तान बाठेरी, वायनाड जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 2.5.76 |
| 843 | जयकृष्ण वी आर | केरल एस वी री / 2471 / 2000 | ठक्कुरुसी हाऊस, बोलासेरी डाक, कोडुम्बा, पलक्कड— 678551 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 12.2.75 |
| 844 | जयंता कुमार | वी वी री / 0565 / 2000 | गौतम राजकार, एच 1 / 23ए, गहावीर एन्कलेव, नई दिल्ली— 45 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 88 | 21.1.65 |
| 845 | जयंता राजकार | डब्ल्यू वी एस वी री / 2802 / 2000 | ग्राम एवं डाक धूचनीखली, थाना रांदेशखली, जिला 24 परगना (उ.) | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू वी यूए एफ एस / 2000 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|---|---|---|----------|
| 846 | जयपाल राजा ए, पुत्र श्री अर्मुगा सामी | ए पी एस वी सी / 03658 / 2000 | 1-128, द्वारा अवारी सूर्य नारायण, डाक गोडीखेरला, नक्कापल्ली एम, विशाखपट्टनम | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 96 | 7.5.74 |
| 847 | जयप्रकाश टी, पुत्र श्री टी रामा राव | ए पी एस वी सी / 03613 / 2000 | 16-3-130, रामालिंगापुरम, नैल्लोर- 524003 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 14.8.76 |
| 848 | जयश्री एस | केरल एस वी सी / 2470 / 2000 | ऐश्वर्या चेरावल्ली, कायंमकुलम डाक, अलपुज़ाह | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 17.1.77 |
| 849 | जयदीप सरकार | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2820 / 2000 | ग्राम एवं डाक बुनियादपुर, जिला डी / दिनांजपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 850 | जयनारायण प्रसाद रॉय, पुत्र श्री हरि चरन रॉय | बिहार एस वी सी / 1118 / 2000 | ग्राम नावूखारी, डाक पहलेजा बारका, थाना सोनपुर, जिला सारन (छपरा) | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 30.12.47 |
| 851 | जीतेंद्र कुमार, पुत्र श्री एम एन कुलहरे | एम पी एस वी सी / 1914 / 2000 | ब्लॉक कॉलोनी, केशला, जिला होशंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 92-93 | 10.10.61 |
| 852 | जेनेविया लाकरा, पुत्री रंग, श्री तितियम लाकरा | बिहार एस वी सी / 1395 / 2000 | ग्राम अरसनडे, निकट अनिल कोल डिपो, डाक एवं थाना कनके, जिला रांची- 834007 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 17.2.70 |
| 853 | जोसी जोसेफ | केरल एस वी सी / 2453 / 2000 | अरीपराम्बिल हाउस, डाक मेलुकवुमट्टम, कोट्टायम- 686652 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 9.5.72 |
| 854 | जोस्टरवेल लिंगडोह | गेघ / 165 / 2001 | लाडमोरेंग | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 2000 | 17.11.73 |
| 855 | जितेंदर सिंह, पुत्र श्री गन्नी सिंह | एव ए आर एस वी सी / 1626 | 11, बी / 4, ओल्ड कैम्पस, एच ए यू, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 98 | 24.9.73 |
| 856 | जितेंद्र बहादुर सिंह, पुत्र स्व. श्री नाथनी सिंह | बिहार एस वी सी / 1114 / 2000 | ग्राम अम्बारी, डाक मुंडपुर, थाना रघुनाथपुर, जिला सीवन | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 21.11.49 |
| 857 | जितेंद्र चौधरी, पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी | बिहार एस वी सी / 1065 / 2000 | ग्राम मोजा, डाक मधौल, थाना खोडावंतपुर, जिला बैगुसराय, पिन- 848202 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 30.12.57 |
| 858 | जितेंद्र कुमार साहू पुत्र. श्री अच्युतानन्द प्रसाद साहू | बिहार एस वी सी / 1211 / 2000 | ग्राम एवं डाक साहू पोरवाल्टा, थाना नवगचिया, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 1.6.47 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|---|----------|
| 859 | जितेंद्र कुमार सिंह, पुत्र श्री रामजनम सिंह | बिहार एस वी सी / 1841 / 2000 | ग्राम एवं डाक चिरियांवा, थाना अतरी, जिला गया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 18.3.69 |
| 860 | जितेंद्र कुमार दीपक, पुत्र श्री परसादी सौ | बिहार एस वी सी / 875 / 2000 | मौह. निधवी बाजार, डाक एवं थाना राजगोर, जिला नालंदा, पिन- 803116 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 99 | 12.1.76 |
| 861 | जितेंद्र कुमार सिन्हा, पुत्र रत. श्री श्रीधर नारायण प्रसाद | बिहार एस वी सी / 852 / 2000 | मौह. दालहट्टा, मस्जिद के निकट, डाक एवं थाना मुंगेर, मुंगेर- 811201 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 20.1.58 |
| 862 | जितेंद्र कुमार, पुत्र रत. श्री ब्रज नंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1254 / 2000 | ग्राम श्रीनगर, डाक एवं थाना बिहार शरीफ, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 30.6.47 |
| 863 | जितेंद्र कुमार, पुत्र रत. श्री शिवनाथ प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1027 / 2000 | ग्राम/ डाक मगोरखा, थाना मलाही, जिला मोतीहारी, पू. चम्पारन- 845001 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 20.6.48 |
| 864 | जितेंद्र नाथ सहाय, पुत्र रत. श्री उमा नाथ सहाय | बिहार एस वी सी / 1155 / 2000 | ग्राम सिकंदरपुर, डाक मिरजन हाट, थाना मोजाहिद पुर, भागलपुर - 812005 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 63 | 25.6.42 |
| 865 | जितेंद्र प्रसाद वर्मा, पुत्र रत. श्री रत्नश्वर प्रसाद वर्मा | बिहार एस वी सी / 1039 / 2000 | मौह. मुरारपट्टी, डाक एवं थाना - रघुनाथपुर, जिला सीवन | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 21.1.49 |
| 866 | जितेंद्र प्रसाद, पुत्र श्री चानू साहू | बिहार एस वी सी / 1045 / 2000 | ग्राम एवं डाक अहवरशेख फुलुरिया, थाना मुझवालिया, जिला बेतिया (प. चम्पारन) | बी वी एस सी एंड ए एच/ जी यू/ 97 | 12.3.73 |
| 867 | जितेंद्र प्रताप सिंह, पुत्र रत. श्री समानंद सिंह | गू. पी वी सी / 3250 | ग्राम महरौरा, डाक किलैन, जिला जौनपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंडटी/2000 | 4.7.74 |
| 868 | जितेंद्र एस वी वी, पुत्र श्री एस ब्रह्मा रेड्डी | ए पी एस वी सी / 03561 / 2000 | डी. न. 27-11-660, ए सी नगर, नेल्लोर- 524002 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 2.8.77 |
| 869 | जितेंद्र सिंह, पुत्र श्री भिरवारी सिंह | बिहार एस वी सी / 1109 / 2000 | ग्राम करमैनी खुर्द, डाक मैघारा, थाना बिक्रमगंज, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 1.2.46 |
| 870 | जीताज नारायण यादव, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद यादव | बिहार एस वी सी / 1932 / 2000 | ग्राम झजबापति आशा, डाक एखट्टा, थाना खुटौना, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 25.10.57 |
| 871 | जोबी सिरिएक | केरल एस वी सी / 2465 / 2000 | थोटिट्यिल (एच), मूजिकुलंगारा डाक, नीदूर (वाया), कोट्टायम | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 5.5.75 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हतमान | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------------|--|--|----------|
| 872 | जीतेंद्र मुखोपाध्याय, पुत्र स्त. श्री देवेन्द्र कुमार | त्रिपुरा / 3 / 2000 | मुखर्जी विलई, ईस्ट ऑफ आई ओ सी, अमोय नगर, अगरतला, त्रिपुरा वेस्ट | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 78 | 16.6.54 |
| 873 | जोगी राज दत्ता, पुत्र श्री निशित च. दत्ता | त्रिपुरा / 35 / 2000 | कुमारीटिल्ला, अमोयनगर, अगरतला— 799005 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 78 | 16.6.54 |
| 874 | जॉन कॉगवांग | मेघ / 159 / 01 | थर्ड माइल, अपर शिलौंग | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 9.6.69 |
| 875 | जोमी जोस | केरल एस वी सी / 2477 / 2000 | मदापट्ट, मुकोलक्कल, नेदूमंगड, डाक त्रिवेंद्रम— 695541 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 19.5.77 |
| 876 | जोशी दिलीप कृष्णराव | एम एस वी सी / 6281 / 2000 | प्लॉट न. 15, श्रीनगर कॉलोनी, परसोदी लेआउट, प्रतापनगर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी के वी / 78 | 11.9.52 |
| 877 | जॉयदीप सरकार, पुत्र श्री सुख रंजन सरकार | त्रिपुरा / 100 / 2000 | रामनगर रोड न. 4, डाक रामनगर— 5, अगरतला, त्रिपुरा (प.) | बी वी एस सी / यू ए एस बंगलौर / 98 | 15.1.75 |
| 878 | जूबी वी | केरल एस वी सी / 2487 / 2000 | पेरुर हाउस, कोट्टाथला डाक, कोट्टाराकारा, कोल्लम | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 25.5.76 |
| 879 | जुगल किशोर भारद्वाज, पुत्र श्री विक्रमलाल भारद्वाज | एम पी एस वी सी / 1902 / 2000 | 3736, कटरा सुभाष वाड़, अधरताल, जबलपुर— 482004 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 77 | 1.7.55 |
| 880 | जुगल किशोर तनेजा | आर ए जे एस वी सी / 2642 / 2000 | 22 / 30 / 4, सर्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर— 302020 | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 23.2.77 |
| 881 | जूली वी मारक | मेघ / 171 / 2001 | चांदमारी, तुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 31.7.74 |
| 882 | जंग बहादुर सिंह, पुत्र स्त. श्री अनूप लाल सिंह | बिहार एस वी सी / 1643 / 2000 | ग्राम एवं डाक— पन सालवा, थाना बेलदौर, जिला खेमरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू / 72 | 31.12.48 |
| 883 | ज्योति मिंज, पुत्र श्री तेलेस्फार मिंज | बिहार एस वी सी / 1182 / 2000 | ग्राम कासंगा दीपाटोली, डाक पंडारीपानी, थाना सिमडेगा, जिला गुमला, पिन— 855223 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू / 91 | 13.4.66 |
| 884 | ज्योति रानी मॉडल | ए एंड एन एस वी सी / 76 / 2000 | द्वारा ए के मॉडल, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, विम्बरलीगंज, दक्षिणी अडमान | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस / 2000 | 19.3.77 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|---|---|----------|
| 885 | ज्योतिंद्र प्रसाद श्री वास्तव, पुत्र स्व.श्री हरिहर प्र.श्रीवास्तव | बिहार एस वी सी/ 1914/ 2000 | एम-1, ए, प्रभात टावर, थाना लालपुर, डाक एवं जिला रांची- 834001 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी यू/ 60 | 3.6.39 |
| 886 | ज्योतिमय चक्रवर्ती, पुत्र श्री दीनबंधु | त्रिपुरा/ 23/ 2000 | डाक एवं ग्राम अरुण्धती नगर, रोड न.8, बट्टाला, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम- 799003 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 2.5.53 |
| 887 | ज्योतिमय रौय, पुत्र श्री निरंजन कुमार रौय | त्रिपुरा/ 82/ 2000 | द्वारा नरेश च. मोदक, न्यू टाउन रोड, उदयपुर, डाक आर के पुर, दक्षिणी त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/ 89 | 31.1.67 |
| 888 | के लानू जमीर | एन. एस .वी सी/ 50/ 98 | सहा. परियोजना अधिकारी, (वेट), मोन, नागालैंड | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/ 98 | 7.2.75 |
| 889 | के दानासेगाराने | पॉण्डी/ 117/ 2000 | 6, थिरुवलुवर सलाई, अयम नगर, पॉण्डीचेरी- 605013 | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 93 | 9.11.69 |
| 890 | के पी मिनी | पॉण्डी/ 125/ 2000 | ब्लॉक- ए, लक्ष्मी होम्स, त्यानकुटीपिलायम, पॉण्डीचेरी- 605009 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 90 | 6.10.66 |
| 891 | के राजालक्ष्मी | पॉण्डी/ 139/ 2001 | 58, कलुनी मेन रोड, राजाजी नगर, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी- 605008 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 15.11.77 |
| 892 | के वेंकट सुब्रा रेड्डी | पॉण्डी/ 91/ 2000 | ए/ 4, वेट, कॉलेज क्वार्टर्स, कुरुम्बापेट, पॉण्डीचेरी- 605009 | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 71 | 15.5.48 |
| 893 | काचावे चंद्रकांत दिगम्बर राव | एम एस वी सी/ 6324/ 2000 | एटी डाक गंगाखेड, लाचुरेर कॉलोनी, तालुक गंगाखेड, जिला परभनी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 2000 | 12.9.77 |
| 894 | कदम आमिला भारत कुमारी | एम एस वी सी/ 6317/ 2000 | सर्वोदय, 3/133, गोखले रोड दक्षिण, दादर वेस्ट, मुम्बई -400028 | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 2000 | 22.11.77 |
| 895 | कदम जयंत जनार्दन | एम एस वी सी/ 6399/ 2000 | एटी डाक राजारामनगर कॉलो. क.न.डी/60, तालुक वालवा, जिला सांगली 415414 | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम पी के वी वी/ 2000 | 22.7.76 |
| 896 | काफिल अहमद, पुत्र स्व. श्री जलील अहमद | बिहार एस वी सी/ 1421/ 2000 | ग्राम इस्लामपुर, डाक नौतन दूबे, थाना नौतन, जिला बेतिया, पिन- 845438 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 80 | 2.1.54 |
| 897 | कैलाश चंद्र बैरवा मीरवाल | आर. ए जे एस वीसी/ 2648/ 2000 | ग्राम एवं डाक झनपरावास, (मोहनिंगपुरा), तह. सिकरे, जिला दौसा | बी वी एस सी एंड ए एच/ राज कृष्ण वि वि/ 2000 | 24.6.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|----------------------------------|--|---|----------|
| 898 | कैलाश कुमार राना, पुत्र श्री रणवीर सिंह राना | यू. पी. वी सी/ 3267 | ग्राम एवं डाक दोघट, जिला बागपत, उ.प्र.- 250622 | वी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ जी. बी. पी. यू. ए. एंड. टी./ 96 | 1.7.74 |
| 899 | कैलाश प्रसाद यादव, पुत्र श्री रामचरन प्रसाद यादव | बिहार एस वी सी/ 1587/ 2000 | ग्राम कनहौली, डाक फुलवारिया, थाना गोमारी, जिला खगरिया | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ बी. ए. यू./ 84 | 2.3.59 |
| 900 | कैलाश पति ठाकुर, पुत्र स्व. श्री शिव लाल ठाकुर | बिहार एस वी सी/ 1031/ 2000 | मौह. चोरीटोला, डाक एवं थाना कनके, जिला रांची, पिन- 834006 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ आर. यू./ 70 | 8.1.48 |
| 901 | कैलाशपति ठाकुर, पुत्र श्री सिंधेश्वर ठाकुर | बिहार एस वी सी/ 1672/ 2000 | ग्राम नरकटियां, डाक एवं थाना विहंपुर, जिला नवगचिया | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ आर. ए. यू./ 72 | 13.12.48 |
| 902 | कलाधर प्रसाद, पुत्र स्व. श्री हरि प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1236/ 2000 | मौह. एवं डाक खवासपुर, थाना पीरपेंटी, जिला भागलपुर | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ आर. ए. यू./ 81 | 31.8.52 |
| 903 | कालदोने राहुल जगन्नाथ | एम एस वी सी/ 6284/ 2000 | एटी डाक भलवानी, तालुक पंढरपुर, जिला सोलापुर- 413304 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ एम. यू./ 2000 | 4.7.77 |
| 904 | काले दयानंद न्यूटन | एम एस वी सी/ 6343/ 2000 | एटी सावरडे, डाक काले, तालुक पनहता, जिला कोल्हापुर- 416205 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ एम. पी. के. वी. वी./ 2000 | 1.6.77 |
| 905 | काले सचिन भीमराव, द्वारा एडवो. बी. जी काले | एम एस वी सी/ 6413/ 2001 | बी- 96, शोभानगर, पुलिस कॉलोनी, नांडेड- 431605 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ एम. ए यू./ 2000 | 20.2.77 |
| 906 | कालीदास आचार्य, पुत्र श्री जोगेश आचारजी | त्रिपुरा/ 13/ 2000 | डाक एवं ग्राम धालेश्वर, नूतन पल्ली, नार्थ ऑफ सेंट्रल | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ कलकत्ता वि. वि./ 74 | 2.1.49 |
| 907 | कलिता डॉ. अपूर्ब कुमार, पुत्र श्री भोगेश्वर कलिता | ए एस एम/ 1937/ 2000 | द्वारा श्री भोगेश्वर कलिता, ग्राम कुमारगांव, डाक आमगुरी जिला | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ ए. ए. यू./ 2000 | |
| 908 | कलिता डॉ. प्रणब रंजन, पुत्र श्री चंडी चरन कलिता | ए एस एम/ 1894/ 2000 | द्वारा डॉ. सी. सी. कलिता, मथुरा नगर, के के हांडीकू पथ, दिसपुर, गुवाहाटी- 6 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ ए. ए. यू./ 2000 | |
| 909 | कल्पना देब बर्मा, पुत्री श्री बिद्या देब मोहन बर्मा | त्रिपुरा/ 95/ 2000 | ग्राम श्रीराम वारा, डाक सोनाराम बाजर, त्रिपुरा वेस्ट, थाना सिधई | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ आर. ए. यू./ 99 | 17.1.74 |
| 910 | कल्पना भेंगरा, पुत्र श्री कल्याण भेंगरा | बिहार एस वी सी/ 1758/ 2000 | मौ. रश्मि कुंज, डाक बूटी, थाना सदर रांची, जिला रांची- 835217 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ वी. ए. यू./ 96 | 8.7.72 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हतारं | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|--|---|----------|
| 911 | कल्पनाथ पांडे, पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ पांडे | बिहार एस वी सी / 1427 / 2000 | मौह. आनन्दपुरी कॉलोनी, डाक, थाना एवं जिला हजारीबाग, पिन- 825301 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 4.1.43 |
| 912 | कलसे कमल किशोर प्रभाकर राव | एम एस वी सी / 6310 / 2000 | कलसले निवास, बेन्शेल्की रोड, उदगारी, रेलवे स्टेशन के निकट, लाटूर- 413517 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 2000 | 19.7.74 |
| 913 | कल्याण रे, पुत्र रत. श्री सुशील कुमार रे | त्रिपुरा / 34 / 2000 | मिशन रोड, काशीपुर, डाक रेशमबागान, त्रिपुरा ट्रेस्ट | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 79 | 28.2.55 |
| 914 | कामाख्या दास, पुत्र . श्री हरिनंदन दास | बिहार एस वी सी / 1023 / 2000 | ग्राम सोनपुरा, डाक सोनपुरा, थाना उदवांतनगर, जिला भोजपुर- 802206 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 95 | 22.2.70 |
| 915 | कमल चक्रबर्ती, पुत्र श्री गोविंद चक्रबर्ती | त्रिपुरा / 50 / 2000 | ग्राम नेताजी नगर, डाक ओ एन जी सी, त्रिपुराकेस्ट | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 81 | 5.1.59 |
| 916 | कमल किशोर, पुत्र स्व. श्री रास बिहारी प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1016 / 2000 | मौह. तार बैंगला, डाक एवं थाना देहरी ओन सोन, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 67 | 9.1.44 |
| 917 | कमल सिंह मीना, पुत्र श्री शिव चरन मीना | आर ए जे एस वी सी / 2702 / 2000 | ग्राम एवं डाक हुरला, थाना माहवा, जिला दौसा, राजस्थान- 321608 | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 15.7.71 |
| 918 | कमलजीत जोशी, पुत्र श्री अविनाश चंद्र जोशी | पी वी एस वी सी / 2232 / 2001 | ग्राम एवं डाक हंडिया, तहसील बरनाला, जिला सगरूर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 28.3.77 |
| 919 | कामत प्राची प्रताप | एम एस वी सी / 6420 / 2001 | सी- 4, ऋद्धि रिड्डि अपार्टमेंट, दीनदयाल रोड, डोम्बीवली(प.), थाणे-421202 | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी / 2000 | 5.4.78 |
| 920 | कामथे चांग देव रोपानग | आर ए जे एस वी री / 2604 / 2000 | कठा.न. 111 / 2(डब्ल्यू एफपी), आर सी पी कॉलोनी, मोहनगढ़, जैसलमेर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी के वी पी / 92 | 1.7.67 |
| 921 | काम्बले बलिराम साम्भाजी, पुत्र श्री साम्भाजी | ए पी एस वी सी / 03565 / 2000 | म.न. 11-10-698 / ए / 1, बुरहानपुरम, खम्मम | बी वी एस सी एंड ए एच/ मराठवाड़ा कृ वि वि / 97 | 5.11.70 |
| 922 | काम्बले रामदास सूका | एम एस वी सी / 6351 / 2000 | एटी कोटगल, डाक परदिम धीवर, मौह. तालुक जिला गाधीरोल- 422605 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी / 2000 | 20.7.77 |
| 923 | कामदेव प्रसाद, पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण सिंह | बिहार एस वी सी / 1810 / 2000 | ग्राम विसखुरवा, डाक मसाथी, थाना बिलोही, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 81 | 7.6.56 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|---------------------------------|--|---|----------|
| 924 | कामेश्वर प्रसाद यादव, पुत्र रत्न. श्री देवनंदन प्रसाद यादव | बिहार एस बी सी / 1761 / 2000 | ग्राम एवं डाक अरान, थाना बिहार, ज़िला सहरसा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 9.4.46 |
| 925 | कामेश्वर प्रसाद मलिक, पुत्र स्त. श्री जगदेव लाल मलिक | बिहार एस बी सी / 1905 / 2000 | ग्राम सी-3, इंदिरापुरी कॉलोनी, डाक बी वी कॉलेज, थाना शास्त्रीनगर, ज़िला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 2.1.36 |
| 926 | कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, पुत्र श्री रघुतंशु नारायण | बिहार एस बी सी / 2022 / 2000 | ग्राम एवं डाक दारीहारा, थाना दरियापुर, ज़िला सारण | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 5.2.43 |
| 927 | कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, पुत्र रत्न. श्री धरमनाथ सहाय | बिहार एस बी सी / 1903 / 2000 | ग्राम एवं डाक अतिमी, थाना नवानगर, ज़िला बुजार | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 8.1.44 |
| 928 | कामेश्वर प्रसाद यादव, पुत्र रत्न. श्री महाबीर प्रयादव | बिहार एस बी सी / 2035 / 2000 | मौ. इंद्रापुरी हाउ. कॉलोनी, पी ओ बी टी कॉलेज, थाना शास्त्री नगर, ज़िला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 10.1.40 |
| 929 | कामेश्वर प्रसाद, पुत्र श्री रामजी प्रसाद शर्मा | बिहार एस बी सी / 1878 / 2000 | मौह. गोरगामा, डाक एवं थाना शाहपुर पतोरी, ज़िला समरतीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 17.10.46 |
| 930 | कामेश्वर प्रसाद सिंह, पुत्र रत्न. श्री रामदेव सिंह | बिहार एस बी सी / 936 / 2000 | मौ. कंकरबाग, 58 ए. सेक्ट्रे रिएंट कॉलोनी, डाक एवं थाना कंकरबाग, ज़िला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 31.3.52 |
| 931 | कामेश्वर शर्मा, पुत्र श्री राम नरेश सिंह | बिहार एस बी सी / 869 / 2000 | ग्राम गोविंदपुर, डाक दतियाना, थाना विक्रम, पटना- 801115 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 15.12.60 |
| 932 | कामेश्वर रात वाई बी, पुत्र श्री वेंकटेश्वरलु | ए पी एस बी सी / 03646 / 2000 | अम्बेडकर स्टेचू के निकट, कोंडापी ग्राम, प्रकासम ज़िला- 523270 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 1.4.76 |
| 933 | कमला कात सिंह, पुत्र रत्न. श्री हरिहर प्रसाद सिंह | बिहार एस बी री / 1177 / 2000 | ग्राम एवं डाक खवासपुर, ज़िला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/76 | 9.8.52 |
| 934 | कमला कात, पुत्र श्री छोटू गौरव | बिहार एस बी सी / 911 / 2000 | ग्राम कासवा, डाक कासवा, थाना कुंजेर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 19.4.46 |
| 935 | कमलेंद्र द्विवेदी, पुत्र रत्न. श्री वैद्यनाथ द्विवेदी | बिहार एस बी सी / 1285 / 2000 | ग्राम एवं डाक कौलना, मैगमपुर, थाना अहियापुर, ज़िला मुजफ्फरपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 80 | 31.12.55 |
| 936 | कमलेश कुमार मीना | आर ए जे. एस बी सी / 2683 / 2000 | ग्राम गुडाली, डाक बागोर, तह. नदोती, ज़िला करौली | बी वी एस सी एंड ए एच/ राज कृष्ण वि/ 2000 | 21.7.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|--|----------|
| 937 | कमलेश प्रसाद सिंह, पुत्र रव. श्री रामदेव सिंह | बिहार एस वी सी / 1196 / 2000 | ग्राम महेश चपरा, डाक सिकती भीकेम, थाना मशरख, जिला छपरा(सारन) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 24.12.65 |
| 938 | कमलेश सिंह, पुत्र श्री विजय नारायण सिंह | बिहार एस वी सी / 1495 / 2000 | ग्राम एवं डाक पालीगढ़, थाना ससय लाखान्सी, जिला मऊ, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 91 | 1.1.64 |
| 939 | कमलेश्वर कुमार भारती, पुत्र श्री हरि राम | बिहार एस वी सी / 1354 / 2000 | ग्राम एवं डाक गरारी कलाम, थाना केरेदारी, जिला हजारीबाग, पिन 825311 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 25.1.68 |
| 940 | कमलेश्वरी झा, पुत्र श्री वोध नारायण झा | बिहार एस वी सी / 2012 / 2000 | ग्राम रसालपुर, डाक एकचारी, थाना काहलगांव, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 23.1.54 |
| 941 | कामता प्रसाद, पुत्र रत. श्री तुचू प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1159 / 2000 | ग्राम हसनादिब, डाक एवं थाना रोमरा, वाया गोधमा, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 78 | 30.1.53 |
| 942 | कानन बिहारी गोस्यामी, पुत्र रव. श्री हरिगण गोस्यामी | त्रिपुरा / 4 / 2000 | कुञ्जबन कॉलोनी, डाक अभोयनगर, अगरतला, त्रिपुरा (प.) | बी वी एस सी एंड ए एच/सी यू/ 65 | 1.7.42 |
| 943 | कनापिकर, री आर, पुत्र श्री आर एम कनापिकर | कर्ना / 3208 | 264, मातृ आशीष, तीसरा क्रॉस, दोमलूर, दूसरी रटेज, बंगलौर | बी वी एस सी / यू ए एस बंगलौर/ 72 | 30.12.50 |
| 944 | कंचना, फूटी डॉ. बी पी यादव | बिहार एस वी सी / 1975 / 2000 | ग्राम एवं डाक शेरगढ़, थाना गोगरी जमालपुर जिला खण्डिया | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 98 | 30.6.75 |
| 945 | कन्हैया प्रसाद सिंह, पुत्र रव. श्री रीताराम सिंह | बिहार एस वी सी / 1529 / 2000 | ग्राम एवं डाक चाटन्ना, थाना नोखा, जिला रोहतास, पिन- 802225 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 1.2.46 |
| 946 | कन्हैया सिंह, पुत्र श्री रामधारी सिंह | बिहार एस वी सी / 1802 / 2000 | ग्राम एवं डाक देवल, थाना गहमार, जिला गाजीपुर, उ.प्र.- 232333 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 24.3.43 |
| 947 | कन्नाया नायडू एल, पुत्र श्री एल थम्मी नायडू | ए पी एस वी सी / 03612 / 2000 | को मल्लावरम, तूनी (एम), पूर्णी गोदावरी जिला-533401 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 5.6.73 |
| 948 | कांतिलयाह, पुत्र श्री योहान | ए पी एस वी सी / 03683 / 2001 | चलाकुर्थी ग्राम, पेड़डावूरा एम, नालगोडा जिला | बी वी एस सी/ए पी ए यू/83 | 10.3.58 |
| 949 | कपिल देव प्रसाद, पुत्र श्री गोविंद प्रसाद | बिहार एस वी सी / 2019 / 2000 | ग्राम जुआकर डीह, डाक नीरपुर, थाना एवं जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 3.3.46 |

[भाग II]—खण्ड 3(i)]

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|----------|
| 950 | कपिल प्रेसाद सिंह, पुत्र श्री सुरेश प्रसाद सिंह | बिहार एस टी री/ 1180/ 2000 | ग्राम भीखोनपुर, डाक एवं थाना माहकुड़, जिला भागलपुर, पिन- 813108 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 89 | 3.3.64 |
| 951 | कपिल सिंह, पुत्र श्री वालेश्वर सिंह | बिहार एस टी री/ 1791/ 2000 | ग्राम एवं डाक लोकरी, थाना बैरिया, जिला बालिया, राज्य उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 16.6.43 |
| 952 | कपिल देव रे, पुत्र रत, श्री राम उचित रे | बिहार एस टी री/ 1894/ 2000 | ग्राम विष्णुपुर पाकरी, डाक बेऊर, अनीराबाद, थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 2.12.47 |
| 953 | करम चंद, पुत्र श्री मुखितयार सिंह | एव ए आर एस टी सी/1667 | म. न. 778, प्रेम नगर, करनाल | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/2000 | 21.5.75 |
| 954 | कार्मन्द कुमार पालीवाल, पुत्र श्री काशी राम | आर ए जे एस टी/ 2021/ 2000 | 13, ज्योति नगर, अलवर | बी वी एस सी एंड ए एच/ राज कृ वि वि/2000 | 30.3.74 |
| 955 | कारथा प्रेम चंद्रशेखर | एम एस टी री/ 6298/ 2000 | संत रथर्ष-- 2, विभवन हाउसिंग सोसायटी, कलोलीनगर | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के टी/ 98 | 19.2.77 |
| 956 | काशी नाथ राम, पुत्र श्री बिठल राम | बिहार एस टी री/ 1757/ 2000 | ग्राम बासुदेव दिहरी, डाक गंज भरसारा, थाना दिनारा, जिला रोहतास, पिन 800035 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 73 | 3.9.49 |
| 957 | काशी विश्वनाथ डी | केरल एस टी री/ 2458/ 2000 | क्वा. न. 10, पश्चिम अनुरांधान केंद्र, थिरुवत्तम कुनू, मन्नारकड़, पलककड़ | बी वी एस सी/ टी एन टी एंड ए एस यू/96 | 3.5.73 |
| 958 | कटकडे सुनील जगन्नाथ राव | एम एस टी री/ 6278/ 2000 | संत जनाशाई नगर, ए/ पी/ 7, एटी गंगखेड़, जिला परभानी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 99 | 24.10.75 |
| 959 | कविम्शा शालेमी तराओ | मणि/ 370/ 2000 | लेइशालयिंग गांव, डाक कोमलाटाबाड़ी | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 24.3.75 |
| 960 | कौशल कुमार सिंह, पुत्र श्री निर्मल कुमार सिंह | बिहार एस टी सी/ 2026 / 2000 | ग्राम रिहटा, डाक एवं थाना बिहटा, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 31.1.54 |
| 961 | कौशिलेंद्र कुमार, पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद | बिहार एस टी री/ 1647/ 2000 | ग्राम राटकपुर, डाक बारहोगा, थाना बिंड, जिला नालंदा, पिन- 803107 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 2.2.71 |
| 962 | कौशलेंद्र कुमार, पुत्र रत, श्री रामश्वरन प्रसाद | बिहार एस टी री/ 1788/ 2000 | ग्राम पांठना, डाक भगान सीघा, थाना बेना, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 71 | 1.10.48 |

| क्र. सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|----------|---|-----------------------------------|---|---|----------|
| 963 | कविता त्यागी | आर ए जे एस वी सी/2682/ 2000 | देव नारायण मंदिर के सामने, कनसुवा, कोटा | बी वी एस सी एंड ए एच/ राज कृ वि वि/ 2000 | 30.12.74 |
| 964 | कविता रानी बी, पुत्री डॉ. बी एस नायदू | कर्ना एस वी सी / 3086 | न.1697, श्री शक्ति नीलया, दूसरा क्रॉस, शंकरपुरा, चिकमगलूर- 577101 | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 97 | 26.6.74 |
| 965 | कावले संजय नारायण | एम एस वी सी/ 6328/ 2000 | एटी डाक रेनापुर, तालुक भोखर, जिला नांडेड— 431801 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 2000 | 2.6.76 |
| 966 | केदार नाथ प्रसाद, पुत्र रत. श्री भिखारी साह | बिहार एस वी सी/ 1861/ 2000 | ग्राम अनावरपुर, डाक पौङा, थाना लालगंज, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 20.10.43 |
| 967 | केदार नाथ सिंह, पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1154/ 2000 | ग्राम अम्बरियां, डाक रुफारा, थाना चिरैइया, जिला पूर्णी चम्पारन (मोतीहारी) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 11.10.48 |
| 968 | केशव कुमार पाराशर, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण | आर ए जे एस वी सी/2618/ 2000 | सी- 18ए, कुमावत कॉलोनी, झटवाडा, जयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 14.11.73 |
| 969 | केशव मिश्रा, पुत्र रत. श्री एस एन गिशा | यू पी वी सी/ 3190 | ग्राम राही, डाक साहाबाद, जिला हरदोई, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 89 | 5.12.66 |
| 970 | केशव प्रसाद रिहं यादव, पुत्र श्री दारोगा रिहं | बिहार एस वी सी/ 1009/ 2000 | ग्राम एवं डाक भद्रसेरा, थाना तासारी, जिला आराह (भोजपुर) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 84 | 2.11.58 |
| 971 | स्व. संगीता देवी, पुत्री श्री इयोचौता रिहं | यू पी वी सी/ 3211 | 1114/ 21, इंदिरा नगर, लखनऊ, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंडटी/2000 | 16.5.72 |
| 972 | खलीलुर रहमान, पुत्र रत. मौह. वशीरुद्दीन | बिहार एस वी सी/ 1725/ 2000 | ग्राम महेशपुर, डाक हिरुम्बी, थाना धोरैइया, जिला बंका, पिन- 813109 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 2.9.51 |
| 973 | खान जावेद फारुख | एम एस वी सी/ 6424/ 2001 | एटी संदागरपुरा, ब्राह्मणवाडा, तालुक चंद्रबाजार, जिला अमरावती- 444720 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/ 2000 | 10.12.76 |
| 974 | खंडागले राजकुमार कृष्णा | एम एस वी सी/ 6323/ 2000 | एटी डाक सांगेवाडी, तालुक संगोला, जिला सोलापुर— 413307 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 2000 | 4.1.77 |
| 975 | खांगेबाम संजीता देवी | मणि/ 367/ 2000 | कीशम्पत कीसम, लेइकई | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंडटी/2000 | 16.5.72 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---------------------------------|--|---|----------|
| 976 | खांगोबान विजुबाला देवी, पुत्र स्व. श्री खांगोबान गोपाल सिंह | बिहार एस वी सी/ 1971/ 2000 | ग्राम हैरोक, डाक वानजिन, थाना एवं जिला थौबल, पिन- 795148 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 1.2.71 |
| 977 | खरगरिया डॉ. संजीव, पुत्र श्री प्रफुल्ल च. | ए एस एम/ 1942/ 2001 | मिलन नगर, धीमाजी, डाक धीमाजी, जिला धीमाजी | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 978 | किचर संग्राम सिंह रणधीर सिंह | एम एस वी सी/ 6287 / 2000 | सेक. कॉलोनी, 30/ 8, बजाज ऑटो लि., वालुज, जिला औरंगाबाद- 432236 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 98 | 18.11.78 |
| 979 | कृष्ण नंद दास, पुत्र स्व. श्री सत्य नारायण दास | बिहार एस वी सी/ 1400/ 2000 | ग्राम - दुमारी, डाक अचलपुर वाया गोपालगंज, थाना राघोपुर, जिला सुपौल | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 71 | 6.1.46 |
| 980 | खलैन्वोर सिंह नाँगरुम | मेघ/ 158/ 2001 | रिन्जाह, शिलौंग- 6 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 91 | 18.11.66 |
| 981 | खोकन मन्ना | उब्ल्यू बी एस वी सी/ 2779/ 2000 | ग्राम चंदाबिला, डाक झारग्राम, जिला मिदनापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/उब्ल्यू बीयू ए एफएस/2000 | |
| 982 | खोमंते तानाजी बबन | एम एस वी सी / 6294 | एटी डाक वालुंज, तालुक पुरंदर, जिला पुणे- 412301 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी वी/ 2000 | 1.6.77 |
| 983 | खराओ कुपर खरमिहेन | मेघ/ 168/ 2001 | नाँगसेह, अपर शिलौंग | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 91 | 17.3.60 |
| 984 | खुशाल सिंह सोलंकी, पुत्र श्री राम सिंह | आर ए जे एस वी सी/ 2617/ 2000 | गणेश जी के मंदिर के निकट, खंड गोवंडी, सिविल लाइन्स, नयापुरा कोटा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 3.11.73 |
| 985 | खुशदीप कौर, पुत्री श्री गुरनेक सिंह | पी वी एस वी सी/ 2222/ 2001 | तूर पट्टी भवानी गढ़, मिश्रा सिंह ऐडव. के निकट, जिला संगरुर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 30.10.77 |
| 986 | खुशदीप सिंह संधू, पुत्र श्री राजवंत सिंह | पी वी एस वी सी/ 2194/ 2000 | 40-ए/ 3, गोविन्द भवन, गली न. 2, गोपाल नगर, मजीठा रोड, होशियारपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 3.11.74 |
| 987 | किंगे योगेश अशोक | एम एस वी सी/ 6393/ 2000 | एटी डाक खरबदी, तालुक मोटाला, जिला बुलडाना- 443001 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/ 2000 | 15.1.77 |
| 988 | किंकर कुमार महतो, पुत्र श्री बादल चंद्र महतो | बिहार एस वी सी/ 1352/ 2000 | ग्राम लोटा, डाक लोटा, थाना सिल्ली, जिला रांची, पिन- 835102 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 5.1.66 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------|--|--|----------|
| 989 | किरन ए एम, पुत्र श्री महादेवप्पा | कर्ना एस वी सी/ 3068 | न.1645 / 98, 12वां सी आर, रामेश्वर नीलया, टेक्स लेआउट, विद्यानगर, दावणगेरे | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ 99 | 1.5.77 |
| 990 | किरन, पुत्री श्री धरम सिंह | एच ए आर एस वी सी/ 1679 | द्वारा मोहिन्दर सिंह, 1113, एस-1, रोहतक | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/2000 | 24.9.77 |
| 991 | किरन कुमार बी, पुत्र श्री रवीन्द्र नाथ | ए पी एस वी सी/ 03626/ 2000 | वेटापलेम (ग्राम व मौ), प्रकासम जिला- 523187 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 25.7.76 |
| 992 | किरन कुमार कोटरप्पा, पुत्र श्री कोटरप्पा के कोपड़ | कर्ना एस वी सी/ 3157 | 11वां क्रॉस, बी ब्लॉक, बासवेश्वर नगर, हावेरी | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ 2000 | 31.5.77 |
| 993 | किरन सुधाकर राव देशपांडे, पुत्र श्री सुधाकर | ए पी एस वी सी/ 0357/ 2000 | मैसर्स एवियन हैचरीज़ प्रा. लि., रामचंद्रपुरम (वी), नरसावुर (एम) | बी वी एस सी एंड ए एच/मराठवाडा कृ वि वि/ 89 | 25.8.66 |
| 994 | किशन चावला | आर ए जे एस वी सी/2663/ 2000 | द्वारा डॉ. कमलेश चावला, गांधी पार्क, टोंक | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 16.8.71 |
| 995 | कोच डॉ. प्राणजीत प्रतिम, पुत्र श्री पी डी कोच | ए एस एम/ 1882/ 2000 | द्वारा प्रांजल सैकिया (काकू), बामपरबतिया भोगी चुबरी, डाक तेजपुर, दिसपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए यू/ 99 | |
| 996 | कोगनोले सतीश महावीर एम एस वी सी/ 6326/ 2000 | | विठ्ठल मंदिर के निकट, ए/पी कवाठे एकड़, तालुक ताले गांव, जिला सांगली 410637 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/ 2000 | 15.2.77 |
| 997 | कोमारेश्वर एम, पुत्र श्री एमू वेंकटइयाह | ए पी एस वी सी/ 03557/ 2000 | म.न. 3-4-465 सुधानगर, हनमकोडा, वारंगल | बी वी एस सी/ए पी ए यू/78 | 5.1.44 |
| 998 | कोटरा स्वामी एम, पुत्र श्री एम हरीशचंद्र गौडा | कर्ना/ 3194 | आनंदवेनाहल्ली, पिंजार हेगडल डाक, हगारी बोमना हल्ली तालुक, बेलारी जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ 2000 | 22.7.77 |
| 999 | कौसिक गिरि | डब्ल्यू बी एस वी सी/2817/ 2000 | ग्राम एवं डाक शिबपुर, थाना श्यामपुर, जिला हावड़ा | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस/2000 | |
| 1000 | कुमार नरेंद्र नारायण सिंह, पुत्र श्री वालमुकुद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1644/ 2000 | ग्राम नवाडीह, डाक, थाना एवं जिला औरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 1.7.47 |
| 1001 | कुमार वीरेंद्र नाथ, पुत्र श्री रामचंद्र सिंह | बिहार एस वी सी/ 1664/ 2000 | ग्राम एवं डाक दतियाना, थाना विक्रम, जिला पटना, पिन- 801115 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 88 | 10.3.62 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|---|--|----------|
| 1002 | कृष्ण मोहन चंद्र, पुत्र श्री श्रीरामुल नायडु | ए पी एस वी सी / 03606/ 2000 | म.न. 26-1 / 502, बी वी नगर, नेल्लोर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 15.8.75 |
| 1003 | कृष्ण चंद्र झा, पुत्र रत. श्री सुंदर लाल झा | बिहार एस वी सी / 1701/ 2000 | मौह. बौंसी मेन रोड, डाक एवं थाना बौंसी, जिला बंका | बी वी एस सी एंड ए एच/ओ यू ए एंड टी / 76 | 3.9.50 |
| 1004 | कृष्ण कांत कुमार, पुत्र स्व. श्री भुवनेश्वर प्रसाद वेरनवाल | बिहार एस वी सी / 1018/ 2000 | मौह. बिहारी शब लेन, डाक बोकीपुर, थाना— पीरबहोर जिला पटना— 800004 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 82 | 23.11.58 |
| 1005 | कृष्ण कुमार भगत, पुत्र स्व. श्री हरि नंदन प्रसाद भगत | बिहार एस वी सी / 1246/ 2000 | ग्राम डाक एवं थाना जमुई, जिला जमुई | एम पी के वी वी/ आर ए यू/ 75 | 5.8.50 |
| 1006 | कृष्ण कुमार मिश्रा, पुत्र स्व. श्री श्याम सुंदर मिश्रा | बिहार एस वी सी / 1865/ 2000 | ग्राम एवं डाक देवपुरा, थाना बेजीपट्टी, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 15.10.54 |
| 1007 | कृष्ण कुमार प्रसाद, पुत्र रत. श्री नंद कशोर सिंह | बिहार एस वी सी / 1857/ 2000 | मौह. चंद्रेन चौक, डाक मस्तु थाना बढ़, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 79 | 25.10.54 |
| 1008 | कृष्ण कुमार | डी वी सी/ 0567 / 2001 | ई— ८सी, चाणक्य प्लेस, पंखा रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली— 59 | बी वी एस सी एंड ए एच/एच ए यू/ 88 | 31.5.65 |
| 1009 | कृष्ण कुमार कृष्ण, पुत्र श्री राम शोवित झा | बिहार एस वी सी / 1371/ 2000 | एम बी—१, सचिवालय कॉलोनी, डाक एवं थाना कंकरबाग, जिला पटना, पिन— 800020 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 83 | 2.1.60 |
| 1010 | कृष्ण कुमार, पुत्र श्री बांके प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1846/ 2000 | ग्राम अकुसनगर, डाक केनार, थाना सरमेरा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 79 | 1.7.55 |
| 1011 | कृष्ण मोहन प्रसाद, स्व. पुत्र श्री गिरिजा प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1467/ 20000 | मौह. रोड न. ९, डाक राजेंद्र नगर, थाना कदमकुआं, जिला पटना— 800016 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 63 | 1.12.40 |
| 1012 | कृष्ण मुरारी अम्बष्ठा, पुत्र रत. श्री जगदेव नारायण | बिहार एस वी सी / 1034/ 2000 | एम— एम / ४, बी एस हरमू हाउसिंग कॉलोनी, थाना आरगोरा, जिला रांची | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 26.7.47 |
| 1013 | कृष्ण मुरारी साह, पुत्र रत. श्री लक्ष्मण प्रसाद साह | बिहार एस वी सी / 974/ 2000 | ग्राम शेरमारी, डाक एवं थाना पीरपेंती, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 14.8.53 |
| 1014 | कृष्ण सिंह यादव, पुत्र रत. श्री चंद्र देव सिंह यादव | बिहार एस वी सी / 1438/ 2000 | ग्राम दुर्गाचाक, डाक चितौनो, थाना कातरय, जिला गोपालगंज | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 1.1.57 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक आहंतारं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|---|----------|
| 1015 | कृष्ण चौधरी, पुत्र स्व. श्री गनो चौधरी | बिहार एस वी सी / 1451 / 2000 | मौह. दयाचक, डाक रेलवे स्टेशन, थाना बढ़, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 81 | 13.3.55 |
| 1016 | कृष्ण चौधरी, पुत्र श्री रामचंद्र चौधरी | बिहार एस वी सी / 1355 / 2000 | ग्राम फाकराबाद, डाक सोनपुर, थाना सोनपुर, जिला छपरा, पिन- 841101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 14.1.74 |
| 1017 | कृष्ण गोपाल मंडल, पुत्र श्री निकुंज विहारी मंडल | बिहार एस वी सी / 1768 / 2000 | ग्राम एवं डाक गोचाती, थाना दासपुर, जिला मिदनापुर, प. बंगाल- 721148 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 82 | 21.1.57 |
| 1018 | कृष्ण कांत, पुत्र श्री जयदेव सारस्वत | यू. पी वी सी / 3207 | ग्राम करब, डाक करब, जिला मथुरा, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/93 | 28.3.65 |
| 1019 | कृष्णा कापरधी आर पुत्र श्री आर वेकटेश्वरलु | ए पी एस वी सी/03533 / 2000 | म.न. 11-16- 22 / 149, रामीरेड्डीपेट, नरसाराव पेट, गुंटूर जिला - 522601 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/99 | 26.4.74 |
| 1020 | कृष्ण कुमार तिवारी, पुत्र श्री वंशरोपण तिवारी | बिहार एस वी सी / 948 / 2000 | ग्राम गोसाईपुर, डाक एवं थाना शाहपुर पट्टी, जिला आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 89 | 1.1.63 |
| 1021 | कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, पुत्र रव. श्री भरत लाल | बिहार एस वी सी / 1123 / 2000 | मौह. गड्ढी बाजार, डाक एवं थाना छपरा, जिला सीवन | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 20.11.45 |
| 1022 | कृष्ण कुमार . पुत्र रव. श्री हरि प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1368 / 2000 | ग्राम एवं डाक पथरैटा, थाना एवं जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 9.6.48 |
| 1023 | कृष्ण नाग चौधरी, पुत्र श्री गिरेंद्र कुमार नाग | त्रिपुरा / 15 / 2000 | हॉस्पिटल रोड, डाक धरमनगर, त्रिपुरा उ. | बी वी एस सी एंड ए एच/76 | 7.11.53 |
| 1024 | कृष्ण नंद पाठक, पुत्र स्व. श्री बच्छे लाल पाठक | बिहार एस वी सी / 1424 / 2000 | ग्राम अठा, डाक आसरगंज, थाना तारापुर, जिला मुंगेर, पिन- 813221 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 6.7.49 |
| 1025 | कृष्ण कुमार शर्मा, पुत्र श्री राजबीर शर्मा | एम पी एस वी सी / 1911 / 2000 | 160, जवाहर मार्ग, नीमच जिला ,नीमच | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 86- 87 | 10.5.63 |
| 1026 | कृष्ण कुमार शर्मा, पुत्र श्री शिव चरन लाल | एम पी एस वी सी / 1921 / 2000 | झारा रामगोपाल शर्मा, तिकोनिया पार्क के पास, जौरा, जिला मुरैना- 476221 | बी वी एस सी एंड ए एच/आई जी के वी वी / 99-2000 | 21.5.78 |
| 1027 | कृष्णपा, पुत्र श्री मेगामा के राठौड | कर्ना एस वी सी / 3161 | हानापुर डाक, बदामी तालुक, बगलकोट | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 20.7.77 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---|---|--|----------|
| 1028 | कृत्यानंद लाल दास, पुत्र स्व. श्री सूर्य नारायण दास | बिहार एस वी सी / 1408 / 2000 | ग्राम बलात, डाक औंसी, थाना विस्फी, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 1.1.57 |
| 1029 | कुमारी दीप्ती त्रिपले, पुत्री डॉ. मधुकर त्रिपले | एम पी एस वी सी / 1899 / 2000 | 58, जेआर एम आई जी, पुराना सुभाष नगर, भोपाल— 462023 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 91—92 | 27.9.69 |
| 1030 | कुमारी लता चौहान, पुत्री श्री एस आर चौहान | एम पी एस वी सी / 1894 / 2000 | अद्यवाल वार्ड, बीना, जिला सागर— 470113 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 98—99 | 23.9.75 |
| 1031 | कुलदीप सिंह, पुत्र श्री जगदेव सिंह | एच ए आर एस वी सी / 1655 | 243 / 22, विकास नगर, रोहतक | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 28.8.75 |
| 1032 | कुलदीप सिंह, पुत्र श्री सोहन सिंह | पी बी एस वी सी / 2201 / 2000 | म.न. 315, फेस— 11, मोहाली | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/2000 | 6.4.74 |
| 1033 | कुलजंत सिंह, पुत्र श्री कश्मीर सिंह | पी बी एस वी सी / 2191 / 2000 | ग्राम चत्तिविंद, डाक उद्धोनगर, तहसील बाबा बाकला, जिला अमृतसर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 1.5.72 |
| 1034 | कुलकर्णी भालचंद्र आत्माराम | एम एस वी सी / 6325 / 2000 | साई पैलेस, फ्लैट न. 36, सेक्टर 14, वार्षी, न्यू मुम्बई— 400703 | बी वी एस सी एंड ए एच / ओ यू/ 1958 | 7.2.32 |
| 1035 | कुमार कांता प्रसाद, पुत्र श्री रामजस सिंह | बिहार एस वी सी / 1404 / 2000 | एम—रोड न. 32, ब्लॉक 150 / 2 / 1, थाना आर टी आई, जिला प.सिंगभूम—831013 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 5.9.67 |
| 1036 | कुमार विकास, पुत्र श्री प्रकाश | एव ए आर एस वी सी / 1631 | म.न. 281, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नारनील (म.गढ़) | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 29.6.78 |
| 1037 | कुमार युगल किशोर सिंह, पुत्र श्री दामोदर सिंह | बिहार एस वी सी / 2039 / 2000 | ग्राम एवे डाक महदालीचक, डाक नया गांव, थाना सोनपुर, जिला सारन | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 23.12.43 |
| 1038 | कुमुद रंजन, पुत्र श्री रबींद्र कुमार सिंह | बिहार एस वी सी / 927 / 2000 | मौह. चित्रगुप्त नगर, डाक लोहियानगर, थाना पत्रकार नगर, पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 25.6.67 |
| 1039 | कुणाल चक्रबर्ती | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2800 / 2000 | 27, लाइब्रेरी रोड, तालीखोला, डाक चुचुरा (आर सी), जिला हुगली | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस / 2000 | |
| 1040 | कुंदन कुमार मिश्रा, पुत्र श्री दिनेश मिश्रा | बिहार एस वी सी / 1032 / 2000 | ग्राम एवं डाक ब्रमरपुर, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर, पिन— 853201 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 91 | 20.5.67 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|---|--|----------|
| 1041 | कुंज बिहारी प्रसाद अग्रवाल, पुत्र स्व. श्री कुमेश्वर प्र. अग्रवाल | बिहार एस टी सी / 1476 / 2000 | मौह. इंदिरापुरी, क्वान. डी / 23, डाक बीपी कॉलेज, थाना शास्त्रीनगर, पटना— 800014 | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 63 | 15.7.40 |
| 1042 | कुरैशी मौह. इज़हार मौह. अब्दुल करीम | एम एस वी सी / 6291 / 2000 | आजुम कॉलोनी, दरगाह रोड, परमनी, जिला परमनी— 431401 | बी वी एस सी एड ए एच / के के वी/ 77 | 1.1.50 |
| 1043 | लखी राम कोझू, पुत्र स्व. श्री हरिनाथ कोझू | बिहार एस वी सी / 979 / 2000 | ग्राम पतरातु, डाक पतरातु, थाना सिल्ली, जिला राची, पिन— 835102 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 87 | 24.6.61 |
| 1044 | लखविंदर पाल सिंह, पुत्र श्री सोहन लाल | पी वी एस टी सी / 2189 / 2000 | ग्राम नाई माजरा, डाक किशनपुरा, तह. एवं जिला— नवांशहर | बी वी एस सी एड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 10.1.78 |
| 1045 | लक्कावर अविनाश वरुणदेव | पॉण्डी / 122 / 2000 | 33, ॥ क्रॉस, आनन्दपुरम, पक्कमुड्यनपेट, पॉण्डीचेरी | बी वी एस सी एड ए एच / पी के वी/ 94 | 11.2.69 |
| 1046 | लक्ष्मी आई | केरल एस वी सी / 2489 / 2000 | इंदिरामंदिरम, स्ताथि नगर, लेन न. 1, पेरुरकडा | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 26.4.77 |
| 1047 | लक्ष्मी कटटपन | केरल एस वी सी / 2494 / 2000 | पेराकोड, टी सी, 29 / 434, थेंगापुरा लेन, पेट्टाह, त्रिवेन्द्रम | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 24.10.75 |
| 1048 | लक्ष्मी नारायण पी, पुत्र श्री पी चिना नारायण | ए पी एस वी सी / 03610 / 2000 | नरसापुरम (ग्राम), पेड़डाणपुर (एम), अनंतपुर जिला— 515408 | बी वी एस सी एड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 1.6.73 |
| 1049 | लाल बाबू सिंह, पुत्र स्व. श्री दुर्गा सिंह | बिहार एस वी सी / 1673 / 2000 | ग्राम दिलावरपुर, डाक मनोहरपुर, थाना रघुनाथपुर, जिला मोतीहारी | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 81 | 27.10.53 |
| 1050 | लाल बाबू सिंह, पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 899 / 2000 | ग्राम विष्णुपुर, डाक मथा सोनहो, थाना अमनौर, जिला छपरा | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 78 | 15.1.53 |
| 1051 | लाल वहादुर सिंह, पुत्र स्व. श्री राजेश्वर सिंह | बिहार एस वी सी / 1747 / 2000 | ग्राम एवं डाक— मिरदौल, थाना नरपतगंज, जिला अरेण्या | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 68 | 1.12.46 |
| 1052 | लाल बिहारी प्रसाद, पुत्र स्व. श्री एस भगत प्रसाद | बिहार एस वी सी / 985 / 2000 | ग्राम चोकिया, डाक नदियांवा, थाना आंदोर, जिला सीवन | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 92 | 7.7.67 |
| 1053 | लाला नरेश प्रसाद, पुत्र श्री युगल किशोर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 2017 / 2000 | मौह. शेखपुरा, डाक बी वी कॉलेज, थाना शास्त्रीनगर, जिला पटना | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 64 | 1.6.43 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|----------------------------|---|--|----------|
| 1054 | ललन कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद यादव | बिहार एस वी सी/ 2075/ 2001 | ग्राम रामपुर रोड, डाक जमालपुर गोगरी, जिला खगरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 15.3.74 |
| 1055 | ललन प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री चंद्रिका सिंह | बिहार एस वी सी/ 2028/ 2000 | एम-ए/ 50, सुनंदा सदन, डाक बी वी कॉलेज, थाना शास्त्रीनगर, पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी यू/ 58 | 2.10.34 |
| 1056 | ललित कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री जगदीप नारायण | बिहार एस वी सी/ 937/ 2000 | मौ. अशोकनगर, रोड न. 8ए/ 2; डाक एवं थाना कंकरबाग, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 25.3.47 |
| 1057 | ललितेश्वर लाल दास, पुत्र श्री तरनी लाल दास | बिहार एस वी सी/ 1510/ 2000 | मौ. अरसनडे, डाक बोरेजा, थाना कनके, जिला रांची | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 1.9.50 |
| 1058 | ललितेश्वर प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्व. श्री लाल बिहारी सिन्हा | बिहार एस वी सी/ 1412/ 2000 | ग्राम घरदौर, डाक लाखना, थाना पुन्पुन, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 1.7.42 |
| 1059 | ललिथा एन, पुत्री श्री एन वेंकटेश्वरलू | ए पी एस वी सी/ 03605/ 2000 | 18-3-61/7, खादी कॉलोनी, त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 13.5.76 |
| 1060 | ललित नारायण रौय, पुत्र स्व. श्री राम सुंदर रौय | बिहार एस वी सी/ 1293/ 2000 | ग्राम पाकारी, डाक आराह, थाना नवादा, जिला भोजपुर, आराह— 802301 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 8.10.42 |
| 1061 | लट्टो सराग हरि | एम एस वी सी/ 6335/ 2000 | मातृ श्रद्धा, बी/12, तिलक नगर, तालुका कल्याण, जिला थाणे | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 2000 | 23.6.78 |
| 1062 | लावण्या कुमार टी, पुत्री श्री टी थिरुमला राव | ए पी एस वी सी/ 03622/ 2000 | अम्बेडकर नगर, तंगुतूर, प्रकासम जिला — 523274 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 20.7.76 |
| 1063 | लक्ष्मण मुरमू, पुत्र स्व. श्री करनल मुरमू | बिहार एस वी सी/ 945/ 2000 | ग्राम बनशिला, डाक कलिकापुर, थाना पोरका, जिला जमशेदपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 10.1.63 |
| 1064 | लक्ष्मी कांत सन्वाल, पुत्री स्व. श्री एम एम, सन्वाल | यू. पी. वी. सी./ 3303 | सन्वाल सदन, गुरु निवास कम्पाउंड, डाक तल्ली, तालुक— नैनीताल | बी वी एस सी एंड ए एच/ वेट कॉलेज, मथुरा | 1.6.38 |
| 1065 | लक्ष्मी महतो, पुत्र स्व. श्री राम प्रसाद महतो | बिहार एस वी सी/ 1614/ 2000 | ग्राम मोहनपुर, डाक गोविन्दपुर, थाना मंसूरचाक, जिला बगुसराय, पिन— 851128 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 1.6.51 |
| 1066 | लक्ष्मी नारायण सुधाशु, पुत्र श्री बिन्देश्वरी प्र. सिंह | बिहार एस वी सी/ 987/ 2000 | ग्राम सलवाटपुर, डाक कावा, थाना हिलगा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 3.1.43 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्दताएं उन्नापायि |
|---------|---|---|---|--|
| 1067 | लीला राम, पुत्र श्री रामा राम | आर ए जे एस ती सी / 2724 / 2000 | ग्राम एवं डाक कोडका, वाया रानीवाडा, ज़ालेस- 343040 | बी वी एस सी एड ए एच/सज कृ वि वि/ 2000 8.8.72 |
| 1068 | लीना चंद्रशेखर | केरल एस वी सी / 2506 / 2000 | केंगायिल हाउस, न. 327, मदायिकोनम डाक, इरिजलाकुडा | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 1.1.76 |
| 1069 | लिजॉय के मैथ्यू | केरल एस वी सी / 2479 / 2000 | कुलाथूर, नन्नूककुडु पथानथिट्टा, पिन- 687645 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 13.1.76 |
| 1070 | लिंगइयाह जे, पुत्र श्री जे कोटइयाह | ए पी एस वी सी / 03587 / 2000 | द्वारा च. सत्यनारायण रेड्डी, लिंगपलेम (डाक एवं गो.) प. गोदावरी | बी वी एस सी एड ए एच/ए पी ए यू/ 93 10.5.89 |
| 1071 | लिटोन बिरतास | डब्ल्यू बी एस ती सी / 2812 / 2000 | ग्राम चोआटिया, डाक भवानीपुर, थाना बागाया, जिला 24 परगना (उ.) | बी वी एस सी एड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एक एस / 2000 |
| 1072 | लोकेश दास, पुत्र श्री नरेश च. दास | त्रिपुरा / 91 / 2000 | शंकर चौमुहनी, कृष्णपुर अगरताला, त्रिपुरा (पश्चिम) | बी वी एस सी एड ए एच/ के के वी/ 98 6.1.73 |
| 1073 | लोकेश गौतम | आर ए जे एस ती सी / 2684 / 2000 | देव भारायण मंदिर के सामने, कनसुदा, कोट्टा | बी वी एस सी एड ए एच/ राज कृ वि वि/ 2000 23.11.74 |
| 1074 | लोकेश एम एस | केरल एस वी सी / 2524 / 2000 | viii / 124, मुरुगन मंदिर के निकट, किळनगूर, अंगमाली- 683572 | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 92 15.8.84 |
| 1075 | लुमलांग जिरवा | मेघ / 179 / 2001 | ऑक्सफोर्ड हिल, लाबान, शिलौंग- 4 | बी वी एस सी एड ए एच/ए ए यू/ 82 1.1.53 |
| 1076 | लीडिया धनमल क्रिस्टोफर | पॉण्डी / 119 / 2000 | असि. वार्डन (महिला होस्टल), रेजिडेंशल जोन, आर जी सी वी एड ए एस, पॉण्डीचेरी- 9 | बी वी एस सी/टी एन वी एड ए एस यू/92 13.11.57 |
| 1077 | एम गोपालकृष्णन नायर | पॉण्डी / 120 / 2000 | वी-6, स्टाफ क्वार्टर्स, आर जी सी वी एड ए एस, पॉण्डीचेरी- 9 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 83 9.8.61 |
| 1078 | एम के पालित | आरुणा / 184 / 98 | थिज्ञा, पश्चिमी कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश | बी वी एस सी एड ए एच/ए ए यू/ 81 1.2.54 |
| 1079 | एम फजलुर रहमान, पुत्र रव. गौह. यूसुफ | गिहार एस वी सी / 866 / 2000 | एम-80, हारून नगर कॉलोनी, डाक त थाना फुलवारीशरीफ, जिला पटना- 801505 | बी वी एस सी एड ए एच/ए ए यू/ 84 8.1.43 |

| क्र. सं. | नाम | पंजीय सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मविधि |
|----------|---|---|--|--|----------|
| 1080 | एम राजेन्द्रनी मैथिली | पौण्डी / 130 / 2001 | 12, 7वां क्रॉस रोड, भारती नगर, लॉसपेट, पौण्डीचेरी- 605008 | बी वी एस सी एंड ए एच / पी यू / 2000 | 7.8.78 |
| 1081 | एम सत्य नारायण राजू | पौण्डी / 123 / 2000 | 29, 111 क्रॉस, पहला मेन रोड, कुमारन नगर एक्स., लॉसपेट, पौण्डीचेरी 605008 | बी वी एस सी / ए पी ए यू / 79 | 1.5.56 |
| 1082 | मदन भोहन सहाय, पुत्र स्व. श्री गोख्य नदन सहाय | बिहार एस ती सी / 838 / 2000 | एम- ब्लॉक न. 7, फ्लैट नं.82, डाक राजेंद्र पगर, थाना कदमकुआ, पटना | बी वी एस सी एंड ए एच / एम यू / 66 | 1.7.42 |
| 1083 | मदन भोहन भाली | आर ए जे एस वी सी / 2654 / 2000 | पुत्र श्री राम चरन लाल भाली, जिला शिक्षा कार्यालय के निकट, बापू पाडा, | बी वी एस सी एंड ए एच / राज कृ षि वि / 2000 | 8.11.75 |
| 1084 | मदन भोहन, पुत्र श्री चंद्रिका प्रसाद सिंहा | बिहार एस ती सी / 1678 / 2000 | ग्राम शम्भुपुरा, डाक तिरखोरा, थाना नौबतपुर, ज़िला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 81 | 5.11.54 |
| 1085 | मदन मुरारी प्रसाद, पुत्र स्व. श्री राम शरन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1726 / 2000 | ग्राम अलीपुर, डाक केसरी, थाना खिड, ज़िला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 74 | 16.3.51 |
| 1086 | माधवलाल रायकवार, पुत्र स्वी बाबूलाल रायकवार | एम पी एस वी सी / 1880 / 2000 | पंडितपुरा, सिलवानी, ज़िला रायसेन- 464886 | बी वी एस सी एंड ए एच / जे एन के वी वी / 98- 99 | 3.1.67 |
| 1087 | मधु घंट खान | डब्ल्यू वी एस ती सी / 2796 / 2000 | ग्राम दुर्लोव गंज, डाक सतखकुरा, ज़िला मिदनापुर | बी वी एस सी एंड ए एच / डब्ल्यू वीयू ए एफ एस / 2000 | 16.7.74 |
| 1088 | मधु चौधरी, दुर्णी श्री ए पी चौधरी | एम पी एस वी सी / 1908 / 2000 | चौधरी निवास 9, मधुवन फार्म, विनीत कुंज, अकबरपुर, कोलार | बी वी एस सी एंड ए एच / जे एन के वी वी / 98- 99 | 8.5.76 |
| 1089 | मधु कुमार यू. पुत्र श्री उमपथि | कर्ना एस वी सी / 3084 | एन डब्ल्यू सी 247 / ए. गणेश कॉलोनी, भद्राष्ट्री, शिवमोगा | बी वी एस सी एंड ए एच / यू ए एस धारवाड / 99 | 1.1.48 |
| 1090 | मधु कात झा, पुत्र स्व. श्री रमाकात झा | बिहार एस वी सी / 1707 / 2000 | ग्राम तेतरी, डाक तेतरी पाकरा, थाना नवगचिया, ज़िला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 74 | 16.2.48 |
| 1091 | मधुकर एम, पुत्र श्री एन गोपिन्दा | ए पी एस वी सी / 03570 / 2000 | 34 / बी, वेंकटेश्वर नीलायम, पदमनाथ नगर, मेहदीपटणम, हैदराबाद- 500028 | बी वी एस सी / ए पी ए यू / 72 | 17.5.76 |
| 1092 | मधुकरेश्वर एच, पुत्र श्री गुरुमूर्ति एच | कर्ना एस वी सी / 3085 | डोर न. 7 / 877, के बी एक्स., दावणगरे- 577002 | बी वी एस सी एंड ए एच / यू ए एस धारवाड / | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|--|--|
| 1093 | मधुमेता मित्रा कुमारी, पुत्री श्री शंकर कुमार मित्रा | त्रिपुरा / 92 / 2000 | 66, शिवनगर, कॉलेज रोड, डाक अगरतला कॉलेज, त्रिपुरा पश्चिम | बी वी एस सी एंड ए एच/जे. एन के वी वी/ 96 3.1.72 |
| 1094 | मधुरेदु कुमार गुप्ता, पुत्र डॉ. राजेंद्र कुमार गुप्ता | बिहार एस वी सी / 825 / 2000 | ग्राम अरसनडेव, डाक बोरैवा, थाना कंकेव, रांदी- 835240 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 2.5.61 |
| 1095 | माधुरी कुमारी, पुत्री श्री सुरेन्द्र नाथ विद्यार्थी | बिहार एस वी री/ 886 / 2000 | मौह. आशानगर, डाक हाथना, थाना मीरगंज, जिला गोपालगंज- 803118 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 99 31.12.74 |
| 1096 | मधुसूदन पिल्लई आर | पॉण्डी / 90 / 2000 | न. 3, ब्लॉक ए, प्रोफे. कवा., राजीगांध वेट, कॉ., रेजीडेंशल जोन, कुरुम्यापेट, पाण्डीचेरी | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 74 12.5.52 |
| 1097 | मधुसूदन भगत, पुत्र श्री लिंगाम भगत | बिहार एस वी री / 1638 / 2000 | ग्राम चंपरोंग, डाक मुंगी (चारहु), थाना सेनहा, जिला लोहारडग्गा- 835302 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 25.2.64 |
| 1098 | मधुसूदन प्रसाद सिंह, पुत्र श्री चंद्रेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी री / 1945 / 2000 | मौ. चित्रगुप्त नगर, डाक कंकरबाग, थाना पटकार, जिला पटना- 800020 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 5.11.54 |
| 1099 | मधुसूदन सिंह, पुत्र स्व. श्री राम नंदन सिंह | बिहार एस वी री / 1828 / 2000 | ग्राम मचौल, डाक अमरास, थाना मनिवारी, जिला मुजफ्फरपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 69 21.12.48 |
| 1100 | मुसूदन जे आर पुत्र श्री राजना के एन | कर्ना / 3190 | जोन्नापल्ली, कोटाबल्लापल्ली, श्रीनिवासपुर तालुक, कोलार जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 1.7.76 |
| 1101 | मधुसूदन राजे एन, पुत्र श्री एन वेंकटइयाह | ए पी एस वी री / 03584 / 2000 | 12-2-823 / ए / 87, फ्लैट न. 7, शांति अपा., संतोषनगर कॉलो, मेहदीपटणम, हैदरबाद | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 73 10.8.45 |
| 1102 | महा सिंह, पुत्र श्री शुभ राम | एच ए आर एस वी री / 1614 | ग्राम एवं डाक सांगा, जिला भिवानी | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 99 7.11.75 |
| 1103 | महा देवना गौडा पी पाटील, पुत्र श्री वेंकना गौडा एल पाटील | कर्ना / 3210 | डाक हामफिलहोली, सुरेबन, रामदुर्ग, तालुक, बेलगाम जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 15.3.77 |
| 1104 | महंता डॉ. संजीब कुमार, पुत्र स्व. श्री पद्म महंता | ए एस एम / 1909 / 2000 | डाक आजाद पुरानी गांव, ग्राम बाशपति गांव, जिला लखीमपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 |
| 1105 | महतुगडेम संजय मनकु | एम एस वी री / 6330 / 2000 | एटी डाक सावरदे, बुदरुक, तालुक कोगल, जिला कोल्हापुर- 416219 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी / 2000 24.12.76 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हतारं | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|----------|
| 1106 | महेंद्र कुमार आर्या | आर ए जे एस वी सी/2630/ 2000 | ए-14, अब्बेडकर नगर, टोक फाटक, जयपुर | बी वी एस सी एड ए एच/ राज कृ वि वि/ 2000 | 12.11.75 |
| 1107 | महेंद्र कुमार गुप्ता, पुत्र श्री रमेश च. गुप्ता | आर ए जे एस वी सी/2697/ 2000 | ग्राम जमालपुर, डाक खेड़ा, तह. हिन्डौन, करौली, राजस्थान | बी. वी एस सी एड ए एच/ राज कृ वि वि/ 2000 | 2.7.73 |
| 1108 | महेंद्र नारायण पंडित, पुत्र श्री पंचानन पंडित | बिहार एस वी सी/ 864/ 2000 | मौह. बलियारपुर (ई आर बी एच यू), डाक एवं थाना मुंगेर सदर, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एड ए एच/ एम यू/ 68 | 4.10.43 |
| 1109 | महेंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र स्त. श्री रामनंदन सिंह | बिहार एस वी सी/ 1627/ 2000 | ग्राम गोसाईथ, डाक एवं थाना पीरोबाजार, जिला लखीसराय, पिन- 811112 | बी वी एस सी एड ए एच/ आर ए यू/ 73 | 1.7.48 |
| 1110 | महेंद्र प्रसाद, पुत्र स्त. श्री सत्य नारायण लाल | बिहार एस वी सी/ 1043/ 2000 | ग्राम एवं डाक मोरडीहा, थाना ठाकुर गंज, जिला गोड़डा | बी वी एस सी एड ए एच/ एम यू/ 66 | 6.7.42 |
| 1111 | महेंद्र सिंह परिहार, पुत्र श्री राम रत्न परिहार | एम पी एस वी सी/ 1870/ 2000 | ग्राम इंद्रामढ, जिला दतिया (म.प्र.) 475675 | बी वी एस सी एड ए एच/ जे एन के वी वी/ 98- 99 | 20.7.75 |
| 1112 | महेश चंद | आर ए जे एस वी सी/2678/ 2000 | ग्राम एवं डाक हेलाक, वाया सेवार, भरतपुर | बी वी एस सी एड ए एच/ राज कृ वि वि/ 2000 | 1.1.76 |
| 1113 | महेश गुप्ता | आर ए जे एस वी सी/2665/ 2000 | द्वारा श्री विष्णु कुमार प्रधान, आदर्श होटल के निकट, प्रधान मेडिकल | बी वी एस सी एड ए एच/ राज कृ वि वि/ 2000 | 20.3.73 |
| 1114 | महेश कुमार सुमन | आर ए जे एस वी सी/2647/ 2000 | ग्राम एवं डाक तिसया, तह. एवं जिला बोरोन, राजस्थान | बी वी एस सी एड ए एच/ राज कृ वि वि/ 2000 | 26.6.73 |
| 1115 | महेश कुरियावर, पुत्र श्री निंगप्पा कुरियावर | कर्ना एस वी सी/ 3101 | द्वारा भिमाकिंका ट्रेडर्स, ए पी एम सी कंप्यूटर केंद्र, नं. 2, वेकटेश के सामने | बी वी एस सी एड ए एच/ यू ए एस धारवाड/ 98 | 12.12.75 |
| 1116 | महेश प्रसाद साह, पुत्र रत, श्री नटवर प्रसाद राह | बिहार एस वी सी/1239/ 2000 | मौ. साहेबगंज, डाक मथुरा साहेब, थाना बेलहोर, जिला बंका, पिन- 813202 | बी वी एस सी एड ए एच/ बी ए यू/ 83 | 27.12.55 |
| 1117 | महेश्वर नाथ तिवारी, पुत्र स्त. श्री रघुनाथ तिवारी | बिहार एस वी सी/1264/ 2000 | मौह. दहियांवा टोला, डाक थाना एवं जिला - छपरा | बी वी एस सी एड ए एच/ एम यू/ 67 | 21.8.42 |
| 1118 | महिमा मिंज, पुत्री श्री मार्टिन मिंज | बिहार एस वी सी/ 1375/ 2000 | मौह. टिगरा गंगा टोली, डाक गुरु (रातु), थाना रातु, जिला रांची, पिन- 835222 | बी वी एस सी एड ए एच/ बी ए यू/ 96 | 2.2.71 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---|--|--|----------|
| 1119 | महिपाल सिंह | आर ए जे एस ती सी / 2658 / 2000 | 1 / 117, हाउसिंग बोर्ड, झुझूनू | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 28.2.74 |
| 1120 | महिता ओ, पुत्री श्री ओ वेंकटेश्वरलू | ए पी एस ती सी / 03615 / 2000 | प्रियदर्शन कॉलोनी, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, अल्पाकुर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू / 2000 | 19.8.75 |
| 1121 | महमूद आलम, पुत्र डॉ. मौह. अहसान | बिहार एस ती सी / 1995 / 2000 | ग्राम एवं डाक हुसैना, थाना बहिया, जिला- बेगुसराय, पिन- 851211 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू / 65 | 1.1.44 |
| 1122 | महरुकर अश्विन विष्णुपंत | एम एस ती सी / 6375 2000 | जीजामत नगर, जैन मंदिर के निकट, तालुक हिंगोली, जिला हिंगोली- 431513 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू / 2000 | 2.10.78 |
| 1123 | महुया दत्ता | डब्ल्यू बी एस ती सी / 2828 / 2000 | 26 / 4 / 1, बैनर्जी पारा रोड, चटर्जी बागान, कोलकाता- 41 | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस / 2000 | |
| 1124 | मैती निमाई कुमार | पॉण्डी / 100 / 2000 | 57, तीसरा क्रॉस, कुमारन नगर, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी- 605009 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के बी वी / 75 | 19.6.54 |
| 1125 | माकेश्वर राह, पुत्र रा. श्री वानारसी राह | बिहार एस ती सी / 1502 / 2000 | ग्राम कोनीपुर, डाक दाघरी, थाना सूर्यगढ़, पिन- 811106 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू / 96 | 3.7.69 |
| 1126 | माकनेश्वर प्रसाद, पुत्र रा. श्री कुंतर प्रसाद | बिहार एस ती सी / 932 / 2000 | ग्राम झीलगंज रोड, डाक गया, थाना कोतवाली, जिला गया, पिन- 823001 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू / 67 | 4.1.43 |
| 1127 | मलाठेश डी एस, पुत्र श्री शानमुकपा | कर्ना एस ती सी / 3166 | मलाठेश कॉम्प्लेक्स के पीछे, छठा क्रॉस, राजाराजेश्वरी नगर, रेनेबन्नूर, हावेरी | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 13.11.77 |
| 1128 | मलय कुमार रे, पुत्र स्व. श्री रामत कुमार रे | बिहार एस ती सी / 2014 / 2000 | मौ. देशबंधुपाड़ा, डाक एवं थाना सिलीगुड़ी, जिला दार्जिलिङ्ग, प. बंगाल | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू / 63 | 18.8.42 |
| 1129 | मलय कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री राहस बिहारी | आर ए जे एस ती सी / 2755 / 2001 | बी के. ए. चोमु हाउस, सी स्कीम, जयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/ आर के बी वी / 87 | 28.5.64 |
| 1130 | मैल्कोम डखार | मेघ / 154 / 2001 | मौलाई, किंटोन मसार, शिलांग | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू / 81 | 1.3.52 |
| 1131 | मल्ला रेड्डी वी, पुत्र श्री वी हनुमंत रेड्डी | ए पी एस ती सी / 03551 / 2000 | प्लॉट न. 83 / ए, पुराना गायत्री नगर, जिल्लेलागुडा डाक, आर आर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/84 | 21.11.38 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हतारं | जन्मतिथि |
|---------|---|--|--|---|----------|
| 1132 | मल्लेश्वर राव यू. वी एन, पुत्र श्री यू. कृष्ण गोपाल राव | ए पी एस वी सी / 03624 / 2000 | रायावरम, गुड्हुर (एम), कृष्णा जिला - 521162 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/ए. एन. जी आर. ए. यू./ 2000 | 3.10.75 |
| 1133 | ममथा जी एस, पुत्री श्री राजीवा मूर्धि वी एन | कर्ना एस वी सी / 3182 | गोटकानापुरा कल्लुडी डाक, गौरीबिदनूर, बी. ई. एल लेआउट, बंगलौर - 97 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/यू. ए. एस बंगलौर / 2000 | 10.9.77 |
| 1134 | मन गोहन महतो, पुत्र श्री चांद महतो | बिहार एस वी सी / 1633 / 2000 | ग्राम पलना, डाक बाबूराम डी. ह, थाना तामेर, जिला रांची, पिन - 835225 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/बी. ए. यू./ 95 | 3.1.68 |
| 1135 | मंडालथ सुजा जॉन | केरल एस वी सी / 2517 / 2000 | मंडालथ हाउस, मंडप्पाटू रोड, सांति नगर, वेळला डाक, कोचीन | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/जॉ. पी. डी. के. वी / 2000 | 28.10.77 |
| 1136 | मांडवी बल्लभ झा, पुत्र श्री दशरथ झा | बिहार एस वी सी / 1962 / 2000 | ग्राम पारसा, डाक हरिपुर मैरवाना, थाना एवं जिला गोड्डा, पिन - 814133 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/आर. ए. यू./ 97 | 8.8.70 |
| 1137 | मंदीप सिंगला, पुत्र श्री किंदार नाथ | पी. वी. एस वी सी / 2253 / 2001 | 3xx-1650 / 1, न्यू प्रेम नगर, लुधियाना | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/पी. ए. यू./ 2001 | 17.3.77 |
| 1138 | माने सुरेखा दिगम्बर रात | एम एस वी सी / 6370 / 2000 | मीनाक्षी भाग्य नगर, नगर रोड, तालुक बीड, जिला बीड - 431122 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/एम. ए. यू./ 2000 | 26.11.75 |
| 1139 | मणि भूषण प्रसाद, पुत्र श्री ब्रज भूषण प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1511 / 2000 | मौ. प्रताप नगर, मधुबनी, डाक पूर्णिया, थाना खंजाची, जिला पूर्णिया | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/एम. यू./ 69 | 7.5.48 |
| 1140 | मणि लाल रस्तोगी, पुत्र रत्न श्री पुरुषोत्तम लाल रस्तोगी | बिहार एस वी सी / 2053 / 2000 | एम- बी. बी. घोष लेन, मोती झील, डाक जी पी ओ, थाना टाउनथाना, जिला मुजफ्फरपुर | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/आर. यू./ 69 | 7.6.45 |
| 1141 | मणि भोहन, पुत्र रत्न श्री लाल बहादुर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1926 / 2000 | एम फ्रैंडस कॉलोनी, डाक आशियाना नगर, थाना शास्त्री नगर, पटना - 800025 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/एम. यू./ 64 | 10.1.42 |
| 1142 | माणिक चंद्र पखीरा | डब्ल्यू. वी. एस वी. सी / 2829 / 2000 | ग्राम एवं डाक सहरदा, जिला मिदनापुर | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/डब्ल्यू. वी. यू. ए. एफ. एस / 2000 | |
| 1143 | मणिकंचन चक्रबर्ती, पुत्र श्री असित बरान | ग्रिपुरा / 17 / 2000 | पुरानी कालीबारी लेन, कृष्ण नगर, अगरतला | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/आर. ए. यू./ 76 | 4.1.54 |
| 1144 | मणिकांत सिंह, पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 830 / 2000 | ग्राम एवं डाक धीमा, थाना बानमंखी, जिला पूर्णिया | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच/एम. यू./ 65 | 1.7.40 |

| क्र.सं. | नाम | पजा. सं. | पता | शैक्षणि, अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|--|----------|
| 1145 | मनीचंद्र नाथ देव, पुत्र श्री राम चंद्र प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1333 / 2000 | मौह, इंद्रानगर, आर एन एस कॉलोनी, डाक लोहिया नगर, डाक कंकरबाग, पटना 800020 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 6.1.43 |
| 1146 | मनीचंद्र नाथ सिन्हा, पुत्र रव. श्री केशरी प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1899 / 2000 | एम-ए / 10, इंदिरापुरी कॉलो., डाक बीवी कॉलेज, थाना शास्त्रीनगर, पटना 800014 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी यू/ 58 | 3.7.37 |
| 1147 | मनीष कुमार | डी वी सी / 0556 / 2000 | श्री आई सिंह, मुबारकपुर, देबास, म.न. 392, डाक रानीखेड़ा, दिल्ली- 81 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/97 | 17.1.74 |
| 1148 | मनीष कुमार शुक्ला, पुत्र श्री अवध नारायण | गू पी वी सी / 3285 | ग्राम एवं डाक देओरी बुजुर्ग, जिला फतेहपुर (उ.प्र.) | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 15.8.77 |
| 1149 | मनीष कुमार सिंगला, पुत्र श्री गिल्खी राम | पी बी एस वी सी / 2239 / 2001 | म.न. 3146, स्ट्रीट न. 1, कोर्ट रोड, भटिण्डा | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 3.3.77 |
| 1150 | मनीष कुमार, पुत्र रव. श्री जनार्दन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1922 / 2000 | ग्राम लोहाडी, डाक एवं थाना सोहसराय, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 99 | 1.6.75 |
| 1151 | मंजुला च. पुत्री श्री सुब्रह्मन्यम | ए पी एस वी सी / 03596 / 2000 | पुत्री वनजाक्षमा मल्लमा टेम्पल स्ट्रीट, वैकटगिरि टाउन, नेल्लोर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 31.5.71 |
| 1152 | मंजूनाथ वी एम, पुत्र श्री मुनिराजू | कर्ना एस वी सी / 3181 | बोधागनहल्ली, डाक थिप्पेनहल्ली, विकबल्लापुर तालुक, कोलार जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 25.12.75 |
| 1153 | मंजूनाथ एव टी, पुत्र श्री शिपोरवारी एच वी | कर्ना एस वी सी / 3178 | डाक हुलिकुंटे, तालुक सीरा, जिला तुमकुर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 5.6.77 |
| 1154 | मंजूनाथ प्रभु वी एम, पुत्र श्री एम मुथाहनुमझगाह | कर्ना / 3191 | न. 14, गोकुला, प्रथम स्टेज, प्रथम फेज, बंगलौर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 8.8.76 |
| 1155 | मंजूनाथ सुगूर, पुत्र श्री एम मीनाक्षणा | कर्ना एस वी सी / 3137 | जेल रोड, चौथा क्रॉस, होसामने एक्स., शिमोगा | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 97 | 18.5.75 |
| 1156 | मंजूनाथ के एन, पुत्र श्री नागप्पा | ए पी एस वी सी / 03552 / 2000 | द्वारा एम बी रामाकृष्णा, बुक्कापटणम (एम), अनंतपुर जिला | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 96 | 8.7.68 |
| 1157 | मनमोहन प्रसाद, पुत्र श्री अर्जुन प्रराद | बिहार एस वी सी / 1955 / 2000 | एम-सदर हॉस्पिटल, डाक एवं थाना डाल्टनगंज, जिला पलामू, पिन- 822101 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 5.1.62 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहतारं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|---|----------|
| 1158 | मनमोहन सिंह दरदी, पुत्र श्री राम प्रकाश | पी बी एस वी सी / 2225 / 2001 | ग्राम एवं डाक हरियाना, जिला होशियारपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 1.5.75 |
| 1159 | मनोहर कुमार, पुत्र श्री नोनी गोपाल सिंह | बिहार एस वी सी / 1221 / 2000 | ग्राम बरोहिया, डाकबुध्याक, थाना काहलगांव, जिला भागलपुर, पिन- 813222 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 95 | 7.6.70 |
| 1160 | मनोहर आर, पुत्र श्री एम एन रामास्वामी | कर्ना एस वी सी / 3093 | न. 37, एम आई जी आई ए ए, मेन न्यू, येलाहका, बंगलौर | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर / 99 | 11.4.76 |
| 1161 | मनोज कुमार महंता, पुत्र स्व. श्री लातू राम महंता | बिहार एस वी सी / 1336 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना राजनगर, जिला वैदागा (प. सिंधभूम), पिन- 832113 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 15.11.61 |
| 1162 | मनोज कुमार प्रसाद, पुत्र स्व. श्री ललित नारायण प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1377 / 2000 | मौह. नदी दीपो, डाक एवं थाना कनके, जिला रांची, पिन- 834006 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 17.7.68 |
| 1163 | मनोज कुमार जोशी, पुत्र श्री देवी दत्ता जोशी | यू पी वी सी / 3261 | श्री झी झी जोशी, ग्राम एवं डाक वड्डा, जिला पिथौरागढ, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 2000 | 6.3.75 |
| 1164 | मनोज कुमार मणि, पुत्र स्व. श्री दीना नाथ मंडल | बिहार एस वी सी / 1713 / 2000 | ग्राम हाजीपुर (राजगांव), डाक मिरसा चौकी, थाना एवं जिला साहेबगंज, पिन- 813203 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 92 | 29.1.67 |
| 1165 | मनोज कुमार मेहता, पुत्र श्री विष्णु देव मेहता | बिहार एस वी सी / 1564 / 2000 | ग्राम एवं डाक घोसवारी, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 6.11.67 |
| 1166 | मनोज कुमार तिवारी, पुत्र श्री माता बादल तिवारी | एम पी एस वी सी / 1905 / 2000 | झारा श्री के पी ओझा, कॉन्वेंट स्कूल के पीछे, पांडव नगर, शाहडोल | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के बी वी/ 98- 99 | 1.7.75 |
| 1167 | मनोज कुमार, पुत्र डॉ. केशव प्रसाद चौधरी | बिहार एस वी सी / 836 / 2000 | मौह. एवं डाक चतुरम्बज वारंग, थाना पीरो, जिला आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 4.6.71 |
| 1168 | मनोज कुमार, पुत्र श्री पचू लोहार | बिहार एस वी सी / 1380 / 2000 | मौह. एवं डाक गुरु, थाना रातु, जिला रांची, पिन- 835222 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 97 | 5.1.71 |
| 1169 | मनोज कुमार, पुत्र श्री बासुदेव राय | बिहार एस वी सी / 1483 / 2000 | ग्राम कमालपुर, डाक दिघवाड़ा, थाना अवतार नगर, जिला छपरा (सारम) | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 82 | 19.5.58 |
| 1170 | मनोज कुमार, पुत्र श्री काशी नाथ | बिहार एस वी सी / 1429 / 2000 | ग्राम साकरोगढ़, डाक एवं थाना साहेबगंज, जिला साहेबगंज | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 88 | 8.7.63 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक आईटाइ | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|---|--|----------|
| 1171 | मनोज कुमार, पुत्र श्री विनय कुमार | बिहार एस वी सी / 2009 / 2000 | ग्राम जगदीशपुर, डाक बीरपुर, थाना एवं जिला नालंदा, पिन- 803111 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 6.8.70 |
| 1172 | मनोरंजन बैनर्जी, पुत्र स्त्र. श्री काली चरन बैनर्जी | बिहार एस वी सी / 1302 / 2000 | ग्राम, डाक एवं थाना विहपुर, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/65 | 18.1.43 |
| 1173 | मनोरंजन प्रसाद सिंह, पुत्र स्त्र. श्री योगेंद्र प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 2010 / 2000 | ग्राम पहाड़ीघाक, डाक एवं थाना सानीपुर, जिला सारन | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 64 | 11.1.43 |
| 1174 | मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्त्र. श्री चितरंजन रामा | बिहार एस वी सी / 2034 / 2000 | ग्राम एवं डाक सोडीपुर, वाया: पीरपेंटी, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 78 | 3.11.54 |
| 1175 | मनारेजन प्रसाद, पुत्र श्री ब्रज कुमार प्रसाद | बिहार एस वी सी / 857 / 2000 | मौह. 180, मानस मार्ग, नेहरू नगर, डाक एवं थाना पाटलीपुत्र, पटना- 800013 | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 65 | 17.1.45 |
| 1176 | मनोरंजन सरकार, पुत्र श्री हरि चरन सरकार | त्रिपुरा / 61 / 2000 | हाउसिंग एस्टेट कॉर्नर के पास, चनबाने, डाक आर के पुर, उदयपुर, दक्षिणी त्रिपुरा | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 83 | 10.2.58 |
| 1177 | मंसूर आलम मौहम्मद, पुत्र श्री शेख मौहम्मद जक्की हुसैन | बिहार एस वी सी / 976 / 2000 | मौ. एवं डाक बरहारवा, लाखन सेन टोला, जिला मोतीहारी (पू. चम्पारन) | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 84 | 8.1.56 |
| 1178 | मराल उमेश जयसिंह राव | एम एस वी सी / 6396 / 2000 | 223 / 8, कोयनाबाई चॉल, कुरला पुलिस रेस्टेशन के पीछे, कुरला (प.) | बी वी एस सी एड ए एच/डॉ. पी डी के वी / 2000 | 9.5.77 |
| 1179 | मरमवार विनीत कुमार विजयकुमार | एम एस वी सी / 6415 / 2000 | प्रयाग रम्पुति, देगलूर रोड, उदगीर, जिला लाटूर- 413517 | बी वी एस सी एड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 13.8.77 |
| 1180 | मारली ऐटे | अरुणा / 212 / 2001 | द्वारा तुमार ऐटे वेट. कॉलोनी, सियाम कॉलोनी, प. सियांग, अटोंग | बी वी एस सी एड ए एच/ए ए यू/ 2001 | 29.3.75 |
| 1181 | मर्यंक गोयल | आर ए जे एस वी री / 2631 / 2000 | ग्राम एवं डाक बोहरावर- दो खुर्द, सर्वाई माधोपुर, राजरथान | बी वी एस सी एड ए एच/राज कृषि वि / 2000 | 1.7.75 |
| 1182 | मजिबुर्रहमान अन्सारी, पुत्र स्त्र. मौह. अब्दुर रहमान अन्सारी | बिहार एस वी सी / 1033 / 2000 | ग्राम सिंगारपुर, डाक चालना, वाया: पर्जवाडा, थाना धुरेया, जिला बंका | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 70 | 5.10.48 |
| 1183 | मौह. अब्दुल आस, पुत्र स्त्र. मौह. अब्दुल फतह सिद्दिकी | बिहार एस वी सी / 1909 / 2000 | ग्राम लोहसिंधना, डाक एवं थाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग, पिन- 825301 | बी वी एस सी एड ए एच/बी यू/60 | 7.1.42 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हतारं | जनसंख्या |
|---------|--|------------------------------|--|----------------------------------|----------|
| 1184 | मौह. अब्दुल हयाद, पुत्र स्त्री एस ए मोसर | बिहार एस वी सी / 1732 / 2000 | मौह. खजूर बन्ना, डाक महेंद्रथाना सुल्तानगंज, ज़िला पटना, पिन- 800006 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 1.9.46 |
| 1185 | मौह.आलिम इस्माइल, पुत्र स्त्री एस एम इस्माइल | बिहार एस वी सी / 1733 / 2000 | ग्राम धरमपुर, डाक भोला टाकीज़ के निकट, थाना एवं ज़िला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 31.652 |
| 1186 | मौह. अमीन अंसारी, पुत्र स्त्री मौह. इस्माइल अंसारी | बिहार एस वी सी / 1501 / 2000 | ग्राम घोरमेरा, डाक कामदेव दीन, थाना कटोरिया, पिन- 813106 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 23.12.68 |
| 1187 | मौह. अंजल्ला हक, पुत्र स्त्री मौह. जिला उल्ला हक | बिहार एस वी सी / 1756 / 2000 | ग्राम एवं डाक तरियामान, थाना सिमरी बख्तायापुर, ज़िला सहरसा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 1.7.48 |
| 1188 | मौह. आसिफ अहमद, पुत्र स्त्री मौह. अहमद अली | बिहार एस वी सी / 1100 / 2000 | ग्राम एवं डाक टिप्पाहर, थाना राजमहल, ज़िला साहेबगंज, पिन- 816116 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 25.2.70 |
| 1189 | मौह. अल्लाज कलिम, पुत्र स्त्री कलिम अल्लाज | बिहार एस वी सी / 1911 / 2000 | मौह. हारलन नगर, डाक एवं थाना फुलवारी शारीफ, ज़िला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 20.7.80 |
| 1190 | मौह. सल्लाल अहमद, पुत्र स्त्री श्री अब्दुल मन्नान | बिहार एस वी सी / 1181 / 2000 | मौ. लोदी कटरा, डाक एवं थाना बी वी एस सी एंड पटना सिटी, ज़िला पटना, पिन- ए एच/बी ए यू/ 84 | 16.2.80 | |
| 1191 | मौह. इकरम, पुत्र मौह. फजले हक | बिहार एस वी सी / 1323 / 2000 | ग्राम एवं डाक माहिज़ बाथमा, थाना बहादुर गंज, ज़िला किशनगंज, पिन- 855101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 92 | 4.3.65 |
| 1192 | मौह. फरहत जब्बर, पुत्र स्त्री मौह. अब्दुल जब्बर | बिहार एस वी सी / 1588 / 2000 | ग्राम एवं डाक हबीबपुर, थाना हबीबपुर, ज़िला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 15.8.62 |
| 1193 | मौह. फिरोज अख्तार, पुत्र मौह. शफीक | बिहार एस वी सी / 1680 / 2000 | ग्राम लघनपुर, डाक बोचगांव, थाना जलालगढ़, ज़िला पूर्णिया, पिन- 854301 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 7.1.63 |
| 1194 | मौह. इमरान अंसारी, पुत्र मौह. मुस्तिम अंसारी | बिहार एस वी सी / 1104 / 2000 | ग्राम एवं डाक कालाझोर, थाना काठीकुड़, ज़िला दुमका | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 13.1.69 |
| 1195 | मौह. इवासिन आजाद, पुत्र स्त्री श्री इमारत हुसैन | बिहार एस वी सी / 1575 / 2000 | ग्राम एवं डाक शिवनंदपुर, थाना आबादपुर, ज़िला कटिहार | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 1.1.44 |
| 1196 | मौह. जमील अहमद, पुत्र स्त्री मौह. मनीरुद्दीन | बिहार एस वी सी / 1961 / 2000 | ग्राम माहिउद्दीनपुर, थाना हबीबपुर, ज़िला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 5.1.44 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|---|--|----------|
| 1197 | गौह. जयाउद्दीन, पुत्र गौह. कयामुद्दीन | बिहार एस वी री / 1150 / 2000 | मौ. काशीपुर, वार्ड न. 12, डाक, थाना एवं जिला - समस्तीपुर, पिन- 848101 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 1.11.43 |
| 1198 | गौह. कलाम, पुत्र ख. श्री सहादत हुसेन | बिहार एस वी री / 1655 / 2000 | ग्राम गोपी लाइन सावर, डाक, थाना एवं जिला लोहारडगांगा, पिन- 835302 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 89 | 1.1.63 |
| 1199 | मौह. कलीम, पुत्र ख. श्री सब्दुल गियां | बिहार एस वी री / 1809 / 2000 | ग्राम चाक धोरहा कुर्था, थाना मखदूमपुर, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 15.6.42 |
| 1200 | मौह. कलीमुद्दीन अंसारी, पुत्र मौह. अंसार अली | बिहार एस वी री / 1151 / 2000 | ग्राम एवं डाक घाटीकोदार जामा, थाना एवं जिला साहेबगंज, पिन- 816109 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 95 | 1.5.68 |
| 1201 | गौह. कलीमुद्दीन, पुत्र श्री शेख नोमानी | बिहार एस वी री / 2003 / 2000 | ग्राम जामिनीकोला, डाक अजय पाकरिया, थाना पाथरगाम, जिला गोडाङा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 4.2.53 |
| 1202 | मौह. खालिद अंसारी, पुत्र श्री हाफिज मौह. भजहुल हक | बिहार एस वी री / 1793 / 2000 | ग्राम दमदमा, डाक एवं थाना लहरिया सराय, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 (ए) | 1.6.47 |
| 1203 | गौह. लतीफुल कबीर, पुत्र श्री अब्दुल रौफ | बिहार एस वी री / 1425 / 2000 | ग्राम एवं डाक जनका, थाना राजमहल, जिला साहेबगंज, पिन- 816116 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 92 | 1.7.68 |
| 1204 | मौह. मकसूद आलम, पुत्र ख. श्री अब्दुल कफूर अंसारी | बिहार एस वी री / 1784 / 2000 | ग्राम अम्बातानगर, डाक एवं थाना गिरिझीह, जिला गिरिझीह | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 2.2.45 |
| 1205 | मौह. मरीदुर रहमान, पुत्र ख. श्री गहमूदुर रहमान | बिहार एस वी री / 2068 / 2000 | ग्राम नोहाटा, डाक एवं थाना नोहाटा, जिला सहरसा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 2.1.43 |
| 1206 | मौह. मरीहुजमा, पुत्र ख. मौह. मूरा अंसारी | बिहार एस वी री / 1877 / 2000 | मौह. मलकाना, डाक एवं थाना मसौधी, जिला पटना, पिन- 804452 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 97 | 10.12.62 |
| 1207 | गौह. मोइनुद्दीन, पुत्र ख. गौह. हनीफ | बिहार एस वी री / 1283 / 2000 | ग्राम एवं डाक शालेहपुर, मोहनपुर, थाना फालका, जिला कटिहार | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 27.1.63 |
| 1208 | गौह. मुर्तजा, पुत्र गौह. माफिद | बिहार एस वी री / 1265 / 2000 | ग्राम शेखपुरा दानी, डाक शेखपुरा अखाडा, थाना केवटी, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 1.1.48 |
| 1209 | गौह. नैयर आजम, पुत्र ख. श्री अब्दुल जब्बार | बिहार एस वी री / 994 / 2000 | मौ. रासी पुरा, डाक एवं थाना लहरिया सराय, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 24.3.47 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| 1210 | मौह. नजीब अशरफ, पुत्र स्व. श्री अब्दुल आलिम | बिहार एस वी सी / 1547 / 2000 | ग्राम मिल्कीचाक, डाक कोजी फातुचाक, जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 67 | 27.10.42 |
| 1211 | मौह. नसीमुल्ल हक, पुत्र स्व. श्री मक्कुबुलल हक | बिहार एस वी सी / 1795 / 2000 | मौ. नागमतिया बंगला, डाक नागमतिया, थाना गया मोफासिल, जिला गया | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 64 | 4.11.41 |
| 1212 | मौह. नसीरुद्दीन अंसारी, पुत्र स्व. श्री रमजान अली | बिहार एस वी सी / 1356 / 2000 | मौह. नवा दीन, मस्जिद के निकट, डाक, थाना एवं जिला औरंगाबाद, पिन- 824101 | बी-वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 71 | 2.1.48 |
| 1213 | मौह. नूरुद्दीन, पुत्र स्व. श्री कइयुमुद्दीन | बिहार एस वी सी / 884 / 2000 | ग्राम मिर्जापुर (दियारी), डाक अरारिया, थाना रानीगंज, जिला अरारिया, पिन- 854312 | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 64 | 15.5.41 |
| 1214 | मौह. रियाज अन्सारी, पुत्र मौह. रफीक अन्सारी | बिहार एस वी सी / 1393 / 2000 | मौ. भारतीय हा. स्कूल के पास, डाक एवं थाना बराहिया, जिला लखीसराय- 811302 | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 70 | 4.7.46 |
| 1215 | मौह. सलाह उद्दीन, पुत्र मौह. अलाउद्दीन | बिहार एस वी सी / 1334 / 2000 | मौह. बेतवान बाजार, डाक एवं थाना मुगेर जिला मुगेर | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 86 | 10.1.62 |
| 1216 | मौह. शाहिद परवेज़, पुत्र मौह. यूनुस | बिहार एस वी सी / 1923 / 2000 | ग्राम काजी टोला, डाक आरा चौक, थाना टाउन, जिला भोजपुर- 802301 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 96 | 1.1.70 |
| 1217 | मौह. शमीम खान, पुत्र श्री अब्दुल समीद खान | बिहार एस वी सी / 991 / 2000 | एम मागर बट्टा, मस्जिद चौक, डाक एवं थाना हाजी पुर, जिला वैशाली, पिन- 844101 | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 71 | 20.7.48 |
| 1218 | मौह. शमीनीउद्दीन, पुत्र स्व. मौह. सलीमुद्दीन | बिहार एस वी सी / 1457 / 2000 | ग्राम एवं डाक अलीनगर, रागपुर, थाना साबौर, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 67 | 5.6.46 |
| 1219 | मौह. शयाक, पुत्र स्व. मौह. फारूक | बिहार एस वी सी / 1305 / 2000 | एम-ए-19, इंद्रापुरी कॉलोनी, डाक बी वी कॉलेज, थाना शास्त्रीनगर, पटना- 800014 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 72 | 2.9.46 |
| 1220 | मौह. सिधिगुरुल मुनब्बर, पुत्र मौह. जहूर अली | बिहार एस वी सी / 1459 / 2000 | ग्राम मैनाचाक, डाक केशवा दूधी चाक, थाना मेहरमा, जिला गोड्डा | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 97 | 12.9.71 |
| 1221 | मौह. सोहेल खान, पुत्र मौह. काफिल खान | बिहार एस वी सी / 1486 / 2000 | ग्राम कबीरपुर, डाक एवं थाना नाथनगर, जिला भागलपुर, पिन- 812006 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 87 | 6.1.63 |
| 1222 | मौह. ताहिर, पुत्र स्व. श्री दीन अली | बिहार एस वी सी / 1658 / 2000 | ग्राम चौरासी, डाक एवं थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 72 | 30.6.47 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|---|--|---|----------|
| 1223 | मौह. उमैर मलिक, पुत्र स्व. डॉ. मौह. सोयाब | बिहार एस वी सी/ 1284/ 2000 | मौ. मलिक टोला, डाक देसना, थाना अस्थाकन, जिला नालंदा | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 66 | 9.7.42 |
| 1224 | मौह. अशरफुल हक, पुत्र स्व. मौह. जसीमुल हक | बिहार एस वी सी/ 1875/ 2000 | एम फुजुला खान, डाक दरमंगा, थाना लहरियासराय, जिला दरमंगा | बी वी एस सी एड ए एच/पी यू/ 61 | 16.10.39 |
| 1225 | मौह. लियाकत अन्सारी, पुत्र मौह. गनी हैदर अली अन्सारी | बिहार एस वी सी/ 1409/ 2000 | ग्राम एवं डाक टेरी, थाना मिन्हाडिया, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 84 | 28.6.53 |
| 1226 | मौह. सैफुल्ला सिद्दिकी, पुत्र श्री अब्दुल गनी | बिहार एस वी सी/ 1095/ 2000 | ग्राम एवं डाक गणेशपुर, थाना हरौना, जिला सुपौल | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 81 | 30.12.55 |
| 1227 | मौह. शहाबुद्दीन मौह., पुत्र स्व. श्री अब्दुल लतीफ | बिहार एस वी सी/ 1272/ 2000 | एम बकारगंज, बजावा गली, डाक इमामबाड़ा, थाना गांधी मैदान, पटना— 700004 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 72 | 14.5.48 |
| 1228 | मौह. यासीन, पुत्र श्री कासिम | बिहार एस वी सी/ 1630/ 2000 | मौ. काशीकालीचाक, डाक बासुदेवपुर, थाना कोतवाली, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 65 | 30.12.44 |
| 1229 | मीना रामनरेश मणि राम, पुत्र श्री मणि राम मीना | आर ए जे एस वी सी/ 2718/ 2000 | म.न. 4335, गोविंद राजन का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर | बी वी एस सी एड ए एच/गुज. कृ वि वि/ 2000 | 18.4.77 |
| 1230 | मीना वर्मा, पुत्री श्री अमर लाल वर्मा | यू पी वी सी/ 3278 | वर्मा निवास बेरीनाग, डाक बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़ उ.प्र. | बी वी एस सी एड ए एच/जी बी पी यूए एड टी/2000 | 31.8.77 |
| 1231 | मीनू पुत्री श्री धनश्याम दास | एच ए आर एस वी सी/ 1678 | 52/ 14, विद्युत नगर, हिसार | बी वी एस सी एड ए एच/सी सी एस एच ए यू/99 | 2.8.76 |
| 1232 | मीनू शरन, पुत्र श्री रामदेव शरन | बिहार एस वी सी/ 1081/ 2000 | मौ. चनखंडीपुर, डाक एवं थाना बिहारशरीफ, जिला नालंदा, पिन— 803101 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 87 | 5.3.62 |
| 1233 | मीरा संयुक्ता नेन्सी खालखो, पुत्री श्री एस के खालखो | बिहार एस वी सी/ 1819/ 2000 | ग्राम शंकरपुर, डाक सरजाम्दा, थाना परसुडीह, जिला पू. सिंधभूम, पिन— 831002 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 92 | 14.3.63 |
| 1234 | मेनेजीस रामीला मरिया पी | गोआ एस वी सी/ शांतिनगर, पोंडा 113/ 2001 | | बी वी एस सी एड ए एच/ जी ए यू/ 98 | 25.7.73 |
| 1235 | मेरजा राजेश मगन लाल, पुत्र श्री मेरजा मगनलाल | आर ए जे एस वी सी/ 2713/ 2000 | मोरबी (गुजरात), 363641, पंचवटी सोसायटी, बी/ एच जी आई डी सी, ममता | बी वी एस सी एड ए एच/ गुज. कृ वि वि/ 94 | 30.6.73 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|----------|
| 1236 | मेरिलिन खारवान्लांग | मेघ / 172 / 2001 | जवाईलांगस्निंग, शिलौंग | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 20.1.74 |
| 1237 | मीडसन हाडिया | मेघ / 178 / 2001 | नौंगबाह, जयन्तिया हिल्स | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 76 | 20.10.50 |
| 1238 | मिलन कांति पॉल, पुत्र स्त्र. श्री निबारन पॉल | त्रिपुरा / 56 / 2000 | द्वारा चंदन चौधरी, ऑफिस लेन, अगरतला, त्रिपुरा (प.) | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/ 82 | 2.4.57 |
| 1239 | मिल्टन थॉमस | केरल एस वी सी / 2507 / 2000 | नम्मादन हाऊस, मार्केट लिंक रोड, इरंजलकुडा, प्रियरूर- 680121 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 16.2.76 |
| 1240 | मीर वजाहत अली, पुत्र श्री मीर महबूब अली | ए पी एस वी सी / 03581 / 2000 | फ्लैट न. 306, तीसरी मंजिल, ब्लॉक 1, शांति गार्डन अपा., राजेंद्र नगर | बी वी एम सी एंड ए एच/ मराठवाडा कृषि / 76 | 15.8.54 |
| 1241 | मिरेन थंगज्बा | मणि / 368 / 2000 | चिंगमेइरोग, मामांग लेइकेई, इम्फाल | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 1.1.75 |
| 1242 | मिर्जा यामिन बेग, पुत्र श्री मिर्जा यासिन बेग | ए पी एस वी सी / 03669 / 2001 | 5-2-37, कोट्टूर स्ट्रीट, हनमकोंडा, गारंगल जिला | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 79 | 15.8.57 |
| 1243 | मिर्बाहउद्दीन अंसारी मौह., पुत्र स्त्र. श्री जौर अली अंसारी | बिहार एस वी सी / 996 / 2000 | मौ. कबीर डाक औरंगाबाद, थाना औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 7.7.46 |
| 1244 | मिश्रा चंद्र प्रकाश, पुत्र श्री सियाराम मिश्रा | एम पी एस वी सी / 1888 / 2000 | के-79, ज्ञानसरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़, उ.प्र.- 202002 | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 97 | 10.6.75 |
| 1245 | मीता सिन्हा महापात्रा | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2832 / 2000 | ग्राम एवं डाक सारेंगा, जिला बकुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/ डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 1246 | मीतेश कुमार गौड़, पुत्र श्री एम पी गौड़ | एच ए आर एस वी सी / 1676 | 715, विद्युत नगर, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 21.9.76 |
| 1247 | मिथिलेश कुमार, पुत्र श्री रघुनाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 2074 / 2001 | ग्राम शिवनगर, डाक कारियन, थाना रोसरा, जिला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 25.1.73 |
| 1248 | मिथिलेश कुमार सिन्हा, पुत्र स्त्र. श्री रामरखरूप सिंह | बिहार एस वी सी / 1767 / 2000 | मौ. शाहमीर ताकेया, (मीरम स्कूल के उत्तर में), थाना सिविल लाइन, जिला गया | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 1.5.48 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक आहंताएं | जम्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|--|--|----------|
| 1249 | मिथिलेश कुमार, पुत्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1415 / 2000 | ग्राम खीरभोजमा, डाक मरी मुरार, थाना घरसालीगंज, जिला नवधादा, पिन 805130 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 95 | 21.1.67 |
| 1250 | मिथिलेश प्रसाद सिंह, पुत्र श्री चंद्रिका प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1664 / 2000 | ग्राम सिधौल, डाक एवं थाना बैलौर्गंज, जिला गंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 4.1.55 |
| 1251 | मिथिलेश प्रसाद , पुत्र रव. श्री राम किशन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1390 / 2000 | ग्राम रामदीहा, डाक अम्बा, थाना चूरसराय, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 8.2.43 |
| 1252 | गौहम्मद शहाबुद्दीन, पुत्र रव. श्री गौहम्मद शोएब | बिहार एस वी सी / 1465 / 2000 | मौ. रामना रोड, डाक बांकीपुर, थाना पीरबाहोर, जिला पटना, पिन- 800004 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 63 | 25.5.42 |
| 1253 | गौहम्मद नवाजिश, पुत्र श्री अब्दुल मन्नान | यू पी री सी / 3245 | म.म. । v / 1121 / एफ, झा कॉलोनी, पंत नगर, जिला यू एस नगर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू | 27.12.76 |
| 1254 | गौहम्मद रफीक खान | आर ए जे एस वी री / 2696 / 2000 | पुत्र श्री उमर खान, खामखानी नगर, दैगामा ज., नागौर, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 1.7.74 |
| 1255 | गौहम्मद रशाद अौगंदुवार | केरल एस वी सी / 2460 / 2000 | हिमरिंगि अपा., फ्लैट न. सी- ३, सैंट एल्बर्ट लेन, बैनर्जी रोड | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 30.10.72 |
| 1256 | मोहन लाल गुप्ता | वी सी आई / 2260 / 2001 | घार्ड न. ६, म.न. 39, कठुआ, (ज. एवं क.) 184101 | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ओ यू/ 73 | 15.4.36 |
| 1257 | मोहन सिंह जाट | ए पी एस वी री / 03576 / 2000 | ग्राम बकशीपुरा, डाक हासमपुर, जिला रीकर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 19.12.74 |
| 1258 | मौह. सैफुद्दीन, पुत्र श्री मौह. अजीजुद्दीन | ए पी एस वी री / 03576 / 2000 | म.न. 1-9-771, बसिठनगर, सूबेदारी, हनमकोडा | बी वी एस सी/ए पी ए यू / 75 | 27.4.52 |
| 1259 | मोहिन्दर रिंह, पुत्र श्री प्रेम सिंह | एच ए आर एस वी री / 1656 | ग्राम एवं डाक बाघर कलां, तह. सफीदो, जीद | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 10.5.77 |
| 1260 | मौहम्मद कासिम, पुत्र रव. श्री अब्दुल लतीफ | बिहार एस वी सी / 1982 / 2000 | ग्राम देवरिया, डाक एवं थाना माशोरक, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 2.1.39 |
| 1261 | मोहम्मद जिमन, पुत्र रव. मौह. अबुल हसन | बिहार एस वी सी / 1491 / 2000 | मौ. कगाज, डाक एवं थाना बिहारशरीफ, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 3.7.46 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---|--|--|----------|
| 1262 | मोइनुद्दीन, पुत्र मौहम्मद रियाजुद्दीन | बिहार एस वी सी / 1275 / 2000 | ग्राम मफसूसपुर बाड़ा, डाक थाना एवं जिला मुरगेर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 25.12.48 |
| 1263 | मोकामी प्रसाद सिन्हा पुत्र स्व. श्री छोटू महतो | बिहार एस वी सी / 1518 / 2000 | ग्राम बहारी बीघा, डाक लाल बीघा, थाना वरिसालीगंज, जिला नावादा, पिन- 805108 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 28.10.44 |
| 1264 | मोख्तार हसन, पुत्र स्व. श्री अब्दुल हादी | बिहार एस वी सी / 1596 / 2000 | ग्राम बैंक, डाक व्यापुर, थाना मनेर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 6.1.43 |
| 1265 | मोलिना सरकार | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2811 / 2000 | ग्राम प्रोफुल्ल नगर, डाक बोगांव, जिला 24 परगना (उ.) | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस / 2000 | |
| 1266 | मोनिका शर्मा, पत्नी डॉ. मुकेश गुप्ता | यू पी वी सी / 3222 | त्रिमूर्ति फ्लोरिंग, बाजपुर रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 94 | 19.11.72 |
| 1267 | मोरे सचिन रामदास | एम एस वी सी / 6383 / 2000 | सदिच्छा निवास, एटी डाक जयखेड़ा, तालुक सतना, जिला नासिक- 423303 | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 2000 | 17.12.77 |
| 1268 | मोजाहिर हुसैन, पुत्र स्व. श्री हकीम मौहम्मद हुसैन | बिहार एस वी सी / 1256 / 2000 | ग्राम, डाक एवं थाना नसारी गंज, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 1.1.49 |
| 1269 | मृदुला सी. | करेल एस वी सी / 2476 / 2000 | कार्तिका वल्लुवंगडू साउथ डाक, पांडिकड, मलपुरम, पिन- 676521 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 9.5.76 |
| 1270 | मृणाल कांति दास, पुत्र श्री निराशन च. दास | त्रिपुरा / 94 / 2000 | ग्राम आर के नगर (सुकाति पल्ली) डाक खायेरपुर, त्रिपुरा वेस्ट | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 98 | 14.4.74 |
| 1271 | मृत्युंजय शरण, पुत्र श्री जगदीश नारायण महतो | बिहार एस वी सी / 1231 / 2000 | ग्राम एवं डाक बाहिलवाड़ा धानुशी, थाना रुनी सेयदपुर, जिला सीतामढी- 843302 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 92 | 24.10.64 |
| 1272 | श्रीमती मीना अरोड़ा, पत्नी श्री रजनीश अरोड़ा | यू पी वी सी / 3225 | बंगला न. 22, डी एल डब्ल्यू वाराणसी | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/88 | 5.8.64 |
| 1273 | मुदित चंद्र, पुत्र श्री योगेश चंद्र | यू पी वी सी / 3240 | विश्वास खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 2000 | 26.3.77 |
| 1274 | मुजीब, पुत्र श्री रजाक एच | कर्ना एस वी सी / 3070 | शाखीन फ्लोर मिल, म.न. ए-6 -332(पुराना), ए-8-343(नया), मुल्तानी कॉ. बिदर 585401 | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 99 | 21.5.76 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं जन्मातिथि |
|---------|--|------------------------------|---|--|
| 1275 | मुकेश गुप्ता, पुत्र डॉ आर पी गुप्ता | यू. पी. वी. सी./ 3221 | त्रिमूर्ति पलोरिंग, बाज़पुर रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उ.प्र. | बी बी एस सी एंड ए 4.2.70 एच/जी बी पी यू.ए एंड टी/94 |
| 1276 | मुकेश कुमार सिन्हा, पुत्र श्री उपेंद्र किशोर प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1331/ 2000 | मौ. अर्गधाट, डाक मकाटपुर, थाना एवं ज़िला गिरिझीह, पिन- 816301 | बी बी एस सी एंड ए 23.12.66 एच/बी ए यू/ 89 |
| 1277 | मुकेश कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव | बिहार एस वी सी/ 1920/ 2000 | एम- न्यू ए सी कॉलोनी, बसंतविहार, डाक एवं थाना हरमू, ज़िला रांची | बी वी एस सी एंड ए 21.7.60 एच/बी ए यू/ 83 |
| 1278 | मुकेश कुमार दुमका, पुत्र श्री आर सी दुमका | यू. पी. वी. सी./ 3258 | झारा श्री आर सी दुमका, ग्राम दीना, डाक हालोउडपुर, ज़िला मैनीताल, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए 20.6.77 एच/जी बी पी यू.ए एंड टी/2000 |
| 1279 | मुकेश कुमार जाटव | आर ए जे एस वी सी/ 2660/ 2000 | प्लॉट नं.16, मोती नगर, न्यू सांगनेर रोड, ज़िला खुर्द | बी वी एस सी एंड ए 8.8.72 एच/राज कृष्ण/ 2000 |
| 1280 | मुकेश कुमार, पुत्र श्री ओम प्रकाश | यू. पी. वी. सी./ 3229 | ग्राम जमालपुर, गोमा, डाक सकोटी, ढाँचा ज़िला मेरठ | बी वी एस सी एंड ए 1.12.73 एच/जी बी पी यू.ए एंड टी/2000 |
| 1281 | मुकेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री घनश्याम दास | एम पी एस वी सी/ 1928/ 2000 | नगर पालिका क्वा. न.4, लक्ष्मी निधास हौटल के पीछे, ए वी रोड, शिवपुर | बी वी एस सी एंड ए 5.7.76 एच/आई जी के बी बी/ 99- 2000 |
| 1282 | मुकेश कुमार सिंह, पुत्र श्री संत लाल सिंह | बिहार एस वी सी/ 1968/ 2000 | ग्राम भजलिशपुर, डाक मथुरा, थाना विद्युपुर, ज़िला वैशाली | बी बी एस सी एंड ए 5.6.71 एच/जी बी पी यू.ए एंड टी/ 97 |
| 1283 | मुकेश कुमार, पुत्र श्री गनौरी सिंह | बिहार एस वी सी/ 2089/ 2000 | ग्राम नकडोय, डाक अकुगोरी, थाना एकंगरस्मराय, ज़िला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए 1.3.78 एच/आर ए यू/ 2000 |
| 1284 | मुकेश कुमार, पुत्र श्री राम प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 918/ 2000 | मौह. दानापुर, डाक पटना, थाना इस्लामपुर, ज़िला नालंदा, पिन- 801303 | बी वी एस सी एंड ए 4.1.74 एच/आर ए यू/ 99 |
| 1285 | मुकेश कुमार, पुत्र श्री शिओनंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 2073/ 2001 | ग्राम मुरारपुर, डाक कटारी, थाना कोरमा, थाना शेखपुर | बी वी एस सी एंड ए 22.10.77 एच/आर ए यू/ 2000 |
| 1286 | मुकेश मीना, पुत्र श्री भरत लाल मीना | आर ए जे एस वी सी/ 2619/ 2000 | ग्राम नंदीपुर, डाक मन्नौज, तह. टोडामीम, करौली, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए 30.11.74 एच/आर ए यू/ 2000 |
| 1287 | मुकेश मिश्रा, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा | बिहार एस वी सी/ 1898/ 2000 | मौ. एचबीसी कॉलो, क्यूएन बी - 111- 470, डाक धुर्वा, थाना हटिया, ज़िला रांची-834004 | बी वी एस सी एंड ए 5.6.71 एच/आर ए यू/ 95 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | प्रता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|---|--|----------|
| 1288 | मुकेश प्रसाद मेहता, पुत्र श्री सूर्य नाशवद मेहता | बिहार एस वी सी / 1040 / 2000 | ग्राम एवं डाक गांधिया बलुआ, थाना कृष्णानंद नगर, जिला पूर्णिया, पिन- 851301 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/86 | 15.12.62 |
| 1289 | मुकितनाथ सिंह, पुत्र श्री भरत सिंह | बिहार एस वी सी / 1278 / 2000 | ग्राम रत्नपुर, डाक अवसर, थाना रम्पूलपुर, जिला छपरा | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/68 | 15.11.42 |
| 1290 | मुकुङ्घण्ठा, पुत्र श्री रामलु | ए पी एस वी सी / 03885 / 2000 | म.न. 3-14-49, सुभाष रोड, नारायणपेट, महबूब नगर- 509210 | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 79 | 24.6.55 |
| 1291 | मुकुङ्घण्ठा चतुर्वेदी एस, पुत्र श्री शिवाजी | कर्मा एस वी सी / 3104 | एन मेन रोड, मातृ छाया, गांधीनगर, धारवाड | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर / 77 | 20.5.49 |
| 1292 | मुले विजय दिग्मन्नर राव | एम एस वी सी / 6353 / 2000 | धनश्री, 39- पारीख कॉलोनी, बस स्टैंड, तालुक सेलु, जिला परमनी- 431503 | बी वी एस सी एड ए एच/एम ए यू/2000 | 7.12.77 |
| 1293 | मलिक जयदीप शाबासराव | एम एस वी सी / 6387 / 2000 | शामदीप, बलवंत कॉलेज रोड, हनमंत नगर, वीटा, खानापुर, सांगली | बी वी एस सी एड ए एच/एम पी के वी/ 2000 | 10.12.76 |
| 1294 | मुमताज बेगम | केरल एस वी सी / 2472 / 2000 | शिफान मंजिल, नेटिटरायि नेटूमंगड डाक, त्रिवेंद्रम- 695541 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 19.1.77 |
| 1295 | मुंडे विठ्ठल कुडलीक राव | एम एस वी सी / 6402 / 2000 | एटी दाही, डाक तोकवाडी, तालुका पारली (ग्राम), जिला बीड- 431514 | बी वी एस सी एड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 1.2.76 |
| 1296 | मुंद्रिका दास, पुत्र श्री मोहन दास | बिहार एस वी सी / 1257 / 2000 | ग्राम नरवरदा, डाक जारावा, थाना सिमरिया, जिला छपरा | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 97 | 13.3.69 |
| 1297 | मुनि रंजन सिंह, पुत्र स्व. श्री त्रिवेणी प्रसाद मंडल | बिहार एस वी सी / 1222 / 2000 | मौह तिनगंगिया, डाक कटिहार, थाना एवं जिला कटिहार | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 82 | 1.10.50 |
| 1298 | मुरली मोहन जी, पुत्र श्री जी मोगिलेश्वर नायडू | ए पी एस वी सी / 03629 / 2000 | गडमवारीपल्लै ग्राम, थुम्बाक्कु इप्पम डाक, बंगारुपलायम एम, चित्तूर जिला 517416 | बी वी एस सी एड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 1.6.75 |
| 1299 | मुरली मोहन रेड्डी के, पुत्र श्री के सुब्रा रेड्डी | ए पी एस वी सी / 03566 / 2000 | म.न. 28-3-513, रोड न.1, अफस्टेयर्स, सारदा नगर अनंतपुर- 515001 | बी वी एस सी एड ए एच/ एस वी यू/64 | 1.7.42 |
| 1300 | मुरलीधर एम, पुत्र श्री एम बालाकृष्णना राव | ए पी एस वी सी / 03623 / 2000 | प्लॉट न.6, श्रीपुरम कॉलोनी, मलकपेट, हैदराबाद- 500036 | बी वी एस सी एड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 19.7.77 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| 1301 | मुरलीधर रेड्डी ए पुत्र श्री ए टेंकट रेड्डी | ए पी एस वी सी / 03590 / 2000 | अन्नासागर डाक, भूतपुर (वाया), महबूबनगर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच / पी के वी/ 94 | 27.6.55 |
| 1302 | मुरलीधर वाई, पुत्र श्री वाई राघवेंद्र स्वामी | ए पी एस वी सी / 03642 / 2000 | एम आई जी— 375, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अडोनी डाक कुर्नूल जिला —518301 | बी वी एस सी एंड ए एच / मराठवाडा कृष्णगढ़ / 91 | 26.7.39 |
| 1303 | मुरली कृष्ण डी, पुत्र श्री डी राजेंद्र प्रसाद | ए पी एस वी सी / 03552 / 2000 | एफ एफ—2, लोहिया रेजीडेंसी, मेगा टाउनशिप, अक्षयनगर, विजयवाडा —520007 | बी वी एस सी एंड ए एच / ए एन जी आर ए यू / 2000 | 22.2.76 |
| 1304 | मुरारी प्रसाद सिंह, पुत्र रख. श्री रखदेवी सिंह | बिहार एस वी सी / 1794 / 2000 | ग्राम एवं डाक औनवा, थाना अवतार नगर, जिला सारन (छपरा) | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 74 | 5.1.51 |
| 1305 | मुरारी शरन, पुत्र स्व. श्री गिरतरधारी शरन | बिहार एस वी सी / 1136 / 2000 | ग्राम चोटी कदवारी, डाक एवं थाना मुंगेर, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एंड ए एच / आर यू / 68 | 18.12.45 |
| 1306 | मुरारी राज सिंह, पुत्र श्री लबनारी | यू पी वी री / 3313 | ग्राम महागीपुर, डाक रैसीपुर, जिला वाराणसी | बी वी एस सी एंड ए एच / जी बी पी यू ए एंड टी / 89 | 1.7.64 |
| 1307 | मुरकुंडे योगेशकुमार विष्णुपंत | एम एस वी सी / 6418 / 2000 | कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि. के क्वार्टर्स, कन्ड, जिला औरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच / एम यू / 2000 | 3.6.78 |
| 1308 | मुरली मनोहर प्रसाद, पुत्र रख. श्री जगत बहादुर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1892 / 2000 | मौ. कैलाशपुरी वार्ड न. 1, डाक सीतामढ़ी कोर्ट, थाना दुमरा, जिला सीतामढ़ी 843301 | बी वी एस सी एंड ए एच / एम यू / 65 | 2.11.42 |
| 1309 | मुरलीधर झा, पुत्र श्री विष्णु प्रसाद झा | बिहार एस वी री / 872 / 2000 | ग्राम असाधी माधुरी, डाक पोडयाहाट, थाना एतं जिला गोड्डा, पिन— 814153 | बी वी एस सी एंड ए एच / आर यू / 66 | 6.12.44 |
| 1310 | मुरलीधर पांडे, पुत्र डॉ. चंद्र देव पांडे | बिहार एस वी री / 1218 / 2000 | ग्राम एवं डाक बरहारिया, थाना बरहारिया, जिला सीवन | बी वी एस सी एंड ए एच / बी यू / 74 | 20.1.50 |
| 1311 | मुरुगेश हूगर, पुत्र श्री धर्म राज जी हूगर | कर्ना एस वी सी / 3089 | टागारेंगल्ली, अथानी तालुक, बेलगाम जिला — 591304 | बी वी एस सी एंड ए एच / यू ए एस धारवाड / 99 | 22.7.76 |
| 1312 | मुसाहेब लाल मंडल अकेला, पुत्र स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद मंडल | बिहार एस वी सी / 1749 / 2000 | ग्राम भालावे, डाक राधेली, थाना दाढ़खोरा, जिला कटिहार | बी वी एस सी एंड ए एच / एम यू / 69 | 10.7.45 |
| 1313 | मुजफरुल हौंडा, पुत्र रख. श्री अब्दुल जबार | बिहार एस वी सी / 863 / 2000 | मौह. काठोकर तलाब, डाक बारी रोड, थाना गया, जिला गया | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 67 | 15.5.45 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक आईडीएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---------------------------------|---|---|----------|
| 1314 | एन अरुलजोही | पॉम्ही / 116 / 2000 | 29, क्रौंस, वैकट नगर, पॉण्डीचेरी— 605011 | बी वी एस सी / टी ए यू / 89 | 4.11. 65 |
| 1315 | नबद्दीप कुमार सरकार | डल्लू बी एस वी सी / 2818 / 2000 | ग्राम एवं डाक पंचिटा, डाक बोनगांव, जिला 24 परगना (उ.) | बी वी एस सी एंड ए एच/डल्लू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 1316 | नाबुम अरुण | अरुणा / 188 / 98 | तालिह, जिला अपर सुबानसिरि, अरुणाचल प्रदेश | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू / 98 | |
| 1317 | नफे सिंह, पुत्र श्री सूरत सिंह | आर ए जे एस वी सी / 2754 / 2001 | ग्राम एवं डाक कुडल, जिला सोनीपत, हरियाणा | बी वी एस सी एंड ए एच/ आर के वी वी/ 96 | 10.1.73 |
| 1318 | नाग डॉ. सुमंता, पुत्र श्री ब्रजेन्द्र कुमार नाग | ए एस एम/ 1950 / 2001 | ग्राम सुभारपल्ली, डी एन हिम्मत सिंधका हा. स्कूल, कोकराझार, डाक एवं जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू / 2001 | |
| 1319 | नागा श्रीनिवास के, पुत्र श्री वेंकटेश्वरलू | ए पी एस वी सी / 03860 / 2000 | 1-20 ए, प्रभाथ नगर, घैतन्यापुरी, दिलखुश नगर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू / 99 | 9.8.76 |
| 1320 | नागराज के, पुत्र श्री केंच्या | कर्ना एस वी सी / 3186 | पापेनाहल्ली, रामनाहल्ली, डाक चित्रदुर्ग, तालुक एवं जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 24.7.75 |
| 1321 | नागराज कुनाबेव, पुत्र श्री निंगप्पा कुनाबेव | कर्ना एस वी सी / 3184 | एटी डाक मेडलरी, रेनेबन्नूर, तालुक, हावेरी जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 10.9.75 |
| 1322 | नागर्जु आर, पुत्र श्री आर च. गिड्डना | ए पी एस वी सी / 03589 / 2000 | म.न. 14-108, शरीन नगर, कुर्नूल | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू / 94 | 1.7.69 |
| 1323 | नागेंद जी, पुत्र श्री जी नागराजू | ए पी एस वी सी / 03637 / 2000 | सोमनदेपल्लै, अनंतपुर जिला, पिन— 515122 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू / 2000 | 24.6.72 |
| 1324 | नागेंद्र साह, पुत्र श्री रामाशीष साह | बिहार एस वी सी / 1636 / 2000 | ग्राम, डाक एवं थाना मोहसौर, जिला हासीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू / 70 | 19.9.45 |
| 1325 | नगेश गुरु, पुत्र श्री नामदेव गुरु. | कर्ना एस वी सी / 3147 | गंरुनिवास, विनायक नगर कॉलोनी, कर्नाटक कॉमर्स कॉलेज के पीछे | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 20.8.78 |
| 1326 | नागेश्वर प्रसाद सिंह, पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1067 / 2000 | साउथ चांदमारी रोड, वाटर पम्प के निकट, डाक एवं थाना ककरबाग, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू / 86 | 7.11.61 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------------|--|---|----------|
| 1327 | नागमणि कुमार सिन्हा, पुत्र श्री जानकी प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1957 / 2000 | ग्राम एवं डाक सोनमय, थाना धानरुआ, जिला पटना, पिन— 804451 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 15.10.73 |
| 1328 | नजीबुल्लाह, पुत्र श्री हबीबुल्लाह खान | यू. पी. वी. सी./ 3201 | मौह. सालारगंज, वार्ड न. 9, ईदगाह रोड के निकट, बहराइच, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/ यू. पी. ए यू/ 67 | 3.4.42 |
| 1329 | नकुल मोदी, पुत्र श्री बनवारी मोदी | बिहार एस वी सी / 1687 / 2000 | ग्राम अनंतडीह, डाक पाठल दीन, थाना एवं जिला कोडर्मा, पिन— 825410 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 15.10.70 |
| 1330 | नलबदे सुनील बालाकृष्णा | एम एस वी सी / 6318 / 2000 | पंचशील अपा., प्लॉट न. 10, ई आई. 24 बी, सेक्टर 10, नारूल नवी | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ / 2000 | 27.2.78 |
| 1331 | नलिनी किशोर, पुत्री श्री राम कृष्णा | आर ए जे एस वी सी / 2615 / 2000 | गवर्न. वेट. हॉस्पिटल, कैलाश नगर, सिरोही, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 95 | 15.10.69 |
| 1332 | नमिता कुमारी, पुत्री श्री रामचरित महतो | बिहार एस वी सी / 1230 / 2000 | ग्राम कार्सपुर, डाक एवं थाना शम्भूगंज, जिला बंका | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ / 96 | 10.2.71 |
| 1333 | नंद किशोर शर्मा | आर ए जे एस वी सी / 2627 / 2000 | ग्राम एवं डाक मोरिजा, वाया चौमू, जयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/ राज कृषि वि/ 2000 | 1.10.72 |
| 1334 | नंद किशोर कुमार, पुत्र श्री मिन्देश्वरी प्रसाद मंडल | बिहार एस वी सी / 1783 / 2000 | ग्राम गौछारी, डाक गोपालपुर, थाना गोगरी, जिला खगरिया, पिन— 851203 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 1.1.55 |
| 1335 | नंद किशोर प्रसाद, पुत्र श्री राम खेलावन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1740 / 2000 | ग्राम हरिनगर खारीजामा, डाक चंधारी, थाना इस्लाम पुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 25.5.46 |
| 1336 | नंद किशोर प्रसाद, पुत्र स्व. श्री गजाधर सिंह | बिहार एस वी सी / 1117 / 2000 | ग्राम ओकनामा, डाक मेघी, थाना दीपनगर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 28.11.45 |
| 1337 | नंद किशोर प्रसाद, पुत्र श्री सरयू प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1358 / 2000 | ग्राम एवं डाक मेहनपुर, थाना कराकर, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 28.6.53 |
| 1338 | नुंद किशोर रॉय, पुत्र रव. श्री उचित रॉय | बिहार एस वी सी / 1660 / 2000 | ग्राम एवं डाक सैदपुर, थाना गोपालपुर, जिला भागलपुर— 853205 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/-74 | 11.1.49 |
| 1339 | नंद किशोर शर्मा, पुत्र श्री राम नारायण शर्मा | बिहार एस वी सी / 1073 / 2000 | ग्राम खदासिन, डाक शहर तेल्पा, थाना कारपी, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 1.1.53 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक आहताएँ | जन्मतिथि |
|---------|--|----------------------------|--|---|----------|
| 1340 | नंद किशोर, पुत्र श्री खोमारी राम | बिहार एस वी सी/ 1115/ 2000 | ग्राम भागीरथी गंज, डाक एवं थाना सासाराम, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए 11.1.55 एव्य/आर ए यू/ 81 | |
| 1341 | नंद लाल प्रसाद, पुत्र स्व. श्री रघु महतो | बिहार एस वी सी/ 1238/ 2000 | मौ. दारीवाचक, डाक मालिलचाक, थाना बारबीधा, शेखपुरा- 811101 | बी वी एस सी एंड ए 12.6.46 एव्य/आर यू/ 70 | |
| 1342 | नांडेडकर पंडित वीरभद्र | एम एस वी सी/ 6339 / 2000 | साई सदन, न्यू मैंटा, नांडेड, तालुक नांडेड, जिला नांडेड- 431602 | बी वी एस सी एंड ए 25.6.78 एव्य/एम ए यू/ 2000 | |
| 1343 | नंदेश्वर मनोज चरनदास | एम एस वी सी/ 6299/ 2000 | भद्रगा (मुंडीपार), गोरेगांव, जिला गोंडियां- 441807 | बी वी एस सी एंड ए 5.5.72 एव्य/डॉ. पी डी के वी/ 2000 | |
| 1344 | नंदिशा जी के, पुत्र श्री जी की कॉलेण्टा | कर्ना एस वी सी/ 3081 | ए-478, जोड़ीधर स्ट्रीट, बी एव्य रोड क्रॉस, गौरीबिंदनूर | बी वी एस सी एंड ए 18.6.75 एव्य/यू ए एस धारवाड/ 98 | |
| 1345 | नरसिंहामूर्ति, पुत्र श्री नरसिंहद्याह | कर्ना/ 3195 | नामायंडालु, डी पलया, गौरीबिंदनूर तालु, कोलार जिला | बी वी एस सी एंड ए 18.9.75 एव्य/यू ए एस धारवाड/ 2000 | |
| 1346 | नारायण च. दास, पुत्र श्री जॉयकाशी दास | त्रिपुरा/ 12/ 2000 | धालेश्वर, रोड नं. 16, डाक धालेश्वर, पिन- 799007 | बी वी एस सी एंड ए 15.6.50 एव्य/कलकत्ता वि वि / 74 | |
| 1347 | नरेंद्र, पुत्र श्री एस के ठकराल | एव्य ए आर एस वी सी/ 1642 | 125- ब्रीडिंग फैंडस कॉलोनी, हिसार | बी वी एस सी एंड ए 15.8.77 एव्य/सी सी यू/ 2000 | |
| 1348 | नरेंद्र च. रॉय, पुत्र ले. श्री ब्रजबासी रॉय | त्रिपुरा/ 2/ 2000 | धालेश्वर नूतनी, पल्ली रोड-6, अगरतला, त्रिपुरा वेस्ट | बी वी एस सी एंड ए 21.1.37 एव्य/ सी यू/ 60 | |
| 1349 | नरेंद्र दत्त, पुत्र श्री परमानंद श्रीवास्तव | बिहार एस वी सी/ 918/ 2000 | मौह. हेमनगर कॉलोनी, डाक सान्धा, थाना सदर, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए 22.12.44 एव्य/एम यू/ 67 | |
| 1350 | नरेंद्र कुमार झा, पुत्र स्व. श्री कमलेश्वर झा | बिहार एस वी सी/ 1820/ 2000 | ग्राम एवं डाक झांडापुर, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए 3.1.43 एव्य/एम यू/ 63 | |
| 1351 | नरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1860/ 2000 | ग्राम वलीपुर, डाक भगवानपुर, थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए 1.12.43 एव्य/एम यू/ 65 | |
| 1352 | नरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र श्री रामभरोसा सिंह | बिहार एस वी सी/ 1756/ 2000 | मौ. आराह गार्डन के सामने, रुकुमपुरा, डाक बी वी कॉलेज, थाना दीनापुर, जिला पटना 14 | बी वी एस सी एंड ए 2.11.55 एव्य/आर ए यू/ 81 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|----------|
| 1353 | नरेंद्र कुमार चौहान, पुत्र श्री सोमनाथजी चौहान | आर ए जे एस वी सी/2612/ 2000 | द्वारा श्री किरन सिंह चूड़ावत, असिंद, भीलवाड़ा | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 69 | 4.5.45 |
| 1354 | नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री सीता राम | आर ए जे एस वी सी/2523/ 2000 | सदर बाजार, उथैर, भरतपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/ राज कृष्ण वि/ 2000 | 8.12.75 |
| 1355 | नरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र श्री लाल बहादुर सिंह | यू पी वी सी/ 3231 | म.न.106 / 272, मांधीनगर, कानपुर— 208012 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/2000 | 21.7.74 |
| 1356 | नरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र रव. श्री वासुदेव नारायण सिंह | बिहार एस वी सी/ 1091/ 2000 | ग्राम बगाना डाक एवं थाना जहानाबाद, जिला जहानाबाद— 804408 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 78 | 2.10.55 |
| 1357 | नरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र रव. श्री वोकिल सिंह | बिहार एस वी सी/ 840/ 2000 | ग्राम लाखा, डाक बासबिता, थाना शम्भूगंज, जिला बंका, पिन— 813221 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 1.12.68 |
| 1358 | नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री कामता प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1951/ 2000 | ग्राम बाजीपुर, डाक एवं थाना बिक्रम, जिला पटना, पिन— 800104 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 95 | 1.10.70 |
| 1359 | नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री राम कुमार मेहता | बिहार एस वी सी/ 2069/ 2000 | ग्राम गंजाला, डाक एवं थाना सहरसा, जिला सहरसा | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 2000 | 15.8.76 |
| 1360 | नरेंद्र नारायण लाभ, पुत्र रव. श्री यदुवंश नारायण लाभ | बिहार एस वी सी/ 954/ 2000 | ग्राम अलाल पट्टी, डाक मेडिकल कॉलेज, थाना लहरिया सराय, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 28.12.44 |
| 1361 | नरेंद्र नाथ दीक्षित, पुत्र रव. श्री राम प्रवेश सिंह | बिहार एस वी सी/ 1826/ 2000 | ग्राम डाक एवं थाना भेलदी, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 10.1.45 |
| 1362 | नरेंद्र सिंह, पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह | एम पी एस वी री/ 1887/ 2000 | ग्राम नुनेरा, डाक खरमारिया, जिला सરगुजा— 497119 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 93—94 | 25.9.71 |
| 1363 | नरेंद्र सिंह, पुत्र श्री प्रह्लाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1872/ 2000 | ग्राम एवं डाक अजगरवा, थाना पाकरीदयाल, जिला पूर्वी चम्पारन, पिन— 845428 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 22.12.62 |
| 1364 | नरेंद्र उपाध्याय, पुत्र श्री आर पी उपाध्याय | यू पी वी सी/ 3314 | बाटा लेन, गांधी नगर, जिला बरती | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/2000 | 1.7.62 |
| 1365 | नरेश कुमार रिन्हा, पुत्र रव. श्री द्वारका प्रसाद सिंहा | बिहार एस वी री/ 900/ 2000 | मौह. शिवपुरी, डाक अनीसा बाद, थाना गरदानी बाग, जिला पटना, पिन— 800002 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 31.12.43 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हतारं | जन्मदिनांक |
|---------|---|------------------------------------|---|---|------------|
| 1366 | नरेश कुमार, पुत्र श्री हरि प्रकाश | एच ए आर एस बी सी / 1657 | राम राई गेट, जैन स्नातक के पीछे, ब्राह्मण मौहल्ला, जीद | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 30.1.77 |
| 1367 | नरेश कुमार, पुत्र श्री दर्शन राम | पी बी एस बी सी / 2243 / 2000 | म.न. एच आई जी (आई एन डी), 775, फेज- 10, मोहल्ली, जिला रोपड़ | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/2000 | 5.10.74 |
| 1368 | नरेश मंडल, पुत्र श्री लखन लाल मंडल | बिहार एस बी सी / 1925 / 2000 | ग्राम कोडवार, डाक घोषा, थाना काहलगांव, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 86 | 13.5.56 |
| 1369 | नरेश प्रसाद, पुत्र स्त्र. श्री बिश्वेश्वर प्रसाद | बिहार एस बी सी / 2023 / 2000 | ग्राम खाखरा, डाक जीमन बीघा, थाना एवं जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 1.9.49 |
| 1370 | नरेश प्रसाद, पुत्र श्री सदाशिव प्रसाद | बिहार एस बी सी / 1745 / 2000 | ग्राम एवं डाक सरयाहादी, थाना मानपुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 9.4.45 |
| 1371 | नरसिंह पंडित, पुत्र स्त्र. श्री कोके पंडित | बिहार एस बी सी / 1144 / 2000 | मौह, संत टोला, डाक एवं थाना हवेली खडग पुर, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 2.1.47 |
| 1372 | नाथ डॉ. अंजित कुमार, पुत्र श्री हरेंद्र नाथ | ए एस एम / 1943 / 2001 | ग्राम पलाशगुरी, डाक नारायण पुर, जिला नलबारी, पिन- 781373 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2001 | |
| 1373 | नाथ डॉ. अंजन ज्योति, पुत्र श्री वालो राम नाथ | ए एस एम / 1931 / 2000 | ग्राम ताराबारी, डाक अलीकुची, जिला भागांव, पिन- 782103 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2001 | |
| 1374 | नाथ डॉ. नरेंद्र चंद्र, पुत्र स्त्र. श्री क्षीरेंद्र कुमार नाथ | ए एस एम / 1901 / 2000 | ग्राम निचिंता, डाक अगिया, जिला गोलपाड़ा (असम) | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 1375 | नाथ डॉ. निखिल रंजन, पुत्र श्री सार्जेंट उपेन नाथ | ए एस एम / 1935 / 2000 | सिपाझार, डाक एवं ग्राम राजापुरुरी, जिला दारंग | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 99 | |
| 1376 | नवल किशोर सिंह, पुत्र श्री भरत प्रसाद सिंह | बिहार एस बी सी / 1367 / 2000 | ग्राम दहीभाटा, डाक एवं थाना हसौदी, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 1.7.49 |
| 1377 | नवदीप सिंह खिंडा, पुत्र श्री गुरदेव सिंह खिंडा | पी बी एस बी सी / 2248 / 2001 | 284, न्यू प्रताप नगर, जी टी रोड, अमृतसर- 143006 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 3.10.77 |
| 1378 | नवदीप सिंह, पुत्र श्री बसंत सिंह | पी बी एस बी सी / 2200 / 2000 | म.न. 747, वार्ड नं. 5, फतेहगढ़ चुरियन, जिला गुरदासपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 9.1.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|-------------------|----------|
| 1379 | नवदीप सिंह, पुत्र श्री सरवन सिंह | पी बी एस वी सी/ 2216/ 2000 | डब्ल्यू 3/ 327, चक्की वाली गली, दशमेश नगर, मोगा— 142001 | बी बी एस सी एंड ए | 6.10.75 |
| 1380 | नवीन चंद्र प्रसाद, पुत्र श्री भावेश चंद्र प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 826/ 2000 | ग्राम एवं डाक मच्छगर, थाना मीरांज, जिला गोपालगंज | बी बी एस सी एंड ए | 16.1.85 |
| 1381 | नवीन चंद्र सिंह, पुत्र श्री रामाश्रय सिंह | बिहार एस वी सी/ 1128/ 2000 | ग्राम एवं डाक मेघौल, थाना खदावतीपुर, जिला बेगुसराय, पिन— 848202 | बी बी एस सी एंड ए | 1.12.69 |
| 1382 | नवीन गाखर, पुत्र श्री अविनाश चंद्र गाखर | पी बी एस वी सी/ 2217/ 2000 | डब्ल्यू एम 257, बस्ती गुजारान, जालधर स्टीटी | बी बी एस सी एंड ए | 19.10.76 |
| 1383 | नवीन कुमार | आर ए जे एस वी सी/ 2650/ 2000 | ग्राम भीमपुरा, डाक माजरो, वाया कानावास, अलवर— 301001 | बी बी एस सी एंड ए | 19.7.75 |
| 1384 | नवीन कुमार आर्या, पुत्र श्री भगवान जी प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1064/ 2000 | मौ. एवं डाक महेंद्र, थाना सुल्तानगंज, जिला पटना, पिन— 800006 | बी बी एस सी एंड ए | 8.9.69 |
| 1385 | नवीन कुमार बी, पुत्र श्री धर्म रात | ए पी एस वी सी/ 03627/ 2000 | पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, पॉण्डी (आर एस), श्रीकाकुलम— 532218 | बी बी एस सी एंड ए | 1.8.76 |
| 1386 | नवीन कुमार, पुत्र श्री बजिन्दर पाल | एच ए आर एस वी सी/ 1680 | 463, देव नगर, पलवल, फरीदाबाद | बी बी एस सी एंड ए | 5.3.75 |
| 1387 | नवीन कुमार, पुत्र श्री नेमी चंद जैन | एम पी एस वी सी/ 1901/ 2000 | जयश्री तेल मिल के पीछे, जिला दुर्ग— 491001 | बी बी एस सी एंड ए | 20.9.66 |
| 1388 | नवीन कुमार, पुत्र श्री उमेश प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1462/ 2000 | ग्राम एवं डाक माहसौरा, वाया सिराही, थाना एवं जिला लखीसराय, पिन— 811007 | बी बी एस सी एंड ए | 31.12.57 |
| 1389 | नवरत्न प्रसाद सिंह, पुत्र रत. श्री भग्न सिंह | बिहार एस वी सी/ 1854/ 2000 | ग्राम सिपारा, डाक देलवान, थाना फुलवारीशरीफ, जिला पटना | बी बी एस सी एंड ए | 18.10.35 |
| 1390 | नवल किशोर मीना, पुत्र श्री चौती लाल मीना | आर ए जे एस वी सी/ 2624/ 2000 | ग्राम एवं डाक रानोली, तह. टोडोभीम, जिला करौली, पिन— 322220 | बी बी एस सी एंड ए | 13.7.73 |
| 1391 | नवल किशोर, पुत्र श्री गया प्रसाद | यू पी वी सी/ 3228 | ग्राम रहमतपुर, डाक नीहान, जिला फतेहपुर | बी बी एस सी एंड ए | 25.1.76 |
| | | | | एच टी/ 2000 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक आईडीएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|--|---|----------|
| 1392 | नावांग टोमडेन | अरुणा/ 211/ 2001 | द्वारा एस बैकिंग, स्कूल कॉलोनी, नावांग, अरुणाधल प्रदेश | बी वी एस सी एंड ए एथ/ए ए यू/ 2001 | 17.4.75 |
| 1393 | नीलकंठ, पुत्र श्री मादीवालप्पा | कर्ना एस वी सी/ 3176 | पुत्र श्री मस्सादीवालप्पा थानशेटी, एटी डाक सौंगोलगी तालुक, बिदर, जिला बंगलोर/ 2000 | बी वी एस सी एंड ए एथ/यू ए एस | 1.6.77 |
| 1394 | नीलम शर्मा | आर ए जे एस वी सी/ 2670/ 2000 | 1005, राम नगर, शास्त्रीनगर, जवधुपर | बी वी एस सी एंड ए एथ/राज कृष्ण/ 2000 | 10.3.76 |
| 1395 | नीना थोमस | केरल एस वी सी/ 2469/ 2000 | पुन्नाम्पिल, डाक मारीकुन्नू, कोजीकोड- 12 | बी वी एस सी एंड ए एथ/के ए यू/ 2000 | 29.6.73 |
| 1396 | नीरज गुप्ता | बी सी आई/ 2298/ 2001 | म.न. 551/ के/ 442/ 3, शक्ति नगर, आलमबाग, लखनऊ-226005 उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एथ/जे एन के वी वी/ 99- 2000 | 25.6.75 |
| 1397 | नीरज कुमार गुप्ता, पुत्र श्री दयानंद लाल गुप्ता | बिहार एस वी सी/ 1556/ 2000 | मौह, मिशन थोक, डाक, थाना एवं जिला लोहारङ्गगा | बी वी एस सी एंड ए एथ/बी ए यू/ 92 | 20.6.67 |
| 1398 | नीरज कुमार वर्मा, पुत्र श्री आर के एल दास | बिहार एस वी सी/ 1227/ 2000 | ग्राम एवं डाक गोनौन, थाना घनश्यामपुर, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एथ/बी ए यू/ 89 | 3.4.65 |
| 1399 | नीरज शर्मा | मणि/ 365/ 2000 | म.न. 993, सरस्वती घिहार चाक्केसपुरा, गुडगांव, हरियाणा | बी वी एस सी एंड ए एथ/पी ए यू/ 98 | 20.2.75 |
| 1400 | नीति सिंह | एम एस वी सी/ 6410/ 2001 | द्वारा एम एस राजपूत, रेलवे अञ्जनी कॉलोनी, जी-32-ए, नागपुर, जिला नागपुर | बी वी एस सी एंड ए एथ/डॉ. पी डी के वी/ 2000 | 12.8.75 |
| 1401 | न्यूटन तिरकी, पुत्र श्री हर्मन तिरकी | बिहार एस वी सी/ 1691/ 2000 | मौ. धूरी टोला, डाक एवं थाना कनके, जिला रांची, पिन- 834006 | बी वी एस सी एंड ए एथ/बी ए यू/ 91 | 30.10.65 |
| 1402 | नियादबोर गिरि मरबनियांग | मेघ/ 175/ 2001 | लौगाली फास्थर हिल्स, शिलांग | बी वी एस सी एंड ए एथ/ए ए यू/ 86 | 1.9.49 |
| 1403 | निचत मंजर मोती रामजी, पुत्र स्व. श्री मोती राजी निचत | बिहार एस वी सी/ 1873/ 2000 | ग्राम वारीपुरा, डाक इतवारी, डालगंज, थाना नागपुर, जिला नागपुर | बी वी एस सी एंड ए एथ/ पी के वी/ 91 | 25.9.64 |
| 1404 | निदो तायो | अरुणा/ 198/ 2000 | द्वारा ताया सीता, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, हानागार | बी वी एस सी एंड ए एथ/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 17.6.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|--|---|----------|
| 1405 | निहार रंजन घोष | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2836 / 2001 | ग्राम काशीपुर, डाक बेरबेरी, जिला 24 परगना (उ.) | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 1406 | निकम महलसाकांत, गंगाधर | एम एस वी सी / 6397 / 2000 | एटी डाक कामता, तालुक अरधारपुर, जिला नाडेड-431704 | बी वी एस सी एंड ए 7.11.77 एच/एम ए यू/ 2000 | |
| 1407 | निकम प्रशांत तुकाराम | एम एस वी सी / 6292 / 2000 | अपशिंगे (भिलिट्री), सतारा, जिला सतारा | बी वी एस सी एंड ए 2.6.76 एच/पी डी के वी/ 2000 | |
| 1408 | नीलय कुमार दास, पुत्र श्री नेपाल च. दास | त्रिपुरा / 76 / 2000 | डाक एवं ग्राम अमताली, ए बी रोड, अगरतला, त्रिपुरा वेस्ट, पिन-799130 | बी वी एस सी एंड ए 9.1.65 एच/बी ए यू/ 87 | |
| 1409 | निलन गुप्ता, पुत्र श्री वी के गुप्ता | एम पी एस वी सी / 1922 / 2000 | सात भाई की गोठ, लक्कड़खाना, लश्कर, ग्वालियर- 474001 | बी वी एस सी एंड ए 12.12.76 एच/आई जी के वी वी / 99- 2000 | |
| 1410 | निमाई चंद पात्रा | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2821 / 2000 | ग्राम चकगोपाल, डाक अलनचक बेल्दा, थाना पताशपुर, जिला मिदनापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू.ए एफ एस / 2000 | |
| 1411 | निनान जेकब | पॉण्डी / 109 / 2000 | 20, 11 क्रॉस, सत्य नगर घू. पॉण्डीचेरी- 13 | बी वी एस सी एंड ए 15.8.65 एच/ जी ए यू/ 90 | |
| 1412 | नीपा देबनाथ श्रीमती, पुत्री श्री सचिन्द्र च. देबनाथ | त्रिपुरा / 79 / 2000 | सांतीपारा, मोटरस्टैंड, अगरतला त्रिपुरा (प.) | बी वी एस सी एंड ए 18.11.66 एच/जे एन के वी वी / 89- 90 | |
| 1413 | नीरा माणिक सोरेन | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2813 / 2000 | द्वारा रोबिन सोरेन, एटी श्यामपुर, डाक अकालपुर, वाया गजोल, जिला मालदा | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 1414 | नीरज कुमार शुक्ला, पुत्र श्री राम आसरे शुक्ला | यू पी वी सी / 3255 | ग्राम पारसीपुर, डाक लम्खुआ, जिला सुलतानपुर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए 14.7.70 एच/ के के वी/ 95 | |
| 1415 | निर्मल च. रे, पुत्र ले. श्री चंद्र मोहन रे | त्रिपुरा / 30 / 2000 | पुराना कॉलेज रोड, शिबनगर, अगरतला, डाक अगरतला कॉलेज | बी वी एस सी एंड ए 4.2.54 एच/बी सी के वी वी / 77 | |
| 1416 | निर्मल दास गुप्ता पुत्र श्री धनंजय कुमार गुप्ता | त्रिपुरा / 58 / 2000 | ग्राम शलतिल्ला, डाक बेलोनिया, दक्षिणी त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए 16.9.57 एच/बी ए यू/ 82 | |
| 1417 | निर्मल कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री राम सेवक सिंह | बिहार एस वी सी / 986 / 2000 | मौ. मानलाबाग आराह, डाक आराह, थाना नवादा, जिला आराह (भोजपुर) | बी वी एस सी एंड ए 22.1.49 एच/आर ए यू/ 71 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हतारं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|---|--|----------|
| 1418 | निर्मल कुमार मिश्रा, पुत्र स्व. श्री राम विलास मिश्रा | बिहार एस वी सी / 2083 / 2000 | ग्राम पत्तरार, डाक एवं थाना गोरहानी, जिला भोजपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 15.10.43 |
| 1419 | निर्मल कुमार सेन, पुत्र स्व. श्री राम द्विजेंद्र माथ सेन | बिहार एस वी सी / 1985 / 2000 | मौ. प्रफुल्ल निवास काशीदा, डाक एवं थाना चटसिला, जिला पू. सिंधभूम— 832302 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 27.2.40 |
| 1420 | निर्मल कुमार सिंह, पुत्र डॉ. एन पी सिंह | बिहार एस वी सी / 1580 / 2000 | ग्राम भोड़ा, डाक माटिवा, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 25.8.67 |
| 1421 | निर्मल कुमार, पुत्र स्व. श्री माणिक चंद्र सिंह | बिहार एस वी सी / 1077 / 2000 | ग्राम एवं डाक भलुआही, थाना नोकना, जिला रोहतास, पिन- 802215 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 1.4.70 |
| 1422 | निर्मल कुमार, पुत्र स्व. श्री सत्य नारायण साह | बिहार एस वी सी / 1391 / 2000 | मौ. किशोरीकुंज, डाक दीघा, थाना दानापुर, जिला पटना, पिन- 800012 | बी वी एस सी पंड ए एच/एम यू/ 67 | 19.7.45 |
| 1423 | निर्मल सतीश कुमार भास्करन | केरल एस वी सी / 2448 / 2000 | कठालिकटिटल हाउस, एस एन नगर, इरिजलकुडा नॉर्थ, थिसूर | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 9.1.74 |
| 1424 | निर्मलेन्दु बिकाश पॉल, पुत्र श्री सुरेश च. पॉल | त्रिपुरा / 11 / 2000 | द्वारा डॉ. एन बी पॉल, पहली लेन, रामनगर, रोड न.1, डाक रामनगर, अगरतला, त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/कलकत्ता वि वि / 72 | 14.1.48 |
| 1425 | निशि कात वर्मा, पुत्र स्व. श्री मुंशी केशो लाल | बिहार एस वी सी / 1842 / 2000 | ग्राम रामदूतपट्टी, डाक बासबिती, थाना एवं जिला सुपौल, पिन- 852130 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 15.1.51 |
| 1426 | निथिन एच, पुत्र श्री हलासिदप्पा जी एस | कर्ना एस वी री / 3110 | न. 810 / 14, श्री शिवकुमार स्वामी नगर, प्रथम रसेज, विद्यानगर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 98 | 22.3.76 |
| 1427 | नोची यूस्टेसिया जी मामिन, पुत्री श्री क्रेडिथ आर मारक | मध्य / 177 / 2001 | चांदमारी, तुरा— 794002 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के बी वी / 99 | 20.4.75 |
| 1428 | नॉगमेझेम मारुनी | मणि / 364 / 2001 | केइशम्पत, केइसम, लेइकेई | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 97 | 1.6.74 |
| 1429 | नूर आलम तूफानी, पुत्र मौहम्मद मातिम | बिहार एस वी सी / 2092 / 2000 | ग्राम घुसमुल, डाक घिसमुल हाट, थाना घुसमुल हाट, जिला पूर्णिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 2.1.74 |
| 1430 | ओबुल रेड्डी टी, पुत्र श्री सुब्बा रेड्डी | ए पी एस वी सी / 03657 / 2000 | 25 / 186—ए 2.दूसरी मंजिल, साई निवास, संजीव नगर, नंदयाल(आरएस), कुर्नूल जिला | बी वी एस सी/ए पी ए यू/67 | 9.4.44 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहसास | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|---|---|----------|
| 1431 | ओगेश्वरा राव बी, पुत्र श्री बी रामझया | ए पी एस वी सी / 03625 / 2000 | लक्ष्मीपुरम ग्राम, ब्राह्मणतरला डाक, श्रीकाकुलम जिला— 532220 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 10.6.76 |
| 1432 | ओजिंग रुक्मो | अरुणा/2100 /2001 | द्वारा आर सिंगकाई, हैत्थ ब्रा. सेक्ट, कॉम्प्लेक्स, इटानगर | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के बी वी/2001 | 14.8.73 |
| 1433 | ओम प्रकाश बैरवा, पुत्र श्री सुमरत लाल बरवा | आर ए जे एस वी सी/2620 / 2000 | ग्राम टोडोज्ञान सिंह, डाक टोडानगर, तह. राजगढ़, अलवर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 1.10.73 |
| 1434 | ओम प्रकाश दिवाकर, पुत्र श्री मुंद्रिका राम | बिहार एस वी सी/ 938 / 2000 | मौ. न्यू बिनास रोड, हरम चाक, डाक अनीसाबाद, थाना पुलवारी, पटना— 800002 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 1.1.50 |
| 1435 | ओम प्रकाश प्रसाद, पुत्र श्री शिवरति महतो | बिहार एस वी सी/ 1470 / 2000 | ग्राम लक्ष्मीपुर डोन, डाक नौरंगिया डोन, थाना रामनगर, जिला बेतिया (प. घम्पारन) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 6.1.74 |
| 1436 | ओम प्रकाश, पुत्र श्री आर आर गुप्ता | यू पी वी सी/ 3226 | ग्राम एवं डाक अमानीगंज, फैजाबाद, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी/2000 | 1.8.71 |
| 1437 | ओम प्रकाश सैनी | आर ए जे एस वी सी/2643 / 2000 | म.न. 3972, नाहरगढ़ थाने के निकट, पुरानी बस्ती, जयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 1.3.70 |
| 1438 | ओम प्रकाश श्रीवारत्न, पुत्र श्री प्यारे लाल श्रीवारत्न | बिहार एस वी सी/ 1487 / 2000 | ग्राम रुहटा, डाक सदर, थाना उलंदगंज, जिला जौनपुर (उ.प्र.) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 2.9.43 |
| 1439 | ओंकारदत्ता उपाध्याय, पुत्र श्री एल पी उपाध्याय | एम पी एस वी सी/ 1903 / 2000 | नंदिनी निवास, म.न. 454, वार्ड न. 9, भारतीय नगर, बिलासपुर—495001 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के बी वी/ 78— 79 | 22.8.52 |
| 1440 | ओमपाल सिंह, पुत्र श्री दुँडा सिंह | यू पी वी सी/ 3299 | पी— 201, संजय नगर, सेक्टर 23, राज नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 71 | 8.7.47 |
| 1441 | ओमप्रकाश के, पुत्र श्री रामकिशन राव | ए पी एस वी सी/ 03541 / 2000 | द्वारा रॉयल पोल्ड्री फीड्स, हैदराबाद रोड, सिद्धीपेट, मेडक जिला — 502103 | बी वी एस सी एंड ए एच/ मराठवाडा कृ वि वि/ 97 | 25.5.75 |
| 1442 | ओंकार नाथ दिवाकर, पुत्र श्री मुंद्रिका राम | बिहार एस वी सी/ 1226 / 2000 | ग्राम एवं डाक लाला भद्रसारा, थाना दुल्हिन बासार, जिला पटना, पिन— 801102 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 89 | 5.1.60 |
| 1443 | पी यादविंदर सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह | पी वी एस वी सी/ 2178 / 2000 | 30, दशमेश कॉलोनी, पटियाला गेट, नाभा, जिला पटियाला | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 20.7.71 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक आहताएं | जनसंतानि |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|----------|
| 1444 | पी हेमवर्थी | पॉण्डी / 131 / 2001 | 31, आनंद रंगापिल्लई नगर, चौथा क्रॉस, पॉण्डीचेरी— 605008 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 7.7.76 |
| 1445 | पी थिरुसेलवामे | पॉण्डी / 141 / 2001 | 3, थिरुइलम, सेंगेनियमन कोइल स्ट्रीट, अप्पावु नगर, वजियाकुलम, पॉण्डीचेरी | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 12.9.77 |
| 1446 | पी विजयालक्ष्मी | पॉण्डी / 115 / 2000 | 15, । क्रॉस, रेनबो नगर, पॉण्डीचेरी— 605011 | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/93 | 26.9.69 |
| 1447 | पबन कुमार मजूसदार, पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार मजूसदार | त्रिपुरा / 66 / 2000 | डाक एवं ग्राम जोलाई बारी, बेनोनिया, त्रिपुरा (द.), पिन— 799141 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 87 | 1.1.62 |
| 1448 | पदम भूषण प्रसाद, पुत्र श्री नंद किशोर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1445 / 2000 | मौह. न्यू फॉरेस्ट कॉलोनी, डाक, थाना एवं जिला हजारीबाग | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 89 | 10.10.62 |
| 1449 | पदमानंद के जी, पुत्र श्री गंगाधर मूर्ति के | कर्ना / 3201 | के ब्लॉक, एम आई जी 216, रामाकृष्णा नगर, मैसूर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/2000 | 22.7.74 |
| 1450 | पालकर शिरीष शेषराव | एम एस वी सी / 6352 / 2000 | स्नेहल निवास, गणेश नगर, कलाम, तालुक कलाम, जिला उस्मानाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 10.8.78 |
| 1451 | पल्लब प्रधान | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2803 / 2000 | ग्राम एवं डाक बिशालक्ष्मीपुर, थाना कुकम्बीप, जिला 24 परगना (द.) | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 1452 | पल्लवी वर्मा, पुत्र श्री एन एस वर्मा | आर ए जे एस वी सी / 2703 / 2000 | 44, गोल्फ कोर्स स्कीम, जोधपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृष्ण वि/ 2000 | 17.7.76 |
| 1453 | पाल्वे संतोष शिवाजी | एम एस वी सी / 6398 / 2000 | एटी डाक देवराय, तालुक पाठोरी, जिला अहमदनगर — 414106 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी/ 2000 | 5.6.77 |
| 1454 | पंचभाई चेतक गुलाबराव | एम एस वी सी / 6368 / 2000 | साई बाबा कॉलोनी, खापाटोली, तुमसर, तालुक तुमसर, भड़ारा— 441912 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/ 2000 | 14.12.76 |
| 1455 | पंचाक्षरी सांख, पुत्र श्री-शिवालिंगप्पा सांके | कर्ना एस वी सी / 3075 | दानाम्मादेवी कृष्ण, प्लॉट न. 042, चिंकटी कॉलोनी, शिवलिंगेश्वर के पीछे | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ 99 | 15.7.76 |
| 1456 | पाणि प्रसाद के, पुत्र श्री के शंकरा राव | ए पी एस वी सी / 03653 / 2000 | 301 ट्रांजिट बिल्डिंग, सेंट्रल इस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, ईडीएन. 7 बंगलो, मुम्बई | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/84 | 17.4.62 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अईतारं | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------------|---|--|----------|
| 1457 | पंकज चावला, पुत्र श्री ओम प्रकाश चावला | पी बी एस वी सी / 2208 / 2000 | मौ. कुंडग्राम बस्सी पठाना, जिला फतेहगढ़ साहिब— 140412 | बी बी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 24.10.73 |
| 1458 | पंकज गुप्ता | आर ए जे एस वी सी / 2634 / 2000 | 37, शक्ति नगर, कोटा | बी बी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 26.6.75 |
| 1459 | पंकज खुराना, पुत्र श्री अविनाश चंद्र खुराना | एच ए आर एस वी सी / 1622 | म.न. 243 / 18, मौह. रामपुरा, हिसार | बी बी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 99 | 29.11.75 |
| 1460 | पंकज कुमार, पुत्र श्री ब्रजपाल सिंह | यू पी वी सी / 3264 | ग्राम झिंझरपुर, डाक पिलोना, जिला मेरठ, उ.प्र. | बी बी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/2000 | 30.5.77 |
| 1461 | पंकज कुमार सिंह, पुत्र श्री महेश्वर सिंह | बिहार एस वी सी / 1382 / 2000 | मौह. आबाद गंज, थाना डाल्टनगंज, जिला पलामू पिन- 822101 | बी बी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 97 | 4.3.72 |
| 1462 | पंकज कुमार थन्वी, पुत्र श्री नदी नारायण थन्वी | आर ए जे एस वी री / 2699 / 2000 | सिटी लाइट स्टूडियो गली, जोशीवाड़ा कोटे गेट, बीकानेर | बी बी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 15.8.75 |
| 1463 | पंकज कुमार, पुत्र श्री पशुपतिनाथ साहू | बिहार एस वी सी / 1948 / 2000 | 43 मौ. कुवरी विराय टोला, डाक हाजीपुर, थाना गंगा ब्रिज, जिला वैशाली 844101 | बी बी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 8.7.73 |
| 1464 | पंकज कुमार, पुत्र डॉ. केशव प्रसाद चौधरी | बिहार एस वी सी / 1092 / 2000 | ग्राम एवं डाक चतुरमुज बाड़े, थाना पीरो, जिला भोजपुर | बी बी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 7.6.69 |
| 1465 | पनसारे वसंत आनंद | एम एस वी सी / 6425 / 2001 | पनसारे माला, विजय नगर, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर | बी बी एस सी एंड ए एच/ के के वी / 2000 | 21.7.78 |
| 1466 | परमजीत सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह | पी बी एस वी सी / 2234 / 2001 | ग्राम ककराली, डाक मोरिन्दा, जिला रोपड़ | बी बी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | |
| 1467 | पारस नाथ सिंह, पुत्र श्री देव नारायण सिंह | बिहार एस वी सी / 1289 / 2000 | मौ. जमाला, डाक सिंगार, थाना कांति, जिला मुजफ्फरपुर | बी बी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 3.9.42 |
| 1468 | पारस नाथ सिंह, पुत्र श्री शिव प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 907 / 2000 | ग्राम चांद, डाक चांद, थाना चांद, जिला कैमूर | बी बी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 61 | 1.7.42 |
| 1469 | परशुराम कुमाननवर पुत्र श्री फकीरप्पा एच | कर्ना एस वी सी / 3160 | अलालागेरी, बयाडगी तालुक, जिला हावेरी | बी बी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 8.8.75 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---|---|--|----------|
| 1470 | प्रदीप सिंह, पुत्र श्री गुरनाम सिंह | पी वी एस वी सी/ 2184/ 2000 | म.न. 753/ 4, लब्बी हाउस, जेल रोड गली, गुरु नानक पार्क के सामने, गुरदासपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 1.1.77 |
| 1471 | परेश नाथ चटर्जी | डब्ल्यू बी एस वी सी/ 2839/ 2001 | ग्राम कोयार, डाक कोयार, जिला बर्दगान— 713423 | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/ 2000 | |
| 1472 | परिमल चंद्र करमाकर, पुत्र श्री सनातन करमाकर | त्रिपुरा/ 32/ 2000 | इंद्रानगर, डाक अभोयनगर, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 18.8.53 |
| 1473 | परिमल दास, पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार दास | त्रिपुरा/ 78/ 2000 | ग्राम चंदनमुरा, डाक बट्टाली, पश्चिमी त्रिपुरा, थाना सोनामुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/पी के वी/ 89 | 27.9.67 |
| 1474 | पारित परेश मारुति | एम एस वी सी/ 6337/ 2000 | स्नेहल गांधीनगर, गांधीगंलाज, जिला कोल्हापुर— 416502 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी/ 2000 | 24.7.78 |
| 1475 | परितोश दास | डब्ल्यू बी एस वी सी/ 2787/ 2000 | ग्राम बगुलाखली, डाक चूना खली, थाना बंसंती, जिला 24 परगना (द.) | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/ 2000 | |
| 1476 | परितोष मजुमदार, पुत्र श्री लाल मोहन मजुमदार | त्रिपुरा/ 16/ 2000 | हॉस्पिटल रोड, एक्स.टाउन बर्दगाली, गांधीघाट, डाक अगरतला, त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 15.8.53 |
| 1477 | परितोष मजुमदार (एस आर), पुत्र ले.श्री परिमल मजुमदार | त्रिपुरा/ 9/ 2000 10, जॉयनगर,, (उत्तर), अगरतला, त्रिपुरा (प.) | ग्राम एवं डाक कीरतपुर, थाना भगवानपुर, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/ सी यू/ 71 | 28.12.46 |
| 1478 | परमानंद प्रसाद सिन्हा, पुत्र रव. श्री चंद्र देव प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी/ 1943/ 2000 | ग्राम एवं डाक कीरतपुर, थाना भगवानपुर, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 25.12.45 |
| 1479 | परमार विमल भाई खोड़ाभाई | वी सी आई/ 2276/ 2001 | एफ— 23/ 4, स्टाफ क्वार्टर्स, गुजरात कृ. वि. एटी एवं डाक एस के नगर | बी वी एस सी एंड ए एच/ जी ए यू/ 99 | 6.7.75 |
| 1480 | परमेश्वर प्रसाद, पुत्र श्री भिखारी प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1423/ 2000 | ग्राम हरिबेला, डाक हरिबेला, थाना बठनाहा, जिला सीतामढी | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 81 | 5.4.56 |
| 1481 | परमेंदर सिंह, पुत्र श्री परमजीत सिंह | पी वी एस वी सी/ 2244/ 2001 | ग्राम एवं डाक मंगवाल, जिला संगरूर— 148001 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 17.2.71 |
| 1482 | पारुक आजम मौहम्मद, पुत्र रव. मौहम्मद अबुनासेह | बिहार एस वी सी/ 984/ 2000 | मौ. मिल्की मौहल्ला, डाक आराह चौक, थाना नगर थाना, जिला आराह (भोजपुर) | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 24.7.42 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|---------------------------------|---|---|----------|
| 1483 | पार्थ प्रतिम दास | डब्ल्यू बी एस वी सी/ 2791/ 2000 | 10 न. वार्ड, बिस्वपारा, बलूरधाट, जिला दीनाजपुर | बी बी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 1484 | पार्थ सारथी जना | डब्ल्यू बी एस वी सी/ 2807/ 2000 | ग्राम पलियाराह, डाक गौरांगोचाक, थाना उदय नारायणपुर, जिला हावड़ा | बी बी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 1485 | प्रवीण कुमार, पुत्र श्री सुदर्शन लाल | पी बी एस वी सी/ 2187/ 2000 | म.न. 210 / 2 (नया 603 / 2), आदमपुर दोआबा, जालधर | बी बी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 14.10.74 |
| 1486 | पटेल मनीष कुमार दशरथ लाल | बी सी आई/ 2277/ 2001 | 80, उमिया नगर, एटी एवं डाक खोराज, तालुक एवं जिला गांधीनगर | बी बी एस सी एंड ए एच/ जी ए यू/ 97 | 4.7.74 |
| 1487 | पटेल मुकेश भाई गोविंद भाई | बी री आई/ 2254/ 2000 | गुजरात के वि वि, क्वा. न. च्यू—एफ—5—12, एस के नगर—385506 | बी बी एस सी एंड ए एच/ जी ए यू/ 99 | 15.8.75 |
| 1488 | पटेल राजेश कुमार गंडालाल | बी सी आई/ 2259/ 2001 | जी/ 1, कल्पतरु अपा., गीता स्कूल के सामने, रानिप, अहमदाबाद, गुजरात | बी बी एस सी एंड ए एच/ जी ए यू/ 98 | 20.20.71 |
| 1489 | पटेल रमेश भाई सोमा भाई, पुत्र श्री सोमा भाई | आर ए जे एस वी सी/ 2763/ 2001 | ब्लॉक न. 23, झारकेश सोसायटी, खेदभरामा, जिला सावरकुंठा | बी बी एस सी एंड ए एच/ जी ए यू/ 90 | 1.6.66 |
| 1490 | पाठक डॉ. सिमता, पुत्र श्री प्राण कृष्णा पाठक | ए एस एम/ 1934/ 2000 | श्री प्राण कृष्ण पाठक, टेलीफोन एक्सचेंज के निकट, बारपेटा | बी बी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 1491 | पपाटिल महेंद्र श्रीकांतराव | एम एस वी री/ 6331/ 2000 | राज बिल्डिंग, जवाहर नगर, 23 बी वार्ड, कारवीर, कोल्हापुर | बी बी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी/ 2000 | 21.8.77 |
| 1492 | पाटिल रणजीत कोमल सिंग | एम एस वी री/ 6412/ 2001 | एटी डाक वडगांव (ब्लॉक), तालुक भदगांव, जिला जलगांव—424104 | बी बी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 2000 | 21.7.75 |
| 1493 | पाटिल सत्यजीत गिरिधर राव | एम एस वी री/ 6416/ 2001 | जुंग, देगलूर रोड, जिला लाटूर 413517 | बी बी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 22.3.77 |
| 1494 | पाटिल सुधाकर आनंद | एम एस वी री/ 6338/ 2000 | एटी डाक कौलाज, गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर | बी बी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी/ 2000 | 11.2.78 |
| 1495 | पटवर्धन अभिजीत शरद | एम एस वी सी/ 6355/ 2000 | 4—स्वोन लेक, सहकार नगर, ढाके कॉलोनी, जे पी रोड, अंधेरी (प.), मुम्बई | बी बी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 2000 | 18.5.78 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्माब्दि |
|---------|--|--------------------------------------|---|---|-----------|
| 1496 | पटवारी संदीप नारायण राव, पुत्र श्री नरसिंहराव | कर्ना एस वी सी / 3096 | कमलानगर, औरद तालुक, बिदर जिला | बी वी एस सी एंड ए 10.8.75 एच/ मराठवाडा वि वि / 98 | |
| 1497 | पवन कुमार वी, पुत्र श्री वी एस एच गोपाल | ए पी एस वी सी / 3665 / 2000 | द्वारा पी प्रसाद, डी न. 12-14-18, लालापेट (डाक), सिकंदराबाद | बी वी एस सी एंड ए 23.8.76 एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | |
| 1498 | पवनीत सिंह मावी, पुत्र श्री नच्चतर सिंह मावी | पी बी एस वी सी / 2242 / 2001 | म.न. 1179, फेस-X, मोहाली, पंजाब | बी वी एस सी एंड ए 20.9.76 एच/पी ए यू/ 2000 | |
| 1499 | पवाले नरसिंग हरीशचंद्र | एम एस वी सी / 6384 / 2000 | पवाले निवास, एटी डाक पानगांव, तालुक रामपुर, जिला लादूर- 431522 | बी वी एस सी एंड ए 21.4.77 एच/एम ए यू/ 2000 | |
| 1500 | पवन कुमार , पुत्र श्री चंद्र भान | एच ए आर एस वी सी/ 1673 | ग्राम धींगताना, डाक भगना, हिसार | बी वी एस सी एंड ए 19.9.76 एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | |
| 1501 | पवन कुमार सबल | आर ए जे एस वी सी / 2638 / 2000 | 1-31, जे पी कॉलोनी, सैक्टर न. 3, शास्त्री नगर, जयपुर- 302016 | बी वी एस सी एंड ए 23.1.73 एच/राज कृ वि वि/ 2000 | |
| 1502 | पवार शरद पुरुषोत्तम राव, द्वारा पी ज़ेड पवार | एम एस वी सी / 6371 / 2000 | एटी डाक देगलूर, तालोठी तालुका कार्यालय, देगलूर जिला नांडेड- 431717 | बी वी एस सी एंड ए 18.12.77 एच/एम ए यू/ 2000 | |
| 1503 | पवार शीतल पांडुरंग | एम एस वी सी / 6327 / 2000 | द्वारा पांडुरंग कृष्ण पवार एटी डाक पालुस, तालुक पालुस, जिला सांगली | बी वी एस सी एंड ए 17.5.78 एच/डॉ. पी डी के वी / 2000 | |
| 1504 | पवार श्रीपति भुनादास | एम एस वी सी / 6286 / 2000 | एटी डाक आसु, तालुक फाल्टन, जिला सतारा- 415523 | बी वी एस सी एंड ए 1.6.75 एच/एम पी के वी/ 99 | |
| 1505 | पावशे दयानंद वलवंतराव | एम एस वी सी / 6290 / 2000 | कवा. न. बी/36, डॉ. पीडी केयू कैम्पस, अकोला, एमपी ओ भासोड, तालुक दरयापुर, अमरावती | बी वी एस सी एंड ए 22.7.52 एच/पी के वी/ 77 | |
| 1506 | पेगु डॉ. दिलीप कुमार, पुत्र रव. श्री मदन पेगु | ए एस एम / 1924 / 2000 | 8वां माइल, गणेश मंदिर, गारो बस्ती, डाक अमेरीगोग, गुवाहाटी- 781023 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 1507 | पपेगु डॉ. श्रीमती सीमा रानी, पुत्री श्री माणिक च. | ए एस एम / 1915 / 2000 | बारमेटा, जोरहाट, असम- 785013 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 1508 | फूकन डॉ. (कुमारी) अरुंधती राव, पुत्री श्री महेद्र मोहन | ए एस एम / 1940 / 2001 | द्वारा श्री एम एम फूकन, आरएनजी फॉरेस्ट कार्यालय, दूमाली, एपी खोवांग | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---------------------------------------|---|---|----------|
| 1509 | फ्रान्स तारिआंग | मेघ/ 156/ 2001 | मदानर्तिंग, शिलाँग- 21 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 90 | 11.9.63 |
| 1510 | फूकन डॉ. श्रीमती जूली, पुत्री श्री प्रिय नाथ फूकन | ए एस एम/ 1910/ 2000 | द्वारा श्री प्रिय नाथ फूकन, नवकारी नगर, वार्ड न. 2, उत्तरी | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 1511 | पिनाकी बिरतास | डब्ल्यू बी एस वी सी/ 2824/ 2000 | डे चौधरी पारा, वार्ड न. 6, रानाधाट, जिला नादिया- | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 1512 | पीताम्बर झा, पुत्र श्री राम सुंदर झा | बिहार एस वी सी/ 1330/ 2000 | मौह, आगरा घाट रोड, डाक, थाना एवं जिला गिरिडीह— 815301 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 89 | 12.10.66 |
| 1513 | पीयूष मिंज, पुत्र स्व. श्री सिमोन मिंज | बिहार एस वी सी/ 1341/ 2000 | मोन, सीसे रोड, काथल टोली, डाक, थाना एवं जिला गुमला | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 2.2.67 |
| 1514 | पोहानेकर अमोल वरसंतराव | एम एस वी सी/ 6341/ 2000 | हिराई निवास, 27/ 364, समता नगर, तालुक एवं जिला उस्मानाबाद— 413501 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 14.12.77 |
| 1515 | पोन्नुवेल आर | पॉण्डी/ 93/ 2000 | न. 1, दूसरा क्रॉस, अन्नाई थेरेसा नगर, मूँझाकुलम, पॉण्डीचेरी | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 95 | 16.4.66 |
| 1516 | पूजा रानी, पुत्री श्री वेद कृष्ण | पी बी एस वी सी/ 2193/ 2000 | आनंद नगर, गली न. 1, मोगा | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 1999 | 22.11.74 |
| 1517 | पूनम बत्रा, पुत्री श्री रामजी दास बत्रा | पी बी एस वी सी/ 2181/ 2000 | प्रकाश विलनिक, ग्राम एवं डाक पाखोवाल, जिला लुधियाना— 141108 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 1999 | 31.10.75 |
| 1518 | पूनम रिन्हा, पुत्री श्री जुगेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 2058/ 2000 | ग्राम भवानीपुर जीरन, जिला पूर्णी चम्पारन | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 3.7.55 |
| 1519 | पूनम यादव, पुत्री श्री याद राम यादव | यू पी वी सी/ 3266 | द्वारा श्री ज्ञानेंद्र सिंह यादव ग्राम एवं डाक दादोन, जिला अलीगढ़, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/2000 | 28.5.77 |
| 1520 | पोत्दार विनोद पिंजराव | एम एस वी सी/ 6408/ 2001 | द्वारा राजेंद्र मेडिकल, शिवाजी नगर, बासमत रोड, परमनी जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 13.6.78 |
| 1521 | प्रभाकर रिन्हा, पुत्र श्री कपिल देव राम | बिहार एस वी सी/ 1381/ 2000 | ग्राम देवीपुर, डाक नंदलालपुर, थाना काहलगांव, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 1.1.67 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|----------|
| 1522 | प्रभाकर ए बी, पुत्र श्री बासवराजप्पा | कर्ना एस वी सी/ 3151 | सिद्धरामेश्वर रोड, अज्जमपुर, तारीकरे तालुक, घिकमगलूर जिला | बी वी एस सी एंड ए 28.6.77 एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | |
| 1523 | प्रभाकरइयाह डी एस, पुत्र श्री शिवा रेड्डी | कर्ना/ 3204 | दिम्बाला ग्राम, रोनूर डाक, श्रीनिवासपुर तालुक, कोलार जिला | बी वी एस सी एंड ए 1.6.77 एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | |
| 1524 | प्रभाकरन एस, पुत्र श्री जे सेमुअल राज | ए पी एस वी सी/ 03593 / 2000 | 10-93, मारुति नगर, तिरुपति— 517502 | बी वी एस सी/टी एन 17.6.74 वी एंड ए एस यू/2000 | |
| 1525 | प्रभास कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री धनु सिंह | बिहार एस वी सी/ 1066 / 2000 | ग्राम फुलवारिया, डाक करसार, थाना रघुनाथपुर, जिला सीवन | बी वी एस सी एंड ए 1.1.60 एच/आर ए यू/ 84 | |
| 1526 | प्रभात कुमार मिश्रा, पुत्र श्री चिरञ्जीवी मिश्रा | बिहार एस वी सी/ 1812 / 2000 | ग्राम एवं डाक खराजपुर, थाना बागदूरपुर, जिला दरभगा, पिन- 846003 | बी वी एस सी एंड ए 11.12.68 एच/आर ए यू/ 95 | |
| 1527 | प्रभात कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री सिद्धेश्वरी शरन सिन्हा | बिहार एस वी सी/ 1603 / 2000 | ग्राम एवं डाक हारपुर कराह, थाना बानलयापुर, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए 15.1.46 एच/एम यू/ 69 | |
| 1528 | प्रभात कुमार पंकज | वी सी आई/ 2297 / 2001 | तीरथ सिंह, म.न. 31, कावरथा हाउस, ब्रिज 11 के निकट, जबलपुर, म.प्र. | बी वी एस सी एंड ए 2.1.76 एच/जे एन के वी वी/ 99— 2000 | |
| 1529 | प्रभात रंजन राव, पुत्र श्री महेंद्र नारायण राव | बिहार एस वी सी/ 1924 / 2000 | ग्राम गनगौरा, डाक राहटा, चौमुख, थाना बिहारीगंज, जिला मध्यपुरा, पिन- 852101 | बी वी एस सी एंड ए 15.1.68 एच/आर ए यू/ 96 | |
| 1530 | प्रभावती कुमारी, पुत्री स्व. श्री रामशरण प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1528 / 2000 | ग्राम मोजतारा, डाक बारझीह, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा, पिन- 801303 | बी वी एस सी एंड ए 5.7.69 एच/आर ए यू/ 94 | |
| 1531 | प्रभु नारायण मिश्रा, पुत्र स्व. श्री शम्भू नारायण मिश्रा | बिहार एस वी सी/ 1240 / 2000 | ग्राम एवं डाक सराय मोहन, थाना नरझाह, जिला आजमगढ़ | बी वी एस सी एंड ए 11.11.43 एच/एम यू/ 67 | |
| 1532 | प्रभुनाथ सहाय, पुत्र स्व. डॉ. हानंदन सहाय | बिहार एस वी सी/ 1471 / 2000 | ग्राम एवं डाक देवरिया, थाना रायेलगंज, जिला छपरा, पिन- 841301 | बी वी एस सी एंड ए 12.10.43 एच/एम यू/ 64 | |
| 1533 | प्रभुनाथ सिंह, पुत्र स्व. श्री कमला सिंह | बिहार एस वी सी/ 1157 / 2000 | ग्राम एवं डाक बासंत, थाना बसंतपुर, जिला सीवन, पिन- 841406 | बी वी एस सी एंड ए 18.2.47 एच/एम यू/ 70 | |
| 1534 | प्रभुनाथ सिंह, पुत्र स्व. श्री सिंघासन सिंह | बिहार एस वी सी/ 1233 / 2000 | ग्राम एवं डाक मेठियालिया, थाना रीवीगंज, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए 16.3.45 एच/आर ए यू/ 68 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|----------|
| 1535 | प्रबोध कुमार करमाकर | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2786 / 2000 | ग्राम कांचकुली, डाक धरमादा, जिला नादिया | बी वी एस सी एंड ए एच/ डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 1536 | प्रबोध कुमार सिंह, पुत्र श्री रिम्मेश्वर नाथ | बिहार एस वी सी / 1858 / 2000 | मौह. विंद टोली, शेखपुरा, जिला पटना, पिन- 800014 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 1.9.50 |
| 1537 | प्रदीप सी बी, पुत्र श्री बुधीहल सी ए | कर्ना एस वी सी / 3116 | 034 / 5, सर्विस रोड, निकट बीटीएस गैराज, आर पी सी लेआउट, विजयनगर, बंगलौर | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर / 98 | 7.4.76 |
| 1538 | प्रदीप कुमार विरचास पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद विरचास | बिहार एस वी सी / 1173 / 2000 | ग्राम एवं डाक बसैती, थाना बसैती, जिला अरेरिया, पिन- 854312 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 87 | 15.1.61 |
| 1539 | प्रदीप कुमार | पॉण्डी / 126 / 2000 | 585, अशोक नगर, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी- 605008 | बी वी एस सी एंड ए एच/ यू यू/ 79 | 10.7.58 |
| 1540 | प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र स्व. डॉ. शंकर लाल | एम पी एस वी सी / 1917 / 2000 | 5 / 282 / एस, ओंकार हाउस, कमलामार्केट में, सर्किटहाउस, चौराहा मुख्यारागंज, सतना | बी वी एस सी एंड ए एच/ जे एन के वी वी / 71 | 16.11.46 |
| 1541 | प्रदीप कुमार सिंह, पुत्र श्री शेष नारायण सिंह | आर ए जे एस वी सी / 2758 / 2001 | ग्राम एवं डाक शेरवाघ, एटी जिला फैजाबाद, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/ सी एस ए के पी वी वी / 91 | 30.1.69 |
| 1542 | प्रदीप कुमार, पुत्र श्री धर्मनीधर राम | बिहार एस वी सी / 1418 / 2000 | ग्राम नागरी कलां, डाक सिजुआ, थाना तेतुलबारी, जिला घनबाद् | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी ए यू/ 93 | 20.12.66 |
| 1543 | प्रदीप कुमार, पुत्र श्री विनोद कुमार | बिहार एस वी सी / 1540 / 2000 | ग्राम एवं डाक पनसालवा, थाना बेलदौर, जिला खगरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी ए यू/ 94 | 31.12.67 |
| 1544 | प्रदीप एम सी, पुत्र श्री एम सी चंद्रशेखरप्पा | कर्ना / 3206 | मिलानेहल्ली डाक, अरासीकरे तालुक, हसन जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ यू ए एस बंगलौर / 2000 | 31.7.77 |
| 1545 | प्रदीप सखाराम गायकवाड | आर ए जे एस वी सी / 2715 / 2000 | ए/पी, बड्डोरे (चौधरी भवन), भीलवाडा | बी वी एस सी एंड ए एच/एच ए यू/ 95 | 1.12.72 |
| 1546 | प्रदीप यादव, पुत्र श्री शेर सिंह यादव | आर ए जे एस वी सी / 2668 / 2000 | म.न. 170, भगवती नगर, करतार पुरा, जयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 1.8.76 |
| 1547 | प्रदीप कुमार दत्ता चौधरी, पुत्र रव. श्री परेश नाथ | त्रिपुरा / 38 / 2000 | 29 / iv, कुमार टिल्ला, गवर्न. वा., डाक कुंजबन, अगरतला, त्रिपुरा (प.) | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी सी के वी वी / 78 | 7.7.56 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|----------|
| 1548 | प्रदीप कुमार | पॉण्डी / 110 / 2000 | बी-5, क्वार्टर्स कॉम्प्लेक्स, रागाकोवास, कुरुम्बपेट, पॉण्डीचेरी- 605009 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 83 | 15.10.59 |
| 1549 | प्रद्युमन कुमार स्वावे, पुत्र श्री हरे कृष्ण स्वाये. | बिहार एस वी सी / 1770 / 2000 | ग्राम नरीजंग, थाना तितोल, जिला जगतसिंगपुर, पिन- 754137 | बी वी एस सी एंड ए एच/ओ यू ए एंड टी / 89 | 23.9.66 |
| 1550 | प्रफुल कुमार सिंह, पुत्र श्री ईश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 941 / 2000 | मौ. देवी मंडप रोड, डाक हेसाल, थाना सुखदेव नगर, रांची- 834005 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 24.9.66 |
| 1551 | प्रहलाद सहाय रायगर, पुत्र श्री बंशी लाल रायगर | आर ए जे एस वी सी / 2704 / 2000 | ग्राम एवं डाक कारिरी, वाया: खेजरोली, जयपुर- 303803 | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 5.6.73 |
| 1552 | प्रज्ञा राव, पुत्र श्री पी सुब्बा राव | ए पी एस वी सी / 03537 / 2000 | प्लॉ.न.119,म.न.15-263,ओएच पी लेआउट,आदर्शनगर कालो. एचबी कॉलो. डाक,ग्राम पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 73 | 6.12.45 |
| 1553 | प्रकाश वी, पुत्र श्री बी वी बैरा रेड्डी | कर्ना एस वी सी / 3092 | न. 1362, ज्यूडिशियल लेआउट, जाक्कूर ऐरोड्रम के सामने, बंगलौर(जी के वी के) | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 99 | 23.2.75 |
| 1554 | प्रकाश बृज लाल पाटिल | वी सी आई / 2253 / 2000 | 29, पुष्पांजलि, जयनगर सोसायटी, रामबाग, स्वामी नगर के पीछे | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 77 | 1.3.54 |
| 1555 | प्रकाश चंद झा, पुत्र रत. श्री इंद्रानन झा | बिहार एस वी सी / 1659 / 2000 | ग्राम, डाक एवं थाना धमदहा दक्षिण, जिला पूर्णिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 5.4.53 |
| 1556 | प्रकाश चंद राय, पुत्र रत. श्री जनकधारी राय | बिहार एस वी सी / 1247 / 2000 | ग्राम भगवानपुर, डाक रामगढ़, थाना दरियापुर, जिला सारन, छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 15.5.44 |
| 1557 | प्रकाश चंद राय, पुत्र स्व. श्री उदय नारायण राय | बिहार एस वी सी / 1536 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना आदित्य पुर, जिला पश्चिमी सिंगभूम, पिन- 831013 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 13.3.60 |
| 1558 | प्रकाश जी, पुत्र श्री सिदलिंगप्पा | कर्ना एस वी सी / 3171 | 111 वार्ड, कुडल्ली तालुक, बेलारी जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 1.6.75 |
| 1559 | प्रकाश जत्तेनावर, पुत्र श्री सिदप्पा एफ | कर्ना एस वी सी / 3091 | प्रकाश नीलया, आनंद नगर, हुडको कॉलोनी के निकट, गडग | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 99 | 3.2.76 |
| 1560 | प्रकाश कुजुर, पुत्र श्री मार्क्स कुजुर | बिहार एस वी सी / 1522 / 2000 | मौ. डाक इंडियन अमा लेन, कनके, थाना कनके, जिला रांची, पिन- 834006 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 7.10.62 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|---|---|----------|
| 1561 | प्रकाश सिंह बादल, पुत्र श्री सूर्य देव मडल | बिहार एस वी सी / 2050 / 2000 | मौ. आजाद कॉलोनी, रजनी चौक, डाक बाठा बाजार, थाना खंजाची हाट | बी वी एस सी एंड ए 3.12.70 एच/आर ए यू/ 2000 | |
| 1562 | प्रमिला, पुत्री श्री केनचन्पा एच | कर्ना / 3207 | धर्मपुरा, विजयपुरा डाक, देवनाहल्ती, तालुक बंगलौर, ग्रामीण जिला | बी वी एस सी एंड ए 11.1.76 एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | |
| 1563 | प्रमोद कुमार आर्या, पुत्र श्री सत्यनारायण प्रसाद आर्या | बिहार एस वी सी / 1503 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना लौरिया, जिला पश्चिमी चम्पारन, पिन- 845453 | बी वी एस सी एंड ए 18.1.69 एच/आर ए यू/ 95 | |
| 1564 | प्रमोद कुमार दास, पुत्र रव. श्री गोगधर दास | बिहार एस वी सी / 1506 / 2000 | ग्राम बीरडाह, डाक एवं थाना रघोपुर, जिला सुपौल, पिन- 854111 | बी वी एस सी एंड ए 15.8.52 एच/बी ए यू/ 78 | |
| 1565 | प्रमोद कुमार सिंह, पुत्र रव. श्री देवेन्द्र सिंह | बिहार एस वी सी / 1759 / 2000 | ग्राम एवं डाक ऐर, थाना अटारी, जिला गया | बी वी एस सी एंड ए 27.2.52 एच/आर ए यू/ 76 | |
| 1566 | प्रमोद कुमार गुप्ता, पुत्र श्री वैद्यनाथ साह | बिहार एस वी सी / 1055 / 2000 | ग्राम एवं डाक बांधोरा, थाना चढ़ो, जिला समस्तीपुर, पिन-- 848114 | बी वी एस सी एंड ए 15.3.70 एच/आर ए यू/ 95 | |
| 1567 | प्रमोद कुमार कौशिक, पुत्र श्री एस एल शर्मा | आर ए जे एस वी सी / 2613 / 2000 | ग्राम एवं डाक मोलाराना ढूंगर, सवाई माधोपुर | बी वी एस सी एंड ए 24.11.70 एच/सी सी एस एच ए यू / 94 | |
| 1568 | प्रमोद कुमार महतो, पुत्र रव. श्री तनुक लाल महतो | बिहार एस वी सी / 1083 / 2000 | ग्राम तराही, डाक मोहनपुर चानमुंख, थाना बिहारीगंज, जिला माधेपुरा | बी वी एस सी एंड ए 16.8.66 एच/आर ए यू/ 93 | |
| 1569 | प्रमोद कुमार पाठक, पुत्र श्री राम नाथ पाठक | यू.पी. ती. सी / 3308 | ग्राम एवं डाक सरकारा, जिला बरेली, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए 1.1.75 एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 2000 | |
| 1570 | प्रमोद कुमार सिंह, पुत्र श्री भगवान प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1024 / 2000 | ग्राम दयालपुर, डाक संगीत वैता, थाना काहडगांव, जिला भागलपुर, पिन- 813203 | बी वी एस सी एंड ए 14.10.67 एच/आर ए यू/ 96 | |
| 1571 | प्रमोद कुमार ठाकुर, पुत्र रव. श्री प्रयाग नारायण ठाकुर | बिहार एस वी सी / 1944 / 2000 | मौ. इरट पटेल नगर, डाक एवं थाना शास्त्रीनगर, जिला पटना, पिन- 800023 | बी वी एस सी एंड ए 1.7.54 एच/आर ए यू/ 76 | |
| 1572 | प्रमोद कुमार, पुत्र रव. श्री रामखलालन सिंह | बिहार एस वी सी / 1394 / 2000 | ग्राम ककनारा, डाक सोहगराई, थाना नूरसराय, जिला नालंदा, पिन- 803118 | बी वी एस सी एंड ए 3.12.59 एच/आर ए यू/ 83 | |
| 1573 | प्रमोद कुमार, पुत्र श्री ओम प्रकाश आर्य | बिहार एस वी सी / 837 / 2000 | मौ. मगध कॉलोनी, डाक प्रमुख डाकघर, थाना मेडिकल कॉलेज, गया, पिन- 823001 | बी वी एस सी एंड ए 5.1.73 एच/आर ए यू/ 97 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|--|--|----------|
| 1574 | प्रमोद कुमार, पुत्र श्री रघुनंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 914 / 2000 | ग्राम एवं डाक वरसालीगंज, जिला नवादा, पिन- 805130, थाना वरसौगंज | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 5.10.70 |
| 1575 | प्रमोद कुमार, पुत्र श्री राम चोरित्र सिंह | बिहार एस वी सी / 867 / 2000 | ग्राम सोनपुरा, डाक बस्तीवारी, थाना मनातु, जिला पलामू, पिन- 822122 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 28.3.69 |
| 1576 | प्रमोद कुमार शर्मा, पुत्र श्री राम नरेश शर्मा | एम पी एस वी सी / 1909 / 2000 | ग्राम एवं डाक खुरहा, जिला सतना- 485001 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 84- 85 | 15.6.63 |
| 1577 | प्रणब देबनाथ, पुत्र श्री हलाधर देबनाथ | त्रिपुरा / 103 / 2000 | ग्राम नरौरा, डाक बिशालगढ़, त्रिपुरा पश्चिम | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 87 | 6.1.64 |
| 1578 | प्रसाद दास, पुत्र श्री प्रेम बिनोद दास | त्रिपुरा / 60 / 2000 | रोड न. 1, अरुंधती नगर, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 83 | 1.1.61 |
| 1579 | प्रसाद जी, पुत्र श्री जी मनिकायम | ए पी एस वी सी / 03582 / 2000 | गांधीनगर, बी-10-102, बुधीरेड़ी पलेम, नेल्लोर- 524305 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 1.6.75 |
| 1580 | प्रसनन बिहारीप्रसाद सिंह, पुत्र ख.श्रीशशि शेखर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1779 / 2000 | ग्राम हाथीदाह, डाक एवं थाना हाथीदाह, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 7.1.43 |
| 1581 | प्रेशांत भगत, पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 946 / 2000 | मौ. शीहमपुरा कड़डी, पुराना थाना रोड, डाक एवं थाना दमरांव, बक्सर- 802119 | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस/97 | 5.7.74 |
| 1582 | प्रशांथ एम, पुत्र श्री मनोहर | कर्ना एस वी सी / 3143 | द्वारा क्रिश्चयन कॉलोनी, चित्तगुणा डाक, हुम्नाबाद, तालुक, बिदर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/2000 | 6.6.76 |
| 1583 | प्रताप के, पुत्र श्री सुब्बारामझयाह | ए पी एस वी सी / 03679 / 2001 | द्वारा जी वेंगल राव, रिटा. टीचर, पुराना सुनक्सेनला रोड, खाजीपेट(ग्राम एवं डाक) | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 93 | 1.7.67 |
| 1584 | प्रताप कुमार मांझी, पुत्र ख. श्री बिभूति भूषण मांझी | बिहार एस वी सी / 1941 / 2000 | ग्राम अमडांगा, डाक महुलिया, थाना घाटशिला, जिला पूर्णी सिंगभूम | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 99 | 12.3.71 |
| 1585 | प्रताप पी एम, पुत्र श्री पी सुनकन्ना | ए पी एस वी सी / 03644 / 2000 | अब्दुल्लापुरम, वेलगोडे मौ., कुनूल जिला -518533 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 24.6.75 |
| 1586 | प्रतिष्ठा शर्मा | आर ए जे एस वी सी / 2686 / 2000 | 103, पार्क स्ट्रीट, गोविंद नगर (पूर्व), आमेर रोड, जयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/2000 | 15.9.75 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|--|---|----------|
| 1587 | प्रवीण डी, पुत्र श्री सी दासन्ना | कर्ना/ 3203 | हुडको 81/ सी, हुडको कॉलोनी, भद्रावती | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/2000 | 27.4.78 |
| 1588 | प्रवीण गढवाल | आर ए जे एस वी सी/ 2692/ 2000 | ग्राम गुमाना का बास, डाक कटराथल, सीकर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृषि वि वि/ 2000 | 13.11.73 |
| 1589 | प्रवीण कुमार गहलोत, पुत्र श्री राम प्रकाश गहलोत | एच ए आर एस वी सी/ 1625 | म.न. 1338, अर्बन एस्टेट— ॥ | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/99 | 12.12.74 |
| 1590 | प्रवीण भारती, पुत्र श्री इन्द्रदेव भारती | बिहार एस वी सी/ 958/ 2000 | मौ. दरियापुर, डाक कचियानमा, थाना नगरनौसा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 26.2.75 |
| 1591 | प्रवीण कुमार, पुत्र श्री चंडी प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1681/ 2000 | ग्राम एवं डाक प्रतापनगर, थाना भगवतपुर, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 89 | 16.6.62 |
| 1592 | प्रवीण चंद्र जयंती लाल शुक्ला | वी सी आई/ 2211/ 2000 | 292 वी, वाशान्जी, मानोर खादकी वादीगाम, दरियापुर, अहमदाबाद गुजरात | बी वी एस सी एंड ए एच/एस पी यू/ 72 | 28.4.40 |
| 1593 | प्रीथी डेविडसन | केरल एस वी सी/ 2496/ 2000 | शेरोन 31, चेम्पका नगर, बेकरी जेक्शन, त्रिवेंद्रम— 695001 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 15.10.75 |
| 1594 | प्रेम चंद्र पांडे, पुत्र रव. श्री राम कुमार पांडे | बिहार एस वी सी/ 1012/ 2000 | ग्राम चेवारी, डाक चेवारी, थाना रामगढ़, जिला कैमूर (भोभना) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 1.1.44 |
| 1595 | प्रेम चंद्र साऊ, पुत्र श्री नंदलाल साऊ | बिहार एस वी सी/ 967/ 2000 | ग्राम आदमपुर, डाक समहारी गढ़, थाना रोह, जिला नवादा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 16.11.67 |
| 1596 | प्रेम चंद्र मिश्रा, पुत्र रव. श्री जगदीश मिश्रा | बिहार एस वी सी/ 2042/ 2000 | ग्राम एवं डाक ठाढ़ी, थाना अंधारा ठाढ़ी, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 9.5.50 |
| 1597 | प्रेम चंद्र साह, पुत्र श्री सत्य नारायण प्रसाद साह | बिहार एस वी सी/ 1569/ 2000 | ग्राम एवं डाक कोटालपोखर, थाना बरहारवा, जिला साहेबगंज, पिन- 816105 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 81 | 12.1.55 |
| 1598 | प्रेम कुमार दास, पुत्र श्री राम कुमार दास | बिहार एस वी सी/ 1743/ 2000 | पी/18, विद्यापुरी, डाक लिहिया नगर, थाना पत्रकार नगर, जिला पटना, पिन 800020 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/75 | 2.8.52 |
| 1599 | प्रेम कुमार, पुत्र रव. श्री योगेंद्र प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1255/ 2000 | ग्राम मारिपुर, थाना कासी मौहम्मदपुर, डाक एवं जिला मुजफ्फरपुर, पिन- 842001 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 24.11.49 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|----------|
| 1600 | प्रेम कुमार, पुत्र श्री जय किशोर पूर्बे | बिहार एस वी सी / 2078 / 2001 | ग्राम इस्मायलगंज, डाक एवं थाना लहरिया सराय, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 11.6.75 |
| 1601 | प्रेम कुमार, पुत्र श्री रामउद्गार कुमार | बिहार एस वी सी / 1620 / 2000 | ग्राम सोनबर्धा, डाक एवं थाना विहपुर, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 86 | 28.10.60 |
| 1602 | प्रेम लता | डी वी सी / 0564 / 2000 | सी- 43, साउथ एक्सटेंशन पार्ट- 11, नई दिल्ली- 49 | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 98 | 31.1.76 |
| 1603 | प्रेम नाथ शुक्ला, पुत्र श्री सौमित्र प्रसाद | एम पी एस वी सी / 1878 / 2000 | डाक बड़ी हर्दी, जिला रीवा, म.प्र.- 486340 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 86- 87 | 1.6.61 |
| 1604 | प्रेमसिंह मीना | आर ए जे एस वी सी / 2633 / 2000 | ग्राम चीमनपुरा, डाक निमेरा, तह. लक्षणगढ़, अलवर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृष्ण वि/ 2000 | 1.6.75 |
| 1605 | प्रीतम कुमार सिन्हा | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2819 / 2000 | मोक्षरोड़ा धाम, 108, शिव मंदिर, पूर्व, डाक कालना, जिला बर्दवान | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस/ 2000 | |
| 1606 | प्रीतम सिंह, पुत्र श्री नसीब सिंह | पी बी एस वी सी / 2215 / 2000 | म.न. 1058, एच बी सी, रणजीत एवेन्यू ब्लॉक- सी, अमृतसर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 1982 | 5.2.55 |
| 1607 | पृथ्वी राम मरदी, पुत्र श्री डिव्हू मरदी | बिहार एस वी सी / 917 / 2000 | मौह, कुलुदीन, डाक ईटागढ़, थाना गमहारिया, जिला प. सिंगभूम, पिन- 831002 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 25.8.67 |
| 1608 | पृथ्वीश गुहा, पुत्र श्री अब्नी कुमार गुहा | त्रिपुरा / 31 / 2000 | हॉस्पिटल एक्स. रोड, टाउन बर्दवाली, अगरतला, त्रिपुरा प. | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 1.12.52 |
| 1609 | प्रोदीप कुमार साहा | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2818 / 2000 | ग्राम काया, डाक महादेवबाती, थाना कांडी, जिला मुर्शिदाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस/ 2000 | |
| 1610 | पुनीत कुमार, पुत्र श्री के एल भट्ट | यू पी वी सी / 3293 | झारा श्री प्रेम लाल वैद्य, डाक देव प्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल (उ.प्र.) | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 2000 | 23.2.77 |
| 1611 | पुरी नागनाथ सुदाम | एम एस वी सी / 6336 / 2000 | ए टी डाक धामनी, तालुक अम्बेगांव, जिला पुणे- 410508 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी/ 2000 | 16.2.76 |
| 1612 | पूर्ण चंद्र राव, पुत्र श्री एस पापा राव | ए पी एस वी सी / 03580 / 2000 | डी न. 3-71, वेटरिनरी डिस्पेंसरी, जुव्वालापलेम, प. गो. जिला- 534236 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 98 | 20.8.65 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|--|--|----------|
| 1613 | पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता | आर ए जे एस वी सी / 2667 / 2000 | पुत्र श्री प्रहलाद लाल बजाज, बजाज बाजार, हनुमान मंदिर के निकट, करौली | बी वी एस सी एड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 5.9.72 |
| 1614 | पुष्कर सिंह हयांकी, पुत्र श्री मोहन सिंह हयांकी | यू पी वी सी / 3296 | माल बाजार, धारचुला, पिथौरागढ़, उ.प्र. | बी वी एस सी एड ए एच/जी बी पी यू ए एड टी/98 | 21.9.73 |
| 1615 | पुष्पेंद्र सिंह, पुत्र श्री अक्षयावर सिंह | एम पी एस वी सी / 1912 / 2000 | वेट, हॉस्पिटल, मिधोली, तह. सिंगरोली, जिला रिही— 486886 | बी वी एस सी एड ए एच/जे एन के वी वी / 85-86 | 25.7.64 |
| 1616 | पुष्पा कुमारी, पुत्री श्री बनारसी भगत | बिहार एस वी सी / 1287 / 2000 | ग्राम, डाक एवं थाना मरकाचो, जिला कोडर्मा | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 96 | 23.1.68 |
| 1617 | पुष्पा राज जोशी | मेघ / 174 / 2001 | बड़ा पाथर, शिलौंग | बी वी एस सी एड ए एच/जे एन के वी वी / 91 | 15.3.66 |
| 1618 | आर कुमार | पॉण्डी / 121 / 2000 | 21, मरियम्मम कोइल स्ट्रीट, पॉण्डीचेरी— 605005 | बी वी एस सी/टी एन वी एड ए एस यू/ 93 | 10.4.70 |
| 1619 | रबीन्द्र भगत, पुत्र ख. श्री पुनीत भगत | बिहार एस वी सी / 1927 / 2000 | ग्राम दतियाना, डाक एवं थाना बिक्रम, जिला पटना, पिन— 800115 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 72 | 4.1.47 |
| 1620 | रबीन्द्र कुमार सिंह, पुत्र श्री रघुनाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 1671 / 2000 | ग्राम एवं डाक बहरौली, थाना मुशरक, जिला छपरा, (सासन) | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 84 | 21.3.61 |
| 1621 | रबीन्द्र कुमार, पुत्र श्री चंडेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 2046 / 2000 | ग्राम भैसासुर, डाक एवं थाना बिहारशरीफ, जिला नालंदा | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 1.3.77 |
| 1622 | रबीन्द्र कुमार, पुत्र श्री राम लखन सिंह | बिहार एस वी सी / 1132 / 2000 | ग्राम श्रीचांदपुर, डाक एवं थाना अस्थानगाँव, जिला नालंदा, पिन— 803107 | बी वी एस सी एड ए एच/ओ यू ए एड टी/78 | 2.12.53 |
| 1623 | रबीन्द्र नाथ चौधरी, पुत्र श्री मेघ नाथ चौधरी | बिहार एस वी सी / 1717 / 2000 | ग्राम एवं डाक बसाइध, थाना बेनीपट्टी, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 83 | 3.12.61 |
| 1624 | रबीन्द्र नाथ झा, पुत्र ख. श्री गिरिजा नाथ झा | बिहार एस वी सी / 1538 / 000 | ग्राम असर्ना, डाक विष्णुपुर थाना आमोर, जिला पूर्णिया, पिन— 854330 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 83 | 24.2.61 |
| 1625 | रबीन्द्र नाथ टैगोर, पुत्र श्री राम रघुवीर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1108 / 2000 | ग्राम एवं डाक बारी चरियारी, थाना थोरथोरी, जिला नालंदा | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 83 | 1.11.56 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|-------------------------------------|--|---|----------|
| 1626 | रवीन्द्र नाथ चौधरी, पुत्र ले. श्री ए एन चौधरी | ग्रिपुरा / 33/ 2000 | गवर्न. क्वा. न. IV / 24, मलंचानगर, कुजबन, डाक अगरतला— 799006 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/ 78 | 8.5.53 |
| 1627 | राधे श्याम त्रिपाठी, पुत्र स्व. श्री राम करन त्रिपाठी | बिहार एस वी सी/ 1056/ 2000 | ग्राम बैरिया, डाक डी के शिमेरपुर, जिला बैतिया (प.चम्पारन) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 67 | 2.7.43 |
| 1628 | राधे मोहन श्रीवास्तव, पुत्र श्री विश्वनाथ सहाय | बिहार एस वी सी/ 1993/ 2000 | ग्राम एवं डाक चांदगंज, जिला जौनपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 1.5.43 |
| 1629 | राधेश्याम दास, पुत्र श्री गुरुपद दास | ग्रिपुरा / 89/ 2000 | ग्राम बोक्सानगर, डाक बोक्समनगर, थाना कलाम चौरा, सोनामुरा, ग्रिपुरा पा. | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 92 | 17.11.67 |
| 1630 | राधे श्याम कुवर, पुत्र स्व. श्री लखन लाल कुवर | बिहार एस वी सी/ 1537/ 2000 | ग्राम भवनाथपुर, डाक मकंदपुर, थाना अकबर नगर, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 86 | 3.1.62 |
| 1631 | राधे श्याम पुत्र श्री चंद्र प्रकाश | एच ए आर एस वी सी / 1671 | दूकान न. 68, फेस- 1, शॉपिंग सेंटर, म.गढ़ | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 25.6.76 |
| 1632 | राधे श्याम शर्मा, पुत्र स्व. डॉ. एच सी जोशी | आर ए जे एस वी सी / 2748/ 2001 | 27, गायत्रीनगर बी, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए यू/ 60 | 10.6.38 |
| 1633 | राधिका पी, पुत्र श्री नरसिंहा राव | ए पी एस वी सी/ 03671/ 2001 | डी.न.8-5, गीतामंदिर स्ट्रीट, रायतुपेट, नंदीगाम, कृष्णा जिला—521185 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 10.8.77 |
| 1634 | रघु राज सिंह, पुत्र श्री बुध राम | एच ए आर एस वी सी / 1666 | प्लॉट न. 32, नई अनाज मंडी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 8.3.77 |
| 1635 | रघुबीर सिंह, पुत्र श्री राम किशन | एच ए आर एस वी सी/ 1636 | सी- 11, प्रेम नगर, सोनीपत | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 21.4.76 |
| 1636 | रघुनंदन प्रसाद, पुत्र श्री रामचंद्र महतो | बिहार एस वी सी/ 1349/ 2000 | मौह. कुटुवाचक, डाक रमजानपुर, थाना बारबीधा, जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 2.1.50 |
| 1637 | रघुनंदन सिंह, पुत्र श्री वासुदेव सिंह | बिहार एस वी सी/ 1637/ 2000 | ग्राम भवानीपुर, डाक दिधारी, थाना सूर्यगढ़, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 8.2.59 |
| 1638 | रघुनाथ सेठ, पुत्र स्व. श्री गुखराम सेठ | बिहार एस वी सी/ 1269/ 2000 | ग्राम एवं डाक सराजमदीन, थाना तमार, जिला रांची, पिन— 835225 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 28.1.68 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|-------------------------------|---|---|----------|
| 1639 | रघु रामा कुमार पी, पुत्र श्री आर अप्पला नायडू | ए पी एस वी सी/ 03664 / 2000 | थांडरगंगी ग्राम, कोट्टम डाक, जामी मौ., विजियानगरम जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 12.6.75 |
| 1640 | रघुवेंद्र सिंह, पुत्र श्री राम दास | यू पी वी सी/ 3233 | मोहन ऑटो पार्ट्स, पोखरायन, कानपुर, देहात- 209111 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 2000 | 30.5.75 |
| 1641 | रघुवीर सिंह चरन | आर ए जे एस वी सी/ 2688 / 2000 | 3 ए, हाई कोर्ट कॉलोनी, रतानाडा, जोधपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 23.6.74 |
| 1642 | रघुवेंद्र प्रसाद शर्मा, पुत्र श्री श्यामशरन सिंह | बिहार एस वी सी/ 2067 / 2000 | मौ. चौधरी टोला, डाक महेंद्र थाना सुल्तानगंज, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 6.2.52 |
| 1643 | रागनी कुमारी, पुत्री श्री अवधेश कुमार | बिहार एस वी सी/ 1207 / 2000 | ग्राम बीरबल बीघा, डाक सौरे, थाना नालंदा, जिला नालंदा, पिन- 803118 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 13.7.68 |
| 1644 | राहुल धर पुरकायस्थ, पुत्र श्री रामेंद्र धर | त्रिपुरा/ 81 / 2000 | द्वारा धीरेंद्र च. नाथ, ग्राम एवं डाक कदमताल, त्रिपुरा उत्तर, पिन- 799261 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 91-92 | 25.12.68 |
| 1645 | राजबहादुर सिंह, पुत्र श्री रामजस यादव | यू पी वी सी/ 3191 | ग्राम जहांगीरपुर, डाक हीरनगाँव, जिला फिरोजाबाद, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी/ 2000 | 1.1.58 |
| 1646 | राज गोपाल गुप्ता, पुत्र श्री आनंदी प्रसाद साहू | बिहार एस वी सी/ 1817 / 2000 | मौ. अरगारा रोड, लल्लू पोखर, डाक, थाना एवं जिला मुंगेर, पिन- 811201 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 86 | 15.2.58 |
| 1647 | राज किशोर पांडे, पुत्र रत्न श्री गोवर्धन पांडे | बिहार एस वी सी/ 1708 / 2000 | ग्राम किउल, डाक काकिला, थाना जगदीशपुर, जिला भोजपुर (आराह) | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 1.6.44 |
| 1648 | राज किशोर सिंह, पुत्र रत्न श्री विक्रमदित्य सिंह | बिहार एस वी सी/ 1419 / 2000 | ग्राम माहिओक टोला, डाक कैलगढ़, थाना बरहारिया, जिला रीवन | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 29.5.43 |
| 1649 | राज कुमार | डी वी सी/ 0563 / 2000 | श्री मोहिन्दर सिंह, म.न. ए-1/ 12, कीर्ति नगर, गुडगांव- 122001 | बी वी एस सी एंड ए एच/एच ए यू/ 92 | 22.9.69 |
| 1650 | राज कुमार नायक, पुत्र श्री नंद कुमार नायक | बिहार एस वी सी/ 1965 / 2000 | ग्राम औरिवा, डाक हटिवा, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची, पिन- 834003 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 20.11.73 |
| 1651 | राज कुमार, पुत्र श्री राधे श्याम साह | बिहार एस वी सी/ 1694 / 2000 | ग्राम बदलूगंज, डाक ईशीपुर, थाना पीरपेंती, जिला भागलपुर, पिन- 813206 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 95 | 1.3.67 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------|---|---|----------|
| 1652 | राज कुमार, पुत्र श्री यदु लाल | बिहार एस वी सी/ 827/ 2000 | मौह. कोला रोड, डाक एवं थाना दानापुर, जिला पटना, पिन- 801503 | बी बी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 79 | 5.3.54 |
| 1653 | राज भोहन, पुत्र श्री रतन मोहन | पी बी एस वी सी/ 2245/ 2001 | म.न. 722 / 4, गुरु नानक पार्क के सामने, गुरदासपुर | बी बी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 10.10.78 |
| 1654 | राज नारायण सिंह, पुत्र स्व. श्री बासुदेव सिंह | बिहार एस वी सी/ 2029/ 2000 | ग्राम फालसवाचक, दिघवाड़ा, जिला छपरा | बी बी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 61 | 15.8.37 |
| 1655 | राज नारायण सिंह, पुत्र स्व. श्री राज किशोर सिंह | बिहार एस वी सी/ 1389/ 2000 | मौह. प्रोफेसर कॉलोनी, डाक टी विलासी, थाना एवं जिला देवघर | बी बी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 1.7.42 |
| 1656 | राज शेखर | डी बी सी/ 0547/ 2000 | मनोज कुमार, नेहरू विहार, ए- 34, सिविल लाइन्स, तिमारपुर- 54 | बी बी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 2.4.76 |
| 1657 | राज सुखबीर सिंह, पुत्र श्री सुरजीत सिंह | पी बी एस वी सी/ 2221/ 2001 | 52, हुकुम सिंह रोड, अमुतसर | बी बी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 6.2.76 |
| 1658 | राजाबाबू गुप्ता, पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता | यू पी बी सी/ 3260 | गुप्ता सीमेंट एजेंसी, शंकर बस स्टैंड, छर्रा, अलीगढ़ उ.प्र. | बी बी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 2000 | 8.10.75 |
| 1659 | राजा राम चौधरी, पुत्र स्व. श्री हारंगी चौधरी | बिहार एस वी सी/ 980/ 2000 | ग्राम विधिपुर, डाक कराता, थाना बक्तयारपुर, जिला पटना | बी बी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 10.11.50 |
| 1660 | राजा स्वामीनाथन टी | बी सी आई/ 2280/ 2001 | 69, हॉस्पिटल रोड, जयनकोडम (डाक), तमिलनाडु- 621804 | बी बी एस सी/टी एन बी एंड ए एस यू/ 95 | 25.6.72 |
| 1661 | राजा वेलु | ए एंड एन एस वी सी/ 74/ 2000 | द्वारा श्रीमति गंधीमठी, डॉली गज, (गवर्न. पोल्ड्री फार्म), गार चारमा, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान | बी बी एस सी/टी एन बी एंड ए एस यू/ 2000 | 18.3.75 |
| 1662 | राजागणपति एन | पॉण्डी/ 86/ 2000 | 27, विकटोरिया नगर, पहली भंजिल विटियानूर, मेन रोड, पॉण्डीचेरी- 5 | बी बी एस सी/टी एन ए यू/ 89 | 28.11.64 |
| 1663 | राजन चौधरी, पुत्र श्री आर एस चौधरी | आर ए जे एस वी सी/ 2726/ 2000 | साबू रकूल के निकट, पिलानी, झुझानू | बी बी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 94 | 26.2.72 |
| 1664 | राजन देसवाल, पुत्र श्री रामफल देसाई | आर ए जे एस वी सी/ 2710/ 2000 | डॉ. राजन देसवाल, द्वारा श्री खेटाराम, ग्राम कल्याणसार पुराना, तह. श्री | बी बी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 96 | 14.10.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहताएं | जन्मातेये |
|---------|---|--------------------------------------|--|--|-----------|
| 1665 | राजन प्रसाद वर्मा, पुत्र श्री युगेश्वर नाथ वर्मा | बिहार एस वी सी / 2060 / 2000 | ग्राम मासा पांडेबाग, डाक एवं थाना आराह, जिला भोजपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 10.8.48 |
| 1666 | राजाशेखर पी, पुत्र श्री पी माधव राव | ए पी एस वी सी / 03538 / 2000 | 20— 118— 1, गांधीनगर, मछलीपटणम, कृष्णा जिला— 521002 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 92 | 9.7.68 |
| 1667 | राजशेखर एस एच, पुत्र श्री सिदैइया आर हीरेमठ | कर्ना एस वी सी / 3145 | गुरुकृपा ट्रेडिंग कम्पनी, अफजलपुर तालुक, गुलबर्गा जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 6.1.77 |
| 1668 | राजबली शर्मा, पुत्र स्व. श्री कैलाश सिंह | बिहार एस वी सी / 1830 / 2000 | ग्राम बाबूगांव, शिओमंदिर रोड, डाक कोराजा, थाना एवं जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/बी यू/ 58 | 12.4.35 |
| 1669 | राजबीर सिंह संधु, पुत्र स्व. श्री गुरमहंत सिंह संधु | पी बी एस वी सी / 2196 / 2000 | 8 / 26, पी ए यू लुधियाना | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 8.5.75 |
| 1670 | राजीव कुमार, पुत्र स्व. श्री रामजी प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1167 / 2000 | ग्राम चैली ताल, डाक गुलियारबाग, थाना आलमगंज, पटना 800007 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 18.11.71 |
| 1671 | राजीव पाटिल, पुत्र श्री लिंगागौडा वी पाटिल | कर्ना एस वी सी / 3159 | डाक हुलकुंड, तालुक रामदुर्ग, जिला बेलगाम | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 4.5.77 |
| 1672 | राजीव रंजन चौधरी, पुत्र श्री रामानंद शर्मा | बिहार एस वी सी / 1523 / 2000 | ग्राम एवं डाक कोडांडा, थाना शाहकुंड, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 22.7.63 |
| 1673 | राजीव रंजन कुमार, पुत्र श्री लाखन सिंह | बिहार एस वी सी / 1576 / 2000 | ग्राम एवं डाक पामेरा, थाना धानसूआ, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 2.10.66 |
| 1674 | राजजीव रंजन कुमार, पुत्र श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 2047 / 2000 | ग्राम एवं डाक ओरलाहा, थाना भरबारा कोठी, जिला पूर्णिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 15.1.75 |
| 1675 | राजीव रंजन, पुत्र स्व. श्री श्याम सुंदर सिंह | बिहार एस वी सी / 1712 / 2000 | ग्राम थाना एवं डाक हालसी, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 15.1.70 |
| 1676 | राजीव व्यास | आर ए जे एस वी सी / 2639 / 2000 | कलिका पॉकेट बुक्स, इंद्रा नगर, भरतपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 13.7.76 |
| 1677 | राजेदर वाडेर, पुत्र श्री अज्जप्पा वाडेर | कर्ना एस वी सी / 3078 | कॉर्टेज हॉस्पिटल के निकट, गोकक, बेलगाम जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 99 | 4.11.75 |

| क्रम सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|----------|---|------------------------------------|--|--|----------|
| 1678 | राजेंद्र कुमार एच एस, पुत्र श्री एच एस बंसीलाल | ए पी एस वी सी / 03661 / 2000 | म.न. 4-1-75, आविद्स, हनुमान टेकडी, हैदराबाद- 500001 | बी वी एस-सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 84 | 5.11.60 |
| 1679 | राजेंद्र कुमार, पुत्र स्व. श्री मेदनी कुमार | बिहार एस वी सी / 1217 / 2000 | ग्राम एवं डाक, फरदा, थाना मुफसिल, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 67 | 30.11.42 |
| 1680 | राजेंद्र कुमार, पुत्र श्री नारायण प्रसाद महतो | बिहार एस वी सी / 1500 / 2000 | ग्राम तकमानशीपुर, डाक दिधारी, थाना सूर्यगढ़, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 84 | 30.11.59 |
| 1681 | राजेंद्र पासवान, पुत्र श्री नानहक पासवान | बिहार एस वी सी / 898 / 2000 | ग्राम सोनामान, डाक चंधारी, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा, पिन- 801303 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 2.1.44 |
| 1682 | राजेंद्र प्रसाद डी, पुत्र श्री नागेश्वर राव | ए पी एस वी सी / 03643 / 2000 | गुडीमेलंका डाक, मलिकीपुरम एम, पूर्णी गोदावरी जिला- 533253 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू / 2000 | 2.5.74 |
| 1683 | राजेंद्र प्रसाद सिंहा, पुत्र स्व. श्री बासुदेव सिंह | बिहार एस वी सी / 1258 / 2000 | ग्राम नूरा, डाक होमस्डीह, थाना मसौधी, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 2.6.49 |
| 1684 | राजेंद्र प्रसाद यादव, पुत्र स्व. श्री बासुदेव यादव | बिहार एस वी सी / 1274 / 2000 | ग्राम हेगसार, डाक हेगसार, थाना खुटन्ना, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 79 | 1.3.54 |
| 1685 | राजेंद्र प्रसाद, पुत्र श्री अजनास प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1602 / 2000 | ग्राम पीपरा (चौरीथोम), डाक केशवनगर, थाना चौनथम, जिला खगरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 81 | 16.6.58 |
| 1686 | राजेंद्र प्रसाद, पुत्र श्री राम शिलास यादव | बिहार एस वी सी / 902 / 2000 | मौह, पुरोनी धरोमशाला रोड, डाक एवं थाना नवीनगर, जिला औरंगाबाद- 824101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 3.1.59 |
| 1687 | राजेंद्र सिंह, पुत्र स्व. श्री राम लशन सिंह | बिहार एस वी सी / 2021 / 2000 | ग्राम एवं डाक बाराहिया, थाना बाराहिया, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 1.9.44 |
| 1688 | राजेंद्र यादव, पुत्र श्री भुवनेश्वरी यादव | बिहार एस वी सी / 2005 / 2000 | ग्राम अमृतनगर, डाक एवं थाना कनके, जिला रांची, पिन- 834006 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 18.7.49 |
| 1689 | राजेश अग्रवाल, पुत्र श्री गोपाल दास अग्रवाल | एम पी एस वी सी / 1923 / 2000 | हजरत पुल, लश्कर, जिला गवालियर- 474001 | बी वी एस सी एंड ए एच/आई जी के. वी वी / 99-2000 | 7.8.77 |
| 1690 | राजेश चौहान, पुत्र स्व. श्री एस सिंह चौहान | बिहार एस वी सी / 1595 / 2000 | ग्राम, डाक, थाना एवं जिला गंगानगर, राज्य राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 89 | 10.7.65 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जम्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|---|--|----------|
| 1691 | राजेश जी, पुत्र श्री सत्य नारायण | ए पी एस वी सी / 03608 / 2000 | ओडाचीपुरुषल्ली डाक, परावदा एम, विशाखपट्टनम जिला —531021 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 19.7.76 |
| 1692 | राजेश कसरीजा, पुत्र श्री रविकांत कसरीजा | पी बी एस वी सी / 2190 / 2000 | म.न. 1798, स्ट्रीट न. 14, अबोहर— 152116 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 18.3.77 |
| 1693 | राजेश कुमार राजू, पुत्र स्व श्री सियाधर सिंह | बिहार एस वी सी / 933 / 2000 | ग्राम बिरसा नगर, डाक हतिया, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची, पिन— 834003 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 95 | 20.8.69 |
| 1694 | राजेश कुमार महथा, पुत्र श्री राम प्रकाश महथा | बिहार एस वी सी / 2071 / 2000 | ग्राम रहमगंज नाका न. 6, डाक लालबाग, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 25.1.75 |
| 1695 | राजेश कुमार, पुत्र श्री राम शरण | एच ए आर एस टी सी / 1672 | 7 / 5, विद्युत नगर, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 1.1.76 |
| 1696 | राजेश कुमार उपाध्याय, पुत्र श्री विनय कुमार | यू. पी. वी. सी / 3287 | ग्राम धारीपुर, डाक प्रेम का पुरा, वायाः बलवेरगंज, जिला जौनपुर (उ.प्र.) | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/95 | 9.9.69 |
| 1697 | राजेश कुमार, पुत्र स्व श्री बंगाली प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1586 / 2000 | ग्राम खानपुर, डाक कवादपुर, थाना सूर्योगढ़, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 89 | 5.1.62 |
| 1698 | राजेश कुमार, पुत्र श्री अवधोश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 919 / 2000 | मौ. सिदगोड़ा, एल वी 39, कृष्णा रोड, डाक एग्रिको, थाना सिदगोड़ा, जमशेदपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 10.3.72 |
| 1699 | राजेश कुमार, पुत्र श्री भरत प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1526 / 2000 | ग्राम एवं थाना पीरबाहोर, जिला पटना, पिन— 800006 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 1.7.71 |
| 1700 | राजेश कुमार, पुत्र श्री ब्रज किशोर सिंह | बिहार एस वी सी / 1735 / 2000 | ग्राम एवं डाक समसा, थाना मसूरचाक, जिला बेगुसराय, पिन— 851128 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 5.11.69 |
| 1701 | राजेश कुमार, पुत्र श्री मोहन प्रसाद वर्मा | बिहार एस वी सी / 1442 / 2000 | ग्राम सलेमपुर, डाक थाना एवं जिला छपरा, पिन— 841301 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 99 | 1.1.75 |
| 1702 | राजेश कुमार, पुत्र श्री रामसेवक रजाक | बिहार एस वी सी / 1007 / 2000 | मौ. खजांची लेन, डाक एवं थाना दानापुर कैट, पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 1.1.71 |
| 1703 | राजेश कुमार, पुत्र श्री विश्वेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 929 / 2000 | मौ.एमएफ 3.एमआईजी, ब्लॉक 6 फ्लै.न. 6,डाक बहादुरपुर हाउ.कॉलोनी, थाना अगमकुआ, पटना— 800020 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 12.10.69 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक आहुताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|--|--|--|----------|
| 1704 | राजेश नेहरा | आर ए जे एस बी सी / 2685 / 2000 | पुत्र श्री एस आर नेहरा, ग्राम एवं डाक कुलोठखारी, झुंझनू 2000 | बी वी एस सी एंड ए 2.6.76 एच/राज कृ वि वि/ 2000 | |
| 1705 | राजेश पॉल, पुत्र श्री मोनोरंजन पॉल | त्रिपुरा / 101 / 2000 | बनमालीपुर, उत्तलाई देघी का पूर्व, डाक अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम | बी वी एस सी एंड ए 29.3.77 एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 1706 | राजेश प्रसाद, पुत्र श्री मुरलीधर प्रसाद | बिहार एस की सी / 1164 / 2000 | मौह, गुमती न. 2, डाक एवं थाना मुंगेर, जिला मुंगेर, पिन- 811201 | बी वी एस सी एंड ए 17.7.61 एच/बी ए यू/86 | |
| 1707 | राजेश, पुत्र श्री शाम लाल | एच ए आर एस बी सी / 1670 | 238 / 15, पुरानी सब्जी मंडी, हिसार | बी वी एस सी एंड ए 31.1.75 एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | |
| 1708 | राजेश सांगवान, पुत्र डॉ. आर एस सांगवान | आर ए जे एस बी सी / 2761 / 2001 | इंचार्ज गवर्नर, वेट हॉस्पिटल, उत्तरादाबास, हनुमानगढ़ | बी वी एस सी एंड ए 10.12.73 एच/सी सी एस एच ए यू/96 | |
| 1709 | राजेश, पुत्र श्री एस एन पी यादव | बिहार एस की सी / 876 / 2000 | मौह, निशिहोरा, डाक केंडनी, थाना हवेली करगपुर, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एंड ए 25.9.66 एच/आर ए यू/ 92 | |
| 1710 | राजेश्वर प्रसाद रे, पुत्र रवि, श्री रामकृष्ण रे | बिहार एस की सी / 188 / 2000 | ग्राम एवं डाक देघपुरा, थाना महनार जिला वैशाली, पिन- 844505 | बी वी एस सी एंड ए 24.7.44 एच/एम यू/65 | |
| 1711 | राजेश्वर सिंह, पुत्र रवि, श्री यमुना सिंह | बिहार एस की सी / 1190 / 2000 | ग्राम कादिलपुर, डाक नारायण पुर, थाना एकंगरसराय, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए 2.4.47 एच/एम यू/70 | |
| 1712 | राजीव लोचन चौधरी | डब्ल्यू बी एस बी सी / 2778 /2000 | ग्राम एवं डाक कैचोर, जिला बर्दावान | बी वी एस सी एंड ए 2.4.47 एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/ 2000 | |
| 1713 | राजीव कुमार, पुत्र डॉ. बी डी गोयल | यू पी बी सी/3286 | द्वारा लाला बी डी बजाज (कपड़ा व्यापारी), वेदवाडा, सिकंदराबाद | बी वी एस सी एंड ए 14.8.77 एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 2000 | |
| 1714 | राजीव नंदा, पुत्र श्री ओम प्रकाश नंदा | पी बी एस की सी / 2241 / 2001 | 374 / 100, ब्लॉक—जे, बी आर एस नगर, लुधियाना | बी वी एस सी एंड ए 21.8.77 एच/पी ए यू/ 2000 | |
| 1715 | राजीव पांडे, पुत्र श्री दया शंकर पांडे | यू पी बी सी/3305 | 3 / 1, विवेक खंड 3, गोमती नगर, लखनऊ | बी वी एस सी एंड ए 27.10.72 एच/ए पी ए यू/ 2000 | |
| 1716 | राजीव राय | अरुणा / 2131 | काशीनाथ राय, तनकुही रोड, वार्ड न. 7, सेओराही रोड, जिला काशीनगर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए 31.12.70 एच/ए ए यू/ 2001 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|---|--|---|----------|
| 1717 | राजीव रंजन, पुत्र डॉ. ब्रज मोहन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1739 / 2000 | ग्राम मुरारपुर, डाक केटारी, थाना कुमा, जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 3.1.70 |
| 1718 | राजीव कुमार आर | पॉष्टी / 98 / 2000 | प्लॉट न. 5, पहली मंजिल, II क्रॉस, कुरिजी नगर, लॉसपेट, पॉष्टीचेरी— 605008 | बी वी एस सी एंड ए एच/एच ए यू/ 81 | 19.8.57 |
| 1719 | राज किशोर प्रसाद, पुत्र स्व. श्री विशेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1557 / 2000 | ग्राम रसालपुर, डाक एवं थाना बिंद, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 8.5.62 |
| 1720 | राजकुमार रामचंद्र गोंगले, पुत्र स्व. श्री रामचंद्र सुभाजी | बिहार एस वी सी / 1782 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना गोवेलकरा, जिला प. सिंगभूम, पिन— 833163 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी के वी ए/ 91 | 12.5.68 |
| 1721 | राजनंदन प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्व. श्री श्याम चरन सिंह | बिहार एस वी सी / 2036 / 2000 | मौ. कंकरबाग, सी ए 17, पी सी बी वी एस सी एंड ए कॉलोनी, लोहियानगर, थाना कंकरबाग, जिला पटना | एच/बी यू / 57 | 20.12.37 |
| 1722 | राजनंदन सिंह, पुत्र स्व. श्री महावीर सिंह | बिहार एस वी सी / 940 / 2000 | मौ. देवी मंडप रोड, डाक हेगल, थाना सुखदावानगर, रांची— 834001 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 95 | 10.9.66 |
| 1723 | राजनारायण पाल | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2780 / 2000 | ग्राम एवं डाक राक्षस खली, थाना पाथर प्रतिमा, जिला 24 परगाना (द.) | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 1724 | रजनीश कुमार पुत्र श्री वित्तरंजन | बिहार एस वी सी / 1292 / 2000 | मौ. अब्दुल्लाचाक, डाक बैरिया, थाना गौरीचाक, जिला पटना, पिन— 800007 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 18.12.75 |
| 1725 | रजनीश कुमार जमीनदार, पुत्र श्री बी आर जमीनदार | एम पी एस वी सी / 1906 / 2000 | झारा के एन जोशी, माधव कलेव रोड, उज्जैन— 456001 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के बी वी / 75-76 | 14.11.51 |
| 1726 | रजनी कांत सिन्हा, पुत्र स्व. श्री जगतनंद सहाय | बिहार एस वी सी / 1548 / 2000 | ग्राम एवं थाना आराह, नवादा, डाक एवं जिला आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 14.3.43 |
| 1727 | रजनी रमन श्रीवारतव, पुत्र श्री रामजी लाल | बिहार एस वी सी / 1524 / 2000 | ग्राम एवं मौह. सोहानी पट्टी (लक्ष्मी भवन), डाक थाना एवं जिला बक्सर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 87 | 21.6.65 |
| 1728 | राजशेखर, पुत्र श्री चंद्र शेखर साहा | बिहार एस वी सी / 1981 / 2000 | ग्राम मदनुचाक, डाक मिरजन हाट, थाना भोजाहिद पुर, जिला भागलपुर, पिन 812005 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 2.4.76 |
| 1729 | राजू बागची | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2810 / 2000 | 46/16, श्यामा नदा बागची लेन, डाक खागरा, जिला मुर्शिदाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |

| क्र. सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएँ | जन्मतिथि |
|----------|---|---|---|---|----------|
| 1730 | राजू प्रसाद, पुत्र श्री दूधेश्वर सिंह | बिहार एस वी सी / 2063 / 2000 | ग्राम करमाही, डाक सांसा, थाना दौड़नगर, जिला ओरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 31.12.76 |
| 1731 | राजू रौय | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2790 / 2000 | थाना चौपाटी, तूफानगंज वार्ड न. 7, डाक तूफानगंज, जिला कूचबिहार | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 1732 | राजू शर्मा, पुत्र श्री जय नारायण शर्मा | एच ए आर एस वी सी / 1641 | म.न. 1439 / 21, प्रेम नगर, पुलिस लाइन के पीछे, रोहतक | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 18.3.76 |
| 1733 | राजवंत राठी | डी वी सी / 0569 / 2001 | म.न. 23, मंदिर मार्ग, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली | बी वी एस सी एंड ए एच/एच ए यू/ 96 | 15.10.70 |
| 1734 | राकेश कुमार पंजीयोरा, पुत्र श्री ब्रह्मदेव पंजीयोरा | बिहार एस वी सी / 1490 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना माकवा असार गंज, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 24.8.65 |
| 1735 | राकेश कुमार सिंह, पुत्र श्री शेष नाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 1119 / 2000 | मौ. एवं डाक न्यू शिवपुरी कॉलोनी, थाना गैंट, जिला गोरखपुर, पिन- 273016 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 92 | 1.1.71 |
| 1736 | राकेश कुमार, पुत्र श्री बिंदेश्वरी झा | बिहार एस वी सी / 1648 / 2000 | ग्राम एवं डाक कुम्हारसन, थाना गढ़पुरा, जिला बेगुसराय, पिन- 848204 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 21.6.73 |
| 1737 | राकेश कुमार | मेघ / 157 / 2001 | आई सी डी पी कैम्पस, अपर शिलौंग | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के पी वी / 98 | 8.4.75 |
| 1738 | राकेश कुमार | आर ए जे एस वी सी / 2695 / 2000 | ग्राम एवं डाक बुर्किया, वाया: पीपर रोड, जोधपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 1.7.73 |
| 1739 | राकेश कुमार कुमुद, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद | बिहार एस वी सी / 896 / 2000 | ग्राम शेखाली, डाक बेशवाक, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 3.7.70 |
| 1740 | राकेश कुमार, पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद शुक्ला | यू पी वी सी / 3236 | 15 / 176, फतेहपुर (पाकरी), अम्बेडकर नगर- 224122 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 2000 | 1.7.74 |
| 1741 | राकेश कुमार सिंह, पुत्र श्री पी के सिंह | यू पी वी सी / 3219 | ग्राम हैबात पट्टी, डाक अराकले, जिला इलाहाबाद, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 90 | 17.11.61 |
| 1742 | राकेश कुमार, पुत्र स्त्र. श्री द्वैषन्द्र प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1088 / 2000 | ग्राम हरदयाल नगर बन्नी, डाक बाबू बगीचा, थाना कोगरी, जिला खगरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 2.2.69 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| 1743 | राकेश कुमार पुत्र श्री शिवनंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 882 / 2000 | मौ. माता खुदी लेन, डाक महेन्द्र, थाना सुल्तानगंज, पटना— 800006 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 17.2.71 |
| 1744 | राकेश कुमार, पुत्र श्री अंखिलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव | बिहार एस वी सी / 1498 / 2000 | मौह. एवं थाना मीठनपुरा, गौशाला रोड, डाक रामना, जिला मुजफ्फरपुर— 842002 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 11.3.59 |
| 1745 | राकेश रंजन, पुत्र डॉ. एन के प्रसाद | यू पी वी सी / 3288 | विद्या विहार, डाक नालंदा, जिला नालंदा, बिहार— 803111 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 2000 | 9.3.75 |
| 1746 | राखी खन्ना | वी सी आई / 2246 / 2000 | 2 / 52, पुरानी डबल स्टोरी, लाजपत नगर— 4, नई दिल्ली— 110024 | बी वी एस सी एंड ए एच/आई जी के वी वी / 96-97 | 1.5.74 |
| 1747 | राखी खन्ना कुमारी | डी वी सी / 0551 / 2000 | द्वारा मनमोहन खन्ना, डी—1 / 145, लाजपत नगर, नई दिल्ली— 24 | बी वी एस सी एंड ए एच/आई जी के वी वी / 97 | 1.5.74 |
| 1748 | राम बाबू सिंह, पुत्र स्व. श्री हरिचरन सिंह | बिहार एस वी सी / 1617 / 2000 | मौ. खायपुरा, डाक बी वी सी, थाना शास्त्रीनगर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू / 62 | 27.11.39 |
| 1749 | राम बलि कुमार, पुत्र स्व. श्री राजेंद्र कुमार | बिहार एस वी सी / 1542 / 2000 | ग्राम सिनौर गोपाल, डाक लहरिया सराय, थाना बहादुरपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 87 | 2.1.61 |
| 1750 | राम बिहारी प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री शिवनंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1319 / 2000 | मौ. न्यू बंगली टोला, रामनगर अस्थान डाक जीपीओ, थाना जक्कनपुर, जिलापटना 800001 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू / 67 | 2.11.47 |
| 1751 | राम चंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र श्री चेत नारायण सिंह | बिहार एस वी सी / 1999 / 2000 | मौह. आर वी कॉलेज, डाक एवं थाना कनके, जिला रांची, पिन— 834006 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू / 64 | 1.11.42 |
| 1752 | राम दहिन शर्मा, पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह | बिहार एस वी सी / 1335 / 2000 | मौह. शेखपुरा, डाक एवं थाना मखदूमपुर, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू / 74 | 3.9.50 |
| 1753 | राम दास प्रसाद गुप्ता, पुत्र स्व. श्री राधा प्रसाद | बिहार एस वी सी / 895 / 2000 | ग्राम बरकागांव, डाक बरकागांव, थाना तरारी, जिला आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू / 69 | 14.6.47 |
| 1754 | राम दास श्रीवास्तव, पुत्र श्री भोला नाथ श्रीवास्तव | बिहार एस वी सी / 1041 / 2000 | ग्राम कारला, डाक एवं थाना चकिया, जिला वाराणसी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू / 67 | 27.8.46 |
| 1755 | राम धारी राम, पुत्र श्री राम राज | यू पी वी सी / 3307 | ग्राम भगवतीपुर, डाक ठेमका, जिला आजमगढ़ | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी / 96 | 1.7.65 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| 1756 | राम गोविंद सिंह, पुत्र स्व. श्री श्याम देव सिंह | बिहार एस वी सी / 1245 / 2000 | ग्राम एवं मौह सुधारी, डाक सुधारी, बाया वसंतपुर, थाना भगवंतपुर हाट, जिला सीवन | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 10.7.44 |
| 1757 | राम इत्तर सिन्हा, पुत्र स्व. श्री जयपति सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1262 / 2000 | ग्राम एवं डाक सोलामा, थाना हरनौट, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 25.2.44 |
| 1758 | राम जिनिश रॉय, पुत्र श्री सरबुग रॉय | बिहार एस वी सी / 1645 / 2000 | ग्राम एवं डाक माराये, थाना जनदाहा, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 20.6.47 |
| 1759 | राम किशोर प्रसाद मेहता, पुत्र श्री करिलाश महतो | बिहार एस वी सी / 1038 / 2000 | ग्राम गारी विशनपुर, डाक एवं थाना पीरो बाजार, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 82 | 5.1.57 |
| 1760 | राम किशोर शर्मा, पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा | बिहार एस वी सी / 1508 / 2000 | भवनबीघा, डाक एवं थाना मधुपुर, जिला देवघर, पिन- 815353 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 80 | 18.1.57 |
| 1761 | राम किशोर शर्मा, पुत्र श्री सरयू शर्मा | बिहार एस वी सी / 1677 / 2000 | ग्राम गनौल, डाक नासायण पुर, थाना विहपुर, जिला माझलधुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 20.1.51 |
| 1762 | राम कृष्ण मिश्रा, पुत्र स्व. श्री रामेश्वरव मिश्रा | बिहार एस वी सी / 934 / 2000 | ग्राम काचेर, डाक पिंगदादान, थाना सोनवर्सा, जिला सीतामढी | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 13.9.53 |
| 1763 | राम कृष्ण शर्मा, पुत्र श्री राम लगान शर्मा | बिहार एस वी सी / 1482 / 2000 | ग्राम एवं डाक माझियांवा, थाना कुस्था, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 95 | 5.12.68 |
| 1764 | राम कृष्ण सिंह, पुत्र श्री राम खेलावन सिंह | बिहार एस वी सी / 1044 / 2000 | ग्राम एवं डाक पोखरमा, थाना काजरा, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 1.7.48 |
| 1765 | राम कृष्ण सिन्हा, पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1615 / 2000 | ग्राम सैदनपुर, डाक एवं थाना हिलसा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 15.8.58 |
| 1766 | राम कृष्ण प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्व. श्री गोपी सिंह | बिहार एस वी सी / 1169 / 2000 | ग्राम चाचू बीघा, डाक कटौना, थाना गिरियक, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 12.8.43 |
| 1767 | राम कृष्ण ठाकुर पुत्र स्व. श्री जानकी ठाकुर | बिहार एस वी सी / 1326 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना टिलोथु बागार, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 15.2.48 |
| 1768 | राम कृष्ण, पुत्र श्री बिश्व नाथ मेहता | बिहार एस वी सी / 1889 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना बाहा चौकी, जिला मुंगेर, पिन- 811202 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 89 | 1.6.62 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|-------------------|----------|
| 1769 | राम लखन सिन्हा, पुत्र रव. श्री राम पातारे सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1910 / 2000 | ग्राम तेलपा बिहूगा, डाक ओप, थाना एकंगरसराय, जिला नालंदा, पिन- 367832 | बी वी एस सी एंड ए | 18.2.38 |
| 1770 | राम ललित मंडल, पुत्र रव. श्री मेवा लाल मंडल | बिहार एस वी सी / 880 / 2000 | ग्राम कारघोरा, डाक भाहोरामठ, थाना हठौरी, जिला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए | 24.2.47 |
| 1771 | राम नारायण राम, पुत्र श्री फकीरचंद राम | बिहार एस वी सी / 1688 / 2000 | ग्राम माधोपुर, डाक बनौली, थाना सिमरी, जिला दरभंगा, पिन- 847106 | बी वी एस सी एंड ए | 3.12.54 |
| 1772 | राम नारायण साह, पुत्र रव. श्री डोमी लाल साह | बिहार एस वी सी / 1829 / 2000 | ग्राम एवं मौह, शीतलपुर, चकमैगार, डाक एवं थाना विदुपुर बाजार, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए | 20.4.46 |
| 1773 | राम नारायण सिंह, पुत्र श्री राम इत्र सिंह | बिहार एस वी सी / 2027 / 2000 | ग्राम आदर्शपुरी, अरसनडे, डाक एवं थाना कनके, जिला रांची | बी वी एस सी एंड ए | 5.8.48 |
| 1774 | राम नरेश झा, पुत्र रव. श्री शेष कुमार झा | बिहार एस वी सी / 1718 / 2000 | ग्राम एवं डाक हिनू, थाना दोरांडा, जिला रांची, पिन- 834002 | बी वी एस सी एंड ए | 30.10.84 |
| 1775 | राम नरेश मिश्रा, पुत्र श्री शिव शरन मिश्रा | बिहार एस वी सी / 1003 / 2000 | मौह, रामना, डाक एवं थाना मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर | बी वी एस सी एंड ए | 12.9.54 |
| 1776 | राम नरेश प्रसाद चौधरी, पुत्र रव. श्री धूब नारायण | बिहार एस वी सी / 1744 / 2000 | मौ. जामुनीचाक, डाक एवं थाना बढ़, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए | 5.9.47 |
| 1777 | राम नरेश प्रसाद सिंह, पुत्र रव. श्री हरीशचंदप्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1590 / 2000 | ग्राम एवं डाक धानौर, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर | बी वी एस सी एंड ए | 6.7.43 |
| 1778 | राम नरेश सिंह, पुत्र रव. श्री बाबू कामेश्वर सिंह | बिहार एस वी सी / 2056 / 2000 | ग्राम बेनीपुर, डाक एवं थाना कुरथा, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए | 2.12.35 |
| 1779 | राम निरंजन प्रसाद सिंह, पुत्र रव. श्री सीताराम सिंह | बिहार एस वी सी / 1769 / 2000 | मौ. दौडपुर कोठी, डाक एम आई टी, थाना ब्रह्मपुरा, जिला मुजफ्फरपुर- 842003 | बी वी एस सी एंड ए | 8.1.43 |
| 1780 | राम प्रकाश राम, पुत्र श्री जय नारायण प्रसाद | बिहार एस वी सी / 2065 / 2000 | ग्राम बिक्रमगंज, डाक एवं थाना बिक्रमगंज, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए | 6.7.49 |
| 1781 | राम प्रकाश सिंह, पुत्र रव. श्री सीताराम सिंह | बिहार एस वी सी / 1301 / 2000 | ग्राम एवं थाना कोरमा, डाक गागौर, जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एंड ए | 9.7.51 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|---|----------|
| 1782 | राम प्रसाद चांध, पुत्र श्री भाई लाल चांध | बिहार एस वी सी / 1295 / 2000 | ग्राम कालापट्टी बाराही, डाक कालापट्टी, थाना फुलपरास, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 1.7.47 |
| 1783 | राम प्रसाद गुर्जा, पुत्र श्री सूरज प्रसाद गुर्जा | बिहार एस वी सी / 956 / 2000 | एम—एम/5, साइंटिस्ट फ्लैट, डाक बिहार वेट, कॉले., थाना करदानीबाग, पटना— 800011 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 7.1.46 |
| 1784 | राम प्रसिद्ध सिंह, पुत्र श्री रघुवर सिंह | बिहार एस वी सी / 1347 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना सांसा, जिला औरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 83 | 3.1.54 |
| 1785 | राम प्रतेश पांडे, पुत्र श्री मुसाफिर पांडे | बिहार एस वी सी / 1684 / 2000 | ग्राम मोरेखुरो, डाक जयपुर, थाना सासाराम, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 28.5.51 |
| 1786 | राम रेखा प्रसाद सिंह, पुत्र श्री हरित लाल सिंह | बिहार एस वी सी / 920 / 2000 | मौह. जय प्रकाश नगर, तीन पुलवा, डाक जी पी ओ, थाना जककनपुर, पटना— 800001 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 3.6.48 |
| 1787 | राम सखा पांडे, पुत्र स्व. श्री बाल मुकुद पांडे | बिहार एस वी सी / 2020 / 2000 | ग्राम भोखरी, डाक खजहारा, थाना मोहनिया, जिला कैमूर, भसुआ | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 1.7.43 |
| 1788 | राम सरीख प्रसाद, पुत्र स्व. श्री महंगी प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1577 / 2000 | ग्राम एवं डाक किरिहारापुर, थाना भीमपुर, जिला बलिया | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 20.10.68 |
| 1789 | राम सेवक राम, पुत्र स्व. श्री राम सुंदर राम | बिहार एस वी सी / 1372 / 2000 | मौह. अखोरी दींदरी, डाक एवं थाना लेसलिकगंज, जिला पलामू | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 90 | 8.6.60 |
| 1790 | राम शरन प्रसाद, पुत्र स्व. श्री सोमारी महतो | बिहार एस वी सी / 1626 / 2000 | मौ. नई सरय, पटेलनगर, डाक एवं थाना बिहारशरीफ, जिला नालंदा, पिन— 803101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 9.9.44 |
| 1791 | राम सिंह रावत | डी वी सी / 0568 / 2001 | पी—15, किर्बी प्लेस, दिल्ली कैट— 110010 | बी वी एस सी एंड ए एच/यू पी ए यू/ 2000 | 5.1.45 |
| 1792 | राम साची सिंह, पुत्र स्व. श्री राम उदर शर्मा | बिहार एस वी सी / 905 / 2000 | ग्राम सिकंदरपुर, डाक एवं थाना मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर, पिन— 844891 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 27.5.44 |
| 1793 | राम सूरत रे, पुत्र स्व. श्री सरयुग रे | बिहार एस वी सी / 2055 / 2000 | ग्राम पाकौलिवा, डाक गोरायपुर, थाना अवतारजागर, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 25.11.46 |
| 1794 | राम स्वरूप राम, पुत्र स्व. श्री चामारी राम | बिहार एस वी सी / 992 / 2000 | ग्राम कुजामी, डाक जुजामी, थाना चंदांती, जिला गया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 20.7.48 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|---|----------|
| 1795 | राम विलास प्रसाद, पुत्र श्री रघुनंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1121 / 2000 | ग्राम एवं डाक भाठार, थाना चांदी, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 23.11.48 |
| 1796 | राम विनोद सिंह, पुत्र स्व. श्री पारस नाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 1364 / 2000 | ग्राम नौडिहा, डाक रहीमपुर थाना सोनपुर, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/69 | 3.1.46 |
| 1797 | रामा जी परब | गोआ एस वी सी / 119 / 2001 | कोटम्बी पाले, गोआ— 403105 | बी वी एस सी एंड ए एच/ जी ए यू/ 2001 | 19.10.76 |
| 1798 | रमा कांत गौतम, पुत्र श्री पी एल गौतम | यू पी वी सी / 3208 | ग्राम सुल्तानपुर, डाक नेरा, जिला कर्नांज, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी वी पी यू ए एंड टी/ 97 | 8.6.75 |
| 1799 | रामा राव डी ,पुत्र श्री नरसइया | ए पी एस वी सी / 03569 / 2000 | 10 / 154, राजेंद्र नगर, दूसरी लाइन, सीथारामा नीलायम, गुडीवडा, कृष्णा | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 79 | 15.11.40 |
| 1800 | रामचंद्र एन, पुत्र श्री बोनाला नारायण | ए पी एस वी सी / 03575 / 2000 | 12-396-ए, गोवर्धन कुत्ता अस्पताल के सामने, तीसरा क्रॉस, साईनगर | बी वी एस सी/ यू एग्री सां/ 94 | 1.7.68 |
| 1801 | रामचंद्रन रेड्डी के, पुत्र श्री जयरामी रेड्डी | ए पी एस वी सी / 03604 / 2000 | कुरापार्थीवारी पल्लै, भोड्य वंडलापल्लै डाक, येरावारी पलेम एम, चित्तूर— 194 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 10.6.76 |
| 1802 | रमाधर सिंह, पुत्र स्व. श्री ठाकुर दयाल सिंह | बिहार एस वी सी / 1546 / 2000 | ग्राम एवं डाक चतुर्मुखीवारांव थाना पीरो, जिला भोजपुर (आराह) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 20.1.48 |
| 1803 | रमाधर ईश्वर, पुत्र स्व. श्री ब्रह्मदेव ईश्वर | बिहार एस वी सी / 1385 / 2000 | ग्राम सिंगारी, डाक मंडुआल, थाना चिरिया बारिवानपुर, जिला बेगुसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 5.3.54 |
| 1804 | रमाकांत भगत, पुत्र स्व. श्री मथुरा प्रसाद भगत | बिहार एस वी सी / 1912 / 2000 | ग्राम एवं डाक महागाम, थाना महागाम, जिला गोडाङ | बी वी एस सी एंड ए एच/बी यू/ 71 | 1.7.50 |
| 1805 | रमाकांत प्रसाद सिंह, पुत्र श्री रघुवंश नारायण सिंह | बिहार एस वी सी / 1137 / 2000 | ग्राम एवं डाक अकोठी, थाना अकोठी (गोला), जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 20.7.49 |
| 1806 | रमाकांत तिवारी, पुत्र श्री रामपूजन तिवारी | बिहार एस वी सी / 1983 / 2000 | ग्राम पिवानो, डाक अनवल, थाना कोपाबक्तर, जिला सारन | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 20.9.46 |
| 1807 | रमन कुमार सिन्हा, पुत्र श्री तुलेश्वर प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 922 / 2000 | ग्राम अरसन्डे, डाक रांची वेट. कॉलेज, थाना कनके, रांची— 834006 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 88 | 26.10.65 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतार | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|--|---|----------|
| 1808 | रामना मूर्ति वी वी, पुत्र श्री चिन्ना अप्पा राव | ए पी एस वी सी / 03601 / 2000 | पुत्र श्री वी पुन्यवथी, पेड़ापल्ला, वाया: चिथलुरु, पू. गोदावरी जिला - 533232 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 26.10.73 |
| 1809 | रामनाइयाह जे वी, पुत्र श्री जे पंडावुलु | ए पी एस वी सी / 03586 / 2000 | वेट, असि. सर्जन, पोस्ट ऑफिस के साथ, धर्मजीगुडेम डाक, प. गोदावरी जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 92 | 6.12.65 |
| 1810 | रामनारायण रेड्डी के, पुत्र श्री के चेन्ना रेड्डी | ए पी एस वी सी / 03549 / 2000 | प्लॉट न. 198, सेषनिवास, कल्याण नगर, हैदराबाद- 38 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 67 | 2.7.42 |
| 1811 | रामानुज दास, पुत्र ले. श्री रमेश च. दास | त्रिपुरा / 59 / 2000 | द्वास रतीश आर एन दास, रामनगर, रोड न. 5, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 82 | 5.1.58 |
| 1812 | रामाशीष राम, पुत्र श्री गोवर्धन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 981 / 2000 | मौह, पंचू बीघा, डाक रामपुर चार, थाना कारपी, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 10.5.53 |
| 1813 | रामाशीष सिंह, पुत्र स्व. श्री देवकी नंदन सिंह | बिहार एस वी सी / 1273 / 2000 | मौह, रेही, डाक एवं थाना दिनारा, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 10.12.51 |
| 1814 | रामाशीष सिन्हा, पुत्र स्व. श्री रकत सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1852 / 2000 | एम-ए / 20, अशोकापुरी, डाक बिहार वेटकॉलेज, थाना शास्त्री नगर, जिला पटना- 800014 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी यू/ 60 | 1.2.35 |
| 1815 | रामाश्रय प्रसाद, पुत्र स्व. श्री छेदी भगत | बिहार एस वी सी / 892 / 2000 | ग्राम मुरोपुर, डाक गया, थाना कोमवाली, जिला गया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 15.5.43 |
| 1816 | रामाश्रय प्रसाद, पुत्र श्री हरिनंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1376 / 2000 | मौह, गोशाला रोड, डाक एवं थाना, खुसरोपुर, जिला पटना, पिन- 803202 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 1.1.46 |
| 1817 | रामाश्रय सिंह, पुत्र स्व. श्री कपिलदेव सिंह | बिहार एस वी सी / 1152 / 2000 | ग्राम अहिनोरा, डाक हरनाथपुर, थाना मोहारियान, जिला कैमूर (भाभया) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 88 | 29.8.58 |
| 1818 | रामाकृष्ण प्रसाद सिंह, पुत्र श्री लालजीत सिंह | बिहार एस वी सी / 1727 / 2000 | ग्राम पलेहपुर, डाक राजहाट, थाना अकबरपुर, जिला नवादा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 5.1.45 |
| 1819 | रामबली सिंह, पुत्र स्व. श्री गयास सिंह | बिहार एस वी सी / 1786 / 2000 | ग्राम एवं डाक नया बीघा, थाना अठमलगोला, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 20.10.43 |
| 1820 | रामचंद्र चौधरी, पुत्र स्व. श्री भोली चौधरी | बिहार एस वी सी / 1635 / 2000 | ग्राम एवं डाक श्रीपुर, थाना किशनपुर, जिला सुपौल, पिन- 852138 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 73 | 2.6.49 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| 1821 | रामचंद्र कुमार रवि, पुत्र श्री हरि बल्लभ प्रसाद गुप्ता | बिहार एस वी सी / 1071 / 2000 | ग्राम एवं डाक गामेल, थाना बिहारीगंज, जिला माधेपुरा, पिन- 852101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 21.3.70 |
| 1822 | रामचंद्र प्रसाद, पुत्र ख. श्री भगवान साह | बिहार एस वी सी / 1386 / 2000 | एम-कृष्णासदन, सागरपोखरा, डाक एवं थाना बेतिया, जिला प. चम्पारन, पिन- 845438 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 1.7.42 |
| 1823 | रामचंद्र प्रसाद, पुत्र ख. श्री राम लखन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1102 / 2000 | ग्राम एवं डाक खोनगांव, थाना कोइलवार, जिला आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 11.6.47 |
| 1824 | रामचंद्र सिंह, पुत्र ख. श्री नागेश्वर सिंह | बिहार एस वी सी / 1120 / 2000 | ग्राम एवं डाक हेमा, थाना लार, जिला देवरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 1.3.48 |
| 1825 | रामचरित्र रौय, पुत्र श्री नवल किशोर रौय | बिहार एस वी सी / 1448 / 2000 | ग्राम एवं डाक गौरीपुर, थाना विहपुर, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 7.7.44 |
| 1826 | रमेश चंद मीना | आर ए जे एस वी री/ 2700 /2000 | ग्राम एवं डाक नगल लाट, तह. तोडाभीम, करौली, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/सज कृ वि वि/2000 | 4.2.72 |
| 1827 | रमेश चंद झा, पुत्र श्री पुलिक्त झा | बिहार एस वी सी / 1493 / 2000 | ग्रगाम एवं डाक पचरुखी, थाना बाबू बाड़ी, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 3.1.46 |
| 1828 | रमेश चंद जोशी, पुत्र ख. श्री वी पी जोशी | यू पी वी सी / 3273 | बी- 56, सेक्टर 26, नौएडा, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/आगरा वि वि/ 60 | 4.10.38 |
| 1829 | रमेश चंद्र प्रसाद यादव, पुत्र श्री राम खरूप्र प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1370 / 2000 | मौह. पुराई बाग, डाक बढ़ (आर एस), थाना बोढ़, जिला पटना, पिन- 803211 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 10.1.59 |
| 1830 | रमेश चंद्र पुत्र श्री राम सिंह | यू पी वी सी / 3284 | ग्राम तेरिया, दाहिंगवान, डाक गावसंगंज, जिला हरदोई (उ.प्र.) | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/99 | 14.7.73 |
| 1831 | रमेश चंद्र सिंह, पुत्र ख. श्री इद्रारान सिंह | बिहार एस वी सी / 1454 / 2000 | ग्राम एवं डाक कलाडुमरा, थाना कंटामबुध नगर, जिला सीवन | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 20.8.46 |
| 1832 | रमेश चंद्र वर्मा, पुत्र ख. श्री जगदेश्वरी शरन सिंह | बिहार एस वी सी / 1403 / 2000 | एम- हनुमान नगर, अप.के. 118, डाक लोहियानगर, थाना कंकरबाग, पटना- 800020 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 7.4.43 |
| 1833 | रमेश चंद्र, पुत्र ख. श्री वैद्यनाथ लाल | बिहार एस वी सी / 1876 / 2000 | एम- पुराना पोर्ट ऑफिस रोड, थाना एवं जिला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 16.10.45 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|----------|
| 1834 | रमेश के आर, पुत्र श्री रामन्ना के एन | कर्ना एस वी सी/3189 | डुगेनाहल्ली, मल्लावल्ली, तालुक मांड्या जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 10.7.77 |
| 1835 | रमेश कुमार | आर ए जे एस वी सी/2690/ 2000 | ग्राम श्यामगढ़, तह. रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर | बी वी एस सी एंड ए एच/आगरा वि वि/ 2000 | 5.11.76 |
| 1836 | रमेश कुमार मिश्रा, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद | एम पी एस वी सी/1919/ 2000 | ग्राम शिवलाङ्का, डाक काशीयारंगांव, जिला रावा- 486001 | बी वी एस सी एंड ए एच/आई जी के वी वी/ 2000 | 17.2.73 |
| 1837 | रमेश कुमार आर एस, पुत्र श्री श्रीरामह्याह | कर्ना एस वी सी/3173 | रोनुर ग्राम एवं डाक, श्रीनिवासपुरा, तालुक कोलार जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 22.7.77 |
| 1838 | रमेश प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री कपूर सिंह | बिहार एस वी सी/1062/ 2000 | ग्राम मोमिनपुर, डाक सिलारी, थाना करगाबार, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 3.1.46 |
| 1839 | रमेश प्रसाद, पुत्र स्व. श्री कार्ल गाराये | बिहार एस वी सी/1780/ 2000 | ग्राम एवं डाक बिस्वाक, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 2.7.43 |
| 1840 | रमेश रे, पुत्र स्व. श्री जगदेव रे | बिहार एस वी सी/ 1090/ 2000 | ग्राम गौरचानी, डाक एवं थाना सासाराम, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 13.1.43 |
| 1841 | रमेश, पुत्र श्री सोहन लाल जांगरा | एच ए आर एस वी सी/1674 | 12/ 3, वेट विलनिक, सी सी एस एच ए यू, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 21.3.76 |
| 1842 | रमेश शर्मा, पुत्र श्री जसवंत राय | पी वी एस वी सी/ 2195/ 2000 | मोह. ढांडियान, सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 1999 | 1.8.76 |
| 1843 | रमेश उरांव, पुत्र स्व. श्री सुंदर उरांव | बिहार एस वी सी/ 1198/ 2000 | मोह. अरसनडेव, डाक बोरिया, थाना कनके, जिला रांधी, पिन- 834007 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 16.9.66 |
| 1844 | रमेशा, पुत्र श्री चालुवे गौडा | कर्ना एस वी सी/ 3163 | न.सी- 77, तालगावाडी, मलावली तालुक, मांड्या जिला. | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 25.6.77 |
| 1845 | रामेश्वर दयाल गौतम, पुत्र श्री पूर्णमल, गौतम | यू पी वी सी/ 3187 | ग्राम एवं डाक सहारी ऐदान मढी, जिला अलीगढ़, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस एयू ए एंड टी/ 2000 | 30.12.60 |
| 1846 | रामेश्वर दूबे, पुत्र श्री विश्वनाथ दूबे | बिहार एस वी सी/ 2076/ 2001 | ग्राम गोवर्धनपुर, डाक गगोली, ताया डल्मिया नगर, थाना अकोडी गोला, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 10.10.44 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|---|---|----------|
| 1847 | रमिन्दर सिंह | डी वी सी / 0559 / 2000 | म.न.1869, सेक्टर: बी, फरीदाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/एच ए यू/ 86 | 16.12.64 |
| 1848 | रामजी चौधरी, पुत्र स्त्र. श्री ललितेश्वर चौधरी | बिहार एस वी सी / 1618 / 2000 | मौह. हाउसिंग कॉलोनी, एल आई सी- 249, जिला धनबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 73 | 1.1.44 |
| 1849 | रामजी मंडल, पुत्र श्री राम लखन मंडल | बिहार एस वी सी / 1513 / 2000 | ग्राम एवं डाक रत्नसारा, थाना घोघोरडीहा, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 2.1.48 |
| 1850 | रामजी प्रसाद, पुत्र स्त्र. श्री सिव वल्लभ शरन | बिहार एस वी सी / 2006 / 2000 | ग्राम अरसनडे, डाक एवं थाना कनके, जिला रांची, पिन- 834006 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 62 | 14.10.39 |
| 1851 | रामलखन प्रसाद, पुत्र स्त्र. श्री झापसी प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1972 / 2000 | ग्राम एवं डाक धुरगांव, थाना एकंगरसराय, जिला नालंदा, पिन- 801302 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 11.11.44 |
| 1852 | राम नदन प्रसाद, पुत्र श्री ब्रह्मदेव साहनी | बिहार एस वी सी / 2087 / 2001 | ग्राम सोनवर्षा घाट, डाक सोनवर्षा घाट, डाक चौथम, जिला खगरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 23.11.70 |
| 1853 | रामनाथ प्रसाद, पुत्र स्त्र. श्री नंद लाल प्रसाद | बिहार एस वी सी / 995 / 2000 | ग्राम कटारीचाक, डाक सासाराम, थाना नौबतपुर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 73 | 3.7.46 |
| 1854 | रामनाथ सहाय, पुत्र स्त्र. श्री बाबू लाल सहाय | बिहार एस वी सी / 861 / 2000 | मौह. काथाटोली, डाक सासाराम, थाना सासाराम, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 15.1.44 |
| 1855 | रामटेके विनोद दादाजी | एम एस वी सी / 6369 / 2000 | पितृछाया, बी जेके सोसायटी, राणाप्रसाद नगर, बल्लारंपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी डी के वी/2000 | 1.1.76 |
| 1856 | रामू एम, पुत्र श्री एम मोहन राव | ए पी एस वी सी / 03542 / 2000 | गीसूर्गोडा (पी एवं एम), वारंगल जिला- 506330 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 98 | 4.5.74 |
| 1857 | रामुदू बी, पुत्र श्री सेषन्ना | ए पी एस वी सी / 03554 / 2000 | म. न. 19-71/ ।/।, कल्याणपुरी, उपप्ल (एम), हैदराबाद- 500039 | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 69 | 1.7.42 |
| 1858 | रमजान चोपान | वी सी आई / 2216 / 2000 | आर/ ओ विवलमुकुम, तह. बोदीपोर, जिला बारामूला, कश्मीर | बी वी एस सी एंड एएच/एसकेयूऑफ एएस एंड टी/ 99 | 27.10.72 |
| 1859 | राना अशोक कुमार, पुत्र स्त्र. श्री बी पी सिंह | बिहार एस वी सी / 1111 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना अठमल गोला, जिला पटना, पिन- 803211 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 2.2.60 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|---|----------|
| 1860 | राना प्रताप सिंह, पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 859 / 2000 | ग्राम हिमतपुर, डाक बैनपुरा, थाना आराह सदर, जिला आराह | बी वी एस सी एड यू/ 83 | 17.6.61 |
| 1861 | राना प्रताप, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद ठाकुर | बिहार एस वी सी / 939 / 2000 | ग्राम अमरपुर, डाक एवं थारना अमरपुर, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 84 | 25.3.61 |
| 1862 | रणबाक्से रेखा परशं राम | एम एस वी सी / 6296 / 2000 | अंतुले नगर, फाला फसोर मिल के पास, हिंगोली, अकोला रोड, हिंगोली | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 2000 | 5.8.72 |
| 1863 | रणधीर प्रसाद सिंह, पुत्र स्त्री दीना नाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 2030 / 2000 | मौह, राजापुर, डाक जी पी ओ, थाना श्रीकृष्ण पुरी, जिला पटना | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 11.11.74 |
| 1864 | रणधीर कुमार, पुत्र श्री भुनेश्वर सहू | बिहार एस वी सी / 1076 / 2000 | मौ. धोबी टोला, हाजीपुर, डाक, थाना खगरिया, जिला खगरिया, पिन- 851204 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 91 | 6.1.66 |
| 1865 | रणधीर सिंह, पुत्र श्री शारदा नंद | एच ए आर एस वी सी / 1675 | झाश मनोज महावीर, नवदीप, कॉलोनी, गंगवा रोड, हिसार | बी वी एस सी एड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 8.12.68 |
| 1866 | रणधीर सिंह, पुत्र श्री रामधानी सिंह | बिहार एस वी सी / 1357 / 2000 | ग्राम पलकिया, डाक एवं थाना शेरधाटी, जिला गया, पिन- 824211 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 71 | 8.7.49 |
| 1867 | रंगा रेड्डी बी, पुत्र श्री बी रंगा रेड्डी | ए पी एस वी सी / 03558 / 2000 | म.न. 25 / 236- 12 सी, सांगिवा नगर, नंदयाल, कर्नूल जिला | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 70 | 10.7.48 |
| 1868 | रंगास्वामी एम बी, पुत्र श्री बी बासवराजप्पा | कर्ना एस वी सी / 3153 | मदाकारीपुर, चित्रदुर्ग तालुक एवं जिला | बी वी एस सी एड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 13.3.77 |
| 1869 | रंगास्वामी एस, पुत्र श्री मास्नन | कर्ना / 3200 | रवि नर्सिंग होम के पीछे, होलालकर्णे रोड, तालुक एवं जिला चित्रदुर्ग | बी वी एस सी एड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 22.7.74 |
| 1870 | रंजन कुमार झा, पुत्र डॉ. भग्ना नाथ झा | बिहार एस वी सी / 1216 / 2000 | ग्राम एवं डाक कालीगांव, थाना सिंहवाडा, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 92 | 2.8.67 |
| 1871 | रंजन कुमार चौधरी, पुत्र स्त्री श्री गीता नंद चौधरी | बिहार एस वी सी / 1534 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना विहपुर, जिला भागलपुर, पिन- 853201 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 75 | 1.7.51 |
| 1872 | रणजीत कुमार सिंहा, पुत्र श्री हरि नंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1139 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना साबूपुर, जिला भागलपुर, पिन- 813210 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 83 | 15.8.60 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्द्धतारे | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|---|---|----------|
| 1873 | रणजीत प्रसाद सिन्हा, पुत्र ख. श्री ज्ञाताप्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1964 / 2000 | ग्राम प्रहलादपुर, थाना घोसवारी, बी वी एस सी एंड जिला पटना, पिन- 803306 ए एच/आर ए यू/ 96 | बी वी एस सी एंड | 5.7.71 |
| 1874 | रणजीत सिंह, पुत्र श्री मुशी सिंह | बिहार एस वी सी / 2016 / 2000 | ग्राम भहिमा कोर्थू, डाक मोहनगंज, थाना घोसी, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 87 | 6.3.42 |
| 1875 | रणजीत सोरेन, पुत्र श्री लखन सोरेन | बिहार एस वी सी / 1129 / 2000 | ग्राम छोटा कुर्मा, डाक श्रीपुर, बाजार, थाना मिरसा घोकी, साहेबगंज- 813208 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 12.12.72 |
| 1876 | रणजीत कुमार भगत, पुत्र ख. श्री बालेश्वर भगत | बिहार एस वी सी / 1103 / 2000 | ग्राम पोरासारमा टोली, डाक जुरिया, थाना सिन्हा, जिला लोहारडगा, पिन- 835302 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 15.11.89 |
| 1877 | रणजीत सिंह पी बी, पुत्र श्री पी बी धान सिंह | ए पी एस वी सी / 03649 / 2000 | प्लॉट न.एम आई जी- 103, नॉर्थ एक्सटेंशन, सीतमधारा, विशाखपट्टनम्- 530013 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 30.1.70 |
| 1878 | रावसाब दत्ताजी पाटिल, पुत्र श्री ताजी पाटिल | कर्ना / 3138 | डाक शंदेश्वर, तालुक औरद, जिला बिहार | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 1998 | 1.1.72 |
| 1879 | रतन दासगुप्ता, पुत्र श्री इंदू भूषण दास गुप्ता | त्रिपुरा / 41 / 2000 | मोनोरामा लोकनाथ निकेतन, वाटर सप्लाई रोड, रोड अगरतला | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के बी वी / 78 | 11.3.57 |
| 1880 | रतन कुमार दूबे, पुत्र श्री दिगम्बर प्रसाद दूबे | बिहार एस वी सी / 999 / 2000 | ग्राम एवं डाक बंदनवार, थाना निष्ठौरागढ़, जिला गोडावा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 21.7.61 |
| 1881 | रतन कुमार साहा, पुत्र श्री नागेंद्र च. साहा | त्रिपुरा / 54 / 2000 | क्वा.न. ट्राइप-111 / 2, कुमारीतल्ल, डाक कुंजाबन, अगरतला, त्रिपुरा (प.) | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के बी वी / 82 | 10.10.55 |
| 1882 | रतन कुमार ठाकुर, पुत्र ख. श्री विश्वकर्मा ठाकुर | बिहार एस वी सी / 1931 / 2000 | एम-बी बी पाखर, डाक दरमांगा, थाना लहरिया सराय, जिला दरमांगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 20.8.51 |
| 1883 | रथींद्र नाथ मुखर्जी, पुत्र ख. श्री भूतनाथ मुखर्जी | बिहार एस वी सी / 1197 / 2000 | मौ. पटेल मैदान रोड, डाक, थाना एवं जिला समस्तीपुर, पिन- 648101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 15.2.49 |
| 1884 | राठौड बालदास राजूसिंग | एम एस वी सी / 6304 / 2000 | एटी दरात, तह. उमरखेड़, जिला यवतमाल- 445207 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी / 2000 | 29.5.72 |
| 1885 | राठौड तुलाराम टोपु | एम एस वी सी / 6423 / 2001 | एटी वसंत राव नायक नगर, डाक कदबगांव, तालुक अक्कलकोट, सोलापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी / 2000 | 1.6.76 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|---|--|----------|
| 1886 | राजत शशि कांत शंकर राव | एम एस वी सी / 6421 / 2001 | राजत बिल्डिंग, आर टी ओ कैम्प के निकट, चौधेश्वर, तालुक माल्शीरास, सोलापुर | बी वी एस सी एंड ए एच / के के वी / 2000 | 10.3.78 |
| 1887 | राव जितेंद्र प्रसाद, पुत्र ख. श्री राव देवेंद्र प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1988 / 2000 | मौ. दयाल कॉलोनी, डाक चित्रगुप्त नगर, थाना कंकरबाग, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच / एम यू / 65 | 16.11.42 |
| 1888 | रवि कांत, पुत्र श्री बलजीत सिंह | एच ए आर एस वी सी / 1635 | म.न. 940—एकड, पी एन बी के पीछे, कुतुबपुर, रिवाडी | बी वी एस सी एंड ए एच / सी सी एस एच ए यू / 2000 | 1.1.77 |
| 1889 | रवि कुमार एम, पुत्र श्री सन्यासी राव | ए पी एस वी सी / 03597 / 2000 | अमराया वालसा ग्राम, चेल्लापेटा डाक, मेंटाडा मौ., विजियानगरम— 535581 | बी वी एस सी एंड ए एच / ए एन जी आर ए यू / 2000 | 28.2.78 |
| 1890 | रवि कुमार एन, पुत्र श्री नारायण | ए पी एस वी सी / 03603 / 2000 | 3 / 25, दाल फैक्ट्री के सामने, दोरासानीपल्लै रोड, प्रोडडाटूर— 516360 | बी वी एस सी एंड ए एच / ए एन जी आर ए यू / 2000 | 11.8.74 |
| 1891 | रवि कुमार, पुत्र श्री सिवनंदम | ए पी एस वी सी / 03577 / 2000 | श्रीनिवास हैचरी लि., प्लीडर गारी गार्डन, मोरसापुडी डाक, नुज़विड मौ, कृष्णा जिला | बी वी एस सी / टी एन वी एंड ए एस यू / 95 | 15.6.72 |
| 1892 | रवि एम, पुत्र श्री महादेवप्पा एम | कर्ना एस वी सी / 3167 | कोम्पीनाकरे रस्ट्रीट, इस्सूर डाक, सिकारीपुरा तालुक, शिमोगा जिला | बी वी एस सी एंड ए एच / यू ए एस बंगलौर / 2000 | 24.7.76 |
| 1893 | रवि नंदन, पुत्र ख. श्री रंग प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1206 / 2000 | मौ. न्यू एरिया, बिसर तलाब, डाक जी पी ओ, जिला गया, पिन— 823001 | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 91 | 6.4.65 |
| 1894 | रवि प्रसाद नेमा, पुत्र श्री एस एल नेमा | एम पी एस वी सी / 1897 / 2000 | एसो. प्रोफेसर, डि.पोल्ट्री साइंस, कृषि नगर, अधरताल, जबलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच / जे एन के वी वी / 76— 77 | 28.8.55 |
| 1895 | रवि प्रताप राव, पुत्र ख. श्री गंगाधर राव | बिहार एस वी सी / 2038 / 2000 | ग्राम एवं डाक मधुबनी, थाना धान्हा, जिला प. चम्पारन | बी वी एस सी एंड ए एच / बी यू / 60 | 14.4.39 |
| 1896 | रवि शंकर कपूर, पुत्र श्री सत्येंद्र नारायण कपूर | बिहार एस वी सी / 912 / 2000 | डाक रांची वेट कॉलेज, थाना कनके, जिला रांची, पिन— 834006 | बी वी एस सी एंड ए एच / बी ए यू / 91 | 5.10.67 |
| 1897 | रवि शंकर, पुत्र श्री सी एल संखवार | यू पी वी सी / 3271 | ग्राम पिलखीनी, डाक पुखरायन, जिला कानपुर देहात, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच / जी बी पी यू ए एंड टी / 97 | 1.3.70 |
| 1898 | रवि शंकर विद्यार्थी, पुत्र श्री बिश्वभर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1378 / 2000 | ग्राम गरार, डाक हुरैनगंज, थाना अंदेर, जिला सीवन, | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 96 | 9.10.70 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | रीतिष्ठिक अहसारे | जन्मतिथि |
|---------|---|----------------------------|--|--|----------|
| 1899 | रवीन्द्र सिंह, पुत्र श्री दलबारा सिंह | पी वी एस वी सी/ 2219/ 2001 | ग्राम एवं डाक बरंवाली खुर्द, तहसील खमाना, ज़िला फतेहगढ़ साहिब | बी वी एस सी एड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 20.9.76 |
| 1900 | रवीन्द्र एच, पुत्र श्री राम कृष्णराव हांगे | ए पी एस वी सी/ 03595/ 2000 | म. न. 4-6-436, धुक्का, भक्तापौरा, आदिलाबाद ज़िला | बी वी एस सी एड ए एच/ नसाइदांडा वि वि/ 98 | 4.10.75 |
| 1901 | रवीन्द्र नाथ रौय, पुत्र स्व. श्री राम प्रसाद रौय | बिहार एस वी सी/ 1252/ 2000 | ग्राम डाक एवं थाना करीहुद्वीनपुर, ज़िला गाजीपुर | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 65 | 28.7.44 |
| 1902 | रवीन्द्र नाथ सिन्हा, पुत्र स्व. श्री राज कुमार सिन्हा | बिहार एस वी सी/ 1845/ 2000 | ग्राम शोरपुर, डाक घोघटा, थाना छपरा मुफसिल, ज़िला छपरा | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 70 | 10.5.46 |
| 1903 | रवीन्द्र नाथ सिंह, पुत्र श्री धनराज सिंह | बिहार एस वी सी/ 1202/ 2000 | ग्राम गरारा, डाक एवं थाना सान्दुआ, ज़िला रोहतास | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 80 | 29.1.56 |
| 1904 | रवीन्द्र प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. हरदेव सिंह | बिहार एस वी सी/ 1028/ 2000 | ग्राम एवं डाक शानशहर, थाना बरहारा, ज़िला आराह (भोजपुर) | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 67 | 3.1.43 |
| 1905 | रवीन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव | वी. सी. आई/ 2255/ 2000 | घेट, असि. सर्जन, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, डाक सुनहेदा - 2, उडीसा | बी वी एस सी एड ए एच/सी एस ए के ई पी वी/ 80 | 1.1.55 |
| 1906 | रवीन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, पुत्र श्री कृष्ण मोहनलाल | उडीसा/ 1785 | घेट, असि. सर्जन, सेंट्रल ब्रीडिंग फार्म, सुनाबेदा, कोरापुट | बी वी एस सी एड ए एच/सी एस ए के ई पी वी/ 80 | 1.1.55 |
| 1907 | रवि प्रकाश टी एस, पुत्र श्री टी आर सीताराम | कर्ना एस वी सी/ 3132 | 8 घाँटोंस, 11 मेम, एस एस पुरम, तुमकुर | बी वी एस सी/गृ ए एस बंगलौर/ 97 | 4.5.74 |
| 1908 | रवनीत कौर, पुत्री श्री बख्तीश सिंह | पी वी एस वी सी/ 2182/ 2000 | म.न.4881, गुरु अर्जन देव नगर, डाक खालसा कॉलेज, अमृतसर | बी वी एस सी एड ए एच/पी ए यू/ 1999 | 27.1.76 |
| 1909 | रीना लेइकर, पुत्री श्री अमर चंद लेइकर | पी वी एस वी सी/ 2175/ 2000 | 613/ 1, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, पाखोवाल रोड, लुधियाना | बी वी एस सी एड ए एच/ एम एल एस यू/ 1986 | 29.11.62 |
| 1910 | रेजी वर्गीज | केरल एस वी सी/ 2509/ 2000 | मुथुकक्कटू हाउस, कोट्टापुरम रोड, घ्रिसूर, पिन- 680004 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 31.5.76 |
| 1911 | रेनिज मैथ्यूज वी | केरल एस वी सी/ 2483/ 2000 | वडकक्कटू हाउस, चरखन्नूर डाक, कुन्नामकुलम (वाया), घ्रिसूर- 680503 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 31.5.75 |

| क्र. सं. | ज्ञान | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|----------|---|------------------------------|--|---|----------|
| 1912 | रेखा बानू | पॉण्डी / 101 / 2000 | लखनी होम्स, गोपालगंग कडा स्ट्रीट, इयानकुटीपलायम | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/85 | 7.1.71 |
| 1913 | रिचर्ड आर चर्चिल | केरल एस वी सी / 2525 / 2001 | ग्राम एवं डाक के ए यू रस्टाफ बार्टर्स, वेट कॉलेज कैम्पस, मन्नुथी, शिरसूर | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 94 | 31.7.71 |
| 1914 | सिलेनेल स्वेर | मेघ / 169 / 2001 | नॉगथिम्हर्ह, शिलांग | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 81 | 22.12.54 |
| 1915 | रिनचिन लाला | अरुणा / 214 / 2002 | ग्राम शेरगांव, डाक कला बतांग, जिला प. कामांग | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी / 87 | 1.4.84 |
| 1916 | सिंहालार डोहट्टर्हांग | मेघ / 181 / 2001 | उमलिंगका, शिलांग- 793005 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 91 | 1.3.85 |
| 1917 | रीता कुमारी सिन्हा, सुन्त्री श्री जनार्दन प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 879 / 2000 | मौह, बी-2 प्रोफे. कॉलोनी, उत्तरी शासनी नगर, पटना- 800023 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 84 | 27.7.60 |
| 1918 | रोहित कुमार, पुत्र श्री मनोहर लाल | मेघ / 161 / 2001 | नॉगपोह, शिलांग | बी वी एस सी एंड ए एच/ए यू/ 2000 | 27.11.74 |
| 1919 | | पी वी एस वी सी / 2252 / 2001 | 313- ई, एस वी एस नगर लुधियाना | बी वी एस सी एंड ए एच/पी-ए यू/ 2000 | 11.1.76 |
| 1920 | रोजलिन पुष्पा तिरकी, पुत्र स्त्र. श्री लूधर तिरकी | बिहार एस वी सी / 1527 / 2000 | मौह, पुरामा लोहाडीह, डाक एवं धाना नामकुम, जिला रांची, पिन- 834010 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 13.5.68 |
| 1921 | रोजा सी एस आको | केरल एस वी सी / 2518 / 2000 | कुन्नमेल हाऊस, सार्जम् अरयाद, अल्लेप्पी- 6 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी. डी के वी / 2000 | 13.4.77 |
| 1922 | रोज करियथ, पुत्र डॉ. ए पी रोजा | कर्ना एस वी सी / 3102 . | 101 प्लॉट न. 24, चुम्मन अपार्टमेंट्स, पी एंड टी कॉलोनी, संजय नगर, बंगलौर | बी वी एस सी एंड ए एच/सी ए यू/ 80 | 9.5.59 |
| 1923 | रॉय डॉ. दिगंत, पुत्र श्री विजान कुमार रौय | ए एस एम / 1929 / 2000 | आगड़ापुर, बेलटोला, गुवाहाटी- 28 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 99 | |
| 1924 | रुचि विद्याधरन | केरल एस वी सी / 2510 / 2000 | कोशू पटकूर (एच), करिबारा, डाक पुनालूर, कोल्लम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 19.3.76 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|---|---|----------|
| 1925 | रुद्रदेव सिंह, पुत्र स्व. श्री शिवदानी सिंह | बिहार एस वी सी / 1191 / 2000 | ग्राम एवं डाक बैजनाथपुर, थाना बैजनाथपुर, जिला नवादा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 9.12.43 |
| 1926 | रुद्रगौड़ा वी शांतनावार, पुत्र श्री वीरनगौड़ा | कर्ना एस वी सी / 3180 | श्री गुरुकृष्ण, पुराना अंतर वल्ली रोड, विद्यानगर, छठा क्रॉस, रेनेबैनूर, हावरेई जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 20.6.74 |
| 1927 | रुद्रप्पा वाई गुरीकर, पुत्र श्री यालप्पा आर गुरीकर | कर्ना एस वी सी / 3114 | कोटुमाचारी डाक, गडग जिला एवं तालुक | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ 98 | 1.6.75 |
| 1928 | एस मंजहर बारी, पुत्र श्री एस अब्दुल कर्यूम | बिहार एस वी सी / 1785 / 2000 | ग्राम ताज कॉलोनी, पंचायत अखाड़ा, थाना कोतवाली गया, जिला गया, पिन- 823001 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 8.6.43 |
| 1929 | एस आर्थर सिल्वेस्टर | पॉण्डी / 132 / 2001 | 487, महात्मा गांधी रोड, पॉण्डीघेरी- 605001 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 31.12.76 |
| 1930 | एस चंद्रसेगर | पॉण्डी / 129 / 2001 | 10, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, मुथियलपेट, डाक पॉण्डीघेरी-3 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 7.11.76 |
| 1931 | एसकोठांदरमन | पॉण्डी / 142 / 2001 | 145, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, पॉण्डीघेरी- 605001 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 23.6.77 |
| 1932 | एस एम शकील अहमद, पुत्र श्री एस एम रज्जा करीम | बिहार एस वी सी / 1242 / 2000 | मौह. जमीरान की गाची, चंदगारा, जिला मुजफ्फरपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 1.7.46 |
| 1933 | एस एम हुमायूं अखतर, पुत्र स्व. श्री एस एम अब्दुल खेर | बिहार एस वी सी / 856 / 2000 | ग्राम समनपुरा, डाक बी वी कॉलेज, थाना शस्त्रीनगर, पटना- 800014 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 26.9.41 |
| 1934 | एस मौह. सैयद इमाम हाशमी, पुत्र स्व. श्री अखतर इमाम हाशमी | बिहार एस वी सी / 1249 / 2000 | मौह. जवाहर चौक, डाक एवं थाना सीतामढ़ी, जिला सीतामढ़ी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 15.9.42 |
| 1935 | साद अबू मुजफ्फर, पुत्र स्व. श्री मौह. मोहसिन | बिहार एस वी सी / 1792 / 2000 | मौह. चूनिमान, डाक खोड़ागज, थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 15.3.46 |
| 1936 | सव्यसाची भट्टाचार्य, पुत्र स्व. श्री रामा प्रसाद | त्रिपुरा / 70 / 2000 | पी डब्बू डी रोड, बौलापासा, कैलासहर, त्रिपुरा (उ.), पिन- 799277 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 6.4.62 |
| 1937 | सच्चिदानंद पांडे, पुत्र स्व. श्री रामधारी पांडे | बिहार एस वी सी / 1996 / 2000 | ग्राम एवं डाक पांडेपट्टी, थाना पांडेपट्टी, जिला बक्सर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 2.7.44 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|----------------------------|---|---|----------|
| 1938 | सच्चिदानंद प्रसाद सिंहा, पुत्र श्री देव नाथ प्रसाद सिंहा | बिहार एस वी सी/ 1029/ 2000 | ग्राम सर्सेबाहना, डाक बिरनामा, थाना अरियारी जिला शेखपुरा, पिन 7 805130 | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 67 | 9.5.43 |
| 1939 | सच्चिदानंद सिंह, पुत्र स्व. श्री बलदेव सिंह | बिहार एस वी सी/ 978/ 2000 | ग्राम रामपुर खुरहुरिया डाक एवं थाना भाटरी, जिला देवरिया | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 67 | 7.10.46 |
| 1940 | सच्चिदानंद सिंह, पुत्र स्व. श्री बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1882/ 2000 | ग्राम एवं डाक कैथी, थाना चौथम, जिला खगरिया | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 69 | 23.1.43 |
| 1941 | सच्चिदानंद मिश्रा, पुत्र पंडित मुरारी प्रसाद मिश्रा | बिहार एस वी सी/ 890/ 2000 | ग्राम एवं डाक राजवाड़ा, थाना साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर, पिन— 843125 | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 69 | 15.7.46 |
| 1942 | सदानंद महतो, पुत्र श्री जगन्नाथ महतो | बिहार एस वी सी/ 1751/ 2000 | मौ. जयप्रकाश नगर, डाक गोड्डा, थाना एवं जिला गोड्डा | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 82 | 10.1.59 |
| 1943 | सदानंद राम, पुत्र श्री राज लाल वर्मा | बिहार एस वी सी/ 1896/ 2000 | ग्राम लाडुई, विशुनपुरा, डाक कानीवारी, थाना करगाहार, जिला रोहतास, पिन—802213 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 98 | 5.1.72 |
| 1944 | सफदर खान, पुत्र श्री अब्दुल कपफ़ार खान | बिहार एस वी सी/ 1566/ 2000 | मौह. महाराजा हाता, डाक एवं थाना आराह, जिला भोजपुर, पिन— 802301 | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 62 | 25.12.41 |
| 1945 | सागर मंगेश अभिमन्तु | एम एस वी सी/ 6359/ 2000 | दीपगंगा सोसायटी, 106, गोपाल नगर, लेन न. 2, कल्याण रोड | बी वी एस सी एड ए एच/ के के वी/ 2000 | 5.11.77 |
| 1946 | सागरी साधिका राम दास, पत्नी श्री एम मधुसूदन | ए पी एस वी सी/ 03675/ 2001 | ए— 12, सैनिकपुरी, सिकंदराबाद, पिन— 500094 | बी वी एस सी एड ए एच/एच ए यू/ 86 | 1.6.74 |
| 1947 | सहज नंद रॉय, पुत्र श्री नारायण रॉय | बिहार एस वी सी/ 1719/ 2000 | ग्राम एवं डाक सैदपुर, टोला गरियार, थाना गोपाल पुर, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 77 | 6.7.54 |
| 1948 | सहजानंद सिंह, पुत्र श्री भागमत सिंह | यू. पी. वी सी/ 3165 | टैगोर नगर, जेल के पीछे, बलिया, उ.प्र. | बी वी एस सी एड ए एच/जी वी पी यू ए एड टी/ 71 | 1.9.46 |
| 1949 | सहारे अमोल मधुकर | एम एस वी सी/ 6360/ 2000 | जायसवाल लेआउट, शिंदे वाही, तालुक शिंदेवाही, जिला चंद्रपुर — 441222 | बी वी एस सी एड ए एच/डा पी.डी.के.वी /2000 | 19.8.77 |
| 1950 | सहदेव पंजियार, पुत्र स्व. श्री वानारसी पंजियार | बिहार एस वी सी/ 1195/ 2000 | ग्राम एवं डाक असारगंज, थाना असारगंज, जिला मुग्रे | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 66 | 3.1.43 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्मसंदिधि |
|---------|--|---|--|---|------------|
| 1951 | सैबल कांति मौडल | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2799 / 2000 | रामपुरहाट, संघटापारा, बीरभूम | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू रेफ एस / 2000 | |
| 1952 | सैकत साहा | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2830 / 2000 | नारायणपुर हिल, मोरे शोरे, डाक बलूरधाट, जिला डी / दिनाजपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 1953 | सैकिया डॉ. जोन मोनी, पुत्री श्री गालक च. सैकिया | ए एस एम / 1944 / 2001 | द्वारा श्री गोलक च. सैकिया, ग्राम सामागुरी, डाक सामागुरी, जिला नागार (असम) | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू / 2001 | |
| 1954 | सैकिया डॉ. नितुल, पुत्र श्री रमेश च. सैकिया | ए एस एम / 1907 / 2000 | ग्राम बुरहाकुरी, डाक बोरदोलोनी, जिला धीमाली (असम) | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू / 2000 | |
| 1955 | सैकिया डॉ. टिकेंद्र जीत, पुत्र श्री टकेश्वर सैकिया | ए एस एम / 1947 / 2001 | ग्राम भेटियानी, डाक बटाडाराबा, जिला नागार, पिन- 782122 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू / 2000 | |
| 1956 | सैयद रायाजुर रहमान, पुत्र श्री अब्दुर रहमान | बिहार एस वी सी / 1622 / 2000 | मौह, काजीवौचाक, डाक भागलपुर सिटी, थाना तातर पुर, जिला भागलपुर- 8120 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू / 64 | 2.1.43 |
| 1957 | सजल च. दास, पुत्र श्री सुनील च. दास | त्रिपुरा / 99 / 2000 | ग्राम कलाघांड कोबरापारा, बिरेंद्रनगर, थाना जिरानिया, त्रिपुरा प. | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | 18.12.75 |
| 1958 | सजल कांत मजुमदार, पुत्र ले. श्री सतीश | त्रिपुरा / 62 / 2000 | न. 12, कृष्णनगर रोड, विक्टर वीडियो कैसेट के निकट, डाक अगरतला | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू / 84 | 12.1.61 |
| 1959 | साजन जॉर्ज | केरल एस वी सी / 2508 / 2000 | थलाचिरा हाउस, कलिंगपट्टम, पन्नियंकारा डाक, पलवकड जिला - 678683 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू / 2000 | 14.5.76 |
| 1960 | संजय कुमार सिन्हा, पुत्र डॉ. राम दास सिन्हा | बिहार एस वी सी / 841 / 2000 | मौ. पोर्ट- ई, बोरिंग कनाल रोड, थाना बुधा कॉलोनी, जिला पटना, पिन- 800001 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू / 82 | 14.10.60 |
| 1961 | सजिथा आई एस | केरल एस वी सी / 2461 / 2000 | के- 4, कैलासनगर, केशव दासपुरम, डाक पट्टोम पैलेस, त्रिवेंदम | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू / 2000 | 16.5.77 |
| 1962 | साकरं पलेचा, पुत्र श्री के एम पलेचा | आर ए जे एस वी सी / 2698 / 2000 | iv ई 416- 417, जे एन वी कॉलोनी, बीकानेर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 29.12.74 |
| 1963 | साकेत बोडोला, पुत्र डॉ. एस पी बोडोला | यू पी वी सी / 3256 | रम्तुि भवन, अपर कालाबाढ़, कोटद्वारा, बौडी गढ़वाल, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 2000 | 25.7.77 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक आईटाएं | जन्मतिथि |
|---------|---|-------------------------------------|---|--|----------|
| 1964 | साकेत कुमार निरंजन, पुत्र श्री केशव दास निरंजन | यू.षी वी.सी./ 3230 | ग्राम गयार, डाक अकोरी फूले, ज़िला ज़ालौन, उ.प्र. | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./बी.वी.यू. ए.एड.टी./2000 | 20.6.76 |
| 1965 | साकेत कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव | बिहार एस.वी. सी./1808/ 2000 | ग्राम एयं डाक राजनीसाथ, थाना मुरलीगांज, ज़िला माधेपुरा, पिन- 852101 | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./आर.ए.यू./ 95 | 4.2.86 |
| 1966 | साकेत पाठक. | आर.ए.जे.एस वी.सी./2691/ /2000 | बड़ा गवादा, बड़ी बस्ती, पुस्कर, अजमेर | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./राज.कृ.वि वि./2000 | 12.2.75 |
| 1967 | सवित पदा सिंह, पुत्र श्री राजेंद्र कुमार सिंह | त्रिपुरा/ 37/ 2000 | अभोयनगर, हिन्दी स्कूल के निकट, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./बी.सी.के.वी. वी./78 | 26.6.64 |
| 1968 | सलाउददीन कुरैशी, पुत्र श्री शम्शुददीन | आर.ए.जे एस.वी.सी./ 2625/2000 | जामा अस्तिजद के निकट, सार मथुरा, धौलपुर- 328026 | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./राज.कृ.वि वि./2000 | 1.1.73 |
| 1969 | साल्फले गिरीश विट्ठल राव, पुत्र श्री विट्ठल राव साल्फले | आर.ए.जे एस.वी.सी./ 2746/2001 | 2 एफ 2, साई रत्न जवाहर नगर, नैनवान रोड, बूंदी राजस्थान | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./पी.के.वी./ 88 | 12.5.66 |
| 1970 | साल्वे प्रदीप बुधाजी, द्वारा श्री बी.ए साल्वे | एम.एस.वी. सी./6381/ 2000 | क.न. सी-13, केसाथुरी फैम्प, मजलगांव, तालुक मजलगांव, ज़िला बीड- 431142 | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./ए.ए.यू./ 2000 | 9.9.77 |
| 1971 | सैम वर्गीज | ए.एड.एन एस.वी.सी./ 79/2000 | म.न. 35, डी.पी.स्ट्रीट, लिलिपुर, हड्डो डाक, पोर्ट ब्लेयर- 744102 | बी.वी.एस.सी.टी. एन.वी.एड.ए.एस यू./ 2000 | 13.5.77 |
| 1972 | सामंत श्वेता रमेश | एम.एस.एम.वी. सी./6357/ 2000 | वर्षा सुगंध, म.न. ए-6, बवानीमाता रोड, अम्बोली, अंधेरी (प.)- 400058 | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./के.के.वी./ 2000 | 11.5.78 |
| 1973 | समर कांति मिश्रा, पुत्र श्री अनन्दा चरन मिश्रा | त्रिपुरा/ 26/ 2000 | 6, जे.बी.रोड, कृष्णानगर, अगरतला, त्रिपुरा वेस्ट | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./बी.सी.के वी.वी./77 | 10.5.53 |
| 1974 | समरेंद्र दास, पुत्र श्री उपेंद्र च. दास | त्रिपुरा/ 105/ 2000 | द्वारा पी.बी.यक्रबर्ती, सर्किट हाउस के पूर्व में, कुजाहा, अभोयनगर | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./ओ.यू.ए.एड टी./89 | 5.1.64 |
| 1975 | समर्था वी. पुत्री श्री वी.शौरेहियाह | ए.पी.एस.वी.सी./ 03620/2000 | आनंद भवन, आर्मी स्कूल के पीछे, पेराला, चिराला, प्रकासम ज़िला | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./ए.एन.जी आर.ए.यू./2000 | 16.8.77 |
| 1976 | समीर रंजन देवदास, पुत्र श्री रामानी मोहन | त्रिपुरा/ 93/ 2000 | डाक कठलिया, ग्राम महेशपुरा, सोनामुरा, त्रिपुरा (प.) | बी.वी.एस.सी.एड ए.एच./ए.ए.यू./ 93 | 5.1.65 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|--|----------|
| 1977 | समीरन साहा, पुत्र श्री रवींद्र कुमार साहा | त्रिपुरा / 87 / 2000 | टाउन प्रतापगढ़, सेंट्रल रोड, एक्स., अगरतला, त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 88 | 7.11.62 |
| 1978 | समीरन सिन्हा, पुत्र श्री बिस्वेश्वर सिन्हा | त्रिपुरा / 71 / 2000 | ग्राम तिलकपुर, डाक भगवान नगर, डाक कैलाशहर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 86 | 13.11.63 |
| 1979 | समरेंद्र बहादुर सिंह, पुत्र श्री सिपाही सिंह | बिहार एस वी सी / 1134 / 2000 | ग्राम एवं डाक बिक्रमगंज, जिला रोहतास, पिन— 802212 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 15.8.68 |
| 1980 | समुद्र बी, पुत्र श्री वेंकटराव | कर्ना / 3082 | द्वारा हलगारकर हाउस, श्री रागवेंद्र कॉलोनी, बिदर— 585401 | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 99 | 17.3.76 |
| 1981 | सनत कुमार पंडित, पुत्र श्री रघुनंदन पंडित | बिहार एस वी सी / 1093 / 2000 | ग्राम सपाहोना, डाक नोहनपुर, थाना गौरीचाक, जिला पटना, पिन— 804453 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 88 | 24.8.65 |
| 1982 | संदीप हलमंगडे, पुत्र श्री चंद्रकांत हलमंगडे | कर्ना एस वी सी / 3179 | म.न. ९—८—८३, बासवनगर कॉलोनी, बिदर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बैंगलौर / 2000 | 5.3.76 |
| 1983 | संदीप कौर, पुत्री श्री गुरबक्षा सिंह | पी वी एस वी सी / 2223 / 2001 | फैड्स कॉलोनी, सालोह रोड, नवाशहर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू / 2000 | 26.9.75 |
| 1984 | संदीप कुमार अग्रवाल, पुत्र डॉ. पी सी अग्रवाल | यू पी वी सी / 3282 | ५ / ४९२, विराम खंड, लखनऊ, बी वी एस सी एंड ए उ.प्र. उच/वी ए यू / 88 | | 4.2.63 |
| 1985 | संदीप कुमार गुप्ता, पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता | बिहार एस वी सी / 1977 / 2000 | एम— म.न. ८६ / ३, रालची रोड, बी वी एस सी एंड डाक अनवरगंज, थाना रॉयपुरवा, ए एच/सी एस ए जिला कानपुर, पिन— 208003 यू ए एंड टी / 98 | | 15.4.72 |
| 1986 | संदीप कुमार, पुत्र श्री विजय प्रताप भारती | एच ए आर एस वी सी / 1663 | ३३८, ३३९ सरोजनी कॉलोनी, वाई. नगर | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 24.9.77 |
| 1987 | संदीप कुमार, पुत्र श्री नात्री राम | एच ए आर एस वी सी / 1639 | १०२० / १, सी— vi सावनपुरी, जगाधरी | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 5.1.78 |
| 1988 | संदीप, पुत्र श्री बलबीर सिंह | एच ए आर एस वी सी / 1658 | १४७ / १, देवी नगर, गोहाना, सोनीपत | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 1.1.77 |
| 1989 | संदीप सिंह, पुत्र श्री जगतार सिंह | पी वी एस वी सी / 2204 / 2000 | ग्राम जरखार, डाक घावाडी, जिला लुधियाना | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 3.7.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|---|---|----------|
| 1990 | संदीपन चंद्रा, पुत्र स्व. श्री पी के चंद्रा | एम पी एस वी सी/ 1885/ 2000 | 126, नारायण नगर, जिला भोपाल— 462026 | बी वीएस सी/ बंगाल वेट कॉलेज/ 49 | 15.12.29 |
| 1991 | संदीप कुमार, पुत्र स्व. श्री कामता प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1417/ 2000 | ग्राम लक्ष्मीपुर, डाक माधेपुरा, थाना एवं जिला माधेपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 81 | 5.8.58 |
| 1992 | संगनागौडा, पुत्र श्री परम्पागौडा | कर्ना एस वी सी/ 3076 | केशवनगर, बासवानाबागे बाडी, बीजापुरा जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ 99 | 5.1.77 |
| 1993 | संगीता तिवारी, पुत्री श्री बी एम तिवारी | एम पी एस वी सी/ 1910/ 2000 | वेट हॉस्पिटल कैम्पस, मांडला जिला मांडला— 481661 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 87— 88 | 24.4.63 |
| 1994 | संगीता, पुत्री श्री बद्र्यराज बाफना | आर ए जे एस वी सी/ 2701/ 2000 | द्वारा: बाफना किलनिक, गांधी चौक, न्यू लेन, गंगा शहर, बीकानेर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृषि वि/ 2000 | 4.6.74 |
| 1995 | संजय अधिकारी, पुत्र श्री रामतारक अधिकारी | त्रिपुरा/ 80/ 2000 | ग्राम गोविंदपुर (प.), डाक कैलाशहर, उत्तरी त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 91 | 21.3.67 |
| 1996 | संजय अग्रवाल | आर ए जे एस वी सी/ 2637/2000 | म.न. 3660, शीतला माता स्ट्रीट, नीमदी पुलिस थाना पुरानी बस्ती, जयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृषि वि/ 2000 | 16.10.74 |
| 1997 | संजय डे, पुत्र स्व. श्री सत्य रंजन डे | त्रिपुरा/ 83/ 2000 | जे सी बोस सरनी, करचौ माहानी, कृष्णनगर, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 92 | 14.12.69 |
| 1998 | संजय जैन | आर ए जे एस वी सी/ 2641/ 2000 | द्वारा टीकाराम देवचंद जैन, खरजा रोड, कोठी, धौलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृषि वि/ 2000 | 7.6.73 |
| 1999 | संजय कुमार सिंह, पुत्र श्री राज कुमार सिंह | बिहार एस वी सी/ 1232/ 2000 | ग्राम एवं डाक नौदीहा, थाना पाटन, जिला पलामू | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 16.2.64 |
| 2000 | संजय कुमार सिंह, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1702/ 2000 | ग्राम कारसोप, डाक एवं थाना शम्भूगंज, जिला बंका, पिन— 813211 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 3 | 4.10.66 |
| 2001 | संजय कुमार | वी सी आई/ 2208/2000 | म.न. 393, ग्राम एवं डाक घेवरा, दिल्ली, पिन—110081 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 90 | 31.12.69 |
| 2002 | संजय कुमार चखेयार, पुत्र श्री किशोर प्रसाद चखेयार | बिहार एस वी सी/ 1570/ 2000 | मौह, बेलवान, डाक दुमरी बेलवान, थाना मदनपुर, जिला औरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 12.1.66 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| 2003 | संजय कुमार हूडा, पुत्र श्री इंदर सिंह हूडा | एच ए आर एस वी सी / 1618 | 928 / 28, भारत कॉलोनी, मॉडल टादन, रोहतक | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृषि वि/ 99 | 2.8.73 |
| 2004 | संजय कुमार पुत्र रत्न श्री भोला प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1006 / 2000 | ग्राम एवं डाक हथियानवा, थाना शेखपुरा, जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 3.7.70 |
| 2005 | संजय कुमार, पुत्र रत्न श्री सुरेश प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1764 / 2000 | ग्राम तूफानगंज, डाक स्मैह सराय, थाना राहुई, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 6.3.73 |
| 2006 | संजय कुमार, पुत्र श्री सच्चिदानन्द कुमार | बिहार एस वी सी / 1447 / 2000 | ग्राम घोकांदा, डाक एवं थाना चेवारा, जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 93 | 2.10.68 |
| 2007 | संजय कुमार, पुत्र श्री केदार नाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 2091 / 2001 | ग्राम बैकलपुर, डाक अचय, थाना कोच, जिला गया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 3.3.73 |
| 2008 | संजय कुमार, पुत्र श्री मदन प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 2041 / 2000 | ग्राम गोनमयचक, डाक एवं थाना सक्सोहरा, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 25.11.74 |
| 2009 | संजय कुमार, पुत्र श्री नंद किशोर सिंह | बिहार एस वी सी / 2054 / 2000 | ग्राम एवं डाक मिल्की, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 15.1.71 |
| 2010 | संजय कुमार, पुत्र श्री रामचंद्र साहू | बिहार एस वी सी / 1063 / 2000 | मौह. न्यू मधुकम रोड न. 2, थाना सुखदेव नगर, जिला रांची, पिन- 834001 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 4.3.65 |
| 2011 | संजय कुमार, पुत्र श्री रामजी प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1205 / 2000 | ग्राम राजौरा, डाक साबी, थाना बारबीघा, जिला शेखपुरा, पिन- 811101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 30.3.73 |
| 2012 | संजय कुमार, पुत्र श्री सीता राम प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1365 / 2000 | मौ. हनुमान गांधी थाने के निकट, डाक/थाना राजनीर, जिला नालंदा, पिन- 803116 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 5.2.72 |
| 2013 | संजय कुमार, पुत्र श्री जागेर राम | एच ए आर एस वी सी / 1630 | ग्राम एवं डाक बछोड़, तह. नारनौल (म.गढ़) | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 18.6.73 |
| 2014 | संजय नाथ, पुत्र श्री गुप्तेश्वर नाथ | बिहार एस वी सी / 1953 / 2000 | मौ. न्यू एरिया, बसार तालाब, डाक जी पी ओ, थाना सिविल लाइन, जिला गया | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 10.11.68 |
| 2015 | संजय प्रसाद, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1362 / 2000 | ग्राम सतगया, डाक एवं थाना हरिहरगंज, जिला पलामू | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 92 | 2.3.69 |

| क्र.सं. | नाम: | पंजी. सं. | पता: | जीकाणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|---|--|----------|
| 2016 | संजय शर्मा, पुत्र श्री श्याम सुंदर शर्मा | पी वी एस वी सी/ 2236/ 2001 | 11, घुम्ल रोड, रेलवे क्रॉसिंग नं. 22 के निकट, फटियाला | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए बू/ 2000 | 7.4.78 |
| 2017 | संजय यादव, पुत्र श्री ए एस यादव | एच ए आर एस वी सी/ 1633 | ग्राम एवं डाक कनीना, (म. मढ़) | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 3.7.78 |
| 2018 | संजय यादव, पुत्र श्री जी एल यादव | एच ए आर एस वी सी/ 1632 | 11—रेफ मॉडल टाउन, सिवाड़ी | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 5.5.75 |
| 2019 | संजीत कुमार, पुत्र डॉ. दिरंजी लाल | आर ए जे एस वी सी/ 2716/ 2000 | आर जेड, 8ई, पूरन नगर, पालन कॉलोनी, नई दिल्ली | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 96 | 6.9.72 |
| 2020 | संजीव गुम्बेर, पुत्र श्री शाम लाल गुम्बेर | पी वी एस वी सी/ 2212/ 2000 | स्ट्रीट नं. 2, चौक नं. 4, जैन नगर, अबोहर, जिला फिरोजाबाद—152116 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 27.2.77 |
| 2021 | संजीव कौशिक | आर ए जे एस वी सी/ 2649/ 2000 | 96, एफ, सेंट नगर, बुड़न स्टाल के निकट, हिसार, हरियाणा | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 93 | 2.4.71 |
| 2022 | संजीव कुमार ठाकुर, पुत्र श्री सत्येंद्र कुमार ठाकुर | बिहार एस वी सी/ 1515/ 2000 | ग्राम एवं डाक करुआ, थाना चकमचासी, जिला समस्तीपुर, पिन—848125 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 20.10.72 |
| 2023 | संजीव कुमार अम्रवाल, पुत्र श्री बृद्धावन दास | यू. पी वी सी/ 3237 | पम्पालाल धर्मशाला के सामने, हनुमान गढ़ी, हाथसस, उ.प्र. यू. ए एंड टी/ 2000 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी वी पी यू. ए एंड टी/ 2000 | 4.8.75 |
| 2024 | संजीव कुमार लिखारी, पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद तिवारी | बिहार एस वी सी/ 1980/ 2000 | ग्राम खामीचाक, डाक एवं थाना अमरपुर, जिला बंका, पिन—813101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 5.1.69 |
| 2025 | संजीव कुमार, पुत्र श्री जयदेव मुडल | बिहार एस वी सी/ 1013/ 2000 | ग्राम भघानीपुर, डाक नागर पट्ठा, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर, पिन—853203 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 89 | 5.1.59 |
| 2026 | संजीव कुमार, पुत्र डॉ. राम रहस्य सिंह | बिहार एस वी सी/ 1087/ 2000 | ग्राम जलपुरा, डाक श्रीपाल पुर, थाना कोइलवार, जिला असाह | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 1.1.72 |
| 2027 | संजीव कुमार, पुत्र श्री बाल किशोर सिंह | बिहार एस वी सी/ 1734/ 2000 | ग्राम नाके नाम साह दरगाह लेन्जभीखनपुर, थाना कोतवाली, डाक, जिला भागलपुर 812001 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 92 | 1.7.66 |
| 2028 | संजीव कुमार, पुत्र श्री दुखारन प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 960/ 2000 | ग्राम लोहरा, डाक लोहरा, थाना हस्नौट, जिला नालंदा, पिन—803110 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 27.12.67 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|---|---|--|----------|
| 2029 | संजीव कुमार, पुत्र श्री जागेश्वर पासवान | बिहार एस वी सी / 1973 / 2000 | ग्राम बंडाक लक्ष्मीसांगर, थाना बी वी एस सी एंड एल एन मिथिला यूनि. कैम्पस, ए एच/आर ए यू/ जिला दरभंगा, पिन- 846009 98 | | 15.8.71 |
| 2030 | संजीव पी एस, पुत्र श्री पी आर साहेब राव | ए पी एस वी सी / 03531 / 2000 | मारेपल्ली मोघा डाक, मदनूर एम.बी वी एस सी एंड निजामाबाद जिला ए एच/ मराठवाडा कृ वि वि / 98 | | 19.9.75 |
| 2031 | संजीव रंजन, पुत्र श्री जी पी एस विद्यार्थी | बिहार एस वी सी / 1904 / 2000 | ग्राम एवं डाक सारसे, थाना सारसे, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 1.9.67 |
| 2032 | संजीव राव एस, पुत्र श्री बंगारु | ए पी एस वी सी / 03667 / 2001 | चुरुवुमाधेवाराम डाक, नेलाकोडापल्ली एम, खम्मम जिला - 507169 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 92 | 15.8.67 |
| 2033 | संजीव कुमार आर शिंदे, पुत्र श्री राजाबे वी शिंदे | कर्ना एस वी सी / 3141 | द्वारा डॉ. आर बी शिंदे, क्वा. न.डब्ल्यू ए/204, टी एस पी कॉलोनी, टी बी डैम, हार्सेट | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 14.4.76 |
| 2034 | संजीव खान मियू | आर ए जे एस वी सी / 2677 / 2000 | ग्राम काफनवाडा, लक्ष्मण गढ़, अलवर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 21.12.71 |
| 2035 | संजीव दास, पुत्र श्री लालमोहन दास | त्रिपुरा / 90 / 2000 | ग्राम बर्दोवाली, डाक ए डी नगर, त्रिपुरा वेस्ट, पिन- 799003 | बी वी एस सी एंड ए एच/एच पी के वी वी / 94 | 25.9.69 |
| 2036 | संजीव कुमार पाल | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2793 / 2000 | ग्राम बाजितपोर, डाक लक्ष्मीनाथपोर, थाना डोमकल, जिला मुर्शिदाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू एफएस / 2000 | |
| 2037 | संजीव मजुमदार, पुत्र श्री बरदा चरन मजुमदार | त्रिपुरा / 18 / 2000 | धालेश्वर (रेटिड), अगरतला | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 16.9.52 |
| 2038 | संजीव कुमार, पुत्र श्री वेद व्रत | आर ए जे एस वी सी / 2723 / 2000 | द्वारा श्री डाल चंद चौधरी, 86, सवीना, जयसमंद मेन रोड, उदयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 92 | 30.6.69 |
| 2039 | संजीव मुजोजी भोसले | आर ए जे एस वी सी / 2611 / 000 | ए/पी चापाली, तह. भीम, जिला राजसमंद, ताया: देवगढ़, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 95 | 3.5.72 |
| 2040 | संकर भट्टाचार्य, पुत्र श्री भूपेश च. | त्रिपुरा / 39 / 2000 | कॉलेज तिल्ला, अगरतला, पिन- 799004 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 80 | 2.3.55 |
| 2041 | संकर सेन, पुत्र ले. श्री प्रताप च. सेन | त्रिपुरा / 1 / 2000 | 32, सी आर रोड, डाक अगरतला, कॉलेज, त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/ ओ यू/ 58 | 3.1.37 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|--|---|----------|
| 2042 | संकरा नारायण जी | केरल एस वी सी / 2520 / 2000 | 3 / 830, पेरुनथलमन्ना (आर), मेलापट्टम्बी, डाक पट्टम्बी, पलक्कड़, पिन- 679303 | बी वी एस सी / टी एन वी एंड ए एस यू / 95 | 5.6.72 |
| 2043 | संत कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री पुखराज सिंह | बिहार एस वी सी / 1992 / 2000 | ग्राम अरसनडे, डाक एवं थाना आर वी कॉलेज, जिला रांची, पिन- 834006 | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 72 | 16.7.50 |
| 2044 | संतोष कुमार डी, पुत्र श्री बोम्मे गौडा | कर्ना एस वी सी / 3097 | न. 22, बाइरप्पा लेआउट, आर एम वी ।। स्टेज, नागा शेट्टाहल्ली, बंगलौर- 94 | बी वी एस सी / यू ए एस बंगलौर / 96 | 8.4.76 |
| 2045 | संतोष कुमार भौमिक, पुत्र श्री हरे कृष्ण भौमिक | त्रिपुरा / 28 / 2000 | 2, विवेकानंद रोड, मास्टरपाड़ा, टाउन प्रतापगढ़, अगरतला | बी वी एस सी एंड ए एच / बी सी के वी वी / 77 | 7.4.54 |
| 2046 | संतोष कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री परमेश्वर प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1616 / 2000 | मौह. महेश निवास, कदम कुआं, नाला रोड, जिला पटना, पिन- 800003 | बी वी एस सी एंड ए एच / एम यू / 63 | 10.3.41 |
| 2047 | संतोष कुमार जैन, पुत्र स्व. श्री बाबू लाल जैन | एम पी एस वी सी / 1933 / 2001 | आर- 43, सिविल लाइन, टीकमगढ़- 472001 | बी वी एस सी एंड ए एच / जे एन के वी वी / 77- 78 | 29.8.53 |
| 2048 | संतोष कुमार, पुत्र श्री अर्जुन दास | एच ए आर एस वी सी / 1681 | ग्राम एवं डाक गाबीपुर, तह. बरवाला (हिसार) | बी वी एस सी एंड ए एच / सी सी एस एच ए यू / 2000 | 5.1.75 |
| 2049 | संतोष कुमार सिंह, पुत्र श्री एम पी सिंह | यू पी वी सी / 3315 | ग्राम भीखनपुर, डाक पट्टी, नरेंद्रपुर, जिला जौनपुर | बी वी एस सी एंड ए एच / सी एस ए यू ए एंड टी / 2000 | 15.4.77 |
| 2050 | संतोष कुमार, पुत्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1960 / 2000 | ग्राम खीरमैना, डाक नरोमुरार, थाना वरसालीगंज, जिला नवादा- 805130 | बी वी एस सी एंड ए एच / एच पी के यू / 97 | 25.5.71 |
| 2051 | सांतु दास | डब्ल्यू वी एस वी सी / 2826 / 2000 | ग्राम केशियारी भुनियाबाड़, डाक प्रतापपुर, जिला मिदनापुर | बी वी एस सी एंड ए एच / डब्ल्यू वी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 2052 | सपना कुमारी, पुत्री श्री राम चंद्र साहू | बिहार एस वी सी / 1439 / 2000 | मौ. वी आर वी कॉलेज का दक्षिण, डाक मोहनपुर रोड, थाना एवं जिला समस्तीपुर- 848101 | बी वी एस सी एंड ए एच / आर ए यू / 96 | 1.7.72 |
| 2053 | सारथी एम, पुत्र श्री श्रीरामा मूर्ति | ए पी एस वी सी / 03633 / 2000 | कोटारेड्डीनगर, कांडुकुरु, प्रकासम जिला- 523105 | बी वी एस सी एंड ए एच / ए एन जी आर ए यू / 2000 | 15.4.77 |
| 2054 | श्रवनन पी | केरल एस वी सी / 2521 / 2000 | एन पी ।।-365, काईकटटी, नेलियमपट्टी, पलक्कड़- 678511 | बी वी एस सी / टी एन वी एंड ए एस यू / 95 | 8.5.72 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|----------------------------|--|---|----------|
| 2055 | सारदा तिवारी, पुत्र श्री दीप नारायण तिवारी | बिहार एस वी सी/ 1080/ 2000 | एम वार्ड नं. 10, टाउन एरिया, बी वी एस सी एंड ए 7.5.47 डाक एवं थना सिउराही, जिला एच/एम यू/70 कुशीनगर, राज्य उ.प्र. | | |
| 2056 | सरफराज अहमद | बी सी आई/ 2202/ 2000 | सुधान, वेट. कॉलेज, एस के यू बी वी एस सी एंड ए 26.8.70 ए एस टी, जम्मू आर.एस पुस, एच/एस के यू ए जम्मू(ज.एवं क.)— 181102 एस एंड टी/2000 | | |
| 2057 | सर्मा डॉ. बाबुल चंद्र, पुत्र ए एस एम/ ख. श्री कांडरपेश्वर देव | 1919/ 2000 | प्रोफे. डिपा. एनीमल फिजियोलॉजी, सी वी एस सी, खानापाड़ा, गुवाहाटी— 22 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 75 | |
| 2058 | सर्मा डॉ. दिलीप कुमार, पुत्र ख. श्री धनेश्वर सर्मा | ए एस एम/ 1921/ 2000 | द्वारा श्री मालिन च. सर्मा, ग्राम पाटिकासा, डाक जलखाना, जिला नलबारी, असम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 2059 | सरोज काति घोष, पुत्र श्री माहिम च. घोष | त्रिपुरा/ 42/ 2000 | डाक रामनगर रोड— 1, अगरतला, बी वी एस सी एंड ए त्रिपुरा वेस्ट | 28.4.58 एच/बी सी के वी वी/ 80 | |
| 2060 | सरोज कुमार, पुत्र श्री दीरेंद्र सिंह | यू पी वी सी/ 3280 | ग्राम एवं डाक हस्तियुर, जिला उन्नाद (उ.प्र.)— 241502 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 2000 | 10.12.78 |
| 2061 | सरोज कुमार, पुत्र श्री दीरेंद्र प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 885/ 2000 | ग्राम माधोपुर, डाक माधोपुर, थाना चंदी, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 96 | 2.12.68 |
| 2062 | सरोवर शरन सिंह, पुत्र ख. श्री गुंजो प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1517/ 2000 | ग्राम एवं डाक माहसौस, थाना एवं जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 3.5.47 |
| 2063 | सरवन सिंह कटारिया, पुत्र श्री इंदर सिंह कटारिया | पी बी एस वी सी/ 2198/ 2000 | ग्राम चुहासवाली, डाक आदमपुर दोआबा, जिला जालंधर, पंजाब | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 1.10.75 |
| 2064 | सरयू प्रसाद सिंह, पुत्र ख. श्री नरदयाल सिंह | बिहार एस वी सी/ 1405/ 2000 | ग्राम एवं डाक मणि, थाना विक्रमगंज, जिला सोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 13.7.46 |
| 2065 | सरयुग प्रसाद सिंह, पुत्र ख. श्री महादेव प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1853/ 2000 | ग्राम कोकिला, डाक मीरचायगंज, थाना एवं जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 15.3.43 |
| 2066 | शशिधारा आर जी, पुत्र श्री के आर गोविंदा रेड्डी | कर्ना/ 3209 | शशिधारा पोलट्टी फार्म, मोगलाहल्ली, मोलाकलमूर तालुक, चित्रदुर्ग जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 30.4.78 |
| 2067 | सत्यनारायण रेड्डी ए, पुत्र श्री ए सम्वासिता रेड्डी | ए पी एस वी सी/ 03578/ 2000 | डी आर न.15/ 1179— 2, तीसरा रोड, संजीवनगर, ताडपत्री— 515411 | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 69 | 1.6.45 |

| क्र. सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मातिथि |
|----------|--|--------------------------------|--|---|-----------|
| 2068 | साठे अशोक माणिक | एम एस वी सी / 8408 / 2001 | एटी डाक गुनवारे, तालुक फाल्टन, जिला सतारा— 415523 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी डी के पी/ 1999 | 8.8.74 |
| 2069 | सत्यनारायण राव एवं पुत्र श्री एम नान्दुदइयांह | कर्ना एस वी सी / 3113 | सी 2, नाल कैम्प्युट, एवरपोट रोड, बंगलौर | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 70 | 29.11.46 |
| 2070 | सतिकांत मिश्रा, पुत्र श्री कांत मिश्रा | बिहार एस वी सी / 1871 / 2000 | एम—फ्लैट न. 25, श्रीकुंज अपा, डाक एवं थाना बुधा कॉलोनी, पटना— 800001 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी यू/ 58 | 2.3.38 |
| 2071 | सतिन्द्र जीत सिंह, पुत्र श्री गुरदीप सिंह | पी वी एस वी सी / 2236 / 2001 | ग्राम एवं डाक बिल्ला, पट्टी, मसूर, जालंधर | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 18.10.76 |
| 2072 | सतीस प्रसाद, पुत्र स्व. श्री राम चिंदेणी | बिहार एस वी सी / 1025 / 2000 | एम— भोजना वार्ड न.1, डल्लू, बाजार, डाक/थाना भोजना, कैमूर— 821109 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 20.12.53 |
| 2073 | सतीश चंद | आर ए जे एस वी सी / 2636 / 2000 | ग्राम एवं डाक नुनहरा, तह. सदपाल, धौलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज क. वि वि/ 2000 | 15.11.73 |
| 2074 | सतीश कुमार, पुत्र श्री बाबू राम | पी वी एस वी सी / 2226 / 2001 | म.न. बी—1—523, प्रेम नगर, बालाबी बी एस सी एंड ए स्कूल के निकट, 151204, कोटकापुरा | एच/पी ए यू/2000 | 8.4.77 |
| 2075 | सतीश कुमार, पुत्र श्री नंद किशोर प्रसाद रिंह | बिहार एस वी सी / 1918 / 2000 | ग्राम रत्नपुरा, डाक दरियापुर, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 2.1.64 |
| 2076 | सतीश कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद साह | बिहार एस वी सी / 1279 / 2000 | मौह. बी आर बी कॉलेज, डाक मोहनपुर रोड, थाना एवं जिला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 19.11.69 |
| 2077 | सतीश शर्मा, पुत्र श्री डी सी शर्मा | आर ए जे एस वी सी / 2727 / 2000 | इंचार्ज, गवर्न. वेट, हॉस्पिटल, दावर, राजसमंद | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 94 | 19.3.71 |
| 2078 | सत्य नारायण प्रसाद, पुत्र श्री तेज नारायण प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1096 / 2000 | मौह. श्रीकृष्णपुरी, नया टोला, थाना काजी मौहम्मदपुर, डाक एवं जिला मुजफ्फरपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 1.4.51 |
| 2079 | सत्य नारायण रॉय, पुत्र स्व. श्री झगेला रॉय | बिहार एस वी सी / 878 / 2000 | मौह. दरियापुर गोला, डाक बंकीपुर, थाना कदमकुआं, पटना— 800004 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 22.6.45 |
| 2080 | सत्य नारायण शर्मा, पुत्र श्री देवी चंद जी | आर ए जे एस वी सी / 2712 / 2000 | सत्यम् 88, राजीवनगर, जोधपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/उदयपुर वि वि/ 68 | 10.11.43 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएँ | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|--|--|----------|
| 2081 | सत्य नारायण सिंह, पुत्र स्व. श्री बासूदेव सिंह | बिहार एस वी सी / 1431 / 2000 | ग्राम रतन टोला, डाक मेहदावन, थाना मनेर, जिला पटना, पिन- 801108 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 1.1.54 |
| 2082 | सत्य नारायण सिंह, पुत्र स्व. श्री शिव बचन सिंह | बिहार एस वी सी / 1654 / 2000 | ग्राम भोखारी, डाक बिसो दिहारी, थाना करगाहार, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 1.11.47 |
| 2083 | सत्य नारायण तिवारी, पुत्र स्व. श्री राजेंद्र दत्त तिवारी | बिहार एस वी सी / 1260 / 2000 | मौ.महाजन टोली न. 2,डाक आराह टाउन, थाना.आराह सदर, जिला भोजपुर, आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 14.7.49 |
| 2084 | सत्य नारायण यादव, पुत्र स्व. श्री चंद्र प्रसाद यादव | बिहार एस वी सी / 1450 / 2000 | ग्राम एवं डाक वाजखोरा, थाना किसनपुर, जिला सुपील, पिन- 847402 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 89 | 2.6.65 |
| 2085 | सत्य निधि शुक्ला, पुत्र स्व. श्री प्रेमसुख शुक्ला | एम पी एस वी सी / 1920 / 2000 | शुक्ल राज आश्रम, नगर बाग, छतरपुर- 471001 | बी वी एस सी एंड ए एच/आई जी के वी वी / 2000 | 20.4.76 |
| 2086 | सत्य पाल सिंह राठी, पुत्र श्री मांगे राम | यू पी वी सी / 3220 | 733, एम आई जी आवास विकास कॉलोनी, बुलंदशहर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी वी पी यू ए एंड टी / 99 | 4.1.58 |
| 2087 | सत्य सुंदर देब बर्मा, पुत्र श्री बीरालाल देब बर्मा | त्रिपुरा / 85 / 2000 | नार्थ बनमालीपुर, त्रिपुरा, अगरतला व्रेस्ट | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 88 | 2.11.64 |
| 2088 | सत्येंद्र सिंह, पुत्र श्री नारायण सिंह | एच ए आर एस वी म.न. 387, सी / 1637 | म.न. 387, पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रोहतक | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू / 2000 | 27.10.76 |
| 2089 | सत्यजय कारकेटा, पुत्र श्री फिलिप कारकेटा | बिहार एस वी सी / 1710 / 2000 | भ्राम सिकरिया, डाक एवं थाना भंडारिया, जिला गढ़ीवा, पिन- 822125 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 94 | 8.10.69 |
| 2090 | सत्यनारायण जी, पुत्र श्री जी गंगना | ए पी एस वी सी / 03571 / 2000 | चैत्यापेटा, केइकलूर, कृष्णा जिला- 521333 | बी वी एस सी / ए पी ए यू / 68 | 13.2.45 |
| 2091 | सत्यनारायण एम, पुत्र श्री एम वेंकट रमनरासिया | ए पी एस वी सी / 03545 / 2000 | म.न.1-11-25 / 2,भवानी कॉलोनी, प्रेमवधीपेट, राजेंद्रनगर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 87 | 31.10.65 |
| 2092 | सत्यनारायण रेड्डी पी, पुत्र श्री पी वेंकटेश्वर | ए पी एस वी सी / 03530 / 2000 | नागुलावरम डाक, माघेरला एम, गुंदूर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू / 99 | 15.6.74 |
| 2093 | सत्यप्रकाश नारायण, पुत्र स्व. श्री सत्य नारायण साहू | बिहार एस वी सी / 1079 / 2000 | ग्राम एवं थाना कोपा, डाक कोपा बाजार, जिला छपरा, पिन- 841214 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 84 | 13.5.59 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|---|----------|
| 2094 | सत्यदेव सिंह, पुत्र स्व. श्री हरिनंदन सिंह | बिहार एस वी सी / 1800 / 2000 | ग्राम एवं डाक मोआप कला, थाना तारारी, जिला आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 2.9.42 |
| 2095 | सत्येंद्र कुमार चौधरी, पुत्र श्री लक्ष्मेश्वर चौधरी | बिहार एस वी सी / 2081 / 2001 | ग्राम एवं डाक नेहरा, थाना मेरीगांधी, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 3.5.74 |
| 2096 | सत्येंद्र कुमार, पुत्र श्री हरे कृष्ण प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1831 / 2000 | ग्राम गोविंदपुर, डाक बंगपुर, थाना परबलपुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 82 | 10.11.56 |
| 2097 | सत्य प्रकाश, पुत्र श्री देव मंगल सिंह | बिहार एस वी सी / 1342 / 2000 | ग्राम एवं डाक सिवरामपुर, थाना पालीगंज, जिला पटना, पिन- 801110 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 81 | 9.7.55 |
| 2098 | सत्यब्रत सिंह, पुत्र श्री सीता राम सिंह | यू.पी.वी.सी./ 3304 | ग्राम लहसानी, डाक नागारा, जिला बलिया, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/टी एन वी एंड ए एस यू/98 | 14.9.74 |
| 2099 | सौरभ कुमार गुप्ता, पुत्र श्री पुरुषोत्तम | आर ए जे एस वी सी/2728 / 2000 | निमोद कुचामन सिटी, नागौर, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए के ई पी वी वी/96 | 5.4.69 |
| 2100 | सविता ए | केरल, एस वी सी / 2495 / 2000 | अम्मानथ हाऊस, ईडक्कुलम, डाक थंगलूर, थिसूर, पिन- 680581 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 5.5.77 |
| 2101 | सावासे प्रवीण सुभाष | एम एस वी सी / 6403 / 2000 | एटी डाक तुंगट, तालुक पंढारपुर, जिला सोलापुर- 413304 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 2000 | 2.6.78 |
| 2102 | सावले गणेश किशन | एम एस वी सी / 6377 / 2000 | एटी वारुद गावली, डाक सावद, तालुक हिंगोली, जिला हिंगोली- 431513 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 2000 | 26.12.77 |
| 2103 | सैयद नजीमुद्दीन अहमद, पुत्र स्व. श्री सैयद हशीमुद्दीनअहमद | बिहार एस वी सी / 1228 / 2000 | मौ लोदी कटरा, खान बहादुर मोइनुद्दीन रोड, डाक त थाना चौक थाना, पटना- 800008 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 10.5.45 |
| 2104 | सीमा भाकोर, पुत्री श्री उमेद सिंह | एच ए आर एस वी सी / 1629 | साबंत हॉस्पिटल, कैम्पू चौक के निकट, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/2000 | 2.2.78 |
| 2105 | सीना एस आई | केरल एस वी सी / 2500 / 2000 | पुथेनविला वीडू, नीलास्वरम डाक, पाडिनजटिटनकारा, कोट्टाराकारा | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 13.3.74 |
| 2106 | सेनापति डॉ. (कू.) मीताली, पुत्री श्री रूपेश्वर सेनापति | ए एस एम / 1916 / 2000 | झारा सार्जे. आर सेनापति, ग्राम एवं डाक फुलागुरी, जिला नागांव (असाम) | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|--|----------|
| 2107 | सेथिल कुमार के | केरल एस वी सी / 2457 / 2000 | 2 / 613, नागरीपुरम, मन्नूर डाक, पल्लवकुड जिला | बी वी एस री/टी एन वी एंड ए एस यू/ 95 | 23.8.71 |
| 2108 | शहादत हुसैन, पुत्र रख.श्री हफीज मेहदी हसन | बिहार एस वी सी / 2045 / 2000 | ग्राम शमशीरनगर, डाक पॉस्टोफॉर्मीक, थाना भुली, जिला धमबाब | बी. वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 11.2.54 |
| 2109 | शहबाज सिंह, पुत्र श्री मलकीत सिंह | पी वी एस वी सी / 2240 / 2001 | 42, शांत पार्क, अगरनगर -1,को निकट, लुधियाना | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 25.10.76 |
| 2110 | शैक अब्दुल रहमान, पुत्र श्री शैक खादिर साहिब | ए पी एस वी सी / 03583 / 2000 | गोल्लापेटा ग्राम,गुमपरलापडु (एस ओ), नेत्तूर जिला | यू पी वी सी/ए पी ए यू/ 75 | 1.7.48 |
| 2111 | शैलेंद्र प्रसाद, पुत्र श्री राम किशन महतो | बिहार एस वी सी / 1369 / 2000 | ग्राम भारती, डाक बोगीपुर, थाना हिलसा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 92 | 15.1.67 |
| 2112 | शैलेंद्र भारती, पुत्र रख. श्री योगेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1199 / 2000 | मौह. सरस्वती निवास, डाक लालपुर, थाना लालपुर के निकट, रांची- 834001 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 1.1.60 |
| 2113 | शैलेंद्र कुमार सिंह, पुत्र रख. श्री रामचंद्रमा सिंह | बिहार एस वी सी / 1675 / 2000 | ग्राम काडरु, डाक दोरांडा, थाना आरगोरा, जिला रांची, पिन- 834002 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 5.3.69 |
| 2114 | शैलेंद्र कुमार सिन्हा, पुत्र श्री परमेश्वर सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1141 / 2000 | मौ. सिन्हा निवास, सैदपुर, डाक बंकीपुर,थाना कदमकुआं, पटना- 800004 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 28.1.61 |
| 2115 | शैलेंद्र कुमार, पुत्र रख. श्री प्रवेग सिंह | बिहार एस वी सी / 1514 / 2000 | ग्राम मनोहर बीघा, डाक तेलहारा, थाना एकंगरसराय, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 28.6.47 |
| 2116 | शैलेंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1693 / 2000 | ग्राम एवं डाक राजेंद्र नगर, रोड नं. 1, थाना कदमकुआं, जिला पटना- 800016 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 69 | 12.4.45 |
| 2117 | शाजी के री | केरल एस वी सी / 2441 / 2000 | 22 / vi, डाक मरायूर जिला इडुक्की, पिन- 685620 | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 92 | 12.5.69 |
| 2118 | शकील अहमद मौह., पुत्र मौह. मोइउद्दीन शैदा | बिहार एस वी सी / 1002 / 2000 | ग्राम जानीपुर, थाना जानीपुर, डाक जानीपुर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 1.10.60 |
| 2119 | शालिग्राम मंडल, पुत्र श्री सम्पति लाल मंडल | बिहार एस वी सी / 1612 / 2000 | ग्राम मरेंदपुर, डाक मोहदिव मठ, जिला मधुबनी, पिन- 847452 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 83 | 2.2.58 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहवाल | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|---|---|----------|
| 2120 | शालिग्राम शर्मा, पुत्र स्व. श्री शिवनंदन शर्मा | बिहार एस वी सी / 1281 / 2000 | ग्राम एवं डाक मार्ग, थाना घोरी, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 3.11.44 |
| 2121 | शम्भू कुमार, पुत्र स्व. श्री जितेंद्र कुमार | बिहार एस वी सी / 977 / 2000 | ग्राम सिंधुआराह, डाक मंकेर, थाना चंडी, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 7.6.73 |
| 2122 | शम्भू नाथ, पुत्र स्व. श्री तारकेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1332 / 2000 | मौ. अदाबागंज, एस वी रोड, डाक एवं थाना डाल्टनगंज, जिला पलामू, पिन 800020 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 4.10.43 |
| 2123 | शम्भू शरन सिंह, पुत्र श्री राम कृष्ण सिंह | बिहार एस वी सी / 997 / 2000 | ग्राम अवधी, डाक अवधी, थाना दायाथ, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/जी वी पी यू ए एंड टी/78 | 11:10.55 |
| 2124 | शमीम एच | केरल एस वी सी / 2504 / 2000 | शरीना भंजिल, खांगामुरी, नेयाटिकारा, विवेद्रम— 895121 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 18.5.76 |
| 2125 | शम्सुल हक, पुत्र श्री मौह. अमीन | बिहार एस वी सी / 1997 / 2000 | मौ. मिलात कोलोनी, ब्लॉक रोड, डाक एवं थाना कनके, जिला रांधी, पिन— 834006 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 2.1.52 |
| 2126 | शनिला कुमार पी, पुत्री श्री पी एस आर सांता कुमार | ए पी एस वी सी / 03621 / 2000 | डाक पुतरेला, कृष्णा जिला— 521227 | बी वी एस सी एंड ए एच/व एन जी आर ए यू/ 2000 | 26.8.76 |
| 2127 | शेकर अरुण कुमार, पुत्र श्री यमुना प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1112 / 2000 | ग्राम रामपुर, डाक कथनामा, थाना मखदूरपुर, जिला जहानाबाद, पिन— 804422 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 17.1.54 |
| 2128 | शंकर दयाल सिंह, पुत्र स्व. श्री एस के सिंह | बिहार एस वी सी / 1477 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना लार, जिला देवरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 13.12.44 |
| 2129 | शंकर कार, पुत्र श्री श्याम लाल कानलीकर | बिहार एस वी सी / 1984 / 2000 | ग्राम मंडराज बीघा, डाक आर एस गया, थाना देल्हा, जिला गया, पिन— 823002 | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू वी यू ए एफ एस/2000 | 19.5.75 |
| 2130 | शंकर गौड़ा, पुत्र श्री भीमनेगौड़ा एन मुदीगौदार | कर्ना एस वी सी / 3144 | डाक हलूर, तालुक एवं जिला बगलकोट | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/2000 | 1.6.76 |
| 2131 | शरद कुमार, पुत्र श्री अंरविंद सिंह | यू. पी. वी. सी./ 3209 | ग्राम एवं डाक इब्राहीम पट्टी, बलिया, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 7.3.75 |
| 2132 | शरद विष्णु भाले, पुत्र श्री वी पी भाले | एम पी. एस. सी./ 1889 / 2000 | एफ— 8, पॉलीटेक्नीक कैम्पस, राजगढ़ रोड, झज्जुआ— 457661 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/85-86 | 11.8.63 |

| क्र.सं. | नाम | पंजा. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|----------|
| 2133 | श्रवण कुमार प्रसाद, पुत्र स्व. श्री छोटन राम | बिहार एस वी सी/ 1250/ 2000 | ग्राम ,डाक एवं थाना परवलपुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 7.12.49 |
| 2134 | शारदा कुमार, पुत्र स्व. श्री नंद प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1579/ 2000 | ग्राम लक्ष्मीपुर, डाक गौरीपुर, थाना पसोतमपुर, जिला प. चम्पारन (बेतिया) | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 15.6.48 |
| 2135 | शर्मा डॉ. (कुमारी) पूर्णिमा, पुत्री श्री अवनीनीद्र कुमार | ए एस एम/ 1949/2001 | द्वारा अमित स्टोर्स, ए टी रोड, जोरहाट, पिन- 785001 असम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 2136 | शर्मा डॉ. (कुमारी) पंचमी, पुत्री डॉ. जगन्नाथ | ए एस एम/ 1933/2000 | द्वारा श्रीमती बी उपाध्याय, गणेश मिल रोड, तेजपुर, जिला सोनितपुर, असम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 2137 | शशि भूषण पांडे, पुत्र स्व. श्री विद्याधर पांडे | बिहार एस वी सी/901/ 2000 | मौह. गर्दानीबाग, थाना गर्दानीबाग, डाक अनीसाबाद, जिला पटना, पिन- 800002 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 24.7.48 |
| 2138 | शशि भूषण प्रसाद गुप्ता, पुत्र स्व. श्री नागेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1737/ 2000 | ग्राम रामपुर अलौली, डाक एवं थाना अलौली, जिला खगरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 5.5.58 |
| 2139 | शशि भूषण प्रसाद सिन्हा, पुत्र श्री बांके बिहारी प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1131/ 2000 | ग्राम ईश्वरचाक, डाक कठ राही, थाना बदि, नालंदा, पिन- 803101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 92 | 19.1.66 |
| 2140 | शशि भूषण वर्मा, पुत्र श्री प्रेमचंद्र वर्मा | बिहार एस वी सी/ 1416/ 2000 | ग्राम ईस्ट मोरावाडी, डाक आर वी कॉलेज कैम्पस, थाना कनके, जिला रांची- 834008 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 3.11.46 |
| 2141 | शशि भूषण वर्मा, पुत्र श्री योगेंद्र प्रसाद वर्मा | बिहार एस वी सी/ 1317/ 2000 | मौ. फैंडस कॉलोनी, डाक आशियाना नगर, थाना शास्त्री नगर, पटना- 800025 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 75 | 5.7.52 |
| 2142 | शशि भूषण प्रसाद सिंह, पुत्र श्री राजा रामचंद्र प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1145/ 2000 | ग्राम एवं डाक ऐफानी, थाना अरियारी, जिला शेखपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 13.7.48 |
| 2143 | शशिकांत रघुनाथ राजत, पुत्र श्री रघुनाथ | आर ए जे एस वी सी/2756/ 2001 | 1/सी, गवर्नर्सेट, हॉस्पिटल, देगाना, नागौर | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 97- 98 | 9.3.76 |
| 2144 | शशि कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री सुखदेव नारायण सिन्हा | बिहार एस वी सी/ 1668/ 2000 | ग्राम डाक एवं थाना बरहारिया, जिला सीवन | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 1.7.43 |
| 2145 | शशिभूषण प्रसाद, पुत्र स्व. श्री राम ठहल प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1771/ 2000 | ग्राम एवं डाक बारिस मालिवा, थाना खगरिया- 851203 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 89 | 1.3.64 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|----------------------------------|--|---|----------|
| 2146 | शशिधर राव, पुत्र ख. श्री बलदेव प्रसाद राव | बिहार एस वी सी/ 1406/ 2000 | ग्राम बारातीकार, डाक लीलातारी, थान बाराहाट, जिला बंका | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 86 | 6.1.61 |
| 2147 | शशिधर सिंह, पुत्र स्व.श्री दरवरारी प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1435/ 2000 | ग्राम बनिया, डाक भवानपुर, थाना गोपालपुर, जिला भागलपुर, पिन- 853204 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 97 | 11.12.69 |
| 2148 | शस्त्रिकांत प्रसाद, पुत्र श्री रामकेश्वर सिंह | बिहार एस वी सी/ 1316/ 2000 | ग्राम भदुहा, डाक इटानगर, थाना राहनी, जिला नालंदा | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 82 | 2.11.58 |
| 2149 | शनुष्ठं प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री नित्यानंद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1700/ 2000 | ग्राम एवं डाक सोनवर्षा घाट, थाना घौथम, जिला खगरिया, पिन- 851201 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 92 | 1.1.65 |
| 2150 | श्याम मुकुद महापा, पुत्र स्व. श्री शिवनंदन प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1563/ 2000 | ग्राम संलेमपुर, डाक एवं थाना टीकरी, जिला गया | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 66 | 7.6.42 |
| 2151 | शीजा के | केरल एस वी सी/ 2455/ 2000 | ललिथा भवन, के एस ई बी के निकट, वजायिलो रोड, डाक पेस्ऱरकड़ा, त्रिवेंद्रम- 5 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 29.3.71 |
| 2152 | शीला सैली टी जॉर्ज | केरल एस वी सी/ 2449/ 2000 | थडामलायिल मेलुकावू डाक कोटटायम- 686652 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 29.1.76 |
| 2153 | शीता जोसेफ | केरल एस वी सी/ 2473/ 2000 | किजाकलायिल हाउस, नाकापुजा डाक, कल्लूरकड (वाया), मुवटुपुजा, अर्नाकुलम | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 12.5.77 |
| 2154 | शेकर, पुत्र श्री शिवन्ना | कर्ना एस वी सी/ 3071 | चिंधोली (बी) डाक, अलंद तालुक, गुलबर्गा जिला | बी वी एस सी एड ए एच/यू ए एस धारवाड/99 | 3.6.76 |
| 2155 | शेखर कुमार, पुत्र श्री भूतनेश्वर महतो | बिहार एस वी सी/ 2040/ 2000 | ग्राम एवं डाक पहाडपुर, थाना मैदनी चाक, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 88 | 14.1.64 |
| 2156 | शैली कौर, पुत्री श्री भुपिंदर सिंह | पी वी एस वी सी/ 2280/ 2001 | म.न. 2516, फेज- vii, मोहाली | बी वी एस सी एड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 21.12.75 |
| 2157 | शिओ जनम सिंह, पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह | बिहार एस वी सी/ 828/ 2000 | ग्राम मनेर तेलपा, डाक एवं थाना बिक्रम, जिला पटना | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 75 | 2.8.52 |
| 2158 | शिओ मोहन लाल, पुत्र स्व. श्री जे एम लाल सिन्हा | कर्ना/ 3095 | न. 255/ 98, कुंडिरी स्काबगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | बी वी एस सी एड ए एच/यू पी ए यू/ 66 | 9.11.44 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|---|--|----------|
| 2159 | शिओ शंकर सिंह, पुत्र श्री सुखी सिंह | बिहार एस वी सी / 1716 / 2000 | ग्राम केरची, डाक एवं थाना कुदरा, जिला कैमूर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 6.7.49 |
| 2160 | शिओपूजन कुमार, पुत्र श्री कंचन ठाकुर | बिहार एस वी सी / 1640 / 2000 | ग्राम एवं डाक पवाई, थाना एवं जिला औरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 88 | 24.9.59 |
| 2161 | शेषमुनि राम, पुत्र श्री शिवराज शर्मा | बिहार एस वी सी / 1704 / 2000 | ग्राम थोरी पांडेपुर, डाक एवं थाना मुरार, जिला बक्सर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 11.7.48 |
| 2162 | शेता रघुवंशी, पुत्री डॉ. राजेंद्र सिंह | यू पी वी री / 3276 | पुत्री राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष एल ईएस छिवीजन, आईटीआरआई, इंजिनियरिंग, बरेली, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 2000 | 9.9.77 |
| 2163 | शिकालगर खालिद निजामुद्दीन | एम एस वी सी / 6414 / 2001 | एटी डाक बागानी, मोमिन गली, तालुक वालवा, जिला सांगली— 416302 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 2000 | 22.5.78 |
| 2164 | शिखरे भावना अंकुश | एम एस वी सी / 6404 / 2001 | 151, अजमेरी मौहल्ला, गावदेवी, डोंगरी, अंधेरी, मुम्बई— 400058 | बी वी एस सी एंड ए एच/के के वी/ 1999 | 15.9.75 |
| 2165 | शैलानाथ झा, पुत्र रव. श्री जयननंदन झा | बिहार एस वी सी / 1847 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना फुलपरास, जिला मधुबनी, पिन— 847409 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 3.1.44 |
| 2166 | शिल्पा सूद | वी री आई / 2218 / 2000 | 10 / 106, न्यू कैम्पस, री री एस एच ए यू हिसार— 125004 | बी वी एस सी एंड ए एच/एच वी री / 2000 | 9.6.75 |
| 2167 | शिल्पा सूद, पुत्री श्री देव राज सूद | एच ए आर एस वी री / 1615 | 10 / 10री, एन कैम्पस, एच ए यू हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/री री एस एच ए यू / 99 | 9.6.75 |
| 2168 | शिंकार धनंजय सुभाष | एम एस वी री / 6390 / 2000 | एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के सामने, दीपश्ची, प्रतापनगर, जलगांव | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी. के वी / 2000 | 21.9.77 |
| 2169 | शिराज खान, पुत्र श्री खान नजरुद्दीन खान | ए पी एस वी सी / 03559 / 2000 | पुत्र श्री केएन खान, प्रिसिपल, एन वी के आर एस एंड ए कॉलेज, विद्यानगर | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 98 | 12.6.74 |
| 2170 | शितान रिंह, पुत्र श्री शिओजी राम मीना | आर ए जे एस वी री / 2717 / 2000 | ग्राम एवं डाक टीकर, तह जोहाजपुर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि / 2000 | 30.7.70 |
| 2171 | शिव चंद्र प्रसाद गुप्ता, पुत्र श्री जहरु प्रसाद गुप्ता | बिहार एस वी सी / 1383 / 2000 | ग्राम मधुपुर, डाक एवं थाना लौकाहा, जिला मधुबनी | बी वी एस री एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 1.12.54 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक आहताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------------|--|--|----------|
| 2172 | शिव कुमार शर्मा, पुत्र श्री प्राण नाथ शर्मा | बिहार एस वी सी / 1835 / 2000 | ग्राम सिमुरा, डाक मेदनीपुर, बराहिया, थाना कुरथा, जिला जहानाबाद | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 70 | 2.3.47 |
| 2173 | शिव कुमार टी, पुत्र श्री टी लक्ष्मण राव | ए पी एस वी सी / 03534 / 2000 | म.न. 10-64, विष्णुकृष्णन निवास, रथगली, मदनूर | बी वी एस सी एड ए एच / मराठवाडा वि वि / 99 | 16.2.77 |
| 2174 | शिव शंकर कुमार, पुत्र श्री बिंदेश्वर महतो | बिहार एस वी सी / 2064 / 2000 | मौ. सलीमपुर अहरा, गली न.2, डाक केदमकुआं, जिला गांधी मैदान, जिला पटना | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 2000 | 28.1.77 |
| 2175 | शिव शंकर तिवारी, पुत्र श्री जय नारायण तिवारी | बिहार एस वी सी / 1124 / 2000 | ग्राम, थाना एवं डाक मशरक, जिला सारन, छपरा | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 68 | 5.5.47 |
| 2176 | शिव शंकर उपाध्याय, पुत्र रत. श्री देव नंदन उपाध्याय | बिहार एस वी सी / 1304 / 2000 | ग्राम भनदीहा, डाक बारनकला, थाना दरिहार, जिला रोहतास 821306 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 86 | 1.2.61 |
| 2177 | शिवकुमार एन, पुत्र श्री पी मादझाह | कर्ना एस वी सी / 3126 | विनायक नगर, तालकड, टी एन पुर तालुक, मैसूर जिला | बी वी एस सी / यू ए एस बंगलौर / 98 | 5.5.75 |
| 2178 | शिवनंद एम एस, पुत्र श्री सांगप्पा | कर्ना एस वी सी / 3073 | धवलगी डाक मुद्देबिहाल, तालुक बीजापुर जिला | बी वी एस सी एड ए एच/यू ए एस धारवाड / 99 | 23.10.76 |
| 2179 | शिवाराजू टी, पुत्र श्री थिमझाह आर | कर्ना एस वी सी / 3185 | लिंगपुरा सिरागेट डाक, सिरारोड, तुमकुर जिला एवं तालुक | बी वी एस सी एड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 10.7.77 |
| 2180 | शिवरंजन प्रसादसिन्हा, पुत्र श्री विद्याचल प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 831 / 2000 | मौह. पुनाई चक, थाना शास्त्रीनगर, जिला पटना, पिन- 800023 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 77 | 4.2.54 |
| 2181 | शिवेंद्र कुमार चौधरी, पुत्र श्री सांची प्रसाद चौधरी | बिहार एस वी सी / 926 / 2000 | ग्राम रामपुर, डाक भारकोन, थाना अमरपुर, जिला बंका, पिन- 813126 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 93 | 4.2.85 |
| 2182 | शिवजी पांडे, पुत्र श्री जगमोहन पांडे | बिहार एस वी सी / 1797 / 2000 | ग्राम एवं डाक महाओंव, थाना बिहिया, जिला आराह, पिन- 802183 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 82 | 27.2.58 |
| 2183 | शिवमूर्ति प्रसाद शर्मा, पुत्र रत. श्री गंगाप्रसाद | एम एस वी सी / 1930 / 2001 | बडा मौहल्ला डाक, बनसागर जिला रीवा- 486001 | बी वी एस सी एड ए एच/जे एन के वी वी / 82-83 | 1.1.59 |
| 2184 | शिवमुनि उपाध्याय, पुत्र रत. श्री जूठन उपाध्याय | बिहार एस वी सी / 1850 / 2000 | ग्राम उपाध्याय सागर, डाक दापारी, थाना रामगढ, जिला कैमूर (भमुआ) | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 67 | 8.8.42 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------------|--|--|----------|
| 2185 | शिवनंदन प्रसाद सिंहा, पुत्र श्री देवनाथ प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1714 / 2000 | ग्राम बलवापुर, डाक एवं थाना अस्थानवाल, जिला नालंदा, पिन- 803107 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ | 22.1.48 |
| 2186 | शिवपूजन सिंह, पुत्र श्री यदुराम सिंह | बिहार एस वी सी / 1307 / 2000 | ग्राम जेवारी, डाक एवं थाना सैयदराजा, जिला चंदौली, राज्य उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 2.2.43 |
| 2187 | शोभाकांत पाठक, पुत्र रत्न. श्री रामचंद्र पाठक | बिहार एस वी सी / 1989 / 2000 | ग्राम एवं डाक गौरा, थाना टेघरा, जिला बेगुसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 80 | 2.1.55 |
| 2188 | शोभाकांत यादव, पुत्र रत्न. श्री नंद किशोर यादव | बिहार एस वी सी / 1893 / 2000 | ग्राम लक्ष्मीपुर, डाक भारली चांदवा, थाना उदाकिशनगंज, जिला मधेपुरा, पिन- 852220 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 77 | 15.1.54 |
| 2189 | श्रद्धेन्दु कुमार गुप्त, पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त | बिहार एस वी सी / 923 / 2000 | ग्राम शिवगंज, डाक शिवगंज, थाना शिवगंज, जिला आसाह | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 19.5.60 |
| 2190 | श्रवण कुमार साह, पुत्र श्री महेन्द्र साह | बिहार एस वी सी / 1149 / 2000 | ग्राम एवं डाक बेलामेघ, रोहिमटोला, थाना उजियारपुर, समस्तीपुर- 848118 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 1.11.71 |
| 2191 | श्रवण कुमार, पुत्र रत्न. श्री राधे प्रसाद | बिहार एस वी सी / 868 / 2000 | ग्राम जलगोविंद, डाक एवं थाना बढ़, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 78 | 1.3.53 |
| 2192 | श्रवण कुमार, पुत्र श्री जनक प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1562 / 2000 | ग्राम बारी केवे, डाक दतियांगा, थाना शाहजहांपुर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 90 | 1.1.61 |
| 2193 | श्रवण कुमार, पुत्र श्री साधुशरण कुमार | बिहार एस वी सी / 1946 / 2000 | ग्राम नयाखंड, डाक तेलावर, थाना हरनौट, जिला नालंदा, पिन- 803204 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 25.5.72 |
| 2194 | श्रीधर पटेल, पुत्र श्री शिवचरन पटेल | यू. पी. वी. सी / 3215 | ग्राम सरसतपुर, डाक बहूठा, जिला प्रतापगढ़, उ.प्र.- 230135 | बी वी एस सी एंड ए एच/यू.ए.एस / 97 | 18.3.74 |
| 2195 | श्रीकांत नीराल्पी, पुत्र श्री बासवना गौडा | कर्ना एस वी सी / 3074 | मुनेश्वर बिल्डिंग के निकट, बड़ीकमान रोड, बीजापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू.ए.एस धारवाड / 99 | |
| 2196 | श्रीकृष्ण वासुदेव, पुत्र श्री वासुदेव महादेव | एच ए आर एस वी सी / 1621 | म.न. 1060, सेक्टर 9, अर्बन एस्टेट, करनाल | बी एस सी वेट / मुम्बई वि वि / 58 | 7.8.34 |
| 2197 | श्रीराम सोनी, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण सोनी | आर ए जे एस वी सी / 2705 / 2000 | न्यू लेन, घूम चक्कर के निकट, गंगाशहर, बीकानेर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ.वि वि / 2000 | 1.2.72 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|---|--|----------|
| 2198 | श्रीरामे प्रशांत पंजाबराव | एम एस वी सी / 6309 / 2000 | एटी डाक जुवाडी, तालुक सेलू, जिला कर्धा- 442104 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी / 99 | 18.2.74 |
| 2199 | शिरीष चंद्र, पुत्र श्री एन पी श्रीवास्तव | यू पी वी सी / 3205 | 63 जी/2, रटेनली रोड, बेल्ली (न्यू कॉलोनी), इलाहाबाद, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/आगरा वि वि / 72 | 30.12.47 |
| 2200 | श्रीशौल पादेदार, पुत्र श्री भीमप्पा रामप्पा | कर्ना एस वी सी / 3107 | हारूगेरी डाक, रायबाग तालुक, बेलगाम जिला | बी वी एस सी एंड ए एथ/यू ए एस धारवाड / 97 | 20.2.77 |
| 2201 | श्वेत गोस्यामी, पुत्र श्री सुरीचंद्र गोस्यामी | आर ए जे एस वी सी/2709 / 2000 | जासूसो गेट के बाहर, मालियों का मौहल्ला, बीकानेर | बी वी एस सी एंड ए एथ/राज कृ वि वि / 2000 | 22.11.75 |
| 2202 | श्वेता त्रिवेदी, पुत्री डॉ. अमरेश कुमार | यू पी वी सी / 3294 | 1 / 3 / 2, फूलबाग, पंत नगर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एथ/जी वी पी यू ए एंड टी / 98 | 10.6.75 |
| 2203 | श्याम बिहारी सिंह, पुत्र श्री राम जनम सिंह | बिहार एस वी सी / 1731 / 2000 | मौह. सिविल लाइस, बक्सर, डाक, थाना एवं जिला बक्सर | बी वी एस सी एंड ए एथ/आर ए यू/ 83 | 26.1.58 |
| 2204 | श्याम डॉ. केशब, पुत्र श्री दिकेंद्र श्याम | ए एस एम / 1892 / 2000 | ग्राम एवं डाक औगुरी श्याम, जिला शिवसागर, पिन- 785692 | बी वी एस सी एंड ए एथ/ए ए यू/ 2000 | |
| 2205 | श्याम जी, पुत्र स्व. श्री भगवान मेहता | बिहार एस वी सी / 1219 / 2000 | ग्राम एवं डाक नसारीगंज, थाना दीघा, जिला पटना, पिन- 800002 | बी वी एस सी एंड ए एथ/एम यू/ 71 | 6.7.45 |
| 2206 | श्याम कांत सिंह, पुत्र स्व. श्री बिरजा सिंह | बिहार एस वी सी / 1473 / 2000 | ग्राम दुलारपुर, डाक लखनपुर, थाना पूनम, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एथ/आर ए यू/ 87 | 1.2.62 |
| 2207 | श्याम लाल मरंडी, पुत्र श्री श्रीगोपाल मरंडी | बिहार एस वी सी / 1127 / 2000 | ग्राम भुखुरिया, डाक कोकुला कुरावा, थाना बौंसी, जिला बंका, पिन- 813104 | बी वी एस सी एंड ए एथ/आर ए यू/ 97 | 31.12.69 |
| 2208 | श्याम नंदन घौधरी, पुत्र स्व. श्री सूर्य नारायण | बिहार एस वी सी / 1574 / 2000 | मौ.सुशील बाबू कॉलोनी, डाक हॉल पोस्ट ऑफिस, थाना /जिला मधुबनी 847211 | बी वी एस सी एंड ए एथ/एम यू/ 67 | 12.6.44 |
| 2209 | श्याम सिंह | डी वी सी / 0553 / 2000 | 54, सहयोग अर्पा., मयूर विहार फैज़ ।, दिल्ली- 24 | बी वी एस सी एंड ए एथ/जी वी पी यू ए एंड टी/93 | 16.12.66 |
| 2210 | श्याम सिंह, पुत्र श्री रक्म सिंह | यू पी वी सी / 3218 | ग्राम बालेकी, डाक इकबालपुर, जिला हरिद्वार, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एथ/जी वी पी यू ए एंड टी/93 | 16.12.66 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| 2211 | श्याम सुंदर प्रसाद, पुत्र श्री शिव महतो | बिहार एस वी सी / 1314 / 2000 | मौ. मगध कॉलोनी, बड़ी पहाड़ी, डाक एवं थाना सोगराई, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/81 | 24.11.57 |
| 2212 | श्याम सुंदर बैठा, पुत्र श्री जुगल लाल बैठा | बिहार एस वी सी / 1862 / 2000 | मौह. एवं डाक उज्जैन टोला, थाना एवं जिला बेतिया, पिन- 845428 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 79 | 15.4.55 |
| 2213 | श्याम सुंदर एस, पुत्र श्री एस लिंगइयाह | ए पी एस वी सी / 03592 / 2000 | 41-सी, एपीएचबी, पुरानी संतोष नगर कॉलोनी, सैदा बाद डाक, हैदराबाद 59 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 67 | 8.7.43 |
| 2214 | श्यामलाल दास गुप्ता, पुत्र ले. श्री मोनोरंजन दास गुप्ता | त्रिपुरा / 67 / 2000 | पुत्र ले. मोनोरंजन दास गुप्ता, ए के रोड, जॉथ नगर, अगरतला-799001 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/87 | 3.2.65 |
| 2215 | श्याम देव नारायण चौधरी, पुत्र स्व. श्री जगदीप नारायण | बिहार एस वी सी / 1504 / 2000 | ग्राम एवं डाक गौरा, थाना टेघरे, जिला बेगुसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 16.8.46 |
| 2216 | सिद्धार्थ चक्रबर्ती, पुत्र श्री हरिपद | त्रिपुरा / 43 / 2000 | फकीरबाड़ी, एडवाइजर चौमुहानी के निकट, अगरतला, त्रिपुरा (प.) | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के बी वी/ 81 | 17.3.57 |
| 2217 | सिद्धार्थ ठाकुर, पुत्र कर्नल आई एस ठाकुर | यू पी वी सी / 3295 | झारा कर्नल आई एस ठाकुर ग्राम मट्यारा, डाक नरोला, जिला मंडी, हि.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/98 | 21.2.74 |
| 2218 | सिद्धार्थ कुमार जाय सवाल, पुत्र स्व. श्री शिवचंद्र जायसवाल | बिहार एस वी सी / 1267 / 2000 | ग्राम एवं डाक भगवान पुर, जिला वैशाली, पिन- 844114 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/83 | 2.3.59 |
| 2219 | सिद्धिनाथ तिवारी, पुत्र पंडित मरिहर तिवारी | बिहार एस वी सी / 1775 / 2000 | मौ. हरि वाटिका पोखर, डाक एवं थाना बेतिया, जिला प. चम्पारन, पिन- 845438 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 8.1.43 |
| 2220 | सिलम्बान एस, पुत्र श्री एस सुब्बा राव | ए पी एस वी सी / 03568 / 2000 | 16-11-16/एन/40, प्रशांति नगर, मूसाराम बाग, हैदराबाद-500036 | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 92 | 27.5.69 |
| 2221 | सिलनांग रसूल मारक | -मेघ / 160 / 2000 | हवाखाना, तुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 20.8.74 |
| 2222 | सिमिरेबेका जोसेफ | केरल एस वी सी / 2501 / 2000 | टी सी 11/1684, पलामुद्द चाराचिरा रोड, त्रिवेंद्रम, पिन- 695003 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 14.5.75 |
| 2223 | सिमरन, पुत्री श्री जसपाल सिंह | पी बी एस वी सी / 2210 / 2000 | न. 5970, फेज- 111, मॉर्डन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मनी माजरा, चंडीगढ़ | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 12.7.76 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मसंदिग्धि |
|---------|--|----------------------------------|---|--|--------------|
| 2224 | सिमिरिंदर सिंह सोढी, पुत्र श्री दविंदर सिंह | बी वी एस वी सी/ 2254/ 2001 | म.न. 6833, पीपल रस्ट्रीट, के केपी रोड, मुक्तसस- 152026 | बी वी एस सी एड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 27.10.75 |
| 2225 | सिन्धु के ए | केरल एस वी सी/ 2485/ 2000 | कल्तुपराम्बिल हाउस, कोजैनचेरी इस्ट डाक, पथानमथिट्टा— 689641 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 18.5.76 |
| 2226 | सिंधु टी | केरल एस वी सी/ 2451/ 2000 | अम्बालाथिल हाउस, नल्लूर, फिरोक, कोजीकोड— 673631 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 2000 | 23.2.76 |
| 2227 | सिंघ नाथ रौय, पुत्र श्री कैलाश रौय | बिहार एस वी सी/ 1049/ 2000 | ग्राम एवं डाक रामपुर, थान राजपुर, जिला बुजार, पिन— 802114 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 83 | 8.1.61 |
| 2228 | सिनौवासाने बी, पुत्र श्री के बालायन | ए पी एस वी सी/ 03579/ 2000 | डी आर न.3, संगम डेरी, पी एड-आई, वेटेरिनरी अधिकारी, वाडलामुडी, गुंटूर जिला | बी वी एस सी/टी एन वी एड ए एस यू/ 91 | 3.6.63 |
| 2229 | सीपा दास, पुत्री श्री दिनेश दास | त्रिपुरा/ 88/ 2000 | नॉर्थ बनमालीपुर, अगरतला, त्रिपुरा वेस्ट, पिन— 799001 | बी वी एस सी एड ए एच/जे एन के वी वी/ 90 | 14.8.67 |
| 2230 | सिपिरियन गुरिया, पुत्र श्री आमरस गुरिया | बिहार एस वी सी/ 1343/ 2000 | ग्राम चापरी, डाक एवं थाना बरवाडीह, जिला पलामू, पिन— 822111 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 93 | 21.11.69 |
| 2231 | शिशिर कुमार पाल, पुत्र श्री मोनोमोहन पाल | त्रिपुरा/ 19/ 2000 | अभोयनगर वेट-कॉम्प्लेक्स, डाक अभोयनगर, अगरतला 799005, त्रिपुरा पश्चिम | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 76 | 1.6.51 |
| 2232 | शिव कुमार एम | पॉण्डी/ 95/ 2000 | 85, पांचवा क्रॉस, कुमारन नगर, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी— 605008 | बी वी एस सी/टी एन ए यू/ 85 | 16.3.61 |
| 2233 | सिवराम सिंह, पुत्र स्व. श्री कपिलेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1059/ 2000 | मौ.नीलकंठ कॉलोनी, आशियाना नगर, एसी कॉलोनी, बी, शास्त्री नगर, पटना— 800025 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 74 | 2.7.51 |
| 2234 | सियाशरण प्रसाद, पुत्र श्री हरि दयाल महतो | बिहार एस वी सी/ 1270/ 2000 | ग्राम हैदरचाक, डाक खैरमपुर, थाना इस्लामपुर जिला नालंदा | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 88 | 6.1.57 |
| 2235 | समरजीत देबनाथ, पुत्र श्री सचिंद्र कुमार देबनाथ | त्रिपुरा/ 57/ 2000 | बनमालीपुर (बिजली रोड), साइड पावर हाउस के सामने, अगरतला, त्रिपुरा | बी वी एस सी एड ए एच/बी सी के वी वी/76 | 24.1.51 |
| 2236 | रिम्था जे पी | केरल एस वी सी/ 2474/ 2000 | वलियोलीपराम्बिल हाउस, डाक मुकुम्भूर, पिन— 683577 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/2000 | 23.5.73 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2237 | स्मिथा जे एस | केरल एस वी सी / 2459 / 2000 | टीसी 36 / 298(4), 25 मानव नगर, डाक पेट्टाह, त्रिवेंद्रम— 695024 | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस/2000 | 11.11.77 |
| 2238 | श्रीमती रशिम बेला कुजुर, पुत्री श्री प्रेम प्रकाश कुजुर | बिहार एस वी सी / 1823 / 2000 | मौह, कटरा चौक, डाक, थाना एवं जिला शेखपुरा, पिन— 888105 | बी बी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/96 | 1.6.68 |
| 2239 | स्नेह, पुत्र डॉ. सुनील कुमार सिंह | बिहार एस वी सी / 894 / 2000 | ग्राम नयागांव, थाना परवत्ता, जिला खगरिया, पिन— 851215 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/96 | 15.9.73 |
| 2240 | सोहन लाल, पुत्र श्री मलकियत सिंह | पी बी एस वी सी / 1839 / 2000 | ग्राम एवं डाक कलवान, तह आनंद पुर साहिब, जिला रोपड़ | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/1996 | 22.3.69 |
| 2241 | सोलीमोल वी जेकब | केरल एस वी सी / 2480 / 2000 | वजुथन्नापिल्लिल (एच), डाक पोट्टेमपलावू, वाया: नादूविल, जिला कन्नूर, पिन— 670582 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/2000 | 10.3.76 |
| 2242 | सोम दत्त सिंह, पुत्र श्री धान सिंह | यू पी वी सी / 3196 | लुम्बिनी हाउस, 14—महात्मा फुले स्ट्रीट, नवीन नगर, जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 92 | 4.8.68 |
| 2243 | सोमिन्द्र सिंह जुनेजा, पुत्र श्री हरपाल सिंह जुनेजा | पी बी एस वी सी / 2205 / 2000 | एचआईजी—915—बी, हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 111, रणजीत एवेन्यू, अमृतसर— 143001 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/2000 | 5.12.76 |
| 2244 | सोनावले विजय भानुदास | एम एस वी सी / 6289 / 2000 | साबले चॉल, बी के 90 / कैम्प न.1, विलास नगर—1, जिला थाणे— 421001 | बी वी एस सी एंड ए एच/के के वी/ 2000 | 15.1.74 |
| 2245 | सॉण्डरवेल थॉम, पुत्र श्री विवलिंगटन क्सान्लाह | मेघ / 163 / 2001 | जुआई, लाइट्डोम, शिलांग | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 92 | 18.6.64 |
| 2246 | सोनोवल डॉ.(कुमारी) मृदुशिमता, पुत्री श्री नीलकांता सोनोवाल | ए एस एम / 1939 / 2001 | द्वारा श्री नीलकांता सोनोवाल, ग्राम गोबिंदपुर, डाक पानीटोला, जिला तिनसुखिया | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 2247 | सोनु जायसवाल, पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जायसवाल | यू पी वी सी / 3274 | द्वारा श्री गोकरन नाथ जायसवाल, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पीयू ए एंड टी / 2000 | 13.3.76 |
| 2248 | सौविक घोष | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2789 / 2000 | प्लॉट न.— 3, ब्लॉक— बी, बंगूर एवेन्यू, कालीकट— 55 | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यूबी यू ए एफ एस/2000 | |
| 2249 | श्रीजीत एन भास्करन | केरल एस वी सी / 2516 / 2000 | कृष्णाविलासम, कुमारमपुरम, कोट्टामकेथा, हरिपद, पिन— 690548 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/2000 | 30.12.77 |

| क्र. सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|----------|---|------------------------------------|--|---|----------|
| 2250 | श्रीकृष्णम आर | पॉण्डी / 105 / 2000 | 100, राजाजी नगर एक्स. 32वां क्रॉस स्ट्रीट, अवाई नगर, लॉसपेट | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/87 | 28.5.64 |
| 2251 | श्रीकुमार डी | पॉण्डी / 96 / 2000 | बी-2, बेट कॉलेज कॉम्प लेक्स, कुरुक्षेत्रपेट, पॉण्डीचेरी- 60509 | बी वी एस सी एड ए एच/के ए यू/ 83 | 17.4.61 |
| 2252 | श्रीलक्ष्मी पी, पुत्री श्री पी संजीवा नायडू | ए पी एस वी सी/3600 / 2000 | कम्मवासीपल्ली (बी ओ), वाडिभरला (एस ओ), कुडप्पा जिला 516432 | बी वी एस सी एड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 15.5.76 |
| 2253 | श्रीनाथाचार टी, पुत्र श्री टी नारायणाचार | ए पी एस वी सी/03680 / 2001 | म.न. 14-212, कमला नगर, अनंतपुर | बी वी एस सी/ए पी ए यू/82 | 22.1.60 |
| 2254 | श्रीनिवासु बी, पुत्र श्री बी पथुलु | ए पी एस वी सी/03561 / 2000 | म.न. 7-2-11, द्वारका नगर, खम्मम— 507002 | बी वी एस सी एड ए एच/ए पी ए यू/ 98 | 10.10.72 |
| 2255 | श्रीरामन्नारायण टी, पुत्र श्री टी वैकटेश्वरलु | ए पी एस वी सी / 03652 / 2000 | मुकितनातालापडु डाक, ओगोल एम, प्रकासम जिला— 523262 | बी वी एस सी एड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 25.9.74 |
| 2256 | श्रीकृष्ण सिंह, पुत्र स्व. श्री प्रभु सिंह | बिहार एस वी सी / 1212 / 2000 | ग्राम एवं डाक दोस्रुत, थाना वरसालीगंज, जिला नवादा | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/67 | 22.1.44 |
| 2257 | श्री कृष्ण राय, पुत्र स्व. श्री राम न्यूथ राय | बिहार एस वी सी / 1153 / 2000 | ग्राम भरखार, डाक एवं थाना मोहामा, जिला कैम्पूर (भमुआ) | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/72 | 4.1.48 |
| 2258 | श्री लक्ष्मी के, पुत्री श्री के वी ए एन राजू | ए पी एस वी सी / 3602 / 2000 | पुत्री के वी ए एन राजू, अजमांदा, विजियानगरम जिला — 531240 | बी वी एस सी एड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 14.3.75 |
| 2259 | श्री राम गुप्ता, पुत्र श्री बद्री राम | बिहार एस वी सी / 1581 / 2000 | मौह. कारगिल बाजार, डाक एवं थाना बेरमो, जिला बोकारो, 829104 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/83 | 12.2.60 |
| 2260 | श्री राम शरन, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण | बिहार एस वी सी / 1913 / 2000 | मौ. शपना निवास, अरगार रोड, डाक लल्ला पोखर, थाना/जिला मुंगेर 811201 | बी वी एस सी एड ए एच/एमयू/ 65 | 5.9.40 |
| 2261 | श्री विद्या देवी डी, पुत्री श्री डी वैकटेश्वरलु | ए पी एस वी सी / 03614 / 2000 | एल आई जी 131, ए पी एच बी कॉलोनी, अनंतपुर— 515001 | बी वी एस सी एड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 1.8.76 |
| 2262 | श्रीदेवी वी, पुत्री श्री वी कृष्ण मूर्ति | ए पी एस वी सी / 03562 / 2000 | 77 / 12, एम वी पी कॉलोनी, विशाखापट्टनम —530017 | बी वी एस सी एड ए एच/ए पी ए यू/ 98 | 1.8.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|--|------------|
| 2263 | श्रीदेवी एस बी | पॉण्डी / 84 / 2000 | 12, इदिरा गांधी स्ट्रीट, टैगोर नगर, लॉसपेट पोस्ट, पॉण्डीचेरी- 8 | बी वी एस सी/टी एन 17.1.76 वी एंड ए एस यू/ 2000 | |
| 2264 | श्रीहरिथ एम, पुत्र श्री एम विश्वनाथ रेड्डी | ए पी एस वी सी / 03611 / 2000 | 4-53, इदिरा नगर, पिलेर, वित्तूर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 5.5.76 |
| 2265 | श्रीकांत पी, पुत्र श्री पी पोथुराजू | ए पी एस वी सी / 03676 / 2000 | द्वारा नल्लूरी अंजइयाह, #8 / 498 (बी), पंदरीपुरम्, ओंगोल, प्रकासम जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 28.5.75 |
| 2266 | श्रीनंदन प्रासाद सिन्हा, पुत्र स्व. श्री अभिका प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1308 / 2000 | एम-स्वामी साहियानंदनगर, डाक किशन भवन, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/65 | 18.8.42 |
| 2267 | श्रीनारायण परिहार पुत्र स्व. श्री फकीर परिहार | बिहार एस वी सी / 1843 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना खटौना, जिला मधुबनी, पिन- 847227 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/97 | 5.3.66 |
| 2268 | श्रीनाथ डी एन, पुत्र श्री डी वी नारायण शर्मा | कर्ना एस वी सी / 3105 | सोबागु थिएटर के पीछे, रोजीपुर, डोङ्डाड बलपुरा | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 97 | 17.9.74 |
| 2269 | श्रीनाथ मिश्रा, पुत्र स्व. पंडित गौरी नाथ मिश्रा | बिहार एस वी सी / 881 / 2000 | मौह. फुलवारी गली, डाक पटनासिटी, थाना मन्दरहाटा, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 62 | 8.9.42 |
| 2270 | श्रीनिवास डडी बेल्लूर, पुत्र श्री बी एस थिप्पा रेड्डी | कर्ना एस वी सी / 3111 | न. 9-9-107, श्रीनिवास, अक्का महादेवी कॉलोनी, बी वी बी कॉलेज रोड, बिदर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/99 | 8.9.76 |
| 2271 | श्रीनिवासइयाह पी वी | पॉण्डी / 104 / 2000 | 2, टाइप V क्वार्टस, आर जी कॉलेज ऑफ वेट एंड एनीमल साइंस., कर्नाटकापेट | बी वी एस सी / ए एस / 76 | यू 28.2.55 |
| 2272 | श्रीनिवासइयाह सुमंथ, पुत्र श्री एस एम श्रीनिवासइयाह | कर्ना एस वी सी / 3123 | न. 506, 18वां क्रॉस, विजयनगर रेलवे लेआउट, मैसूर | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 98 | 10.10.74 |
| 2273 | श्रीनिवासलु एस, पुत्र श्री जी वी सीथाराम | कर्ना एस वी सी / 3083 | न. 1659, 38वां क्रॉस, ए मेन, जयनगर, ईस्ट एंड, बंगलौर- 69 | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 69 | 1.8.44 |
| 2274 | श्रीनिवासमूर्ति, पुत्र श्री माधवराव देसाई | कर्ना एस वी सी / 3090 | डाक गुमगेरा, तालुक कुरतागी, जिला कोप्पल | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 99 | 8.7.76 |
| 2275 | श्रीपति सिंह, पुत्र स्व. श्री चंद्र पति सिंह | बिहार एस वी सी / 1722 / 2000 | ग्राम एवं डाक पचाही, थाना माधेपुर, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 10.9.44 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मातिथि |
|---------|---|------------------------------|--|--|-----------|
| 2276 | श्रीराम के | केरल एस वी सी / 2513 / 2000 | प्लॉट न. 270, हरिनगर, पूनकुन्नम, थिसूर- 680002 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 19.1.77 |
| 2277 | स्टिफेन जोसेफ, पुत्र स्व. श्री संतोष जोसेफ | बिहार एस वी सी / 1516 / 2000 | ग्राम तांतीपारा, डाक एवं थाना पाकूर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 17.7.51 |
| 2278 | सुब्बा शाव एम, पुत्र श्री एम दुर्गा प्रसाद | ए पी एस वी सी / 03681 / 2001 | प्लॉट न. 84 / 25, ब्लॉक डी, ऑटोनगर, विशाखपटणम- 530012 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 2.3.75 |
| 2279 | सूबेदार यादव, पुत्र श्री भगवान दीन यादव | यू पी वी सी / 3186 | ग्राम रामवापुर, डाक तिनिच, जिला बस्ती, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी/ 2000 | 1.7.55 |
| 2280 | सूबेलाल प्रसाद, पुत्र स्व. श्री राम लगन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1554 / 2000 | ग्राम एवं डाक अजयपुर, शास्त्री नूरसराय, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 15.1.59 |
| 2281 | सुभाष चंद्र चौधरी, पुत्र श्री कामता प्रसाद चौधरी | बिहार एस वी सी / 1553 / 2000 | मौह, नुझुदीन चाक, डाक बढ़, आर एस, थाना बढ़, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 79 | 23.11.50 |
| 2282 | सुभाष चंद्र हिन्दुस्तानी, पुत्र श्री रामबली तांती | बिहार एस वी सी / 1781 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना जामुई, जिला जामुई, पिन- 811307 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 5.4.73 |
| 2283 | सुभाष चंद्र राय पुत्र स्व. श्री शाधु शरण राय | बिहार एस वी सी / 1161 / 2000 | ग्राम एवं डाक कुचिटिला, थाना नुओन, जिला भम्भुआ | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 1.7.46 |
| 2284 | सुभाष जायसवाल, पुत्र श्री एच एन जायसवाल | यू पी वी सी / 3301 | 20 / 1, आवास विकास कॉलोनी, राजदेहपुर, रौजा, गाजीपुर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 84 | 1.8.61 |
| 2285 | सुभाशीष चक्रबर्ती, पुत्र श्री चंद्रशेखर | त्रिपुरा / 63 / 2000 | रामनगर रोड- 8, अगरतला, द्वारा श्री चंद्रशेखर चक्रबर्ती, | बी वी एस सी एंड ए एच/ओ यू ए एंड टी/ 84 | 1.12.61 |
| 2286 | सुबोध जीतन हंसडाक, पुत्र श्री भादु हंसडाक | बिहार एस वी सी / 1300 / 2000 | ग्राम पोखरिया, डाक आम गांवी, थाना काठीकुंड, जिला दुमका, पिन- 814103 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 22.1.64 |
| 2287 | सुबोध कुमार दास, पुत्र श्री उपेंद्र कुमार दास | त्रिपुरा / 46 / 2000 | अमर सागर का दक्षिणी किनारा, डाक आर के पुर, उदयपुर, द. त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/ 80. | 21.4.57 |
| 2288 | सुबोध कुमार, पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद ठाकुर | बिहार एस वी सी / 1215 / 2000 | ग्राम डाक एवं थाना कमतौल, (दक्षिणी किनारा), जिला दरभंगा, पिन- 847304 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 8.2.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|----------------------------------|---|---|----------|
| 2289 | सुबोध कुमार, पुत्र श्री प्राण मोहन सिंह | बिहार एस वी सी/ 1010/ 2000 | ग्राम मानिक पथाड़, डाक पटनाड़, थाना पुल्ली दुमेर, जिला बंका, पिन- 813101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 5.1.71 |
| 2290 | सुबोध प्रसाद सिंह, पुत्र रव. श्री रूप नारायण सिंह | बिहार एस वी सी/ 1900/ 2000 | ग्राम एवं डाक तेलराबाद, चांदपुरा, थाना गंगौर, जिला खगरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 85 | 26.6.60 |
| 2291 | सुबोध रंजन वर्मा, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा | बिहार एस वी सी/ 1455/ 2000 | ग्राम लालदरवाजा, डाक थाना एवं जिला मुंगेर, पिन- 811201 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 12.1.59 |
| 2292 | सुब्रमण्या एम सी, पुत्र श्री चिकिकासुबन्ना | कर्ना एस वी सी/ 3169 | डाक मुददेनाहल्ली, तालुक चिकिकबल्लापुर, जिला कोलार | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 21.7.77 |
| 2293 | सुब्रतो सरकार, पुत्र श्री देवेश चंद्र सरकार | बिहार एस वी सी/ 1657/ 2000 | मौह. न्यू एरिया, हमीदगंज, डाक टोला थाना डाल्टनगंज, जिला बांगलौर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 95 | 25.3.66 |
| 2294 | सुब्रया पाल के, पुत्र श्री के सुधाकर पई | कर्ना एस वी सी/ 3125 | पहला एवेन्यू टोला टी हाउसिंग कालोनी, कुलाई, होसाबेटू | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 96 | 20.7.70 |
| 2295 | सुदामा प्रसाद गिरि, पुत्र रव. श्री गोरखामी पुनवादेव गिरि | बिहार एस वी सी/ 2072/ 2001 | ग्राम गोडमामथिया, डाक सेगार टोला, थाना रिविल गंज, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 71 | 12.7.48 |
| 2296 | सुदर्सना राव पी, पुत्र श्री पी वेंकट रत्नम | ए पी एस वी सी/ 03618/ 2000 | कोटा स्ट्रीट, चेन्नूर डाक गुदूर (एम), नेल्लोर जिला 524406 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 12.5.76 |
| 2297 | सुदर्सनम के, पुत्र श्री के रामनदियाह | ए पी एस वी सी/ 03634/ 2000 | श्री बालाजी फाइनेंस कॉर्पो., पी वी आर बिल्डिंग, भवानी पुरम, विजयवाड़ा, कृष्णा | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 4.9.74 |
| 2298 | सुदर्शन प्रसाद, पुत्र श्री मिश्री राम | बिहार एस वी सी/ 1651/ 2000 | ग्राम फज़्लगंज, डाक एवं थाना सासाराम, जिला रोहतास | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 1.3.51 |
| 2299 | सुदर्शन प्रसाद, पुत्र श्री रामसागर प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1176/ 2000 | ग्राम वंदे विशनपुर, डाक धरमपुर बंदे, थाना ताजपुर, जिला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 87 | 10.2.60 |
| 2300 | सुधाकर झा, पुत्र रव. श्री शशि भूषण झा | बिहार एस वी सी/ 1434/ 2000 | ग्राम एवं डाक नारायणपुर, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 15.1.51 |
| 2301 | सुधाकर सिंह, पुत्र श्री रनजय सिंह | यू पी वी सी/ 3249 | 32, ए, राजेंद्र नगर, बलवा घाट, इलाहाबाद, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 95 | 3.3.68 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्मतिथि |
|---------|--|---------------------------------|--|---|----------|
| 2302 | सुधाकर वी, पुत्र श्री बुलइयाह | ए पी एस वी सी/ 03609/ 2000 | म.न.1-3-40, भावनगर कॉलोनी, पोन्नूर, गुंटूर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/2000 | 8.8.77 |
| 2303 | सुधाकरा एम एल, पुत्र श्री लक्ष्मन्ना एल | कर्ना एस वी सी/ 3187 | अनुवा गवर्नर, प्राइमरी स्कूल के सामने, मेलेकोटे, तुमकुर | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 29.5.77 |
| 2304 | सुधांशु पाइक | डब्ल्यू बी एस वी सी/ 2813/ 2000 | ग्राम एवं डाक अनीशमती, थाना धनताल, जिला नादिया | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 2305 | सुधांशु भूषण, पुत्र डॉ. चंद्र भूषण त्रिपाठी | बिहार एस वी सी/ 1840/ 2000 | मौह, विरइयातान, खासमहल, रोड न.1, डाक जीपीओ, थाना जक्कनुपर, पटना- 800001 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 99 | 16.10.75 |
| 2306 | सुधांशु झा, पुत्र श्री बैद्यनाथ झा | बिहार एस वी सी/ 874/ 2000 | मौ. माटीसौर, डाक माटीसौर, थाना जनदाहा, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 84 | 27.1.60 |
| 2307 | सुधीर अरविंद टी | केरल एस वी सी/ 2505/ 2000 | चैथन्या, अथवानाद डाक, मलप्पुरम | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 24.5.76 |
| 2308 | सुधेंशु, पुत्र श्री भुवनेश्वर शर्मा | बिहार एस वी सी/ 963/ 2000 | मौ. कोइली, डाक कोइली, थाना मानपुर, जिला सीतामढी | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 92 | 7.2.67 |
| 2309 | सुधीर के, पुत्र श्री मूर्धि के जी | कर्ना एस वी सी/ 3098 | द्वारा एम के गोविंदराव, 82/ 3, प्रथम मेन, 10वां क्रॉस, गोविंदराज नगर, बंगलौर | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 98 | 11.6.75 |
| 2310 | सुधीर कुमार सिन्हा, पुत्र श्री राम कृपाल लाल | बिहार एस वी सी/ 1642/ 2000 | मौह. सतधारवा, जेल रोड, महाजन टोली न.1, डाक+ थाना+जिला आराह-802301 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 83 | 2.1.59 |
| 2311 | सुधीर कुमार | गोआ एस वी सी/ 115/ 2001 | फ्लैट न. 6, गौर अपा, मंगोर हिल, वास्कोडिगामा | बी वी एस सी एंड ए एच/ जी ए यू/ 2000 | 1.8.77 |
| 2312 | सुधीर कुमार नारंग, पुत्र श्री मोहन लाल | आर ए जे एस वी सी/ 2706/ 2000 | द्वारा श्री सतपाल ग्रोवर, वार्ड न. 7, पीली बंगन, हनुमानगढ़ | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/92 | 24.2.70 |
| 2313 | सुधीर कुमार, पुत्र श्री राधा कांत सिंह | बिहार एस वी सी/ 1209/ 2000 | मौ. एस डी ओ रोड, डाक एवं थाना हाजीपुर, जिला वैशाली, पिन- 844101 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 4.4.61 |
| 2314 | सुधीर रंजन कुमार साहनी, पुत्र श्री आनंदी साहनी | बिहार एस वी सी/ 1613/ 2000 | ग्राम+ थाना+ डाक- रूपौली, जिला पूर्णिया, पिन- 854201 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 5.12.68 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पत्ता | शैक्षणिक अहताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---------------------------------------|--|---|----------|
| 2315 | सुहासिनी टी राजू, पुत्री श्री डी सुनकन्ना | ए पी एस वी सी / 03654 / 2000 | ब्लॉक-8, फ्लैट-2,225 / ए, रविमनीदेवी कॉलोनी, वेस्ट मारेदपल्ली, सिक्किंदराबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस/2000 | 17.8.78 |
| 2316 | सुरिदर सिंह | डी वी सी/ 0561 / 2000 | श्री गुरायल सिंह, 1 / 7, विजय नगर, हिल्सी | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 85 | 2.5.61 |
| 2317 | सुजाता मुखर्जी, पुत्री श्री लोकनाथ मुखर्जी | बिहार एस वी सी / 1824 / 2000 | मौह, नबग्राम, डाक नीलडीह, थाना रघुनाथपुर, जिला पुरुलिया, प.बंगाल | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 31.7.70 |
| 2318 | सुजाता सिंह, पुत्री श्री टी री हरिनाथ सिंह | ए पी एस वी सी / 03650 / 2000 | जुपल्ली आकेंड, फ्लैट न. 202, इसीआईएल एक्स रोड्स, हैदराबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 98 | 5.12.75 |
| 2319 | सुजीत दास | डब्ल्यू बी एस वी रो/ 2809 /2000 | ग्राम एवं डाक तालबगीधा, खडगपुर, जिला मिदनापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 2320 | सुखदविंदर सिंह सिधु, पुत्र श्री गुरचरन सिंह | पी बी एस वी सी / 2199 / 2000 | म.न. 318—डी, न्यू आजोद नगर, फिरोजपुर सिटी — 152002 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 24.1.75 |
| 2321 | सुखदीपक सिंह, पुत्र श्री परमजीत सिंह | पी बी एस वी सी / 2247 / 2001 | ग्राम एवं डाक सुधार, लुधियाना | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 5.12.75 |
| 2322 | सुखजीत सिंह गिल, पुत्र श्री री एस गिल | पी बी एस वी सी / 2220 / 2001 | ग्राम एवं डाक जसपाल बंगार, लुधियाना, पंजाब | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 27.9.75 |
| 2323 | सुखलाल गगराये, पुत्र श्री लाल सिंह गगराये | बिहार एस वी सी / 1481 / 2000 | मौ. हटगामहोरिया हांगेरगुटू डाक एवं थाना हटगामहोरिया, प. सिंगभूम | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 90 | 5.1.64 |
| 2324 | सुखविंदर सिंह, पुत्र श्री हरचंद | एच ए आर एस वी सी/ 1648 | गली न. 10, पटेल नगर, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/2000 | 3.4.75 |
| 2325 | सुखदेव मुखिया, पुत्र श्री देव नारायण मुखिया | बिहार एस वी सी / 1682 / 2000 | ग्राम दरियान, डाक भवानपुर, थाना प्रतापपुर, जिला सुपौल— 852135 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 2.2.71 |
| 2326 | सुकुमार रेन, पुत्र श्री नवीन च. रेन | त्रिपुरा / 45 / 2000 | नूतनपल्ली, कृष्णानगर, अगरतला, त्रिपुरा वेस्ट | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/80 | 1.1.57 |
| 2327 | सुकुमार शेट्टी, पुत्र श्री बाबू शेट्टी | कर्ना एस वी सी / 3087 | पार्वथी नीलया, पाडुमुङ्ग डाक साई बार कट्टू, शिर्लयारा | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 98 | 1.6.72 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|-------------------------------|---|---|----------|
| 2328 | सुल्ताना डॉ. (श्रीमती) बेगम नजरीन, पन्ती श्री सलीम भट्टाचार | ए एस एम/ 1928 / 2000 | द्वारा डॉ. ए सत्तार, जूरीपार, पंजाबारी, गुवाहाटी, पिन- 781037 | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी ए यू/ 2000 | |
| 2329 | सुमन कुमार टोप्पो, पुत्र श्री जगत पाल टोप्पो | बिहार एस वी सी/ 1600 / 2000 | मौह, कोकर पाहेन टोली, डाक एवं थाना बेरियातु, जिला रांची, पिन 864009 | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी ए यू/ 90 | 14.3.60 |
| 2330 | सुमन कुमार, पुत्र श्री सीतमदेव मोदी | बिहार एस वी सी/ 1281 / 2000 | ग्राम, लाक+थाना मरकाचो, जिला कोडर्मा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 1.1.69 |
| 2331 | सुमन नाथ मिश्रा, पुत्र स्व. श्री उपेन्द्र नाथ मिश्रा | बिहार एस वी सी/ 1711 / 2000 | ग्राम एवं डाक माधवपुर, थाना ओ पर्वता, जिला खगरिया, पिन- 851215 | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी ए यू/ 99 | 23.1.69 |
| 2332 | सुमन, पुत्री श्री सुंदर लाल | आर ए जे एस वी सी/ 2745 / 2001 | द्वारा डॉ. राजेंद्र शर्मा, डी 1/ 27, व्यास कॉलोनी, बीकानेर | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 98 | 8.1.76 |
| 2333 | सुमति कुसुर, पुत्री श्री फगुआ कुसुर | बिहार एस वी सी/ 1158 / 2000 | ग्राम मकुड़ा, डाक इतकी, थाना इतकी, जिला रांची, पिन- 835801 | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी ए यू/ 96 | 7.1.69 |
| 2334 | सुमित समरवाल | बी वी सी/ 0558 / 2000 | डॉ. एस के समरवाल, 1ए- 19ए, एम आई जी फेज 1, अशोक विहार, दिल्ली- 52 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 2000 | 10.5.77 |
| 2335 | सुमित विरसानी | वी सी आई/ 2282 / 2001 | द्वारा वी के मुदगल, 4बी-22, तलवंडी, कोटा, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 99 | 11.9.73 |
| 2336 | सुमित विरसानी | आर ए जे एस वी सी/ 2610 / 2000 | सी-3/ 303 ए (एस एफ एस), पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृष्ण वि/ 99 | 11.9.73 |
| 2337 | सुंदरेशन ए, पुत्र श्री वी आर्मुगम | ए पी एस वी सी/ 03682 / 2001 | 5-11-548, विद्यारण्यपुरी, हनमकोडा, वारंगल जिला- 506009 | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 95 | 13.1.73 |
| 2338 | सुनील कुमार ओ, पुत्र श्री ओ नारायण रेड्डी | ए पी एस वी सी/ 03639 / 2000 | 15/ 901, वेंकटरामापुरम, नेल्लोर- 524001 | बी वी एस सी एंड ए एच/पु एन जी आर ए यू/ 2000 | 23.6.76 |
| 2339 | सुनील च. आचर्जी, पुत्र श्री जोगेश च. ज्योतिभूषण | त्रिपुरा/ 10 / 2000 | भाटी अमोयनगर (बिटारबन), डाक अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम | बी वी एस सी एंड ए एच/कलकत्ता वि वि/ 71 | 26.4.47 |
| 2340 | सुनील कुमार पटेल, पुत्र श्री शनिचर मांझी | बिहार एस वी सी/ 1670 / 2000 | ग्राम थालपोस, डाक मट्टा, थाना पाकरी वारनवा, जिला नवादा | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी ए यू/ 93 | 10.2.67 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएँ | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|---|--|----------|
| 2341 | सुनील कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री मानेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1251/ 2000 | ग्राम लगामा, डाक सिंधिया, जिला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 1.1.64 |
| 2342 | सुनील कुमार सिंहा, पुत्र श्री दुलारी सिंह | बिहार एस वी सी/ 1650/ 2000 | ग्राम एवं डाक कोलावान, थाना हस्नौट, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 20.7.61 |
| 2343 | सुनील कुमार वर्मा, पुत्र श्री बनारसी प्रसाद वर्मा | बिहार एस वी सी/ 1460/ 2000 | ग्राम हरदाहचक, डाक कोशी कॉलेज, थाना एवं जिला खगरिया, पिन- 851205 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 86 | 10.12.62 |
| 2344 | सुनील कुमार | आर ए जे एस वी सी/ 2687/ 2000 | पुत्र श्री भागीरथ मल चौधरी, सालासार रोड, दुलियन बास, डाक सुजानगढ़ | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 18.11.74 |
| 2345 | सुनील कुमार | आर ए जे एस वी सी/ 2645/ 2000 | 1/ 1093, मालवीय नगर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 14.1.74 |
| 2346 | सुनील कुमार गुप्ता, पुत्र श्री गया प्रसाद गुप्ता | यू पी वी सी/ 3300 | म.न. 224, मौह, खसीपुरा, राथ जिला- हमीरपुर, उ.प्र.- 210431 | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/2000 | 1.7.74 |
| 2347 | सुनील कुमार राठौड़, पुत्र श्री आर ए राठौड़ | पी वी सी/ 3206 | न्यू कॉलोनी, लोधीपुर, शाहजहांपुर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/96 | 2.8.73 |
| 2348 | सुनील कुमार, पुत्र श्री श्याम विहारी लाल | यू पी वी सी/ 3213 | मैसर्स रघुबीर सरन रैड कं., मंडी फर्थेह गंज, बुलंदशहर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी/2000 | 9.10.73 |
| 2349 | सुनील कुमार शर्मा | आर ए जे एस वी सी/ 2640/ 2000 | 11/ 1355, मालवीय नगर, जयपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 21.6.72 |
| 2350 | सुनील कुमार सिंह, पुत्र श्री भरासा सिंह | बिहार एस वी सी/ 1729/ 2000 | ग्राम सुफुली, डाक पोनावा, थाना मसौदी, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 84 | 3.4.59 |
| 2351 | सुनील कुमार सिंह, पुत्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1420/ 2000 | ग्राम भरसारा, डाक एवं थाना बिहिया, जिला आराह (भोजपुर) | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 89 | 5.1.64 |
| 2352 | सुनील कुमार, पुत्र श्री ब्रजनंदन प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1401/ 2000 | ग्राम तूफानगंज, डाक सोसाराय, थाना राहुई, जिला नालंदा, पिन- 803118 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 91 | 23.12.59 |
| 2353 | ब्रजनंदन सिंह, पुत्र श्री राधे श्याम प्र. भगत | बिहार एस वी सी/ 1422/ 2000 | ग्राम शेरमारी बसार, डाक एवं थाना पीरपैती, जिला भागलपुर, पिन- 813209 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 15.11.61 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|----------|
| 2354 | सुनील कुमार, पुत्र श्री शिव शंकर सिंह | बिहार एस वी सी/ 1398/ 2000 | ग्राम बुलाकोपुर, डाक पोखारविंदा, थाना रीघा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 84 | 8.12.61 |
| 2355 | सुनील कुमार, पुत्र श्री लखमी चंद | एच ए आर एस वी सी/ 1628 | 41 आर डी एस हाउस, एच ए यू, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/2000 | 1.4.76 |
| 2356 | सुनील तिवारी, पुत्र डॉ. योगेंद्र तिवारी | बिहार एस वी सी/ 1050/ 2000 | ग्राम एवं डाक सुझया बाजार, थाना कटोरिया, जिला चंका, पिन- 813106 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 23.11.68 |
| 2357 | सुनील कुमार एस सी, पुत्र श्री चंद्रप्पा | कर्ना एस वी सी/ 3188 | सोमेनाहल्ली, यादवनाहल्ली, डाक अरासीकरे, तालुक हसन जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/2000 | 18.5.78 |
| 2358 | सुरंजन सरकार, पुत्र श्री शिव प्रसाद सोरकार | बिहार एस वी सी/ 1432/ 2000 | मौह, स्टेशन रोड, डाक एवं थाना जमतारा, जिला दुमका, पिन- 815351 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 11.11.72 |
| 2359 | सुरेंद्र मोहन डांडे, पुत्र श्री शेर सिंह डांडे | एच ए आर एस वी सी/ 1640 | ग्राम खेरी मारकेंडर कोलोनी, डाक सिरसाला, जिला कुरुक्षेत्र | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/2000 | 7.8.75 |
| 2360 | सुरेंद्र चौधरी, पुत्र श्री मुन्नी चौधरी | बिहार एस वी. सी/ 1135/ 2000 | ग्राम+ डाक+ थाना सजहौली, जिला बिक्रमगंज | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 76 | 3.10.50 |
| 2361 | सुरेंद्र वत्ता गुप्ता, पुत्र श्री प्रयाग वत्ता गुप्ता | एम पी एस वी सी/ 1881/ 2000 | डी- 69, हरिशंकरपुरम्, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 72 | 16.4.47 |
| 2362 | सुरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री रघुवंश कुमार सिंह | बिहार एस वी सी/ 862/ 2000 | मौह, दक्षिणी अकोना, डाक दक्षिणी अकोना, थाना उदवतनगर, जिला आराह | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/74 | 5.7.48 |
| 2363 | सुरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री रामराचा सिंह | बिहार एस वी सी/ 1174/ 2000 | ग्राम एवं डाक नेमा, थाना लार, जिला देवरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 66 | 26.1.43 |
| 2364 | सुरेंद्र कुमार, पुत्र श्री साधु शरन यादव | बिहार एस वी सी/ 952/ 2000 | मौ. वार्ड न. 1, हासीपुर, डाक एवं थाना खगरिया, जिला खगरिया | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 1.7.46 |
| 2365 | सुरेंद्रनारायण मिश्रा, पुत्र श्री सत्यनारायण मिश्रा | बिहार एस वी सी/ 1887/ 2000 | ग्राम धोईगढ़, डाक धोई, थाना दरभंगा, जिला दरभंगा, पिन- 846005 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 12.1.70 |
| 2366 | सुरेंद्र नाथ सिंह, पुत्र स्व. श्री ब्रजनंदन सिंह | बिहार एस वी सी/ 1453/ 2000 | मौह, कोट्ट एरिया, डाक, थाना एवं जिला जहानाबाद, पिन- 804408 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 10.1.47 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएँ | जन्मातीथे |
|---------|--|--------------------------------------|--|---|-----------|
| 2367 | सुरेंद्र नाथ, पुत्र स्व. श्री कार्ल लाल | बिहार एस वी सी / 1623 / 2000 | मौ. सुधा सदन, रोड न.14, ईस्ट अशोक नगर, कंकरबाग, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 1.10.37 |
| 2368 | सुरेंद्र प्रसाद शर्मा, पुत्र स्व. श्री रामाशीष शर्मा | बिहार एस वी सी / 1474 / 2000 | ग्राम एवं थाना बिधा कॉलोनी, डाक जी पी ओ, जिला पटना, पिन 800001 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 1.2.46 |
| 2369 | सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1001 / 2000 | एम—तारकेश्वर नाथ पथ, डाक चिरैयातन, थाना कंकरबाग, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 15.12.43 |
| 2370 | सुरेंद्र प्र. श्रीवास्तव, पुत्र स्व. श्री दानरी लाल | बिहार एस वी सी / 1667 / 2000 | ग्राम एवं डाक इंदौर, थाना इटारी, जिला बक्सर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 4.4.47 |
| 2371 | सुरेंद्र प्रसाद यादव, पुत्र श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव | बिहार एस वी सी / 1855 / 2000 | मौ. बैंकमेन्स कॉलोनी, डाक चित्रंगुप्त नगर, थाना पटकार नगर, पटना— 800020 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 84 | 31.12.58 |
| 2372 | सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्व. डॉ. नरावन लाल | बिहार एस वी सी / 856 / 2000 | मौ. शेखपुरा, बेली रोड, 106—मी—1, नारायणश्री अपा., थाना शास्त्रीनगर, पटना— 14 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी यू/ 60 | 25.8.39 |
| 2373 | सुरेंद्र याह. पुत्र स्व. श्री जूगो साह | बिहार एस वी सी / 1762 / 2000 | ग्राम बावा, डाक बासबित्ती, थाना सुपौल, जिला सुपौल, पिन— 852130 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 95 | 25.8.67 |
| 2374 | सुरेंद्र कुमार घौसके, पुत्र श्री रियाराम घौसके | एम पी एस वी सी / 1886 / 2000 | सहा, वेट, फील्ड अधिकारी, इंचार्ज, ए आई सी, मुर्ग जिला, जबलपुर 482006 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 99 | 2.7.62 |
| 2375 | सुरेश चंद भीना | आर ए जे एस वी सी / 2693 / 2000 | ग्राम मोहाचा कां पुरा, डाक मोहाचा, तह, गंगापुर सिटी, जिला सराईमाधोपुर 322203 | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 10.5.73 |
| 2376 | सुरेशचंद्र विद्यार्थी, पुत्र स्व. श्री मौलवी प्रसाद रिंह | बिहार एस वी सी / 1214 / 2000 | ग्राम परसावन्ना, डाक रॉयपुर कोयल बीघा, थाना थोरवारी, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 69 | 5.6.45 |
| 2377 | सुरेश कुमार धर्मा, पुत्र स्व. श्री बहमा प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1037 / 2000 | ग्राम रामचंद्रपुर, डाक एवं थाना थोरी, जिला गोपालगंज | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 1.12.42 |
| 2378 | सुरेश कु. वंसीवाल, पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद | आर ए जे एस वी सी / 2622 / 2000 | गल्फ स्कूल के निकट, सेवार, भरतपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 12.5.73 |
| 2379 | सुरेश कु. श्रीवास्तव, पुत्र श्री श्रीकृष्ण दयाल | एम पी एस वी सी / 1915 / 2000 | वेट. हॉस्पिटल कैम्पस, जिला सिहोर— 466001 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/99-00 | 13.7.59 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2380 | सुरेश कुमार पुत्र श्री नारायण महतो | बिहार एस वी री/ 1605/ 2000 | ग्राम सिपाह, डाक राना बिगाहा, थाना दीपनगर, जिला नालंदा— 803101 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 97 | 12.10.69 |
| 2381 | सुरेश कुमार, पुत्र श्री हरचंद | एच ए आर एस वी सी/ 1652 | ग्राम एवं डाक कोहारार वाया: महर (रिवाड़ी) | बी वी एस सी एड ए एच/सी सी एस एच ए यू/2000 | 1.5.76 |
| 2382 | सुरेश एन सज्जन, पुत्र श्री निंगप्पा वी सज्जन | कर्ना एस वी सी / 3069 | बन्नीकोप्पा, तालुक येलबर्गा, जिला कोप्पल | बी वी एस सी एड ए एच/यू ए एस धारवाड / 1999 | 1.6.76 |
| 2383 | सुरेश प्रसाद सिंह, पुत्र श्री सुदामा प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1958/ 2000 | ग्राम ज्ञानवती लुआ, डाक बुधु चाक, थाना पीरपेंती, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 88 | 1.1.59 |
| 2384 | सुरेश प्रसाद, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1004/ 2000 | ग्राम गोपालवाड, डाक गोपालवाड, थाना सारमेरा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 69 | 26.11.48 |
| 2385 | सुरेश सरागराचार, पुत्र श्री राचया सारगराचार | कर्ना / 3197 | राजाजीनगर, ककनूर, येलबर्गा, जिला कोप्पल | बी वी एस सी एड ए एच/यू ए एस बंगलौर / 2000 | 11.2.77 |
| 2386 | सुरेश रविकुमार वैकटराव | एम एस वी सी / 6395/ 2000 | एठी डाक बारबादा, तालुक नवेगांव (के एच), जिला नांडेड— 431602 | बी वी एस सी एड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 10.6.74 |
| 2387 | सुरिन्दर यादव, पुत्र श्री सुरजाराम यादव | आर ए जे एस वी सी/2707/ 2000 | वेट. अधिकारी, वेटेरिनरी हॉस्पिटल, दौलतपुरा, श्रीगंगानगर | बी वी एस सी एड ए एच/राज कृ वि वि / 96 | 17.7.74 |
| 2388 | सुरजीत सिंह, पुत्र श्री जीवन सिंह | पी बी एस वी सी/2192/ 2000 | ग्राम एवं डाक भादोर, तहसील बरनाला, जिला सगरकर | बी वी एस सी एड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 5.4.71 |
| 2389 | सूर्य देव प्रसाद चौधरी, पुत्र स्व. श्री कोडायी चौधरी | बिहार एस वी सी/ 969/ 2000 | ग्राम घेघवा, डाक घेघवा, थाना मधुबन, जिला मोतीहारी | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 74 | 11.12.50 |
| 2390 | सूर्य प्रसाद वी, पुत्र श्री वी सूर्य नारायण | ए पी एस वी सी/ 03564/ 2000 | झारा जीएसआर अंजानेयुलु डीआर-7ए-11-5, मेनबाजार, इलुरु— 534001, प.गो.जिला | बी वी एस सी एड ए एच/ए पी ए यू/ 87 | 10.5.64 |
| 2391 | सूर्य नारायण मंडल, पुत्र श्री गनौरी मंडल | बिहार एस वी सी/ 1325/ 2000 | मौ. बड्डीपारा, नया गांव, डाक जमाल पुर, थाना इस्ट कॉलोनी, जिला मुगेर | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 83 | 21.4.56 |
| 2392 | सूर्य नारायण जी, पुत्र श्री दीक्षातुलु | ए पी एस वी सी/ 03563/ 2000 | प्लॉट्न.30, वेटेरिनरी कॉलोनी, डी आर न. 54-16-1/1, विजयवाडा— 520008 | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 77 | 2.7.36 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---------------------------------------|--|--|----------|
| 2393 | सूर्यवंश ठाकुर, पुत्र स्व. श्री राम लखन ठाकुर | बिहार एस वी सी/ 1956/ 2000 | ग्राम पाराये, डाक चाराये, थाना चंटपुर, जिला पलामू पिन- 822113 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 22.7.73 |
| 2394 | सूर्यवंशी प्रशांत रामचंद्र | एम एस वी सी/ 6379/ 2000 | एटी डाक कुड्डुस, तालुका वाडा, जिला थाणे | बी वी एस सी एंड ए एच/ के के वी/ 2000 | 30.12.77 |
| 2395 | सूसन कुमार सरकार | डब्ल्यू बी एस वी सी/ 2806/ 2000 | ग्राम एवं डाक चंचल, थाना चंचल, जिला मालदा | बी वी एस सी एंड ए एच/ डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 2396 | सुशील कुमार सिन्हा, पुत्र श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी/ 1320/ 2000 | मौ. नया डाक बंगला रोड, डाक जमाल रोड, थाना गांधी मैदान, पटना- 800001 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 7.2.70 |
| 2397 | सुशील कुमार, पुत्र श्री महेंद्र कुमार | बिहार एस वी सी/ 1468/ 2000 | ग्राम एवं डाक सोनबरसा, थाना बिहुपुर, जिला भागलपुर, पिन- 853201 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 17.1.62 |
| 2398 | सुशील पी, पुत्र श्री पी सतीश | ए पी एस वी सी/ 03536/ 2000 | द्वारा बी हनुमंदलु, विराया होटल, सोमवारपेट, निर्मल, आदिलाबाद जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ मराठवाडा कृ. वि वि/2000 | 13.6.77 |
| 2399 | सुषमा परधिया, पुत्र श्री जयेन्द्र परधिया | बिहार एस वी सी/ 1979/ 2000 | मौ हिनू शुक्ला कॉलोनी, डाक हिनू, थाना डोरांडा, जिला रांची, पिन- 834002 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 93 | 5.12.67 |
| 2400 | सुयश वर्धन भाल | डी वी सी/ 0554/2000 | अदिति भाल, ऐ-10, द्रोणाचार्य अपा., मयूर विहार एक्स., नई दिल्ली | बी वी एस सी एंड ए एच/ डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | 14.9.72 |
| 2401 | स्वागत सिंखल, पुत्र श्री एम सी सिंखल | पी वी एस वी सी/ 203/ 2000 | एच- 33, एन- एरिया, एयरपोर्ट चौक, चंडीगढ़ | बी वी एस सी एंड ए एच/एच पी के वी वी/ 1990 | 19.7.68 |
| 2402 | स्वपन देबनाथ, पुत्र श्री प्रफुल्ल देबनाथ | त्रिपुरा/ 64/ 2000 | ग्राम मोहनपुर, डाक मजलिशपुर, त्रिपुरा वेस्ट | बी वी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 86 | 10.1.62 |
| 2403 | स्वपन कुमार पॉल, पुत्र श्री सुरेश च. पॉल | त्रिपुरा/ 29/ 2000 | द्वारा प्रोफे. एस सी पॉल, डाक अगरतला कॉलेज, त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी/ 77 | 1.5.53 |
| 2404 | स्वपन रजाक, पुत्र स्व. श्री युद्धिष्ठिर रजाक | बिहार एस वी सी/ 1337/ 2000 | ग्राम एवं डाक हेंडलजूरी, थाना घाटशिला, जिला पूर्वी सिंघभूम | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 89 | 5.7.63 |
| 2405 | स्वराज्य ठाकुर, पुत्र स्व. श्री श्रीकांत ठाकुर | बिहार एस वी सी/ 2024/ 2000 | ग्राम अरसनडे, डाक बोरेवा, थाना कनके जिला रांची | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 9.8.47 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएँ | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------------|---|---|----------|
| 2406 | सैयद इब्ने हसन, पुत्र स्व. श्री सैयद मसूरुल हसन | बिहार एस वी सी/ 1798/ 2000 | ग्राम एवं डाक चंदनोपट्टी, थाना हयाघाट, जिला दरभंगा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 9.1.44 |
| 2407 | सैयद मीर अल्ताफ हुसैनी, पुत्र श्री सैयद मूसा | कर्ना एस वी सी/3148 | म.न. टी एस 993 / 80, ए/ 1, महभूद नगर, रिंग रोड के निकट, गुलबर्गा | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ 2000 | 7.8.78 |
| 2408 | सैयदरफीउद्दीन, पुत्र श्री सैयद निजामुद्दीन | ए पी एस वी सी/ 03598/ 2000 | जामा मस्जिद स्ट्रीट, आंध्रा बैंक के सामने, विकाराबाद, आर आर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ मराठवाडा कृ वि वि/ 79 | 4.7.55 |
| 2409 | सैयद शरफुद्दीन, पुत्र श्री सैयद रसूल हुसैनी | ए पी एस वी सी/ 03672/ 2001 | एफ 2, श्रीनिवास अपा, श्रीनिवासपुरम, रामथपुरम, हैदराबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/ए पी ए यू/ 72 | 1.6.46 |
| 2410 | सैयद तैयब हुसैन, पुत्र स्व. श्री अली बख्श हुसैन | बिहार एस वी सी/ 965/ 2000 | ग्राम सारैया, डाक औरंगाबाद, थाना अमझोर, जिला रोहतास, पिन- 821312 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 2.2.46 |
| 2411 | टी लजार मैथ्यू | डी वी सी/ 0517/ 99 | ई सी--285, माया एन्कलेव, नई दिल्ली- 64 | बी वी एस सी/ केरल वि वि/ 64 | 12.7.42 |
| 2412 | टी पी बालगोपालन | पॉण्डी/ 112/ 2000 | 44, पुडुपेट, लॉसपेट, मेन रोड, पॉण्डीचेरी- 605008 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 83 | 29.7.60 |
| 2413 | टागो बागे | अरुणा/ 183/ 98 | द्वारा टायो हाने, सी एल एफ, निर्जुली, जिला पापुम्पर, डाक निर्जुली | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ | 10.2.71 |
| 2414 | ताजुद्दीन उस्ता, पुत्र श्री गुलाम रसूल उस्ता | आर ए जे एस वी सी/2721/ 2000 | उस्तो को मौहल्ला, बीकानेर, राजस्थान | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ वि वि/ 2000 | 9.11.71 |
| 2415 | तमाल कृष्ण रे, पुत्र श्री क्षितिज च. रे | त्रिपुरा/ 73/ 2000 | द्वारा गोपाल नाहा, धालियाई, सोनामुरा, त्रिपुरा पश्चिम- 799131 | बी वी एस री/यू ए एस बंगलौर/ 88 | 12.8.66 |
| 2416 | तम्बोली सलेम रमजान | एम एस वी सी/ 6386/ 2000 | एटी डाक माहुली, तालुक काहनापुर, जिला सांगली- 415310 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 6.9.77 |
| 2417 | तपन ज्योति रॉय | डब्ल्यू बी एस वी सी/2792/ 2000 | हरिघाटा फार्म, क्वा. न. जी के/ 5, डाक मोहनपुर, जिला नाडिया | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/2000 | |
| 2418 | तपन रे, पुत्र ले. श्री चित्ता आर एन रे | त्रिपुरा/ 102/ 2000 | डाक कंचन बाड़ी, द्वारा जाधुलाल रॉय | बी वी एस सी एंड ए एच/ओ यू ए एंड टी/ 99 | 1.1.74 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|---|--|---|----------|
| 2419 | तापस बदोपाध्याय | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2795 / 2000 | सैन्धिया, 132 के वी सबस्टेशन, डाक सैन्धिया, जिला बीरभूम | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 2420 | तापस कुमार बिरखास | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2815 / 2000 | ग्राम नातुन बुइंचा (फुलिया नेताजी नगर), डाक बुइंचा, थाना सांतिपुर, जिला नाडिया | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस / 2000 | |
| 2421 | तापस कुमार दत्ता | वी सी आई / 2228 / 2000 | वैज्ञानिक, सी आई आर जी, मखदूम, डाक फाराह, मथुरा; उ.प्र.— 281122 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 89 | 13.12.63 |
| 2422 | तापेश्वर कुमार, पुत्र श्री युगेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1646 / 2000 | ग्राम रोसालपुर खुर्द, डाक दरमंगा, थाना बहादुरपुर, जिला दरमंगा, पिन— 846002 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 2.1.72 |
| 2423 | तापेश्वर तिवारी, पुत्र स्व. श्री राजदेव तिवारी | बिहार एस वी सी / 2033 / 2000 | ग्राम एवं डाक गोरखारी, थाना बिक्रम, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 62 | 1.7.37 |
| 2424 | तारा बोथरा | आर ए जे एस वी सी / 2680 / 2000 | पुत्री श्री धरम लाल बोथरा, बाबा रामदेव रोड, मेन बाजार, गंगाशहर, बीकानेर | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृ.वि वि / 2000 | 20.8.76 |
| 2425 | तरालकर ध्यानेश्वर निवृत्ति | एम एस वी सी / 6332 / 2000 | एटी सोगांव, डाक लोखड़ी, सावरगांव तालुका, अम्बेजोगई जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 26.12.77 |
| 2426 | तारकेश्वर सिंह, पुत्र श्री जगदीश कुमार सिंह | बिहार एस वी सी / 949 / 2000 | मौ. रासा शिओनगरी, डाक तेलपा, थाना छपरा, जिला छपरा, पिन— 841301 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 91 | 28.12.64 |
| 2427 | तरनी प्रसाद मंडल, पुत्र स्व. श्री कमल नारायण मंडल | बिहार एस वी सी / 1040 / 2000 | मौ. एवं डाक करजाई, उत्तर टोला, थाना करजाई बाजार, जिला सुपौल, पिन— 852215 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 12.2.68 |
| 2428 | तरुण कुमार, पुत्र श्री हरीश वंद्र गर्ग | यू पी वी सी / 3262 | 26, लक्ष्मी विहार, गाजियाबाद, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/00 | 3.3.76 |
| 2429 | तेज नारायण रिंह, पुत्र स्व. श्री धुरधर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1461 / 2000 | मौह. पोखरा, डाक एवं थाना हाजीपुर, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 3.1.47 |
| 2430 | तेज नारायण रिंह, पुत्र श्री राम गुलाम सिंह | बिहार एस वी सी / 1366 / 2000 | मौ. आकाशवाणी चौक, थाना कोतवाली, डाक एवं जिला भागलपुर, पिन— 812001 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 18.10.42 |
| 2431 | तेज कुमार राम बैठा, पुत्र श्री जगेश्वर बैठा | बिहार एस वी सी / 1942 / 2000 | मौह. आर एस सी गेट, डाक एवं थाना कलके, जिला रांची, पिन— 834006 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू / 89 | 16.1.62 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|----------------------------|---|---|----------|
| 2432 | तेरांगणी डॉ. (श्रीमती) एलीना, पुत्री श्री पांर्नो तेरांग | ए एस एम/ 1903 / 2000 | लॉर्ललांगसो मार्केट कॉम्पलेक्स, डाक डिफु - 782460, कारबी-अंगलोंग, असम | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | |
| 2433 | ठाकरे शर्मिष्ठा जानबाराब | एम एस वी सी/ 6372/ 2000 | कॉस्मोपॉलिटन सोसायटी, वर्धा रोड, सोमलवाड़ा, नागपुर- 440025 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी. डी के वी/ 2000 | 31.7.77 |
| 2434 | ठाकुर अभय नाथ सिंह, पुत्र स्व. श्री जनक सिंह | बिहार एस वी सी/ 1777/ 2000 | ग्राम मजलिशपुर, डाक अलीपुर हट्टा, थाना महनोर, जिला वैशाली | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 1.2.47 |
| 2435 | थांडवोमूर्ति सी | पॉण्डी/ 94/ 2000 | ए-1,स्टाफ क्वाराजीव गांधी कॉलेज ऑफ वेट एंड एनीमल सां, कुरुम्बापेट, पॉण्डीचेरी | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 73 | 6.6.50 |
| 2436 | थिंगुजाम चा तोलेनखोम्बा | मणि/ 371/ 2000 | उरीपोक, सोरखोन थिंगेल | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 2000 | 1.1.76 |
| 2437 | थिप्पेखामी एल, पुत्र श्री लचिन्मानाइक | कर्ना एस वी सी/ 3154 | होसाहट्टी, डाक इसामुधारा, जिला चित्रदुर्ग | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड/ 2000 | 22.7.76 |
| 2438 | थिरमुरुगन पी | केरल एस वी सी/ 2445/ 2000 | ईश्वर्य निवास, 111/ 711ए ओजुवाथडम वालासा, डाक अदिमाली, इल्लुकी- 686691 | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 95 | 4.1.70 |
| 2439 | थिरुपथि वेंकट चतुर्पथि आर | केरल एस वी सी/ 2444/ 2000 | 49, फ्लैट, स्ट्यु क्वार्ब्स, वेटेरिनरी कॉलेज, मन्नुथी, थिसूर | बी वी एस सी/टी एन वी एंड ए एस यू/ 92 | 15.4.69 |
| 2440 | थॉमस विजो जॉय | केरल एस वी सी/ 2488/ 2000 | पराईकारा, मावेलिकारा डाक, अलपुजा, पिन- 690101 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 24.3.74 |
| 2441 | थॉन्गाबाम निरंजन सिंह | मणि/ 366/ 2000 | सागोलबंद तेरा अमुदोन, इम्फाल | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 2000 | 25.9.73 |
| 2442 | थोराट विनोद जालीदर | एम एस वी सी/ 6391/ 2000 | एटी डाक मेसिंगी, तालुक सांगोला, जिला सोलापुर- 413307 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी/ 2000 | 9.12.77 |
| 2443 | त्रिमूर्ति नायक एम एच, पुत्र श्री होसा लप्पा एम के | कर्ना एस वी सी/ 3170 | डाक मन्ने, थयामागोडालु, एच ओ नेलामंगला तालुक, बंगलौर जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 9.8.74 |
| 2444 | टीटो थॉमस | केरल एस वी सी/ 2499/ 2000 | नाडावल्लि हाउस, पुलियूर गार्डन्स, नालनदिरा, त्रिवेद्रम- 15 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 2.1.76 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------|--|--|----------|
| 2445 | टिटसन पिनहीरो | केरल एस वी सी / 2447 / 2000 | चीनिकापराम्बिल हाउस, साउथ बाजार, ईस्ट एंड रोड, इरंजलेकुडा, थिसूर | बी वी एस सी एंड ए एच/ के ए यू/ 2000 | 4.12.73 |
| 2446 | त्रागंडिया भावेश कुमार जयंति लाल | वी सी आई / 2300 / 2001 | एल आई टी सी होस्टल, एटी सरदार कृष्णनगर 385506तालु, दांतीवाडा, जिला बनासकंठा | बी वी एस सी एंड ए एच/ जी ए यू/ 2000 | 13.3.77 |
| 2447 | त्रिभुवन प्रसाद, पुत्र श्री महंगु राम | यू पी वी सी / 3268 | ग्राम हिसामुदीनपुर, डाक पीपरा, जिला अम्बेडकर नगर, उप्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/ जी वी पी यू ए एंड टी/ 2000 | 10.4.75 |
| 2448 | त्रिवेनी शर्मा, पुत्र श्री भगवान प्रसाद शर्मा | बिहार एस वी सी / 1661 / 2000 | ग्राम खभारियो, डाक एवं थाना अरवाल, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 80 | 1.1.56 |
| 2449 | तुलसी राम जे, पुत्र श्री जे सुब्रायुदु | ए पी एस वी सी / 03647 / 2000 | 5 / 25, पुत्र श्री रायुडु (के जे एस), कोडापेटा (डाक), चेन्नूर (एम), कुडप्पा जिला— 516162 | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 2.6.75 |
| 2450 | तुलसी दास चौधरी, पुत्र श्री बिनय कुमार चौधरी | त्रिपुरा / 84 / 2000 | गोविंदपुर (पूर्व), डाक कैलाशहर, उत्तरी त्रिपुरा, पिन— 79927 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 2000 | 28.2.61 |
| 2451 | उदय भान मल, पुत्र श्री एस वी मल | यू पी वी सी / 3224 | 220 / 222, दीवान बाजार, गोरखपुर (उ.प्र.) | बी वी एस सी एंड ए एच/आगरा वि वि / 76 | 7.7.51 |
| 2452 | उदय कुमार सिन्हा, पुत्र श्री द्वारिका सिन्हा | बिहार एस वी सी / 1452 / 2000 | ग्राम एवं डाक इच्छाहोस, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा, पिन— 801303 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 95 | 16.2.69 |
| 2453 | उदय कुमार, पुत्र श्री युगल किशोर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1402 / 2000 | ग्राम एवं डाक होतवार, थाना सदर, जिला रांची, पिन— 835217 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 7.5.73 |
| 2454 | उदय नारायण प्रसाद, पुत्र श्री उपेंद्र नारायण प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1074 / 2000 | मौह. पोलहारिया, डाक एवं थाना बेगुसराय, जिला बेगुसराय, पिन— 851101 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 10.5.44 |
| 2455 | ऊद्धेश्वर महतो, पुत्र स्व. श्री माणिक महतो | बिहार एस वी सी / 1147 / 2000 | ग्राम रत्नांडीह, डाक कायारींडीह, थाना बागोदर, जिला गिरिंडीह | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 9.11.47 |
| 2456 | उदित जैन, पुत्र श्री के के जैन | यू पी वी सी / 3199 | 250, मानस नगर, मथुरा, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी/ 2000 | 6.9.74 |
| 2457 | उज्ज्वल कुमार, पुत्र श्री पी प्रसाद | बिहार एस वी सी / 844 / 2000 | मौह. चांदमारी रोड, सूर्य पथ, डाक लोहियानगर, थाना ककरबांग, पटना— 800020 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 94 | 14.8.69 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहतारं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|--|--|----------|
| 2458 | उमा चौधरी, पुत्री श्री ए चेंचू सुब्बा राव | ए पी एस बी सी/ 03630/ 2000 | कृष्णानगर, 7वीं लाइन, कुंडुल रोड, गुट्टूर- 522006 | बी बी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 22.9.76 |
| 2459 | उमा कांत सिंह, पुत्र श्री अंगद प्रसाद सिंह | बिहार एस बी सी/ 1200/ 2000 | ग्राम एवं डाक बारी कादर जन्ना, थाना एवं जिला साहेबगंज, पिन- 816109 | बी बी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 89 | 2.1.62 |
| 2460 | उमा कांत यादव, पुत्र स्व. श्री अखिलेश्वरी प्रसाद यादव | बिहार एस बी सी/ 950/ 2000 | मौ. मधुरा, डाक एवं थाना तारापुर, जिला मुंगेर | बी बी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 74 | 15.1.49 |
| 2461 | उमा महेश्वरी | पॉण्डी/ 108/ 2000 | 18, जांसी स्ट्रीट, इंदिरा गांधीनगर, ओरलियनपेट, पॉण्डीचेरी- 605001 | बी बी एस सी/टी वी ए एस यू/ 92 | 25.9.67 |
| 2462 | उमा प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्व. श्री कैलाश सिन्हा | बिहार एस बी सी/ 1339/ 2000 | ग्राम हुसैनचौक, डाक चारमा, थाना मसौधी, जिला पटना | बी बी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 3.4.48 |
| 2463 | उमा शंकर प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह | बिहार एस बी सी/ 1696/ 2000 | ग्राम खडपार, डाक कवादपुर, थाना सूर्यगढ़, जिला लखीसराय | बी बी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 88 | 6.3.80 |
| 2464 | उमाकांत मिश्रा, पुत्र श्री एस पी मिश्रा | आर ए जे एस बी सी/ 2760/ 2001 | 1/ सी, गवर्न. वेट, हॉस्पिटल, जावाली पाली, राजस्थान | बी बी एस सी एंड ए एच/ सी एस ए डी पी वी/ 99 | 15.8.73 |
| 2465 | उमंग मिगलानी, पुत्र श्री एन के मिगलानी | एच ए आर एस बी सी/ 1654 | म.न. 27, शास्त्री नगर, हिसार | बी बी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/2000 | 26.3.77 |
| 2466 | उमा शंकर प्रसाद श्रीवास्तव, पुत्र श्री श्रीकांत प्रसाद | बिहार एस बी सी/ 1832/ 2000 | मौह.छोटी केला बाडी, डाक एवं थाना मुंगेर, जिला मुंगेर | बी बी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 8.1.48 |
| 2467 | उमा शंकर प्रसाद, पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद | बिहार एस बी सी/ 2059/ 2000 | मौ. प्रियदर्शी नगर, डाक दानापुर कैंट, थाना दानापुर, जिला पटना | बी बी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 18.1.40 |
| 2468 | उमा शंकर प्रसाद, पुत्र श्री साधु शरन प्रसाद | बिहार एस बी सी/ 1601/ 2000 | मौह. अश्वेक नगर, डाक लोहिया नगर, थाना कंकरबाग, जिला पटना- 800020 | बी बी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 86 | 26.1.82 |
| 2469 | उमाशंकर शर्मा, पुत्र श्री ऊधो सिंह | बिहार एस बी सी/ 1559/ 2000 | ग्राम हटिया, डाक घोसवारी, थाना बख्तयारपुर, जिला पटना | बी बी एस सी एंड ए एच/ओ यू ए एंड टी/ 75 | 12.1.53 |
| 2470 | उमाशंकर सिन्हा, पुत्र स्व. श्री शिवपूजन सिन्हा | बिहार एस बी सी/ 1456/ 2000 | मौ. हरिहरपुर लालगढ़, डाक गौतमबुधनगर, थाना बरहारिया, जिला सीवन | बी बी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 12.5.46 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जनसंख्या |
|---------|---|------------------------------------|---|---|----------|
| 2471 | उमेश चंद्र शुक्ला, पुत्र रवि श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला | बिहार एस वी सी / 1583 / 2000 | ग्राम सिधुआ अस्थान, डाक एवं थाना परारामा, जिला कुशीनगर, राज्य उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 68 | 1.7.45 |
| 2472 | उमेश चंद्र सिंह, पुत्र रवि डॉ. बैद्यनाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 1014 / 2000 | ग्राम रोसरा, डाक रोसरा, थाना रोसरा, जिला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 4.4.44 |
| 2473 | उमेश चौधरी, पुत्र श्री चंडेश्वर चौधरी | बिहार एस वी सी / 1484 / 2000 | ग्राम एवं डाक पारथु, थाना एकंगरसराय, जिला नालंदा, पिन- 801301 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 21.7.70 |
| 2474 | उमेश कात चौधरी, पुत्र रवि श्री रामचंद्र चौधरी | बिहार एस वी सी / 1619 / 2000 | ग्राम चंदयोर मथुरापुर, डाक मथुरापुर, थाना अजियारपुर, जिला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 79 | 1.10.55 |
| 2475 | उमेश कुमार गुप्ता, पुत्र श्री जीतेंद्र नाथ | बिहार एस वी सी / 1070 / 2000 | ग्राम छोटी बादलपुरा, डाक खगौल, थाना दानापुर, पटना- 801105 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 82 | 11.11.59 |
| 2476 | उमेश कुमार, पुत्र रवि श्री प्रसादी मंडल | बिहार एस वी सी / 1552 / 2000 | ग्राम एवं डाक रानी दियारा, थाना पीरपेंती, काहलगांव, जिला भागलपुर, पिन- 813222 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 96 | 8.3.71 |
| 2477 | उमेश प्रसाद श्रीवास्तव, पुत्र श्री गोरख लाल | बिहार एस वी सी / 1315 / 2000 | ग्राम प्रोसाहा, डाक गोबरौरा, वाया: लौरिया, थाना साथी, जिला बैतिया, पिन-845453 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 3.1.46 |
| 2478 | उमेश प्रसाद, पुत्र श्री सुखदेव प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1350 / 2000 | ग्राम गोती बीघा, डाक तुलसीगढ़, थाना चंडी, जिला नालंदा, पिन- 803108 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 82 | 31.3.58 |
| 2479 | उमेश्वरी शर्मा, पुत्र रवि श्री पारस सिंह | बिहार एस वी सी / 1742 / 2000 | ग्राम सोनडीहा, डाक गुरारू, थाना कोंच, जिला गया | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 29.8.42 |
| 2480 | उपाध्याय शैलेंद्र शंकर राजेंद्र प्रसाद | एम एस वी सी / 6366 / 2000 | बेल भगवंतराव डीईडी कॉलेज, रामपुरी, वा.न.11, चमोरशी रोड, गढ़चिरोली | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/2000 | 16.12.77 |
| 2481 | उपेंद्र कंसल, पुत्र श्री जय भगवान | एच ए आर एस वी सी / 1617 | म.न. 86, द्वारा आर्य कलॉथ हाउस, पुराना बाजार, इस्माइलाबाद (के के आर) | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एसएचए यू/99 | 27.5.76 |
| 2482 | उपेंद्र कुमार सिंह, पुत्र रवि श्री रामरूप सिंह | बिहार एस वी सी / 1410 / 2000 | ग्राम गामहारी, डाक एवं थाना उफोरा, जिला औरंगाबाद | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 87 | 3.1.63 |
| 2483 | उपेंद्र कुमार, पुत्र श्री जगदीश कुमार | बिहार एस वी सी / 1986 / 2000 | ग्राम चंदनबाग नद्या टोला, डाक, थाना एवं जिला मुंगेर, पिन- 811201 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 16.4.57 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|----------|
| 2484 | उपेंद्र नारायण यादव, पुत्र स्व. श्री बीरबल यादव | बिहार एस वी सी / 1868 / 2000 | ग्राम रेउता, डाक गोपालपुर, थाना धानन, जिला लखीसराय | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 82 | 6.6.57 |
| 2485 | उपेंद्र नाथ पांडे, पुत्र स्व. श्री रामाशीष पांडे | बिहार एस वी सी / 1715 / 2000 | ग्राम, डाक एवं थाना रामगढ़वा, जिला मोतीहारी | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 13.7.47 |
| 2486 | उपेंद्र पंडित, पुत्र श्री श्रीधर पंडित | बिहार एस वी सी / 2077 / 2000 | ग्राम महादेवपुर, डाक घोघा, थाना सोनहौला, जिला भागलपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 2000 | 18.9.74 |
| 2487 | ऊषा किरन भगत, पुत्री श्री नाकाराम भगत | एम पी एस वी सी / 1871 / 2000 | डाक पुंजुरदाधिरी, जिला सरगुजा, म.प्र.— 497119 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी / 98-99 | 5.2.71 |
| 2488 | ऊषा एन, पत्नी डॉ. प्रदीन कुमार एन आर | कर्ना एस वी सी / 3099 | डाक एवं ग्राम तस्सूर, तालुक सोशबा, जिला शिमोगा | बी वी एस सी/यू ए एस बंगलौर/ 99 | 1.6.75 |
| 2489 | ऊषा रानी जी सी, पुत्री श्री चिदानंद एन | कर्ना एस वी सी / 3183 | 1124 / 1, 11 ब्लॉक, तीसरा मेन, विद्यारण्यपुरा, बी ई एस लेआउट, बंगलौर— 97 | बी वी एस सी एंड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 10.4.78 |
| 2490 | उत्तम साहा, पुत्र श्री सत्येंद्र च. साहा | त्रिपुरा / 74 / 2000 | द्वारा ले. सत्येंद्र च. साहा, कामार पुकुर का दक्षिण, डाक अगरतला कॉलेज, त्रिपुरा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 87 | 10.12.63 |
| 2491 | उत्तम सरकार | डब्ल्यू बी एस वी सी / 2840 / 2001 | डाक एवं ग्राम बिल्शी— 11, थाना लुफानगंज, जिला कूचबिहार | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बी यू ए एफ एस/ 2000 | |
| 2492 | उज्मा, पुत्री श्री फारूक अहमद खान | यू पी बी सी / 3279 | द्वारा 1 / 137, जी बी पी विश्वविद्यालय, पंतनगर, यू एस नगर | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी/ 2000 | 8.9.77 |
| 2493 | बी कुमाराने | पॉण्डी / 138 / 2001 | 156, यानतम वैगटाइलम, पिल्लई स्ट्रीट, पॉण्डीचेरी— 1 | बी बी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 30.5.78 |
| 2494 | बी एल भाग्यलक्ष्मी | केरल एस वी सी / 2497 / 2000 | अम्बाळी, टी सी 18 / 2036, अन्नूर, डाक थिरुमला, त्रिवेंद्रम, पिन— 695006 | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 31.1.76 |
| 2495 | बी मारुदम | पॉण्डी / 143 / 2001 | 18, एस एम वी पुरुष, विलियनूर, पॉण्डीचेरी— 605110 | बी वी एस सी एंड ए एच/पी यू/ 2000 | 22.12.77 |
| 2496 | बी नरसिंगाराव | पॉण्डी / 124 / 2000 | बी बी पी नगर, पॉण्डीचेरी— 605009 | बी वी एस सी/ए पी ए यू/ 74 | 1.6.51 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मस्थिति |
|---------|--|------------------------------------|---|--|------------|
| 2497 | वैद्य विलास महादेव | एम एस वी सी / 6350 / 2000 | वैद्य परिवार, अम्बेडकर वांडे, एटी बांधपुर, डाक रामगढ़, गढ़विरोली | बी वी एस सी एड ए एच / डॉ. पी डी के वी / 2000 | 7.6.76 |
| 2498 | वैद्यनाथ ज्ञा, पुत्र श्री सूर्य नारायण ज्ञा | बिहार एस वी सी / 1697 / 2000 | ग्राम एवं डाक मीहौल, थाना पंडोल, जिला मधुबनी | बी वी एस सी एड ए एच / आर ए यू/ 79 | 14.8.52 |
| 2499 | वैद्यनाथ प्रसाद, पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1776 / 2000 | ग्राम मैखदूमपुर, डाक पैठनाओ, इस्लामपुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एड ए एच / एम यू/ 68 | 3.1.46 |
| 2500 | वैद्यनाथ सिंह, पुत्र स्व. श्री रामनाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 1741 / 2000 | ग्राम धौमरिया, डाक मंदनपुर, थाना एवं जिला अरेरिया, पिन- 854333 | बी वी एस सी एड ए एच / बी ए यू/ 84 | 6.1.61 |
| 2501 | वाने श्याम रवीन्द्र | एम एस वी सी / 6365 / 2000 | द्वारा आर जी वाने, वाने लेन, अकोट तालुक, अकोट जिला, अकोटी- 444101 | बी वी एस सी एड ए एच / डॉ. पी डी के वी / 2000 | 30.6.78 |
| 2502 | वनीत मल्होत्रा, पुत्र श्री जीवन कुमार मल्होत्रा | पी वी एस वी सी / 2229 / 2001 | म.न. वी-35/118, बक्षी गंडा सिंह स्ट्रीट, सिरहंदी बाजार, पटियाला | बी वी एस सी एड ए एच / पी ए यू/ 2000 | 7.3.76 |
| 2503 | वाराप्रसाद रेड्डी के एन, पुत्र श्री के सुब्बा रेड्डी | ए पी एस वी सी / 03645 / 2000 | मौ. एवं डाक राघवला, तालुक गिर्डालूर, जिला प्रकासम- 623366 | बी वी एस सी एड ए एच / ए एन जी आर ए यू / 2000 | 30.8.74 |
| 2504 | वरिन्द्र कुमार, पुत्र श्री बनारसी दास | पी वी एस वी सी / 2185 / 2000 | म.न. 717, गली न. 12, न्यू मॉडल हाउस, जालंधर सिटी- 144003 | बी वी एस सी एड ए एच / पी ए यू/ 2000 | 8.11.76 |
| 2505 | वरुण कुमार, पुत्र श्री घनश्याम दास | यू पी वी सी / 3309 | डी-2211, इंदिरा नगर, लखनऊ, उ.प्र. | बी वी एस सी एड ए एच / सी एस ए यू ए एंड टी / 2001 | 25.2.76 |
| 2506 | वासवा किरन कुमार अरविंद भाई | वी सी आई / 2287 / 2001 | डिपा. माइक्रोबायोलॉजी, वेट कॉलेज, गुजरात कृ वि वि, सरदार | बी वी एस सी एड ए एच / जी ए यू/ 99 | 11.6.74 |
| 2507 | वाज रणधीर क्लेटन | गोआ एस वी सी / 117 / 2001 | सी/1, दीना हाउसिंग कॉलोनी, आल्टो-डि- पोरवोरिम, बारडे | बी वी एस सी एड ए एच / के के वी / 2000 | 8.5.78 |
| 2508 | वेद प्रकाश गिरि, पुत्र श्री खामी पुण्यदेव गिरि | बिहार एस वी सी / 1625 / 2000 | ग्राम गोडना मठिया, डाक एवं थाना रेवेलगंज, जिला छपरा | बी वी एस सी एड ए एच / बी ए यू/ 81 | 12.7.56 |
| 2509 | वीरामनि पी | केरल एस वी सी / 2526 / 2001 | क्वा. न. वी / 9, टीचर्स क्वार्टर्स, वेट कॉलेज कैम्पस, मनुथी | बी वी एस सी / टी एन वी एंड ए एस यू / 93 | 31.3.70 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|--------------------------------|---|---|----------|
| 2510 | वेलोविया मोमिन | मेघ/ 176/ 2001 | न्यू केंच ट्रेस, शिलौंग— 13 | बी वी एस सी एंड ए एच/ जे एन के वी वी / 99 | 6.12.73 |
| 2511 | वेंकट रामनङ्गयाह डी, पुत्र श्री डी पोथुलुरङ्गयाह | ए पी एस वी सी / 03636/ 2000 | 14 / 72, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, पोर्लमामिल्ला, कुडप्पा जिला— 516193 | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए पी ए यू/ 89 | 25.6.67 |
| 2512 | वेंकट रमेश जी, पुत्र श्री लक्ष्मीकांतम् | ए पी एस वी सी / 03574/ 2000 | वेट असि. सर्जन, वेट डिस्पेंसरी, विनायकापुरम डाक, खम्मम— 507301 | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए पी ए यू/ 89 | 14.11.65 |
| 2513 | वेंकट सुबङ्गयाह डी, पुत्र श्री डी सुनकन्ना | ए पी एस वी सी / 03656/ 2000 | म.न. 5-760-ए-120, गायत्री एस्टेट, कुर्नूल | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए पी ए यू/ 94 | 1.6.64 |
| 2514 | वेंकट सुरेश टी, पुत्र श्री टी पदमनाभम् | ए पी एस वी सी / 03555/ 2000 | डी न. 69-12-12, इंजी. कॉलेज डाक, काकीनाडा— 533003 | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए पी ए यू/ 98 | 18.6.75 |
| 2515 | वेंकटेश्वर नाथ पांडे, पुत्र स्त. श्री गुप्तेश्वर पांडे | बिहार एस वी सी / 1146/ 2000 | ग्राम महुआरी, डाक, जमुआंव, थाना अगीगांव, जिला आराह (भोजपुर) | बी वी एस सी एंड ए एच/ आर ए यू/ 78 | 30.6.53 |
| 2516 | वेणु टी, पुत्र श्री सत्यनारायण | ए पी एस वी सी / 03539/ 2000 | डाक एवं मौ. अड्डेपल्ली, भट्टीपरोलु, गुंटूर जिला —522256 | बी वी एस सी एंड ए एच/ ए एन जी आर ए यू/ 99 | 22.7.75 |
| 2517 | वेणु गोपाल एस | पॉण्डी / 103/ 2000 | 2, पहली मंजिल, प्रथम क्रॉस स्ट्रीट, कुरिंजी नगर, पॉण्डीचेरी— 605008 | बी वी एस सी एंड ए एच/ यू ए एस/ 88 | 4.3.66 |
| 2518 | तिमूते मधुकर किशनराव | एम एस वी सी / 6283 / 2000 | अशोक नगर, तह. मुखेद, मुखेद, जिला नांडेड— 431715 | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम ए यू/ 2000 | 12.7.76 |
| 2519 | विद्यानंद माऊर, पुत्र श्री सिद्धेश्वर नाथ माऊर | बिहार एस वी सी / 1535/ 2000 | ग्राम एवं डाक गाहरुआन, थाना पारेरी, जिला भोजपुर (आराह) | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 70 | 2.7.46 |
| 2520 | विद्या सागर सिंह, पुत्र स्त. श्री परमेश्वर प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 843/ 2000 | ग्राम एवं डाक बेसवाक, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/ बी ए यू/ 91 | 5.12.66 |
| 2521 | विद्या सागर, पुत्र श्री गंगा सागर | बिहार एस वी सी / 951/ 2000 | मौ. भगत चौकी, डाक नौगढ़ी, थाना मुफसिल, जिला मुंगेर | बी वी एस सी एंड ए एच/ आर ए यू/ 93 | 6.10.64 |
| 2522 | विद्यानंद वर्मा, पुत्र स्त. श्री शारदा प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1686/ 2000 | ग्राम+डाक+थाना नगर उत्तरी गधवा, जिला दधवा | बी वी एस सी एंड ए एच/ एम यू/ 68 | 11.11.43 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|--------------------------------------|--|---|----------|
| 2523 | विजय काशनिया | आर ए जे एस वी सी / 2606 / 2000 | जी वी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सागरिया, ज़िला हनुमानगढ़ | बी वी एस सी एड ए एच/सी एस ए यू ए रेंड टी/2000 | 20.7.76 |
| 2524 | विजय किशोर बारा, पुत्र श्री कालेमंत बारा | बिहार एस वी सी / 1634 / 2000 | ग्राम अटाकोरा तेतार टोली, डाक महादेव धैमिरी, थाना भारनो, ज़िला गुमला | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 96 | 7.1.72 |
| 2525 | विजय कुमार बेटना, पुत्र श्री रामलगान बेठना | बिहार एस वी सी / 1760 / 2000 | मौह.एवं डाक बूटी, थाना संदर रांधी, ज़िला रांधी, पिन- 835217 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 96 | 25.10.70 |
| 2526 | विजय कुमार डुंगडुंगा, पुत्र श्री हिलेरियस डुंग डुंग | बिहार एस वी सी / 1175 / 2000 | ग्राम कसौंगा दीपाटोली,डाक सिमडेगा, थाना थेथेटनगर, ज़िला गुमला- 835223 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 89 | 25.8.65 |
| 2527 | विजय कुमार सिन्हा, पुत्र रव. श्री अवध बिहारी लाल | बिहार एस वी सी / 1373 / 2000 | मौह. इमलीताल गंडमपाश, डाक इमलीताल,थाना दानापुर कैट, ज़िला पटना | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 70 | 1.1.48 |
| 2528 | विजय कुमार बाबू भाई परमार | वी सी आई / 2257 / 2001 | धापसा बोर्ड के निकट, नरोली भिलाड रोड, नरोली, दादरा एवं नगर हवेली,यूटी | बी वी एस सी एड ए एच/ के के वी/ 95 | 17.9.73 |
| 2529 | विजय कुमार झा, पुत्र श्री वी एम झा | बिहार एस वी सी / 1970 / 2000 | ग्राम उजान, डाक लोहना रोड, थाना सकटपुर, ज़िला दरभंगा | बी वी एस सी एड ए एच/सी सी एस एच ए यू/94 | 2.9.71 |
| 2530 | विजय कुमार, पुत्र श्री बलवीर चंद | पी वी एस वी सी / 2179 / 2000 | द्वारा.एस बलदेवराज प्रजापति, कारा बारा रोड, ग्राम व डाक सलेम टाबरी, ज़िला लुधियाना | बी वी एस सी एड ए एच/पी ए यू/ 1999 | 18.6.75 |
| 2531 | विजय कुमार सिंह, पुत्र रव. श्री राम नाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 1015 / 2000 | ग्राम धारारो, थाना कारथाटान, ज़िला वैशाली, पिन- 844119 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 93 | 18.10.66 |
| 2532 | विजय कुमार सिन्हा, पुत्र श्री रामवश सिंह | बिहार एस वी सी / 858 / 2000 | ग्राम अन्नैथ, डाक आराह, थाना नावादा, ज़िला आराह, पिन- 802301 | बो वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 68 | 31.1.46 |
| 2533 | विजय कुमार ,पुत्र स्व. श्री सरयुग राम | बिहार एस वी सी / 1348 / 2000 | मौह. पूसा बाजार, डाक पूसा फार्म, थाना पूसा, ज़िला समस्तीपुर ,पिन- 848125 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 88 | 2.3.60 |
| 2534 | विजय कुमार, पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1085 / 2000 | ग्राम बजरंग बीघा, डाक बीरनाबा, थाना काशीचाक, ज़िला नावादा | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 87 | 11.1.63 |
| 2535 | विजय महतो | वी सी आई / 2226 / 2000 | डिपा. फार्मकोलॉजी, कॉलेज ऑफ ट्रेट. सा., गुजरात कृ.वि वि, सरदार | बी वी एस सी एड ए एच/ जी ए यू/ 97 | 25.5.75 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|--|--|----------|
| 2536 | विजय पाल, पुत्र श्री सुरजीत सिंह | आर ए जे एस वी सी/ 2722/ 2000 | ग्राम एवं डाक पारला, झज्जर, हरियाणा | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 93 | 27.6.70 |
| 2537 | विजय प्रसाद मंडल, पुत्र श्री सहदेव मंडल | बिहार एस वी सी/ 1804/ 2000 | ग्राम भोला टोला, डाक एवं थाना काहलगांव, जिला भागलपुर, पिन- 813222 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 1.1.78 |
| 2538 | विजय शंकर सिरि, पुत्र श्री देव लाल गिरि | बिहार एस वी सी/ 1042/ 2000 | मौ. सोन बर्सा टोला, डाक एवं थाना मारिही, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 67 | 5.2.45 |
| 2539 | विजय शंकर सिंह पटेल, पुत्र श्री शिव सरन सिंह | यू पी वी सी/ 3189 | ग्राम बिराहारा, डाक फुरसतार, जिला बलिया, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी/ 2000 | 2.10.73 |
| 2540 | विजय शंकर सिंह, पुत्र श्री गिरजा प्रसाद सिंह | यू पी वी सी/ 3297 | ग्राम वरागवन, डाक तेंदुआ कलां, जिला मिर्जापुर | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी/ 96 | 4.10.63 |
| 2541 | विजय शंकर सिंह, पुत्र श्री हरि शंकर सिंह | बिहार एस वी सी/ 1082/ 2000 | ग्राम एवं डाक रामचंदरखंड, थाना पानापुर, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 15.1.60 |
| 2542 | विजय शंकर सिंह, पुत्र श्री परशुराम सिंह | बिहार एस वी सी/ 1653/ 2000 | ग्राम एवं डाक सोनहान, थाना भमुआ, जिला कैम्बूर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 70 | 1.1.48 |
| 2543 | विजय शंकर झा, पुत्र श्री शिष्ठ नंद झा | बिहार एस वी सी/ 1532/ 2000 | ग्राम फुलसारा, डाक बलुआ काहियांगज, थाना प्लासी, जिला अरेरिया, पिन 854333 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 2.1.57 |
| 2544 | विजय सिंह | आर ए जे एस वी सी/ 2694/ 2000 | ग्राम बांसरोली, डाक लहचोरो कलां, तह. बायाना, भरतपुर- 321401 | बी वी एस सी एंड ए एच/राज कृष्ण/ 2000 | 13.3.73 |
| 2545 | विजय बहादुर सिंह, पुत्र श्री रणछोड़ प्रसाद | एम पी एस वी सी/ 1896/ 2000 | पुश्कर गैस गोदाम के निकट, नेहरू नगर, रीवा- 486001 | बी वी एस सी एंड ए एच/जे एन के वी वी/ 86-87 | 21.2.64 |
| 2546 | विजयंत दास, पुत्र श्री सुरेश लाल | बिहार एस वी सी/ 1947/ 2000 | ग्राम एवं डाक भीरवारा, थाना सिंधिया, जिला समस्तीपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 97 | 6.10.71 |
| 2547 | विजयशंकर के | वी सी आई/ 2263/ 2001 | 6 / 64, कालांगनी (डाक), नमककल (जिला)- 637014 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 97 | 27.2.75 |
| 2548 | विजयकांत राम, पुत्र श्री सुखदेव राम | बिहार एस वी सी/ 1851/ 2000 | ग्राम दीपवान, डाक एवं थाना गधवा, जिला गधवा, पिन- 822114 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 91 | 10.1.63 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|----------------------------------|---|---|----------|
| 2549 | विजेंद्र कुमार, पुत्र श्री हरीश चंद्र राम | बिहार एस वी सी/ 1084/ 2000 | ग्राम मंडोरडीह, डाक चापुवा डीह, थाना बैंगाबाद, जिला गिरिडीह | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 87 | 8.1.60 |
| 2550 | विजेंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र श्री जनक प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1938/ 2000 | ग्राम नाजीपुर, डाक चंदोहौर, थाना उजियारपुर, जिला समस्तीपुर, पिन- 848114 | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस/ 2000 | 2.1.70 |
| 2551 | वीजू विजयन | केरल एस वी सी/ 2481/ 2000 | वेजापरम्बिल, टिट्टामेल, चेनीगन्नूर, अलपुजा जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/के ए यू/ 2000 | 10.5.76 |
| 2552 | विकास चौधरी, पुत्र श्री करन सिंह | एच ए आर एस वी सी/ 1653 | म.न. 377 / 24, जगदीश कॉलोनी, रोहतक | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 24.12.77 |
| 2553 | विकास चोपड़ा, पुत्र श्री संत सर्लप सिंह | पी वी एस वी सी/ 2202/ 2000 | सुभाष चौक, 13 / 69, कपूरथला | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस/ 2000 | 30.3.78 |
| 2554 | विकास कुमार सिन्हा, पुत्र श्री प्रवेश कुमार सिन्हा | बिहार एस वी सी/ 1954/ 2000 | एम—शेखपुरा, कर्पूरी भवन, डाक बी वी कॉलेज, थाना शास्त्रीनगर, जिला पटना | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/ 98 | 25.9.76 |
| 2555 | विकास यादव, प्री ए के यादव | एच ए आर एस वी सी/ 1668 | 492, सेक्टर- 15ए, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सीएस एच ए यू/2000 | 13.6.76 |
| 2556 | विक्य कुमार सिंह, पुत्र श्री राम पूजन सिंह | यू पी वी सी/ 3235 | ग्राम एवं डाक भेलारा, जिला जौनपुर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी य एंड टी/2000 | 8.9.74 |
| 2557 | विखेटो एन सोहे | एन एस वी सी/ 51/ 98 | द्वारा एन सूमी, रिटा., ए डीसी, मिडलेन, कोहिमा, नागालैंड | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी/ 98 | 23.3.74 |
| 2558 | विक्रम सिंह, पुत्र श्री तेलू राम त्यागी, | यू पी वी सी/ 3238 | बी- 31, गुरुनानक पुरा, मोटी नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/आगरा वि वि/ 70 | 2.1.45 |
| 2559 | विमल कांत दास, पुत्र डॉ. जीतेंद्र नाथ दास | बिहार एस वी सी/ 1030/ 2000 | ग्राम एवं डाक उखरम, थाना बहेरा, जिला दरभंगा, पिन- 827421 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 66 | 16.7.44 |
| 2560 | विमनेंदु कुमार भट्ट, पुत्र श्री के एन भट्ट | यू पी वी सी/ 3311 | ग्राम पुंडा, डाक रिथुखार, जिला गोरखपुर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/सी एस ए यू ए एंड टी/ | 4.11.74 |
| 2561 | विनय कुमार झा, श्री बैद्यनाथ झा | बिहार एस वी सी/ 1816/ 2000 | मौ. हरिहरसिंह रोड, मोराबादी, थाना बरियात, डाक एवं जिला रांची -834008 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 95 | 23.12.71 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हतारं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|--|--|----------|
| 2562 | विनय कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री तेज नारायण सिंह | बिहार एस वी सी / 1870 / 2000 | ग्राम प्रकाप नगर, डाक गंगाजल, जिला सहरसा, पिन- 852201 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 72 | 3.2.49 |
| 2563 | विनय कुमार के, पुत्र श्री के एस ज्ञानार्थन राव | ए पी एस वी सी / 03635 / 2000 | मंडपका, तानुकू के निकट, पश्चिमी गोदावरी जिला | बी वी एस सी एंड ए एच/ए एन जी आर ए यू/ 2000 | 16.7.78 |
| 2564 | विनय कुमार मिन्हा, पुत्र स्व. श्री बेनी माधव प्रसाद सिन्हा | बिहार एस वी सी / 834 / 2000 | मौ. पार मावादा, गया रोड, डाक एवं थाना नावादा, जिला नावादा, पिन- 805110 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 64 | 1.10.42 |
| 2565 | विनय कुमार, पुत्र श्री शिव शंकर सहाय | बिहार एस वी सी / 942 / 2000 | एम- केशोपुर, डाक एवं थाना जमालपुर, जिला मुंगेर, पिन- 611212 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी सी के वी वी / 87 | 25.9.64 |
| 2566 | विनय शंकर वर्मा, पुत्र स्व. श्री लालता प्रसाद वर्मा | बिहार एस वी सी / 1736 / 2000 | मौ. राजेंद्र पथ, मुरलीहिल, मस्जिद लेन, थाना कोतवाली, डाक एवं जिला गया 823002 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 83 | 5.1.59 |
| 2567 | विंदेश्वर सिंह, पुत्र श्री रामबचन सिंह | बिहार एस वी सी / 1844 / 2000 | ग्राम एवं डाक लहराबाद, थाना पीरो, जिला भोजपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 80 | 21.2.55 |
| 2568 | विंदेश्वरी सिंह, पुत्र श्री रामजनम सिंह | बिहार एस वी सी / 1897 / 2000 | ग्राम विष्णुपुर जगदीशपुर, डाक अमनौर, थाना मधौरा, जिला छपरा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 79 | 3.1.54 |
| 2569 | विनीत अरोड़ा, पुत्र श्री मुलख राज | एच ए आर एस वी सी / 1644 | 320 / 13, मुल्तानी चौक, हिसार | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 2000 | 30.9.76 |
| 2570 | विनीत चंद्र शेखर पाणिकर | केरल एस वी सी / 2519 / 2000 | पुथेनपुराइकल, डाक पोडियाडी, थिरुवलता, पथानमथिट्टा | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी डी के वी / 2000 | 20.12.77 |
| 2571 | विनीतकुमार उपाध्याय, पुत्र श्री राम सूरत उपाध्याय | यू. पी. वी. सी. / 3184 | ग्राम धारिकपुर, डाक प्रेम का पुर, जिला जौनपुर, उ.प्र. | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 94 | 2.3.68 |
| 2572 | विनय कुमार दूबे, पुत्र श्री हरिशकर दूबे | बिहार एस वी सी / 1624 / 2000 | ग्राम सुधार चाप, डाक वृति माहियारिया, थाना लौरिया, जिला प. चम्पारन- 845453 | बी वी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 13.6.59 |
| 2573 | विनीत कुमार उपाध्याय, पुत्र श्री राम सूरत उपाध्याय | बिहार एस वी सी / 1928 / 2000 | ग्राम धारिकपुर, डाक प्रेम कापुरा, थाना सुजानगंज, जिला जौनपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/जी बी पी यू ए एंड टी / 94 | 2.3.68 |
| 2574 | विनोद खन्ना | डी वी सी/ 0552 / 2000 | द्वारा मनमोहन खन्ना, डी- 1 / 145, लाजपत नगर, नई दिल्ली- 24 | बी वी एस री एंड ए एच/आई डी के वी वी / 97 | 17.7.71 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंतारं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------------|--|---|----------|
| 2575 | विनोद खन्ना | बी सी आई / 2239 / 2000 | 2 / 52, पुरानी डबल स्टोरी, लाजपत नगर— iv, नई दिल्ली | बी वी एस सी एड ए एच/आई जी के वी वी/96— 97 | 17.7.71 |
| 2576 | विनोद कुमार मुक्ता, पुत्र श्री केवार नाथ सिंह | बिहार एस वी सी / 1815 / 2000 | ग्राम छोटी आंत, डाक बड़ी आंत, थाना नालंदा, जिला नालंदा, पिन— 803114 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 99 | 25.12.70 |
| 2577 | विनोद कुमार द्विवेदी, पुत्र रवि श्री बुद्धि लाल | यू पी वी सी / 3200 | 25 / ए, न्यू माल गोदाम, सहोदरपुर, प्रतापगढ़, उ.प्र. | बी वी एस सी एड ए एच/सी एस ए यू ए एड टी / 96 | 9.6.56 |
| 2578 | विनोद कुमार कशवाहा, पुत्र रवि श्री रामलखन प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1187 / 2000 | ग्राम कर्हेया नगर, डाक एवं थाना नावादा, जिला नावादा, पिन— 805110 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 81 | 12.9.55 |
| 2579 | विनोद कुमार, पुत्र श्री एस एस सिंह | यू पी वी सी / 3263 | द्वारा शिव शंकर यादव, ग्राम एवं डाक मिर्जापुर, जिला गाजीपुर (उ.प्र.) | बी वी एस सी एड ए एच/जी बी पीयू ए एड टी/2000 | 9.8.75 |
| 2580 | विनोद कुमार श्रीवास, पुत्र श्री मोहन लाल श्रीवास | ए पी एस वी सी / 03591 / 2000 | कासिला फार्म्स, लि. नाथनाई पल्ली ग्राम, नल्लावली डाक, नरसापुर— 502513 | बी वी एस सी एड ए एच/एम ए यू/ 90 | 19.6.66 |
| 2581 | विनोद कुमार सिंह, पुत्र श्री एस वी सिंह | यू पी वी सी / 3239 | ग्राम एवं डाक अथेसी, जिला सुल्तानपुर, उ.प्र. | बी वी एस सी एड ए एच/जी बी पी यू ए एड टी/81 | 1.8.59 |
| 2582 | विनोद कुमार सिंह, पुत्र श्री महेश प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1168 / 2000 | मौ. प्रभात कुंज, पंखाटोली, थाना जाजी मौहम्मदपुर, डाक एवं जिला मुजफ्फरपुर | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 69 | 7.7.46 |
| 2583 | विनोद कुमार, पुत्र रवि श्री हरिहर राव यादव | बिहार एस वी सी / 1901 / 2000 | ग्राम शाहपुर, गेरुआरी, डाक शावानी, थाना बखियारपुर, जिला पटना | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 83 | 28.5.60 |
| 2584 | विनोद कुमार, पुत्र रवि श्री राम जीवन सिंह | बिहार एस वी सी / 1054 / 2000 | मौ. पटेल नगर, इस्लामपुर, डाक एवं थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा, पिन 801303 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 93 | 9.9.66 |
| 2585 | विनोद कुमार, पुत्र श्री बलदेव चौधरी | बिहार एस वी सी / 1822 / 2000 | मौ. कटरा चौक, डाक+ थाना +जिला शेखपुरा, पिन— 888105 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 96 | 22.12.68 |
| 2586 | विनोद कुमार, पुत्र श्री राजकेश्वर प्रसाद | बिहार एस वी सी / 1479 / 2000 | ग्राम+डाक+थाना चोपरा रामनगर, वाया: बनमंकरी, जिला पूर्णिया | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 93 | 15.1.68 |
| 2587 | विनोद सैनी, पुत्र श्री जोगतेंद्र | एव ए आर एस वी सी / 1649 | 281 / 20, सैनीपुरा, रोहतक | बी वी एस सी एड ए एच/सी सीएस एच ए यू / 2000 | 19.8.77 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|----------------------------------|--|--|----------|
| 2588 | विनोद कुमार देशमुख, पुत्र श्री मास्कर राव | एम पी एस वी सी/ 1883/ 2000 | वेट हॉस्पिटल, भावरा ज़िला, झाबुआ— 457661 | बी वी एस सी एड ए एच/जे एन के वी वी/ 90-91 | 25.5.68 |
| 2589 | विनुथन एम के, पुत्र श्री कोडप्पा बी टी | कर्ना/3199 | चौथी डिवीजन, 5वां क्रॉस, कोडप्पा बिल्डिंग विनोबा नगर, तुमकुर—5 | बी वी एस सी एड ए एच/यू ए एस बंगलौर/ 2000 | 15.9.76 |
| 2590 | विपुल कुमार सिंह, पुत्र श्री विक्रम सिंह | यू पी वी सी/ 3290 | 5812, आरजी बाग, आजमगढ़, उ.प्र.— 278001 | बी वी एस सी एड ए एच/जी बी पी यू ए एड टी/2000 | 5.9.77 |
| 2591 | वीरेंद्र कुमार गुप्ता, पुत्र डॉ. विष्णुदेव प्रसाद गुप्ता | बिहार एस वी सी/ 957/ 2000 | मौ—विमला सदन, दौलतगंज, झाक छपरा, थाना भगवान बाजार, छपरा— 841301 | बी वी एस सी एड ए एच/आर यू/ 69 | 5.11.46 |
| 2592 | वीरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र श्री गणेश प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी/ 1610/ 2000 | ग्राम एवं डाक झालारी, थाना रूपीली, ज़िला पूर्णिया, पिन— 854301 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 72 | 1.12.48 |
| 2593 | वीरेंद्र कंमार वर्मा, पुत्र श्री शम्भू शशेन वर्मा | बिहार एस वी सी/ 1787/ 2000 | मौ. दुर्गा चरन लेन, डाक गुलजार बाग, थाना खचकल्ला, ज़िला पटना | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 65 | 6.9.42 |
| 2594 | वीरेंद्र कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री वृद्धावन बिहारी शरण | बिहार एस वी सी/ 848/ 2000 | मौह. एवं डाक देवी अस्थान, लेन, चिरिवतार, थाना ज़ककनपुर, पटना— 800001 | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 67 | 21.10.45 |
| 2595 | वीरेंद्र कुमार रे, पुत्र श्री रामधानी रे | बिहार एस वी सी/ 2000/ 2000 | ग्राम एवं डाक दमरपुर, दीवर, थाना बक्सर, ज़िला बक्सर | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 77 | 17.1.54 |
| 2596 | वीरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री योगेंद्र नारायण सिंह | बिहार एस वी सी/ 1908/ 2000 | ग्राम भवानीपुर, डाक नागर पाड़ा, थाना बिहपुर, ज़िला भागलपुर | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 69 | 1.4.45 |
| 2597 | वीरेंद्र कुमार तिवारी, पुत्र स्व. श्री अष्टधूत तिवारी | बिहार एस वी सी/ 2008/ 2000 | मौह.मालीनगर, डाक मालीनगर तारघर, थाना चक्रमाबेसी, ज़िला समस्तीपुर— 848125 | बी वी एस सी एड ए एच/एम यू/ 66 | 6.8.47 |
| 2598 | वीरेंद्र कुमार, पुत्र श्री रामाधार राम | बिहार एस वी सी/ 1885/ 2000 | ग्राम एवं डाक रानीसागर, थाना शाहपुर पाटली, ज़िला आराह, भोजपुर— 802181 | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 97 | 14.1.71 |
| 2599 | वीरेंद्र कुमार, पुत्र श्री रामाधार सिंह | बिहार एस वी सी/ 1057/ 2000 | ग्राम एवं डाक करहारी, थाना किंगर, ज़िला जहानाबाद | बी वी एस सी एड ए एच/आर ए यू/ 73 | 5.1.51 |
| 2600 | वीरेंद्र कुमार, पुत्र श्री सुरेश प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1639/ 2000 | ग्राम एवं डाक रतनपुर, थाना बारीवारपुर, ज़िला मुंगेर, पिन— 811211 | बी वी एस सी एड ए एच/बी ए यू/ 91 | 1.1.63 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|----------|
| 2601 | वीरेंद्र सिंह, पुत्र श्री दाताराम | यू. पी. पी. सी. / 3193 | ए-251, आवास विकास कॉलोनी, बदाउं- 243601 (उ.प्र.) | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./आगरा वि. वि. / 58 | 10.7.34 |
| 2602 | विशाल दीप, पुत्र श्री जती राम | पी. बी. एस. वी. सी. / 2188 / 2000 | म.न. बी- ।।-908, बाल्मीक नगर, गीता भवन के निकट, सुनाम | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./पी. ए. यू. / 2000 | 9.4.77 |
| 2603 | विशाल महाजन, पुत्र श्री बाल कृष्ण महाजन | पी. बी. एस. वी. सी. / 2235 / 2001 | इंद्र कॉलोनी, गली न. 4, पठानकोट | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./पी. ए. यू. / 99 | 26.5.76 |
| 2604 | विष्णु देव महतो पुत्र स्व. श्री गोनार महतो | बिहार एस. वी. सी. / 1695 / 2000 | ग्राम सलौना, डाक एवं थाना बरबारी बाजार, जिला बेगुसराय, पिन- 848201 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./एम. यू. / 71 | 30.6.46 |
| 2605 | विष्णु प्रसाद माझी, पुत्र स्व. श्री उचित माझी | बिहार एस. वी. सी. / 2066 / 2000 | ग्राम बेला, डाक बेलसीरा, थाना फुलीदुमार, जिला बंका | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./आर. ए. यू. / 83 | 5.1.57 |
| 2606 | विष्णु शरण महतो, पुत्र श्री ज्योति लाल महतो | बिहार एस. वी. सी. / 1539 / 2000 | ग्राम एवं डाक पालानी, थाना बेलियापुर, जिला धनबाद | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./बी. ए. यू. / 94 | 1.1.69 |
| 2607 | विष्णुदेव प्रसाद, पुत्र स्व. श्री गनौरी महतो | बिहार एस. वी. सी. / 1967 / 2000 | ग्राम बाधी, डाक चकवे, थाना वरसालीगंज, जिला नावादा | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./एम. यू. / 68 | 20.6.46 |
| 2608 | विश्वनाथ कुमार गुप्ता, पुत्र स्व. श्री रामचंद्र गुप्ता | बिहार एस. वी. सी. / 973 / 2000 | मौ. इंदिरा नगर, रोड न. 2, डाक जी पी ओ, थाना ककरबाग, पटना- 800001 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./एम. यू. / 67 | 8.2.46 |
| 2609 | विश्वनाथ प्रताप चौधरी, पुत्र श्री महेंद्र चौधरी | बिहार एस. वी. सी. / 1772 / 2000 | मौ. बाजीदपुर बाजार, डाक व थाना विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर, पिन- 848503 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./एम. यू. / 69 | 15.1.47 |
| 2610 | विश्वेश्वर के सी, पुत्र श्री के चंद्रशेखर | ए. पी. एस. वी. सी. / 03540 / 2000 | म.न. 394 / डी. क्लास, सी. आई. क्वार्टर्स, काचीगुड़ा, हैदराबाद- 500027 | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./ए. एन. जी आर. ए. यू. / 98 | 25.8.72 |
| 2611 | विटल गोलभवी, पुत्र श्री बासप्पा गोलभवी | कर्ना. एस. वी. सी. / 3140 | डाक तुंगल, तालुक जमखड़ी, जिला बगलकोट | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./यू. ए. एस. धारवाड/ 2000 | 1.6.77 |
| 2612 | विट्ठल पोशटटी एम, पुत्र श्री एम पोशटटी गिरमाजी | ए. पी. एस. वी. सी. / 03532 / 2000 | द्वारा येशाल फोटना, म.न. ।।- 2306, राकेशपेट भोदान, भोदान (एम), निज | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./मराठवाड़ कृ. वि. वि. / 97 | 5.9.71 |
| 2613 | विवेक कुमार सिन्हा, पुत्र डॉ. राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा | बिहार एस. वी. सी. / 1165 / 2000 | ग्राम एवं डाक मुरार, थाना मुरार, जिला बुजार | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच./बी. ए. यू. / 92 | 1.10.66 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अहंताएं | जन्मतिथि |
|---------|--|------------------------------|---|---|----------|
| 2614 | विवेक कुज, पुत्र डॉ. कुंज बिहारी प्रसाद अग्रवाल | बिहार एस वी सी / 1698 / 2000 | एम-डी/23, इंद्रापुरी, डाक वी वी कॉलेज, थाना शास्त्री नगर, जिला पटना- 800014 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 30.9.74 |
| 2615 | विवेकानंद मंडल, पुत्र श्री पृथ्वीराम मंडल | बिहार एस वी सी / 1436 / 2000 | ग्राम एवं डाक बारी काधेर जन्ना, थाना एवं जिला साहबगंज, पिन- 816109 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 97 | 11.2.70 |
| 2616 | वृद्ध प्रसाद, पुत्र स्व. श्री हारकेश्वर सिंह | बिहार एस वी सी / 1827 / 2000 | ग्राम एवं डाक बाधा, थाना हरनौट, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 73 | 3.6.49 |
| 2617 | वृदा मेनन के | करेल एस वी सी / 2456 / 2000 | 26/ 521, कॉन्वेट रोड, चैम्बुकानु, थिस्सूर- 680020 | बी वी एस सी एंड ए एच/सी सी एस एच ए यू/ 97 | 5.5.74 |
| 2618 | वाडकर दीप्ती कमलकांत कुमारी | एम एस वी सी / 6334 / 2000 | राजदीप सोसायटी, डी/55, गोखले रोड, नौपदा, थाणे- 400602 | बी वी एस सी एंड ए एच/के के वी/ 2000 | 25.9.77 |
| 2619 | वालसे संतोष हरिभाऊ | एम एस वी सी / 6409 / 2001 | एटी डाक निर्गुडसार, तालुक अम्बेगांव, जिला पुणे- 412406 | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी. डी के वी/ 2000 | 30.1.77 |
| 2620 | वालुंज समीर शंकर | एम एस वी सी / 6401 / 2000 | एटी डाक अवसारी (ब्लॉक), तालुक अम्बेगांव, जिला पुणे- 412406 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी/ 2000 | 5.2.77 |
| 2621 | वारमे प्रशांत विठ्ठल | एम एस वी सी / 6392 / 2000 | एटी डाक नागरी, तालुक वोरोरा, जिला चंद्रपुर | बी वी एस सी एंड ए एच/डॉ. पी. डी के वी/ 2000 | 3.8.77 |
| 2622 | वैस एडमंड लिटिंग, पुत्र श्री ए ई गासाह | मेघ / 182 / 2001 | खिमुसनियांग, जोवाई | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 83 | 19.2.59 |
| 2623 | विलिंगटन पासाह, पुत्र स्व. श्री के स्लोग | मेघ / 173 / 2001 | नाँग्राह, शिलौंग | बी वी एस सी एंड ए एच/ए ए यू/ 81 | 20.12.57 |
| 2624 | यादव महेंद्र मोहन | एम एस वी सी / 6315 / 2000 | एटी डाक निमगोट (बेठ), तालुक बारामती, जिला पुणे- 412102 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम पी के वी/ 2000 | 22.9.77 |
| 2625 | यादव संदीप सोपनराव | एम एस वी सी / 6311 / 2000 | एटी डाक ससपडे, तालुक सतारा, जिला सतारा- 415519 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम ए यू/ 2000 | 20.6.78 |
| 2626 | यदुनंदन प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्व. श्री साधु शरण सिन्हा | बिहार एस वी सी / 968 / 2000 | मौ. चांदमारी, डाक चांदमारी, थाना, दानापुर, जिला पटना, पिन- 801503 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 28.2.45 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | शैक्षणिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|------------------------------|---|---|----------|
| 2627 | यादविंदर सिंह, पुत्र श्री गुरमत सिंह | पी बी एस वी सी / 2197 / 2000 | ग्राम एवं डाक बदूरखान, जिला संगरुर, पंजाब | बी बी एस सी एंड ए एच/पी ए यू/ 2000 | 15.2.74 |
| 2628 | याज्ञवल्क्य, पुत्र श्री हरि चरन लाल | एम पी एस वी सी / 1877 / 2000 | बिलथारा रोड, बलिया, उ.प्र. | बी बी एस सी एंड ए एच/जे एन के बी वी / 67 | 1.7.42 |
| 2629 | यमनप्पा, पुत्र श्री बालप्पा हरिजन | कर्ना एस वी सी / 3158 | कोलिहाल, येलबर्गा तालुक, कोप्पल जिला | बी बी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 1.6.76 |
| 2630 | यशपाल शाहनी, पुत्र श्री हरबंश लाल शाहनी | एम पी एस वी सी / 1934 / 2001 | 18, टैगोर नगर, नरमदा रोड, जिला जबलपुर— 482004 | बी बी एस सी एंड ए एच/जे एन के बी वी / 78 | 1.7.55 |
| 2631 | योगेंद्र कुमार, पुत्र श्री हरि चरन शॉ | बिहार एस वी सी / 1184 / 2000 | ग्राम एवं डाक नसारीगंज, थाना नसारीगंज, जिला रोहतास | बी बी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 89 | 4.7.60 |
| 2632 | योगेंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र श्री भोला सिंह | बिहार एस वी सी / 998 / 2000 | ग्राम खापसपुर, डाक बाली बेलची, थाना चांदी, जिला नालंदा | बी बी एस सी एंड ए एच/बी ए यू/ 83 | 2.1.57 |
| 2633 | योगेंद्र प्रसाद सिंह, श्री मंगल प्रसाद सिंह | बिहार एस वी सी / 1338 / 2000 | ग्राम नारदा, डाक भैरोंगंज, थाना भैरोंगंज, जिला प. चम्पारन, पिन— 845106 | बी बी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 82 | 31.12.57 |
| 2634 | योगेंद्र साह, पुत्र श्री रामदेव साह | बिहार एस वी सी / 1052 / 2000 | ग्राम एवं डाक महिसौर, थाना जनदाहा, जिला वैशाली | बी बी एस सी एंड ए एच/एस यू/ 70 | 9.11.45 |
| 2635 | योगेंद्र सिंह, पुत्र स्त्री हरि किशोर सिंह | बिहार एस वी सी / 1608 / 2000 | ग्राम मेढुका, डाक सिंधाजीतपुर, थाना बनियापुर, जिला छपरा (सारन) | बी बी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 69 | 1.4.47 |
| 2636 | योगेशा टी जी, पुत्र श्री गंगाधरप्पा टी एल | कर्ना एस वी सी / 3162 | थोंडीगनाहल्ली, बनवारा होबिल, अरासीकरे तालुक, हसन जिला | बी बी एस सी एंड ए एच/यू ए एस धारवाड / 2000 | 20.1.74 |
| 2637 | योगी नाथ शुक्ला, पुत्र श्री मूलचंद शुक्ला | एम पी एस वी सी / 1924 / 2001 | एम आई जी, प्लॉट न. 34, प्रियदर्शिनी नगर, इटारसी, जिला होशंगाबाद— 461111 | बी बी एस सी एंड ए एच/जे एन के बी वी / 72 | 16.5.49 |
| 2638 | योगराज रमेश कुमार किरन, पुत्र श्री राजेश्वरी प्रसाद | बिहार एस वी सी / 842 / 2000 | ग्राम मिटोरा, डाक अतिवनवान, थाना चोगी, जिला जहानाबाद | बी बी एस सी एंड ए एच/एस यू/ 71 | 16.6.46 |
| 2639 | युबराज कोठारे, पुत्र श्री तुलाराम कोठारे | एम पी एस वी सी / 1927 / 2001 | ग्राम मानपुर, डाक लांजी, जिला बालाघाट— 481222 | बी बी एस सी एंड ए एच/आई जी के बी वी / 99-2000 | 7.9.72 |

| क्र.सं. | नाम | पंजी. सं. | पता | गैलरिक अर्हताएं | जन्मतिथि |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|----------|
| 2640 | युगेंद्र देव नारायण शर्मा, पुत्र श्री राम नारायण चौबे | बिहार एस वी सी/ 1253/ 2000 | ग्राम पांडे दिहरी, डाक साकला बसार, थाना कोरक्काट, जिला सोलहसंह | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 65 | 8.1.44 |
| 2641 | युगेश्वर प्रसाद सिंह, पुत्र स्त. श्री इतवार सिंह | बिहार एस वी सी/ 1666/ 2000 | ग्राम चंद्रपुरा, डाक एवं थाना दाहा बीघा, जिला नालंदा | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 68 | 5.4.47 |
| 2642 | युगेश्वर प्रसाद, पुत्र स्त. श्री बुधदेव प्रसाद | बिहार एस वी सी/ 1263/ 2000 | ग्राम एवं डाक नावादा, थाना नावादा, जिला भोजपुर, आराह- 802301 | बी वी एस सी एंड ए एच/एम यू/ 70 | 25.8.48 |
| 2643 | जचरियाह जॉर्ज | ए एंड एन एस वी सी/ 77/ 2000 | द्वारा जुतौका स्टोर्स, लखा पहाड़, विम्बरलीगंज, दक्षिणी अंडमान | बी वी एस सी एंड ए एच/डब्ल्यू बीयू ए एफ एस/2000 | 22.11.76 |
| 2644 | जफर आलम खान, पुत्र स्त. डॉ. एम ताहिर खान | बिहार एस वी सी/ 860/ 2000 | मौह, तवाक मंजिल, डाक महोदु थाना सुल्तानगंज, पटना- 800006 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर यू/ 67 | 1.8.43 |
| 2645 | जहूर अहमद शेख | वी सी आई/ 2213 / 2000 | सलूस-यॉर्डरबल, डाक तुलामुल्ला, जिला श्रीनगर, ज.एवं क.- 191131 | बी वी एस सी एंड ए एच/एस के यू ए एस एंड टी/99 | 10.1.75 |
| 2646 | जरीना अजीज | गोआ एस वी सी/ 116/ 2001 | प्लॉट नं. 12-ए, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मापुसा | बी वी एस सी एंड ए एच/ जी ए यू/ 2000 | 23.8.78 |
| 2647 | जोनुम सांगी, पुत्र श्री चंगलियामा | बिहार एस वी सी/ 1987/ 2000 | ग्राम अमद बोकार गंज, डाक+थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा, पिन-846001 | बी वी एस सी एंड ए एच/आर ए यू/ 98 | 15.11.73 |

VETERINARY COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th January, 2003

G.S.R. 20(E).—Whereas the Veterinary Council of India in pursuance of Sub-section (1) of Section 23 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) is required to maintain a register known as Indian Veterinary Practitioners Register which shall contain the names of all persons who possess the recognised veterinary qualification and who are for the time being enrolled on State/UT Veterinary Council of the State to which this Act, extends.

Now, in exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 23 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Secretary, Veterinary Council of India directs that supplement to Indian Veterinary Practitioners Register, 2001 shall be published in the Gazette of India for general information.

Indian Veterinary Practitioners Register Supplement 2001

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | REG. |
|------|--|------------------------|---|--------------------------|----------|
| 1 | A. Pari | Pondi/83/2000 | 52,Subramanlar Koil,Street,Muthialpet,Pondi cherry-3 | BVSc/TNVASU/ | 5.12.74 |
| 2 | A.H.M. ABIDUR RAHAMAN | WBSVC/2822/ 2000 | VILL UTTAR DUTTAPARA P.O. MOLLABELIA, DT. NADIA | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 3 | Aamod Prasad Singh, S/o Late Surendra Narayan Singh | BiharSVC/135 1/2000 | Vill.-Navratn Hata,PO- Purnea,Thana-K.Hat,Dist.- Purnea.Pin.-854301 | B.V.Sc. & A.H./RAU/88 | 04/09/64 |
| 4 | Aawadhes Prasad Singh, S/o Sri Prabhunath Prasad Singh | BiharSVC/127 6/2000 | Vill.+PO- Tamarapur,Thana- Vanivanpur,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 | 12/03/57 |
| 5 | Abdul Aziz.N.P | A&NSVC/78/2 000 | Mathura,Wimberely Gunj,South Andaman- 744206 | BVSc/TNV&AS U/2000 | 21.12.76 |
| 6 | Abdul Bari, S/o Late Abdul Hamid | BiharSVC/110 5/2000 | Vill.-Chatyan,PO- Chatyan,Thana-Keoti,Dist.- Darbhanga | B.V.Sc.&A.H./R U/69 | 16/02/45 |
| 7 | Abdul Base, S/o Late Abdul Sabur | BiharSVC/153 1/2000 | Vill.+PO-Malathi,Thana- Makhdumpur,Dist.- Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 01/03/47 |
| 8 | Abdul Hakim, S/o Sri Abdul Ajij | BiharSVC/117 1/2000 | Vill.-Sulsabad,PO+Thana- Mehsi,Dist.-Motihari (E.Champaran) | B.V.Sc.&A.H./R U/67 | 01/01/44 |
| 9 | Abdul Malick, S/o Late Hakim Md. Sharfuddin | BiharSVC/156 5/2000 | Moh.-Pathia Bazar,PO+Thana-Phulwari Sharif,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./BAU/81 | 31/03/56 |
| 10 | Abdul Moghni, S/o Shaikh Md. Zubair | BiharSVC/119 2/2000 | V.-Thengpur,PO+Thana- Pani,Dist.-Muzafferpur,Pin.- 834001 | B.V.Sc.&A.H./M U/66 | 21/10/42 |
| 11 | Abdur Rahman, S/o Late Abdur Razzaque | BiharSVC/970/ 2000 | Moh.+Vill.-Faiz Mahal Mugalpura, PO+Thana- Sasaram, Dist.- Rohtas | B.V.Sc.&A.H./M U/66 | 10/05/42 |

| S/N | NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIF. | DATE |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 12 | Abdur Rakib, S/o Late Abdus Saltar | BiharSVC/162 9/2000 | Vill.-Lahtora,PO- Baranagar,Thana+Dist.- Areria | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 03/05/47 |
| 13 | Abdur Rashid, S/o Sri Abdur Rauf | BiharSVC/129 9/2000 | Vill.-Maiganwa,PO- Gaiyari,Thana+Dist.- Areria,Pin-854311 | B.V.Sc. & A.H./RAU/89 | 22/12/62 |
| 14 | Abhay Kr. Singh, S/o LateBhagwat Pd. Singh | BiharSVC/150 5/2000 | Vill.+PO-Baril,Thana+Dist.- Supaul | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 14/07/48 |
| 15 | Abhay Kumar Sinha, S/o Dr.Gopi Nath Sinha | BiharSVC/832/ 2000 | M-B/50, Indrapuri Co-op, Ashiana Road, PO- BVC,Thana- Shastrinagar,Patna-23 | B.V.Sc.&A.H./M U/64 | 22/07/41 |
| 16 | Abhay Pd. Singh, S/o Late Bhuvneshwar Pd. Singh | BiharSVC/959/ 2000 | M-Main Road,Latechor,PO- Latechor,Thana- Latechor,Dist.-Palamau | B.V.Sc.&A.H./B AU/82 | 15/01/57 |
| 17 | Abhimanyu Prasad, S/o Sri Saryu Mahito | BiharSVC/126 6/2000 | Vill.-Koriyadin,PO-Nagar Barsaut,Thana-Barhi | B.V.Sc.&A.H./B AU/93 | 10/02/67 |
| 18 | ABHINESH PAL SINGH S/O SRI DARIYAI SINGH | UPVC/3223 | 19 A, BANK COLONY, JAIPUR HOUSE, AGARA(U.P.) | BVSc&AH/CSA UA&T/81 | 02.07.56 |
| 19 | ABHISHAK GARG S/O SRI G.S. GARG | UPVC/3227 | 110-A,K.P. ROAD, BULANDSHAHR | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 14.01.76 |
| 20 | ABHISHEK GOYAL | RAJSVC/2653/ 2000 | S/O SH.DAYA RAM,BEHIND-AGARWAL BHAWAN,NADBAI,BHARA TPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 10.09.72 |
| 21 | ABI GEORGE ALEYAS | KERALASVC/ 2515/2000 | KARIMPANAKKAL(H),VINP Y NAGAR, PARAVATTANY, THRISSUR PIN-680005 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 03.07.76 |
| 22 | Abujar Md. Jahir, S/o Late Md.Mohibur Rahman | BiharSVC/193 9/2000 | Vill.-Manjannagar,PO- Awapur,Thana-Purni,Dist.- Sitamadhi | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 06/01/42 |
| 23 | Adamshafiulla C H,S/o Late Honnur Sheb | KARN SVC/317 2 | III ward,Kottur P.Ost Kudligi Taluk, Bellary Dist. | BVSc&AH/UAS B'LORE/2000 | 23.10.73 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-----|---|------------------------|--|---------------------------------|----------|
| 24 | Adibur Rahman, S/o Late Md. Vavaj | BiharSVC/107 8/2000 | Vill.-Dostpur,PO- Karmauli,Thana- Khajamli,Dist.- Madhubani,Pin-847279 | B.V.Sc.&A.H./B AU/82 | 15/08/60 |
| 25 | AEJAZ AHMAD MALIK | VCI/2215/00 | R/O AYATHMULLA BANDIPORE,BARAMULLA KASHMIR PIN-193502 | BVSc&AH/S.K.U OFAS&T/99 | 8/12/71 |
| 26 | AHER ARUN SITARAM | MSVC/6347/20 00 | AT POST PRAWARA NAGAR, TAL. RAHATA, DIST. AHMEDNAGAR- 413712 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 21-10-75 |
| 27 | AJAY | DVC/0557/200 0 | SMT.SATYAVATI,ASHOK MOHALLA,H.NO.186,GALI NO.6,NANGLOI,ND-41 | BVSc&AH/CCS HAU/97 | 06/08/74 |
| 28 | Ajay Kr.Choudhary, S/o Sri Suryanarayan Choudhary | BiharSVC/104 8/2000 | Vill.-Mohanbadiyam,PO- Kanhauli,Thana-Sakri,Dist.- Madhubani,Pin-847239 | B.V.Sc.&A.H./B AU/83 | 03/01/61 |
| 29 | Ajay Kr.Sinha, S/o SriAlak Kr.Sinha | BiharSVC/853/ 2000 | M.-Hasonpur Chai Tola,Naharpur,PO- Bankipur,Thana- RajendraNagar,Patna- | B.V.Sc.& AU/89 | 02/12/63 |
| 30 | Ajay Kumar Ishwar, S/o Late Harish Chandra Ishwar | BiharSVC/202 5/2000 | Moh.+PO+Thana-Kanke, Dist.-Ranchi | B.V.Sc. & A.H./GBPUAT/7 7 | 02/09/53 |
| 31 | Ajay Kumar Mandilwar, S/o Late Brajnandan Pd. Mandilwar | BiharSVC/154 3/2000 | M.-Das Ana Kachahari,PO+Thana- Farbiganj,Dist.-Areria,Pin.- 854318 | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 12/11/59 |
| 32 | Ajay Kumar Pandey, S/o Dr. Shantanu Kr. Pandey | BiharSVC/903/ 2000 | Moh.-Patel Nagar,PO- Patel Nagar,Thana- Phulpars,Dist.-Madhubani | B.V.Sc.&A.H./B AU/84 | 09/04/60 |
| 33 | Ajay Kumar Yadav, S/o Sri Ramkailash Pd. Yadav | BiharSVC/132 9/2000 | Vill.+PO-Makri,Thana- Bhavnathpur,Dist.- Gadhwa,Pin-822112 | B.V.Sc. & A.H./BAU/88 | 10/09/64 |
| 34 | Ajay Kumar, S/o Dr. Baleshwar Prasad | BiharSVC/204 4/2000 | Vill.+PO-Shergadh,Thana- Gogri Jamalpur,Dist.- Khagaria | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 02/01/70 |
| 35 | Ajay Kumar, S/o Sri Rajendra Prasad | BiharSVC/854/ 2000 | Moh-Club Road Area,PO- Club Road,Thana- Aurangabad,Dt- Aurangabad | B.V.Sc.&A.H./B AU/89 | 03/12/64 |

| STUDY NAME | REGN | ADD | QUALF | |
|--|-------------------------|---|--------------------------|----------|
| 36 AJAY S/O SH. RAJINDER PAUL | PB.SVC- 2177/2000 | 10-D, AMAN PARK, LUDHIANA VILLAGE, THREAKE | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 16.12.75 |
| 37 Ajay Shankar Singh, S/o Late Katyayni Shankar Singh | BiharSVC/177 3/2000 | Vill.+PO-Madar,Thana- Barbigha,Dist.-Shekhupura | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 02/01/57 |
| 38 AJAY V.S. | KERALASVC/ 2462/2000 | MANNATAZHIKAM,KANNI MEL CHERRY, KILIKOLLOOR P.O., KOLLAM PIN-691004 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 20.04.76 |
| 39 AJAYA KUMAR B. | KERALASVC/ 2446/2000 | GEETHA BHAVAN, KOLLAD P.O., KOTTAYAM-686029 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 29.05.72 |
| 40 AJAYKUMAR V J | PONDI/102/20 00 | 44, PUDUPET, LAWSPET, MAIN ROAD, 95 PONDICHERRY 605008 | BVSc&AH/KAU/ | 01.03.72 |
| 41 AJEESH KOSHY CHERIAN | KERALASVC/ 2490/2000 | RANJINI,TC 18/1825 (1),THYVILA LANE, THIRUMALA P.O., TRIVANDRUM PIN-695006 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 28.05.75 |
| 42 Ajeet Kr. Sinha, S/o Late Sidheswar Prasad | BiharSVC/155 8/2000 | Vill.-Metara,PO- Atipanwa,Thana- Ghosi,Dist.-Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 03/03/45 |
| 43 Ajeet Kumar, S/o Sri Yamuna Prasad Singh | BiharSVC/114 0/2000 | Vill.-Simri,PO+Thana- Kogut,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./R AU/77 | 28/09/52 |
| 44 Ajeet Singh, S/o Sri Dashrath Singh | BiharSVC/147 8/2000 | Vill.-Naudihar,PO- Ratimpur,Thana- Sonpur,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./RAU/94 | 15/07/68 |
| 45 Ajendra Kumar, S/o Late Chandeshwar Prasad Singh | BiharSVC/169 0/2000 | Vill.-Kushahan,PO+Thana- Sirdala,Dist.-Nawada | B.V.Sc. & A.H./BAU/87 | 22/07/58 |
| 46 AJIT BHAUMIK S/O SH. BALARAM BHOWMIK | TRIPURA/48/2 000 | VETY.QTR. COMPLEX,BRAMABARI,U DAIPUR, TRIPURA (S) | BVSc&AH/BCK/ VV/81 | 12/01/59 |
| 47 Ajit Kr. Sinha, S/o Sri Shiromani Prasad | BiharSVC/172 0/2000 | Moh.-Purendu Nagar,PO+Thana-Phulwari Sharif,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 29/09/45 |

| SL. NO. | NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIF. | DATE |
|---------|---|---------------------|---|-----------------------|----------|
| 48 | Ajit Kr.Srivastava, S/o Late Suresh Prasad | BiharSVC/850/2000 | Moh-H.No.A/57,Indiraruri,PO-B.V.College,Thana-Shastrinagar,Patna-800014 | B.V.Sc.&A.H./M U/66 | 01/07/42 |
| 49 | Ajit Kumar Sharma, S/o Sri Rajnandan Sharma | BiharSVC/1921/2000 | Vill.-Bidhjpur,PO-Karauta,Thana-Baktyarpur,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 23/01/62 |
| 50 | Ajit Kumar Singh, S/o Sri Maheshwari Prasad Singh | BiharSVC/2015/2000 | M-5A/13,North SK Puri, PO-Patliputra Cly,Thana-S.K.Puri,Patna-800013 | B.V.Sc. & A.H./MU/63 | 25/10/39 |
| 51 | Ajit Kumar Sinha, S/o Sri Sadashiv Prasad | BiharSVC/1936/2000 | M-343,Anugrahpuri Coly,Thana-Rampur,PO+Dist.-Gaya, Pin-823001 | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 17/08/50 |
| 52 | Ajit Sharan, S/o Sri Kishori Raman Sharan | BiharSVC/1683/2000 | M.-HIG/7/44,PO-Lihianagar,Thana-Sultanganj,Patna-800020 | B.V.Sc. & A.H./BAU/95 | 20/07/69 |
| 53 | AJIT SINGH, S/O. SH. AHAMNA KANWAR YADAV | RAJSVC/2753/2001 | V.MURLIPUR, PD.MANGAL IPATHANI, TEH. KORLI DIST REWARI, HARYANA | BVSc&AH/CCS HAU/96 | 21-03-73 |
| 54 | AJO JOSEPH | KERALASVC/2468/2000 | VALIYAKANDATHIL HS., NAZARATH HILL P.O., KURAVILANGAD, KOTTAYAM-686633. | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 26.03.76 |
| 55 | AKASH BAGHMARE S/O SHRI BALAJI RAO | MPSVC/1904/00 | H.NO. 224, OLD ASHOKA GARDEN, BHOPAL- 462023 | BVSc&AH/JNK VV/98-99 | 09.06.72 |
| 56 | Akbar Mivan, S/o Late Kasim Mivan | BiharSVC/1361/2000 | Vill.+PO-Khajuri,Thana-Naubatpur,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/75 | 02/09/48 |
| 57 | Akhilash Kr. Singh, S/o Sri Paras Nath Singh | BiharSVC/1229/2000 | V.-Bara Telpa,Nai Basti,Thana-Chapra Town,PO+Dist.- Chapra,Pin-841301 | B.V.Sc.&A.H./R AU/89 | 12/01/64 |
| 58 | Akhilesh Kumar, S/o Sri Ishwari Dayal Singh | BiharSVC/1268/2000 | Moh.-Road No.1,Salimpur,Ahara,PO+T hana-Kadamkuan,Dist.- Patna | B.V.Sc.&A.H./B AU/91 | 05/01/65 |
| 59 | Akhilesh Pandey, S/o Late Ramnandan Pandey | BiharSVC/1101/2000 | Vill.-Arbi, PO-Amba,Thana-Kutumba,Dist.-Aurangabad | B.V.Sc.&A.H./R AU/71 | 26/07/47 |

| STUDY NAME | REG. NO. | ADD | QUALIF | DOB |
|---|-------------------------|--|--------------------------|----------|
| 60 Akshay Kumar Mukherjee, S/o Late Surendra Nath | BiharSVC/156 0/2000 | V.-Udaypur (Ramganj),PO- Karnjora,Dist.-North Dinajpur,State-West Bengal | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 01/01/43 |
| 61 Akshayvat Pd. Singh, S/o Sri Ram Sivan Singh | BiharSVC/139 2/2000 | V.+Thana- Daniawan,Thana-Akanger. Sorv,Dist.-Nalanda,Pin.- 801301 | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 11/03/60 |
| 62 Akshaywat Lal Keshari, S/o Late Madho Prasad | BiharSVC/124 3/2000 | M.-16,Defence Colony,PO- Deegha,Thana- Danapur,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./M U/66 | 04/07/44 |
| 63 Alakh Kr. Sinha, S/o Late Ramanand Prasad | BiharSVC/134 6/2000 | M.-A/56,Indrapuri Cly,PO- Vet.College,Thana- Shastrinagar,Patna-800014 | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 25/02/43 |
| 64 Alakh Niranjan, S/o Sri Ram Hari Pd. Sinha | BiharSVC/184 8/2000 | Vill.-Gornhar,PO- Jagay,Thana- Ekangersarai,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./BAU/86 | 01/10/60 |
| 65 Alfred Minz, S/o Late Victor Minz | BiharSVC/172 8/2000 | Vill.-Simtoli,PO- Gotra,Thana- Simdega,Dist.-Gumla,Pin.- 835223 | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 16/08/66 |
| 66 Ali Akbar Ansari, S/o Late Abdul Hakim Ansari | BiharSVC/962/ 2000 | V.-Shivganj,PO+Thana- Dehmi,Dist.-Rohtas,Pin- 821307 | B.V.Sc.&A.H./R AU/72 | 14/06/49 |
| 67 ALI HEYYOGE | KERALASVC/ 2527/2001 | XVI/1710,T&R CROSS ROAD,THOPPUMPADY, COCHIN-5. | BVSc&AH/GAU/ 2000 | 09.10.70 |
| 68 Allauddin Ahamed, S/o Late Md. Isha | BiharSVC/208 8/2001 | M-30A,Indira Puri Colony,PO-Bihar Vet.College,Thana- Shastrinagar,Dt.-Patna | B.V.Sc. & A.H./BU/55 | 15/01/36 |
| 69 ALMEIDA ASTRID GEORGINA | GOASVC/118/ 01 | 67, SAGAR COLONY SOCIETY, DONA-PAULA | BVSc&AH/GAU/ 98 | 28.7.75 |
| 70 Alok Kr. Sinha, S/o Sri Suresh Chandra Prasad | BiharSVC/947/ 2000 | M-Kailash Kunj,Bhagal Basar,PO+Thana+Dist- Mungher, Pin-811201 | B.V.Sc.&A.H./B AU/89 | 03/01/66 |
| 71 ALOK KUMAR SHARMA S/O SURENDRA SHARMA | APSVC/03567/ 2000 | 203, SRI RAMA APTS., MUNICIPAL COLONY, MALAKPET, HYDERABAD | BVSc&AH/GVP UAT/93 | 31.08.69 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-----|---|------------------------|--|--------------------------|----------|
| 72 | Alok Kumar Singh, S/o Late Sachidanand Singh | BiharSVC/195 0/2000 | M-Kavita Kunj,Indrapuri,Road No.-1,PO-Ratu Road,Dist.-Ranchi,P-834005 | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 03/01/70 |
| 73 | ALOK SHUKLA S/O SRI R.S. SHUKLA | UPVC/3254 | 25/13, RING ROAD, INDIRA NAGAR, LUCKNOW, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 30.08.78 |
| 74 | Alok Singh, S/o Sri Awadhesh Kumar Singh | BiharSVC/208 4/2001 | M.-CDA Colony,PO-Lal Bhahadur Shastrinagar,Thana-Shastrinagar,Patna | B.V.Sc. & A.H./KKV/2000 | 02/05/75 |
| 75 | AMANDEEP SINGH RIAR S/O SH. PARGAN SINGH RIAR | PB.SVC- 2180/2000 | VPO.DHAPAI, VIA:QUADIAN, DISTT. GURDASPUR. | BVSc&AH/PAU/ 1999 | 19.03.76 |
| 76 | Amar Deo Dwivedi, S/o Late Rajeshwar Dwivedi | BiharSVC/166 3/2000 | V.+PO-Hikahan,Bhawnipur,Thana-Sangrampur,Dist.-East Champaran | B.V.Sc. & A.H./RD/69 | 04/03/46 |
| 77 | AMAR KUMAR SINGH S/O SRI RAM JI LAL | UPVC/3234 | PET CARE CLINIC, MASIHI SCHOOL MARKET, D.M. COLONY ROAD, BULANDSHAR | BVSc&AH/GBP UA&T/90 | 22.04.65 |
| 78 | Amar Kumar Verma, S/o Late Dinesh Prasad | BiharSVC/204 3/2000 | Vill.-Rampur,PO-Amba,Thana-Teghra,Dist.-Begusarai | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 04/01/45 |
| 79 | AMAR NATH S/O SRI RAM AVATAR KATIYAR | UPVC/3306 | VILL-DHIKCHI,PO-RURGAON,DISTT.-KANPUR(DEHAT)U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/94 | 02.02.67 |
| 80 | AMARDEEP SINGH S/O SH. JASPAL SINGH | PB.SVC- 2224/2001 | 77, GURU HAR RAI AVENUE, P/O KHALSA COLLEGE, AMRITSAR | BVSc&AH/PAU/ 1999 | 19.06.75 |
| 81 | Amboj Kr. Mahto, S/o SriBhiknu Mahto | BiharSVC/109 9/2000 | Vill.-Tunku,PO-Dowaru,Thana-Silli,Dist.-Ranchi,Pin-835102 | B.V.Sc.&A.H./B AU/93 | 15/01/67 |
| 82 | AMIT ATTRI | VCI/2288/01 | B-12 VISHAL COLONY, NANGLOI DELHI-110041 | BVSc&AH/CCS HAU/00 | 01/07/76 |
| 83 | Amit Kr. Tirki, S/o Sri Hejel Tirki | BiharSVC/182 5/2000 | M.-Kadru Sarna Toli,PO-Doranda,Thana-Argoda,Dist.-Ranchi,Pin-834002 | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 24/01/67 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DATE |
|-----|---|------------------------|--|---------------------------------|----------|
| 84 | Amit Kumar Gupta, S/o Dr. Rajendra Prasad Gupta | BiharSVC/193 7/2000 | Vill+PO+Thana-Ramgadh Cant, Dist.-Hazaribagh, Pin-829122 | B.V.Sc. & A.H./GBPUAT/2000 | 02/06/72 |
| 85 | AMIT KUMAR PANDEY S/O SRI D.S. PANDEY | UPVC/3243 | VILL. KONI, PO-LAHSADI, DISTT. - GORAKHPUR, U.P. | BVSc&AH/ORIS SA UNIV A&T/96 | 13.04.73 |
| 86 | AMIT KUMAR RAI S/O SRI D.N. RAI | UPVC/3248 | B-97, SECTOR-I, DOORBHASH NAGAR, RAEWARELI, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 08.04.77 |
| 87 | AMIT KUMAR SHARMA | RAJSVC/2662/ 2000 | NEAR SHIV TEMPLE, SUBHASH PURA, BIKANER-334001 | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./2000 | 06.01.77 |
| 88 | AMIT SAXENA S/O SH. SAT PRAKASH SAXENA | PB.SVC- 2206/2000 | ASHOK VIHAR, PHASE-2, CIRCULAR ROAD, KAPURTHALA | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 08.08.76 |
| 89 | AMIT TRIPATHI S/O DR. B.K. TRIPATHI | UPVC/3281 | 19/766, INDIRA NAGAR, LUCKNOW(U.P.) | BVSc&AH/OUA &T/98 | 15.04.73 |
| 90 | Amitabh Dhar, S/o Sri Amal Kr. Dhar | BiharSVC/146 9/2000 | Vill.-Balanagar, PO-Abhaynagar, Thana-Domjur, Dist.-Howrah, Pin-711201 | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 21/11/59 |
| 91 | Amrendra Kr. Pandey, S/o Sri Rewati Raman Panday | BiharSVC/183 7/2000 | Vill.+PO-Baijani, Thana-Jagdishpur, Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/95 | 05/01/70 |
| 92 | Amrendra Kr. Srivastava, S/o Late Vishnu Deo Prasad | BiharSVC/136 3/2000 | M.-Pannki Road, Rerma, Near VIP Office, Thana-Daltanganj, Palamu-822101 | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 12/01/64 |
| 93 | Amrendra Kumar, S/o Sri Jagmohan Pd. Yadav | BiharSVC/124 8/2000 | V.-Matkhora, PO+Thana-Murliganj, Dist.-Madhepura, Pin-852113 | B.V.Sc.&A.H./R AU/88 | 24/03/64 |
| 94 | Amrendra Kumar, S/o Sri Kamleshwari Pd. Yadav | BiharSVC/131 1/2000 | Vill.-Ramjanipur, PO-Kalgiganj, Thana-Kohalgaon, Dist.-Bhagalpur, Pin-812000 | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 | 05/05/63 |
| 95 | Amrendra Prasad, S/o Sri Surendra Pd. | BiharSVC/170 6/2000 | Vill.+PO+Thana-Malaypur, Dist.-Jamui, Pin-811313 | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 29/07/69 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-------------|---|------------------------|--|---------------------------------|------------|
| 96 | Amresh Narayan Sinha, S/o Dr. Ganesh Pd. Saha | BiharSVC/149 6/2000 | Vill.+PO-Arsandey,Thana- Kanke,Dist.-Ranchi,Pin.- 834006 | B.V.Sc. & A.H./BAU/95 | 06/03/71 |
| 97 | Amreshwar Prasad Sinha, S/o Late Rajeshwar Prasad Sinha | BiharSVC/200 7/2000 | M-Harmu Housing Colony,PO-Harmu,Dist.- Ranchi,Pin-834012 | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 05/02/46 |
| 98 | AMRIT KUMAR NAYEK | WBSVC/2785/ 2000 | VILL BANSGORA P.O: BRAJALALCHAK, DT. MIDNAPUR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 99 | AMULYA DEBNATH S/O SH. RAMESH DEBNATH | TRIPURA/49/2 000 | VILL-SOUTH BADHARGHAT(HAPANIA), PO.O.N.G.C.,PS-AMTALI, TRIPURA(W) | BVSc&AH/BCK VV/81 | 30/06/60 |
| 100 | ANADI SANKAR BHATTACHARYA S/O LT.ABINASH | TRIPURA/69/2 000 | PO.KALYANPUR,TRIPURA WEST,DIST.P-799203 | BVSc&AH/MAU/ 87 | 16/05/63 |
| 101 | Anamika Kumari, D/o Dr.Virendra Kr. Tiwari | BiharSVC/121 3/2000 | V.+PO-Naya Ganw(Satkhut)Thana- Parvatta,Dist.- Khagaria,Pin.-851215 | B.V.Sc.&A.H./B AU/96 | 16/01/72 |
| 102 | Anand K J, S/o Javare Gowda N | KARSVC/3177 | Balegare Street,Konanur,Aralakalagud Tq, Hassan Dist | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 6.5.76 |
| 103 | Anand Kr. Trivedi, S/o Sri Prem Chandra Trivedi | BiharSVC/953/ 2000 | M-Railway Co-op.Coly.,PO- Digha Chat,Thana- Digha,Patna-800011 | B.V.Sc.&A.H./R AU/82 | 04/06/58 |
| 104 | ANAND KUMAR | DVC/0566/200 0 | G.D. DAS QTR. NO.-G/8, IOC NAGAR SITE-2, SEC- 55 NOIDA 201301 | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | 15.8.76 |
| 105 | Anand Kumar, S/o Sri Siva Ram Ray | BiharSVC/196 9/2000 | Q.No.C.D.275/II,PO- Dhurva,Thana- Jagannathpur,Dist.- Ranchi,Pin-834004 | B.V.Sc. & A.H./GBPUAT/9 7 | 15/12/72 |
| 106 | Anand Lal, S/o Late Ram Ratan Lal | BiharSVC/153 3/2000 | Vill.-Barhora,PO- Shivpur,Thana- Sandesh,Dist.-Bhojpur (Arrah) | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 30/11/48 |
| 107 | ANAND PRAKASH SINGH S/O SRI DAYA RAM SINGH | UPVC/3212 | VILL.-GAROUNDI, PO- ADALHAT, DIST.- MIRZAPUR | BVSC&AH/CSA UA&T/2000 | 01.10.69 |

| SR. NO. | NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIF. | DATE OF BIRTH |
|---------|---|---------------------|---|-------------------------|---------------|
| 108 | Anand Singh, S/o Sh Rameshwari Singh | HarSVC/1623 | H.No.4518, Defence Colony, Jind | BVSc&AH/CCS HAU/99 | 13.6.75 |
| 109 | ANAND V PADIYAPPANAVAR S/O VEERABHADRAPPA | KARNASVC/3 122 | NEAR DATTATREYA TEMPLE, NOSEGAL POST, ROAN TALUK, GADAG DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/99 | 22.7.76 |
| 110 | Ananda B R, S/o Ramaiaik | KARNASVC/3 174 | Bendekare thandya, Bendekere Post, Arasikere Tq, Hassan Dist | BVSc&AH/UAS B'LORE/2000 | 20.8.75 |
| 111 | Anandi Pd. Singh, S/o Late Meghu Pd. Singh | BiharSVC/176 5/2000 | V.-Kamalpur, PO- Parmanandpur, Thana-Baliva, Dist.-Begusarai | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 02/12/61 |
| 112 | Ariandi Prasad Singh, S/o Sri Ram Swarup Prasad Singh | BiharSVC/193 3/2000 | Vill.-Chak Jainav, PO-Gonawan, Thana-Hamaut, Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./MU/72 | 15/08/47 |
| 113 | Anant Kr. Sinha, S/o Late Vrispati Pd. Singh | BiharSVC/891/ 2000 | Vill.+PO-Naya Tola, Rani-Diyara, Thana-Kahelgaon, Dist-Bhagalpur | B.V.Sc.&A.H./R AU/76 | 18/07/51 |
| 114 | ANANTA KUMAR DAS | WBSVC/2797/ 2000 | VILL SAGR MADHABPUR, P.O. DAKSHIN SHIBPUR DT. 24 PRGS(S) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 115 | ANANTA RAO CH. S/O SUBBARAYUDU | APSVC/03556/ 2000 | RETD. VETY. ASST. SURGEON, MACHARA, KAPILESWARAPURAM(M) E.G.DT. | BVSc/APAU/38 | 30.06.75 |
| 116 | ANANTWAR AVINASH NARENDRA | MSVC/6295/20 00 | OM SAI(144) VAIBHAV NAGAR, KOREGAON ROAD, PARBHANI, DIST. PARBHANI | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 05-01-74 |
| 117 | Arigad Kr. Singh, S/o Late Jamuna Singh | BiharSVC/176 3/2000 | M-Daljeet Tola, PO-Jay Prakas Nagar, Thana-Bairiva, Dist.-Balia, State-U.P. | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 02/01/54 |
| 118 | Anil Kr. Pandey, S/o Sri Mahendra Pandey | BiharSVC/132 8/2000 | Vill.+PO-Barhog, Thana-Vind, Dist.-Nalanda, Pin.-803107 | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 03/10/68 |
| 119 | Anil Kr. Singh, S/o Sri Vishwanath Singh | BiharSVC/144 3/2000 | Vill.+PO-Methvalia, Thena-Rivilganj, Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 03/08/62 |

| SNM | NAME | INUM | ADD | QUALF | DOB |
|------------|--|------------------------|--|--------------------------|------------|
| 120 | Anil Kr. Sinha, S/o Sri Sukhdeo Prasad | BiharSVC/145 8/2000 | M.-West of R.N.College,PO+Thana-Hazipur,Dt.-Vaishali,Pin-844101 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 01/12/68 |
| 121 | Anil Kr.Verma, S/o Late Devendra Pd. | BiharSVC/943/ 2000 | Vill.-Simri,PO-Kansi Simri, Dist.- Darbhanga | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 21/10/46 |
| 122 | Anil Kumar Dubey, S/o Sri Hira Chandra Dubey | BiharSVC/116 2/2000 | Vill.+PO-Naur,Thana-Navinagar,Dist.- Aurangabad,Pin-824301 | B.V.Sc.&A.H./R AU/72 | 16/07/50 |
| 123 | ANIL KUMAR G. S/O G. JANAKI RAMAIAH | APSVC/03636/ 2000 | D.NO.3-28-63/K, RAJENDRA NAGAR, GUNTUR-6 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 14.03.75 |
| 124 | ANIL KUMAR GANWAR S/O SRI M S. GANGWAR | UPVC/3210 | 414, NAI BASTI, PILIBHIT, U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 07.10.71 |
| 125 | ANIL KUMAR GK S/O KADEGOWDA | KARNASVC/3 085 | GOPALPURA POST, MADYA TQ. MANDYA DT. 571402 | BVSc&AH/UAS B'LORE/98 | 08.06.75 |
| 126 | Anil Kumar Nayak, S/o Sri Kedar Nath Nayak | BiharSVC/182 1/2000 | Vill.-Obariya,PO-Hatiya,Thana-Jagnnathpur,Dist.- Ranchi,Pin-834003 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 19/01/71 |
| 127 | Anil Kumar Singh, S/o Late Owarika Pd. Singh | BiharSVC/165 6/2000 | Vill.-Kampura,PO-Jadhua,Thana-Ganjabridge,Dist.- Vaishali,Pin-844101 | B.V.Sc. & A.H./RAU/91 | 10/07/61 |
| 128 | Anil Kumar Sinha, S/o Sri Kailash Prasad Singh | BiharSVC/129 8/2000 | Vill.-Maira,PO-Maira Barieh,Thana-Katari Saray,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./BAU/91 | 09/04/68 |
| 129 | Anil Kumar, S/o Sri yogendra Pd. Roy | BiharSVC/177 4/2000 | Vill.+PO-Chathar,Thana-Shambbuganj,Dist.-Banka | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 01/04/67 |
| 130 | ANIL KUMAR, S/O. SH. DARSHAN KUMAR | RAJSVC/2757/ 2001 | H.NO.169, M.C.COLONY, HISAR | BVSc&AH/CCS HAU/98 | 29-07-76 |
| 131 | ANILAVA DES GUPTA S/O SH.AMIYA BANDHU DASGUPTA | TRIPURA/27/2 000 | KRISHNAGAR,PRAGATI ROAD, AGT.TRIPIURA WEST. | BVSc&AH/BCK VV/77 | 01/05/55 |

| STUDY NAME | REG. | ADM. | QUALIF | DOB |
|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| 132 Anilkumar P,S/o T.Puttaswamy | Karna/3193 | Eregowdanadoddy Besagarahalli Post,Maddur Tq, | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 8.5.77 |
| 133 Anirudh Pd.Sharma, S/o Late Dashrath Pd. Sharma | BiharSVC/116 6/2000 | Vill.+PO-Dahpar Sargo,Thana-Noorsarai,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R AU71 | 12/03/47 |
| 134 Anirudh Prasad Sindh, S/o Late Jagdeo Prasad Singh | BiharSVC/136 0/2000 | Vill.+PO-Bijauli,Thana+Dist.- Aurangabad | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 01/02/47 |
| 135 ANIS ASLAM | KERALASVC/ 2484/2000 | VALLAKKADAVU THOTTAPPALLY P.O., ALAPPUZHA PIN-688563 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 29.04.73 |
| 136 ANISH ANTONY | KERALASVC/ 2514/2000 | MEDECKAL HOUSE, ADOOPARAMBU,MUVATT UPUZHA P.O.,ERNAKULAM DIST.- | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 20.05.76 |
| 137 Anita Kumari, D/o Dr.Awadh Bihari Gupta | BiharSVC/103 5/2000 | M.-B/103,Monika Apartment,Near Jagdeo Path, Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 08/06/68 |
| 138 Anita Kurnari, S/o Sri Jagdish Prasad | BiharSVC/897/ 2000 | Vill.-Dhamouli,PO-Mouegoan,Thana-Islampur,Dt.-Nalanda,Pin-801303 | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 24/05/70 |
| 139 ANITHA M.G. | KERALASVC/ 2452/2000 | KOTTOOR HOUSE,NENMENIKUNNU, P.O. CHEERAL (VIA)WAYANAD DIST. | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 19.05.75 |
| 140 Anjali Kumari Sinha, D/o Sri Kameshwer Pd. Sinha | BiharSVC/930/ 2000 | M-MF3,MIG,Blk No.6,POBahadurpur Hou.cly,Tharia-Agamkuari,Patna | B.V.Sc.&A.H./R AU/94 | 02/11/68 |
| 141 ANJAN SAHA S/O SH. DULAL CH. SAHA | TRIPURA/55/2 000 | C/O SUBRATA CHAKRABORTY,RAMKRIS HNA MISSION ROAD,DHARMNAGAR,NO | BVSc&AH/BCK VV/81 | 06/01/60 |
| 142 ANJANEYULU V. S/O V. LAKSHMI KANTARAYUDU | APSVC/03655/ 2000 | H.NO. 54-20/7-4,2ND LINE,KANAKADURGA OFFICER'S COLONY, VIJAYAWADA-8. | BVSc&AH/SVU/ 64 | 15.07.40 |
| 143 Arjani Kr. Sinha, S/o Sri Sidheswar Prasad | BiharSVC/144 9/2000 | Vill.-Barah,PO-Bhuapur,Thana-Belchi,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 | 25/12/62 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|---|-------------------------|--|--------------------------|----------|
| 144 | Anjani Kumar Sinha, S/o Sri Brajesh Kumar Sinha | BiharSVC/155 0/2000 | Vill.-Valuhipur,PO-Arrah,Thana-Arrah,Dist.-Arrah | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 17/11/46 |
| 145 | Anjani Kumar Sinha, S/o Sri Gorageshwari Prasad Sinha | BiharSVC/204 9/2000 | V.-Cheriya Bariyarpur,PO-Sripur,Thana-Cheriya Bariyarpur,Dist.-Begusarai | B.V.Sc. & A.H./RAU/79 | 17/01/54 |
| 146 | ANOOP MURTHY KAVIRAYANI | KERALASVC/ 2466/2000 | 5/519, PANACEA, PERINGAVU P.O., THRISSUR PIN-680018 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 29.05.76 |
| 147 | ANSHAD M.H. | KERALASVC/ 2502/2000 | ASARIKUNNU, VELIYANNOOR, THIRUSSUR PIN-680021 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 16.03.77 |
| 148 | Antoine.D | Pondi/97/2000 | 19,II Cross, Sathya Nagar,East Kamaraj Salai,Pondicherry-605013 | BVSc/TNAU/84 | 7.06.60 |
| 149 | Antony P.X | Pondi/88/2000 | 408,Bharathi Street,Pondicherry-1 | BVSc/TNAU/87 | 16.12.59 |
| 150 | Anu Arora D/o Sh. Nirmal Kumar | HarSVC/1677 | 1788, Sector-28, Faridabad | BVSc&AH/CCS HAU/99 | 6.1.76 |
| 151 | ANUJ KUMAR CHAUHAN S/O SRI PRAKASH CHANDER | UPVC/3257 | C/O P.C.-CHAUHAN, 156, ADERSH COLONY, MUZAFFAR NAGAR,U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 20.07.77 |
| 152 | ANUJ SYNGHAL | DVC/0570/200 1 | 84, MAUSAM APARTMENTS, C-2 WEST ENCLAVE, PITAMPURA,DELHI-34 | BVSc&AH/RAU/ 87 | 30/09/65 |
| 153 | ANUP CHOUDHURY S/O SH. PURENDU BIKASH CHOUDHURY | TRIPURA/47/2 000 | SARAT PALLI,79-TILLA,P.O.-KUNJABAN,AGT.TRIPURA WEST | BVSc&AH/BCK VV/80 | 10/02/58 |
| 154 | Anup Kumar Agarwal, S/o Sri Ashok Kumar Agarwal | BiharSVC/835/ 2000 | Moh-Chowk Bazar,P.O.+Thana-Barh,Dist.-Patna,Pin-803213 | B.V.Sc.&A.H./R AU/97 | 16/12/71 |
| 155 | ANUP SARKAR S/O JATRAMOHAN SARKAR | TRIPURA/20/2 000 | DHALESWAR NUTAN PALLU,ROAD-5,P.O.-DHALESWAR,AGARTALA, WEST TRIPURA | BVSc&AH/BCK VV/76 | 16/11/53 |

| SNM | NAME | NUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-----|--|------------------------|--|------------------------------|----------|
| 156 | ANUPMA SHARMA S/O SRI A.K. SHARMA | UPVC/3241 | 36, NEHRU MARG, ASHUTOSH NAGAR, RISHIKESH, DEHRADUN, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 12.09.74 |
| 157 | ANWAR ALAM S/O SRI NIZAMUDDIN ANSARI | UPVC/3270 | C/O MR. RIYAJUDDIN ANSARI, MIYAN BAZAR, EAST GATE GORAKHPUR (U.P.) | BVSc&AH/CSA UA&T/92 | 09.02.66 |
| 158 | ARADHANA D/O SH JIWAN LAL GUPTA | PB.SVC- 2213/2000 | 398-A, NANGAL KOTLI, MANDI, GURDASPUR- 143521 | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 12.11.76 |
| 159 | ARAVIND RAO E. S/O E. NAVNEETHA RAO | APSVC/03550/ 2000 | KAMANPOOR(P)&(M), KARIMNAGAR-505188 | BVSc&AH/ANG RAU/99 | 17.06.76 |
| 160 | ARCHNA SOLANKI D/O SHRI, G.S. SOLANKI | MPSVC/1929/ 01 | 9-B, 664 SAKET NAGAR, BHOPAL-462024 | BVSc&AH/JNKV V/98-99 | 21.12.73 |
| 161 | Arivand Kumar Singh, S/o Sri Ramkhelawan Singh | BiharSVC/120 1/2000 | Vill.-Kariyawan, PO- Bhathar, Thana- Chandi, Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R AU/82 | 15/01/60 |
| 162 | Arjan Singh, S/o Sri Musafir Singh | BiharSVC/149 4/2000 | Vill.-Kamalpur, PO- Irki, Thana-Belaganj, Dist.- Gaya | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 03/01/44 |
| 163 | Arjun Prasad Sah, S/o Sri Raghunath Pd.Sah | BiharSVC/889/ 2000 | Moh.-Naya Tola, PO- Tilkamanjhi, Thana- Kotwali, Dist.- Bhagalpur, Pin-843125 | B.V.Sc.&A.H./R U/67 | 21/07/44 |
| 164 | Arjun Prasad, S/o Sri Magru Mahto | BiharSVC/188 4/2000 | Vill.-Daswari, PO- Chandradeep, Thana- Kauakol, Dist.-Nawada | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 01/06/57 |
| 165 | Arjun Singh, S/o Sri Ganesh Pd. Singh | BiharSVC/169 2/2000 | Vill.+PO- Bhagwatpur, Thana- Taraivala, Dist.-Chapra (Saran) | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 02/07/57 |
| 166 | ARSHAD HUSSAIN | VCI/2214/00 | RESHI BAZAR, KHAKI MASJID ANANTNAG, KASHMIR- 192101. | BVSc&AH/S.K.U .OF AS&T/99 | 11/4/73 |
| 167 | Arshan Shaheed A,S/o K Allabaksh | Karna/3211 | Mubarak Mohalla, Molakalmuru, Chitr adurga Dist | BVSc&AH/UAS, B'lone/2000 | 29.7.74 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-------------|--|------------------------|--|-------------------------|------------|
| 168 | Arun Kr. Verma, S/o Sri Nathun Prasad Singh | BiharSVC/131 8/2000 | Vill.-Ghosi,PO-Dahabigaha,Thana-Hilsa,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 06/09/56 |
| 169 | ARUN KUMAR DAS | WBSVC/2783/ 2000 | VILL & P.O. SAPKHALI P.S. SAGAR ISLAND DT. 24 PRGS(S) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 170 | Arun Kumar Mahanta, S/o Dr. Ganesh Chandra Mahanta | BiharSVC/113 8/2000 | Vill.+PO+Thana-Rajnagar, Dist.-Singhbhum | B.V.Sc.&A.H./R AU/82 | 04/08/58 |
| 171 | Arun Kumar Ram, S/o Sri Mishri Ram | BiharSVC/139 6/2000 | Moh.-Arsandev,PO+Thana-Kanke,Dist.-Ranchi,Pin.-834007 | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 06/11/66 |
| 172 | Arun Kumar Rav, S/o Sri Ganesh Rav | BiharSVC/190 7/2000 | Vill.-Marwa,PO+Thana-Bihpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/93 | 07/01/65 |
| 173 | ARUN KUMAR SINGH S/O SRI RAJENDRA SINGH | UPVC/3253 | TAX INSPECTOR SADAR KHOD(MAZERA PERBO) BAZPUR, U.S. NAGAR, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/99 | 08.08.73 |
| 174 | Arun Kumar Singh, S/o Late Jagat Narayan Singh | BiharSVC/141 3/2000 | V.+Moh-Shivala Road,PO+Thana+Dist.- Palamu,Pin.-822101 | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 05/05/62 |
| 175 | Arun Kumar Singh, S/o Late Murli Prasad Singh | BiharSVC/189 1/2000 | Vill.+PO-Soha,Thana-Sonvarsha,Dist.-Saharsa | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 05/02/43 |
| 176 | Arun Kumar Singh, S/o Late Nageshwar Pd. Singh | BiharSVC/188 8/2000 | Vill.-Bakhoria,PO+Thana-Sursand,Dist.-Sitamadhi | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 05/11/45 |
| 177 | Arun Kumar Singh, S/o Late Ram Naresh Singh | BiharSVC/130 6/2000 | Vill.+PO-Barnaon (East),Thana-Jagdishpur,Dist.-Arrah,Pin.-802203 | B.V.Sc. & A.H./BAU/88 | 24/10/63 |
| 178 | Arun Kumar Sinha, S/o Dr. Jwala Prasad | BiharSVC/200 2/2000 | Vill.-Ambedkar Nagar,PO-Morari,Dist.-Hasipur | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 01/10/47 |
| 179 | Arun Kumar Sinha, S/o Late Shyam Narayan Pd. | BiharSVC/993/ 2000 | Vill.-Jonhi,PO-Jonhi,Thana-Bikramganj,Dist.-Rohtas,Pin-802211 | B.V.Sc.&A.H./B AU/83 | 05/01/60 |

| SNO/H NAME | REGN | ADD | QUALIF | |
|--|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 180 Arun Kumar, S/o Late Shoshan Pd. Singh | BiharSVC/123 5/2000 | Moh.+Vill.- Srikanth,PO+Thana- Barahia,Dist.-Lakhisarai | B.V.Sc.&A.H./B AU/86 | 12/03/61 |
| 181 Arun Kumar, S/o Sri Rameshwar Ram | BiharSVC/132 2/2000 | Moh.-Soraidhn,PO+Thana- Panki,Dist.-Palamu,Pin.- 822122 | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 07/02/67 |
| 182 Arun Prakash Sinha, S/o Late Damodar Charan Sinha | BiharSVC/106 0/2000 | M.-A/83,People's Co- operative,Kankarbagh,Patn a-800020 | B.V.Sc.&A.H./R U/69 | 12/02/46 |
| 183 Arun Prasad, S/o Late Dr. Parmeshwary Narayan | BiharSVC/196 6/2000 | Moh.- Jagdeopath,PO+Thana- Gardanibagh,Dist.- Patna,Pin-800014 | B.V.Sc. & A.H./RAU/68 | 01/08/54 |
| 184 Arun S J, S/o N.S.Jayappa | KARNASVC/3 175 | No1783/3,SondurNilaya M CCB Block behind Old RTO BesidePisalethota,Dhavage | BVSc&AH/UAS B'LORE/2000 | 4.5.78 |
| 185 ARUN SINGH PARADESHI S/O HARI SINGH K.PARADESHI. | KARNASVC/3 072 | H.NO.D/103 AT POST,ALMATTI DAM SITE, BASAVANABAAGEWADI | BVSc&AH/UAS/ DHARWAR/99 | 04.01.76 |
| 186 Arun Uranw, S/o Sri Gandru Uranw | BiharSVC/194 0/2000 | V.-Banpur Dasra Toli,PO- Jori,Thana-Kisko,Dist.- Lohardagga,Pin-835302 | B.V.Sc. & A.H./BAU/90 | 20/01/73 |
| 187 ARUNA PAL | WBSVC/2827/ 2000 | SREENAGAR ISHAPORE, P.O. ISHAPORE- NAWABGANJ, DT. 24 PRGS(N) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 188 ARUNA SRI S. W/O P.SRINIVAS | APSVC/03594/ 2000 | VETY. ASST. SURGEON, B/184, PYLON COLONY, NAGARJUNA SAGAR, NALGONDA. | BVSc&AH/APA U/96 | 17.12.70 |
| 189 ARUNACHALAM R. | KERALASVC/ 2522/2000 | 42,WARD II,KARINGZHAKUNNEL HOUSE,KUMILY PIN- 685509 | BVSc/TNV&AS U/91 | 11.05.64 |
| 190 ARUNKUMAR GAUR S/O SHRI HARPRASAD GAUR | MPSVC/1876/ 00 | P.O. UDAIPURA DISTT. RAISEN M.P.. 464888 | BVSc&AH/JNKV V/75 | 3.5.52 |
| 191 ARUNKUMAR P.S. | KERALASVC/ 2493/2000 | OHM NIVAS, KUNNICODU P.O., KOLLAM PIN-691508 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 29.05.76 |

| SNM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 192 | ARUP KR. DE S/O LT. ANIL KR. DE | TRIPURA/68/2 000 | PO KUNJAVAN, MALACHANAGAR AGARTALA, TRIPURA WEST | BVSc&AH/OUA &T/85-86 | 10.11.62 |
| 193 | Arvind Kr. Karan, S/o Late Satyanarayan Prasad | BiharSVC/124 1/2000 | Vill.+PO-Nasunganj,Thana- Asanganj,Dist.-Munger | B.V.Sc.&A.H./R U/69 | 13/08/45 |
| 194 | ARVIND KUMAR JOSHI | RAJSVC/2674/ 2000 | C/O SH.BASANT JOSHI,SURAJ BHWN.,SHEKHPURA MOH.,H.N.1216,BHAGAT | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 06.12.75 |
| 195 | ARVIND KUMAR SARASWAT | RAJSVC/2657/ 2000 | 2 E.8. TALWANDI,KOTA. | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 23.04.75 |
| 196 | Arvind Kumar, S/o Sri Deonandan Prasad Singh | BiharSVC/148 5/2000 | Vill.+PO-Vishay Bigha,Thana- Ekangersarai,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 03/05/59 |
| 197 | Arvind Kumar, S/o Sri Ram Anugrah Pd. Gupta | BiharSVC/173 0/2000 | V.-Chandrpur Bela,Banwari Lal Path,(Nr.Sigma Elect'lonePO+Thana+Dt.- | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 03/05/61 |
| 198 | Arvind Kumar,S/o Sri Parmeshwar Dayal | BiharSVC/851/ 2000 | Vill-Seema,P.O.+Thana- Silaw,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./B AU/84 | 08/11/57 |
| 199 | ASHA K.P. | KERALASVC/ 2491/2000 | SHANDI SADAN, KOOVERI P.O., CHAPPARAPADAVU (VIA), KANNUR DIST.- | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 01.06.77 |
| 200 | ASHA L. | KERALSVC/24 42/2000 | PALAVILAKAM HS.,T.C.29/535,KAVARADI JUNCTION,PALKULANGA | BVSc/TNV&AS U/2000 | 30.04.76 |
| 201 | ASHA LATHA P. D/O P. SWATANTRA KUMAR | APSVC/03631/ 2000 | C.S.I.ELE SCHOOL, THOTLAVALLURU (P&M), KRISHNA DT.-521163 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 15.06.77 |
| 202 | ASHA RAJAGOPAL | KERALASVC/ 2460/2000 | "RAGAM",TC 30/1609-1, PALLIMUKKU, PETTAH P.O., TRIVANDRUM - 695024. | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 03.02.77 |
| 203 | Asha.L | A&NSVC/75/2 000 | C/o S.Leelammal,Qtr No.H- 67,Haddg,Port Blair,Andamans. | BVSc/TNV&AS U/2000 | 30.4.76.. |

| S.NO. | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-------|--|---------------------|--|------------------------------------|----------|
| 204 | ASHEESH KUMAR TIWARY S/O DR. S.N. TIWARY | UPVC/3265 | 20, CHANDRIKA COLONY, SIGRA, VARANASI, (U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 08.08.76 |
| 205 | ASHIM KR.BANERJEE S/O LT. DIGENDRA LAL BABERJEE | TRIPURA/7/20 00 | C/O D.L.BANERJEE,EAST KOTWALI THANA ROAD,BANAMALIPUR,AG ARTALA, TRIPURA(W) | BVSc&AH/AAU/ 69 | 22/12/47 |
| 206 | ASHIM KUMAR BISWAS | WBSVC/2805/ 2000 | VILL MILANNAGAR, P.O. BAGULA, DT. NADIA | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 207 | ASHISH JAIN | RAJSVC/2646/ 2000 | M.P.B. 40,MAHAVEER NAGAR-I,KOTA -324005. | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 18.12.75 |
| 208 | ASHISH KR. DHAKREY S/O SRI GIRIRAJ | UPVC/3310 | 32A/2B, MADHU NAGAR, AGRA, U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/ | 15.12.74 |
| 209 | Ashok Dayal, S/o Sri Kameshwar Dayal | BiharSVC/955/ 2000 | M-Kadamkuan,PO+Thana- Kadamkuan, Dist.- Patna,Pin-800003 | B.V.Sc.&A.H./M U/66 | 01/08/44 |
| 210 | Ashok Kr. Sharma, S/o Sri Ghansham Sharma | BiharSVC/966/ 2000 | Vill.-Dhaulpur,PO- Dhaulpur,Thana+Dist- Dhaulpur, State-Rajasthan | B.V.Sc.&A.H./R U/70 | 15/01/47 |
| 211 | Ashok Kr. Singh, S/o Late Brahmdeo Narayan Singh | BiharSVC/166 2/2000 | Vill.-Mukundpur,PO- Kadilpur,Thana- Jandaha,Dist.-Vaishali | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 01/04/51 |
| 212 | Ashok Kr. Singh, S/o Sri Rameshwar Singh | BiharSVC/148 0/2000 | Vill.+PO- Ramchandra,Thana- Madhepura,Dist.- Madhubani,Pin.-847408 | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 | 17/01/62 |
| 213 | Ashok Kumar Singh, S/o Late Ram Pravesh Singh | BiharSVC/179 6/2000 | Vill.-Malpura,PO-Sakla Bazar,Thana-Karakat,Dist.- Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 02/07/55 |
| 214 | Ashok Kumar Singh, S/o Late Surendra Pd. Singh | BiharSVC/125 9/2000 | Vill.-Hasanpur,PO+Thana- Mahnar,Dist.-Vaishali | B.V.Sc.&A.H./B AU/93 | 01/07/66 |
| 215 | Ashok Kumar Singh, S/o Sri Laxmi Narayan Singh | BiharSVC/186 3/2000 | Vill.+PO-Karjan,Thana- Barh,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 11/01/53 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-------------|--|------------------------|---|--------------------------|------------|
| 216 | Ashok Kumar Srivastava,S/o Sri Bachchan Prasad | BiharSVC/191 5/2000 | Moh.-R.V.College,PO+Thana-Kanke,Dist.-Ranchi,Pin-834006 | B.V.Sc. & A.H./RAU/75 | 06/01/53 |
| 217 | Ashok Kumar, S/o Late Kamla Charan | BiharSVC/201 1/2000 | Vill-Sashera,PO-I.E:Gomia,Thana-Gomia,Dist.-Bokaro,Pin-829111 | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 10/01/48 |
| 218 | Ashok Kumar, S/o Late Rughunandan Mahto | BiharSVC/127 7/2000 | Vill.-Manikpur,PO-Kawadpur,Thana-Suryagadha,Dist.-Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./RAU/81 | 06/01/56 |
| 219 | Ashok Kumar, S/o Sri Ram Kripal Singh | BiharSVC/154 9/2000 | Vill.-Sudiha,PO-Parsa,Thana-Fatuha,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/82 | 01/11/55 |
| 220 | Ashok Kumar, S/o Sri Ram Lakhan Mahto | BiharSVC/883/ 2000 | Vill.-Shahpur,PO-Bauliva,Thana-Nawhatta,Dist.-Rohtas,Pin-821304 | B.V.Sc.&A.H./R AU/94 | 12/08/67 |
| 221 | Ashok Kumar, S/o Sri Ram Lakhan Prasad | BiharSVC/988/ 2000 | M.-Rivir Side,Old Basar,W.No.3,PO+Thana-Saraikela,Dist.-Chaibasa,Pin 833210 | B.V.Sc.&A.H./B AU/97 | 28/03/72 |
| 222 | Ashok Kumar, S/o Sri Ramchandra Yadav | BiharSVC/149 9/2000 | Moh.-Ward No.16,PO+Thana+Dist.-Madhubani,Pin-847211 | B.V.Sc. & A.H./CCSHAU/98 | 07/10/70 |
| 223 | Ashok Kumar, S/o Sri Tilakdhari Ram | BiharSVC/149 2/2000 | M.-Airport Road Heenu,PO+Thana-Doranda,Dist.-Ranchi,Pin.-834002 | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 06/01/72 |
| 224 | Ashok Kumar,S/o Sh Ram Chander | HarSVC/1645 | VPO Alewa (Man Pal Patt) Jind | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 15.11.74 |
| 225 | ASHUMA TULI D/O SH. ASHOK KUMAR TULI | PB.SVC- 2218/2001 | 215, TAGORE NAGAR, OPP. KULDEEP NURSING HOME, HOSHIARPUR | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 21.11.76 |
| 226 | Ashutosh Madhukar,S/o Sri Sudhakar Tripathi | BiharSVC/137 9/2000 | Moh.-Chattar Bagicha,PO+Thana+Dist.-Lohardagga,Pin.-835302 | B.V.Sc. & A.H./BAU/92 | 21/08/68 |
| 227 | Ashutosh Manjhi, S/o Sri Ghashi Ram Manjhi | BiharSVC/159 9/2000 | Vill.-Novadih,PO-Dewaltanr,Thana-Ichagadh,Dist.-W.Singhbhum,P.-832401 | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 02/01/67 |

| Serial Number | Date | State | Category | Qualification | Date of Birth |
|---------------|--|------------------------|---|-------------------------------------|---------------|
| 228 | Ashutosh Ranjan Prasad, S/o Late Chittaranjan Prasad | BiharSVC/130 3/2000 | Vill.-Rampur,PO+Thana- Mathnagar,Dist.- Bhagalpur,Pin.-812006 | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 | 09/02/61 |
| 229 | Ashwani Kumar S/o Dewan Chand | HarSVC/1659 | H.No. 4, H.B. Colony, Sirsa Road, Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 1.8.77 |
| 230 | ASIM KUMAR MANNA | WBSVC/2781/ 2000 | VILL CHAKHARIARPUR, P.O. JHANJIA, P.S. DEBRA, DT. MIDNAPORE. | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 231 | Asit Ranjan Deo, S/o Late Satyendra Ranjan Deo | BiharSVC/199 0/2000 | M-Anandnavi Apt.,South Office Para,PO+Thana- Doranda,Dist.-Ranchi,P- 834002 | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 02/08/53 |
| 232 | ASUTOSH SINHA S/O SH. SATISH LAL SINHA | TRIPURA/8/20 00 | C/O SH.SATISH LAL SINHA,H.G.BASAK ROAD,OLD COLONEL PARA,P.O.AGARTALA | BVSc&AH/AAU/ 70 | 31/12/46 |
| 233 | Ata Karim Shaukat, S/o Dr. Md. Daud Shaukat | BiharSVC/152 0/2000 | Vill.-Sundarpur,PO- Kharua,Thana-Darbhanga Sadar,Dist.-Darbhanga,Pin- 847115 | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 12/05/46 |
| 234 | Ataur Rahman Md., S/o Md. Khalilur Rahman | BiharSVC/961/ 2000 | V.-Kukraun Amari,PO- Kukraun Amari,Thana- Dhamdaha,Dist.- Purnea,Pin-854205 | B.V.Sc.&A.H./R AU/98 | 03/01/73 |
| 235 | Atul Kr. Srivastava, S/o Sri Jagdamba Pd: Srivastava | BiharSVC/173 8/2000 | M-2/105,Aras Vikas Colony,PO+Thana+Dist.- Barabanki,U.P.-225001 | B.V.Sc. & A.H./GBPUA&T/ 93 | 27/12/67 |
| 236 | Atul Kumar Verma, S/o Dr.Apurva Narayan Prasad | BiharSVC/199 4/2000 | Vill+PO-Chanpatia,Thana- Chanpatia,Dist.-W. Champanar,Pin-845449 | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 24/02/47 |
| 237 | ATUL SHANKER ARORA | RAJSVC/2681/ 2000 | S/O SH. NATWR LAL ARORA,KHANDA FALSHA,NEAR LADJI'S WELL,JODHPUR-342001 | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 14.08.73 |
| 238 | AVADHESH KUMAR S/O SRI CHOKMEY LAL | UPVC/3188 | VILL-SAIJANA POST- SINDHOILY DIST.-SHAH, JAHANPUR (U.P.) | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 22.03.70 |
| 239 | Avani Bhushan Bhartiya, S/o Late Sidheeswar Prasad | BiharSVC/117 2/2000 | Vill.-Bardin, Thana- Islampur,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./M U/87 | 09/10/56 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADDRESS | QUALIF. | DATE |
|------|---|------------------------|--|--------------------------|----------|
| 240 | Avinash Prasad, S/o Sri Hulas Saw | BiharSVC/121 9/2000 | Vill.+PO-Dosut,Thana-Vena,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 12/08/45 |
| 241 | AVISHEK BISWAS | WBSVC/2794/ 2000 | 497/5, KALYANGARH, P.O. KALYANGARH, DT. 24 PRGS(N) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 242 | Awadh Bihari Singh, S/o Late Ramchandra Singh | BiharSVC/168 9/2000 | Vill.-Vasgitiya,PO-Jamodhi,Thana-Vikramganj,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RAU/75 | 16/06/53 |
| 243 | Awadh Kishore Sinha, S/o Sri Rameshwari Pd. Sinha | BiharSVC/143 7/2000 | Vill.-Mujafera,PO-Vardin,Thana-Islampur,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/95 | 31/12/66 |
| 244 | Awadhesh Kr. Poddar, S/o Late Ramakant Poddar | BiharSVC/148 9/2000 | VILL.+PO-Baisa,Mahchipur,Thana-Parbatia,Dist.-Khagaria | B.V.Sc. & A.H./AMU/69 | 01/04/46 |
| 245 | Awadhesh Kr., S/o Late Sitaram Pd. Singh | BiharSVC/162 1/2000 | Vill.-Mashepur,PO+Thana-Kashichak,Dist.-Nowrangpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 18/10/50 |
| 246 | Awadhesh Prasad Singh, S/o Mundrika Singh | BiharSVC/118 6/2000 | V.+ PO Keshri,Thana-Jagdishpur,Dist.-Arrah (Bhojpur) | B.V.Sc.&A.H./R U/69 | 02/07/47 |
| 247 | AWARE MANOJKUMAR JANARDHAN | MSVC/6316/20 00 | ANANTKRUPA, NEAR D PHARMACY COLLEGE, UMBRE KOTHA, TAL. USMANABAD- 413501 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 07-08-78 |
| 248 | AWATADE KAILAS DNYANESHWAR | MSVC/6411/20 01 | AT POST PHALWANI, TAL. MALSHIROR, DIST. SOLAPUR- 413308 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 01-06-77 |
| 249 | Ayisha Sidiqa,D/o C.M Abdulghani | KARNASVC/3 117 | No.268/43,1st Main, 5th Cross, RT Nagar Post,Kanaka Nagar,Bangalore | BVSc/UAS,B'LO RE/98 | 27.9.75 |
| 250 | Ayodhyay Prasad, S/o Sri Siva Baileabh Saran | BiharSVC/192 9/2000 | M-Friend's Coly,PO-Ashiyana Nagar,Thana-Shastrinagar,Patna-800025 | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 13/07/46 |
| 251 | Azaz Akbar, S/o Late Ali Akbar | BiharSVC/154 5/2000 | Moh.-Vijlichak,PO-Taterpur,Thana-Kotwali,Dist.-Bhagalpur,Pin.-812002 | B.V.Sc. & A.H./RAU/88 | 17/01/64 |

| संख्या | नाम | विवर | उमेर | दर्तक संख्या |
|--------|---|---|-----------------------------|--------------|
| 252 | B.BRAHMANANDA REDDY | PONDI/114/20 00 H.NO.3,KANAGAVALLI STREET,PUDUPET, PONDI CHERRY-605008 | BVSc/APAU/76 | 13/03/54 |
| 253 | B.G. MANJAPPA | KERALASVC/ 2511/2000 VETY. DISPENSARY QUARTERS, RAJAPURAM P.O. KASARGOD 671532 | BVSc/UAS'Bang alore/92 | 18.05.65 |
| 254 | B.RAMESHKUMAR | PDNDI/113/20 00 7,II MAIN ROAD, AVVAI NAGAR, PONDICHERRY-8 | BVSc/TAU/80 | 05/01/57 |
| 255 | B.THULASERAMAN | PONDI/127/20 00 11,BHARATHI MILL STREET, MUDALIARPET,PONDICHERRY | BVSc(Prov.)/T V&ASU/2000 | 09/05/76 |
| 256 | B.U.DECHAMMA | VCI/2294/01 W/O DR. BHUPENDRA NATH 4/2 PANT NAGAR JANGPURA NEW DELHI-14 | BVSc/UASB/89 | 10/05/65 |
| 257 | BABA BUDEN J K S/O J K RASHEED | KARNASVC/3 152 BEHIND VETERINARY HOSPITAL JAGALUR TALUK AND POST, DAVANAGERE | BVSc&AH/UAS DHARWAD/2000 | 01.02.78 |
| 258 | Baban Choudhary, S/o Late Jomdhari Choudhary | BiharSVC/141 1/2000 Vill.-Bashudev Dihari,P.O-Ganj Bhorasara,Thana-Dinara,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 04/01/49 |
| 259 | Baban Prasad Singh, S/o Late Baijnath Singh | BiharSVC/908/ 2000 Vill.-Mahabirganj (Sohga),PO-Dagri,Thana-Kochag, Dist.-Totag | B.V.Sc.&A.H./R. AU/73 | 01/05/49 |
| 260 | BABITHA V. | KERALASVC/ 2464/2000 VAZHOOR HOUSE, 18/790,ENGLISH CHURCH RD.,PALAKKAD-678014 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 12.05.76 |
| 261 | BABOOLAL TIWARI S/O SHRI MANIPRASAD TIWARI | MPSVC/1913/ 00 WARD NO.11, H.NO.116, TILAK NAGAR, REWA-486001 | BVSc&AH/JNKV V/78-79 | 23.05.56 |
| 262 | BABU G. S/O G. OBUL REDDY | APSVC/03616/ 2000 C/O K. UDAY SHANKER REDDY, D.NO.2-463-4, PENUKONDA, ANANTAPUR DT.-515110 | BVSc&AH/A NG. RAU/2000 | 03.07.77 |
| 263 | BABUL CHAKRABORTY S/O SH. HARENDR A KR. CHAKRABORTY | TRIPURA/53/2 000 VILL-BRIDHANAGAR,P.O.- RANIRBAZAR,DIST.TRIPU RA (W) | BVSc&AH/BCK VV/82 | 14/04/57 |

| SL. NO. | NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIFICATION | BIRTH DATE |
|---------|--|------------------------|---|--------------------------|------------|
| 264 | Baby Prabha, S/o Sri Banke Bihari Mishra | BiharSVC/105 1/2000 | V.+PO-Suiya Bazar,Thana- Katoriya,Dist.-Banka,Pin- 813108 | B.V.Sc.&A.H./R AU/98 | 05/07/71 |
| 265 | BACHCHOO SINGH S/O SRI HAR CHAND | UPVC/3192 | VILL-JHUDAWAI,DISTT. MATHURA, U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 01.10.52 |
| 266 | Badri Vishal Mishra, S/o Late Gopal Jee Mishra | BiharSVC/174 8/2000 | Moh.-31/40,B-1,M Yogaveer,PO+Thana- Lanka,Dist.-Varanasi | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 28/04/45 |
| 267 | BAGCHI DR. BITAN BINDY S/O MR. BIMAL KANTA BAGCHI | ASM/1861/200 0 | Q.NO.34/B,NAMBARI,MALI GAON GHY-11,MAA ANANDAMOYEE CO.OP.HOSG.,NATUN | BVSc&AH/AU/ 99 | |
| 268 | Baidya Nath Prasad, S/o Late Ramswaroup Prasad | BiharSVC/904/ 2000 | Vill.-Belha,PO-Belha, Thana-Phulpras, Dist.- Madhubani | B.V.Sc.&A.H./M U/63 | 01/03/41 |
| 269 | Bajrang Pd. Singh, S/o Late Ram Das Singh | BiharSVC/158 9/2000 | Vill.-Pokhrana,PO- Atibhi,Thana- Nawāiganj,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 01/12/50 |
| 270 | Bakshi Kameshwar, S/o Late Jung Bahadur Prasad | BiharSVC/207 0/2000 | Vill.-Murar,PO+Thana- Murar,Dist.-Buzar | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 25/02/44 |
| 271 | Bakshi Tarkeshwar Pd. Singh, S/o Late Jagarnath Prasad | BiharSVC/186 7/2000 | Vill.-Thori Pahdepur,PO+Thana- Murar,Dist.-Buxar | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 01/08/46 |
| 272 | BAL KRISHNA AGNIHOTRI S/O SRI N.K. AGNIHOTRI | UPVC/3202 | 22, CHANDRA LOK, ALIGANJ, LUCKNOW, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/94 | 12.12.70 |
| 273 | Bal Mukund Kumar, S/o Late Shiv Sharan Pd. Singh | BiharSVC/989/ 2000 | Vill.-Bhadaul,PO- Puha,Thana-Hilsa,Dist.- Nalanda | B.V.Sc.&A.H./B AU/96 | 01/07/73 |
| 274 | Bal Mukund Prasad, S/o Late Basudeo Narain | BiharSVC/151 2/2000 | Moh.-Jhour,PO- Kachgaon,Thana- Warsaliganj | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 03/09/58 |
| 275 | BALA MURUGAN V | VCI/2272/01 | NEW NO.22 APPADURAI, MAIN STREET AYANAVARAM, CHENNAI- 600023,TAMILNADU | BVSc/TNVASU/ 97 | 22/10/73 |

| SERIAL | NAME | REG. | ADDRESS | QUALIF. | |
|--------|---|------------------------|---|--------------------------|----------|
| 276 | BALA SAHEB SURESHRAO KULKARNI | RAJSVC/2606/ 2000 | A/P. CHENCHI, TEH. BEGUN, DIST. CHITTORGARH, RAJASTHAN | BVSc&AH/MAU/ 93 | 02.10.71 |
| 277 | BALAKRISHNA REDDY A. S/O A. RAMANA REDDY | APSVC/03673/ 2000 | 106, SACHINAM, RAHEJA COMPLEX, MALAD (EAST), MUMBAI-400087 | BVSc/APAU/74 | 01.07.48 |
| 278 | Baldeo Pd. Gupta, S/o Late Ganauri Sahu | BiharSVC/185 8/2000 | Vill.+PO-Padmara,Thana- Tarapur,Dist.-Munger | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 01/01/43 |
| 279 | Baleshwar Pd. Nirala, S/o Late Newa Lal Singh | BiharSVC/139 9/2000 | V.-Dayalpur,PO-Sangeet Baita,Thana- Kahalgao,Dist.- Bhagalpur,Pin-813203 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 02/07/73 |
| 280 | Baleshwar Pd. Singh, S/o Late Govind Singh | BiharSVC/138 4/2000 | Vill.-Noawan,PO+Thana- Asthanwa,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 04/01/45 |
| 281 | Baleshwar Pd. Sinha, S/o Late Ramnandan Prasad | BiharSVC/118 3/2000 | M.-Madipur,Ramjee Road,Thana-Kaji Mohmadpur,PO+Dist.- Muzafferpur | B.V.Sc.&A.H./R AU/82 | 03/01/56 |
| 282 | Baleshwar Prasad Sinha, S/o Late Durga Sinha | BiharSVC/208 5/2001 | M-East Indrapuri Rd.No.15,PO- Keshrinagar,Thana- Patliputra,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./BU/60 | 01/08/38 |
| 283 | Baleshwar Mandal, S/o Sri Vishan Mandal | BiharSVC/971/ 2000 | Vill.+P.O.- Budhchak,Thana- Kahalgao, Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc.&A.H./R AU/98 | 08/05/75 |
| 284 | BALI REDDY Y. S/O Y. MALLA REDDY | APSVC/03659/ 2000 | ASST. DIRECTOR(AH), PROGENY TESTING UNIT, BANAVASI, KURNOOL DT. | BVSc/APAU/72 | 01.07.52 |
| 285 | Balkhar Singh, S/o Chammel Singh | HarSVC/1647 | V Munnarehn PO Habri, T Pundri D Kaithal | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 2.7.75 |
| 286 | Balmiki Sharma, S/o Sri Satyadeo Sharma | BiharSVC/829/ 2000 | Vill.+P.O. -Mohmadpur, Thana - Bikram,Dist. - Patna | B.V.Sc.&A.H./R AU/82 | 4/02/58 |
| 287 | Bairaj Singh, S/o Late Laxmi Prasad Singh | BiharSVC/199 8/2000 | Vill+PO-Jonhi,Thana- Bikramganj,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 16/07/49 |

| SLIM NAME | RIM | ABD | QHALF | BB |
|---|-------------------------|---|-------------------------|----------|
| 288 Balram Gupta, S/o Late Bhagwan Ram | BiharSVC/120 3/2000 | M.-Ward No.10,PO+Thana- Dehri-On-Son,Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./R AU/71 | 09/01/47 |
| 289 BALU BHASKAR | KERALASVC/ 2482/2000 | VISAK TC, 2/2208, ADARSH NAGAR 73, PATTOM PALACE P.O., TRIVANDRUM-695004 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 31.05.77 |
| 290 BANE KASHITIJ BALKRISHNA | MSVC/6378/20 00 | MONA REBELLO HOUSE, R.NO.3, KONDI VITA VILLAGE, ANDHERI(EAST),MUMBAI | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 13-03-78 |
| 291 BANGTHAI DR. AJIT S/O SRI PHUKAN CH. BANGTHAI | ASM/1889/200 0 | VILL. TETELIGURI, P.O. GANDHI NAGAR, DIST. KAMRUP, ASSAM | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 292 BANIBRATA MAITY | WBSVC/2834/ 2000 | VILL HARIAMPUR, P.O. LAKSHYAKURI, DT. MIDNAPUR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 293 Banke Bihari Prasad Singh, S/o Sri Shiv Nandan Prasad Singh | BiharSVC/170 9/2000 | Vill.-Rasalpur,PO- Jagav,Thana- Ekangarsarai,Dist.- Nalanda,Pin.-801301 | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 22/07/43 |
| 294 Banlam kuper Mawthoh S/o B. Khongwir | Megh/167/01 | Nongrim Hills, Shillong | BVSc&AH/AAU/ 91 | 4.5.67 |
| 295 BANSH BAHADUR S/O SHRI BALDEO PRASAD CHAUDHARY | MPSVC/1916/ 00 | VILL. POST PADARIYA TEH. RAIPUR KARCHULION, DIST. REWA -486001. | BVSc&AH/JNKV V/98-99 | 05.12.66 |
| 296 Banshi Prasad Singh, S/o Late Gharbharan Singh | BiharSVC/112 5/2000 | V.-Bahuarrah,Via- Koath,PO-Dawath,Thana- Dawath,Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./R AU/71 | 01/01/49 |
| 297 BANSODE NILSEH JAGANNATH | MSVC/6319/20 00 | BHIMNAGAR, AT POST SANGOLA, TAL. SANGOLA, DIST. SOLAPUR-413307 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 07-02-77 |
| 298 BARDE ANIL DAYARAM | MSVC/6280/20 00 | AT POST TANDALI, (B.K)TAHSIL PATUR, DIST. AKOLA-444501 | BVSc&AH/DR.P KV/98 | 24-08-74 |
| 299 Barmeshwar Nath Prasad, S/o Sri Laxmi Prasad | BiharSVC/909/ 2000 | Vill.-Bihiya, PO - Bihiya, Dist.-Arrah | B.V.Sc.&A.H./R AU/79 | 05/01/54 |

| SIMN NO. | NAME | REG. | ADDRESS | QUALIF. | DATE |
|----------|---|------------------------|--|---------------------------------|----------|
| 300 | BARUAH DR. KASHYAP KUMAR S/O DR. P.K. BARUAH | ASM/1898/200 0 | JOYA NAGAR, SIX MILE, KHANAPARA, GHY- 781022 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 301 | Basant Kr. Sinha, S/o Late Munoshwar Pd. | BiharSVC/185 9/2000 | VIII.+PO-Lalpur,Thana- Runi Saidpur,Dist.- Sitamarhi | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 17/03/44 |
| 302 | BASAVARAJ BIN JAVADAGI S/Q SANGAPPA BIN | KARNASVO/3 156 | IN FRONT OF KALIDAS HIGH SHCOOL, BANNIKATTE AREA, KOPPAL | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 04.04.77 |
| 303 | BASAVARAJ HIREMATH S/Q HARESHWARAYYA HIREMATH | KARNASVC/3 142 | PRINCIPAL S.B. L E S J.E. HERUR. KALKARI, HANGAL TQ. HAVERI DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 20.7.75 |
| 304 | BASAVARAJ S. GOWDAR S/O SOMANA GOWDAR | KARNASVC/3 146 | KESARBHAVI TUMB POST, HUNGUND TQ. BAGALKDTE DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 01.07.77 |
| 305 | Bashishth Ram, S/o Late Sheopujan Ram | BiharSVC/975/ 2000 | VIII.-Naraura,PO-Chandra Kaithi,Thana-Chenari,Dist- Rohtas | B.V.Sc.&A.H./R AU/77 | 05/07/52 |
| 306 | Bashisth Nath Ray, S/o Late Ram Kaval Ray | BiharSVC/180 1/2000 | Vill.-Uttampur,PO-Hethwa Rajpur,Thana-Rajpur,Dist.- Buxar | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 31/01/61 |
| 307 | BASSAPPA GULAPPAGOL S/Q SHRISHAILAPPA | KARNASVO/3 139 | ONGALAGI POST, MUDHOL TALUK, BAGALKDTE DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 01.06.76 |
| 308 | BASUMATARY DR. RANTU S/Q SH. MRIGEN CH. | ASM/1930/200 0 | DARANGGIRI, DIST- GOALPARA PIN-783 134 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 309 | Bate Krishan Singh, S/o Late Ram Rehagay Singh | BiharSVC/114 2/2000 | Vill.+PO-Dhangakti,Thana- Bikramganj,Dist.- Rohtas,Pin-802101 | B.V.Sc.&A.H./R AU/71 | 21/07/47 |
| 310 | BAWANE NILAJ CHITRAM | MSVC/6908/20 00 | NARMADA COLONY, PLOT ND. 40, KATDL ROAD, NAGPUR-440013 | BVSc&AH/DR.P DKV/1999 | 24-11-73 |
| 311 | REGUM DR. (MS) SHAMEEM ARA D/o MD. KUTUBIDDIN AHMED | ASM/1913/200 0 | C/O MD.KUTUBUDDIN AHMED,NR KALYANPUR MOSQUE,GANESHGURI,P ODISPUR-781006 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF |
|-------------|--|--------------------|--|--|
| 312 | BENNO SOOLYA S/O SHRI LOKHA SOOLYA | MPSVC/1895/00 | VILL. PENDERRIYA P.O. BARLA TEH. SENDHWA DISTT. BADWANI | BVSc&AH/JNKV 15.07.74 V/98-99 |
| 313 | Bhageshwar Singh, S/o Sri Raghunath Singh | BiharSVC/1883/2000 | V.+PO-Rampur Khajuriya,Thana-Dumariya Ghat,Dist.-East Champaran | B.V.Sc. & A.H./MU/72 10/12/47 |
| 314 | Bhagirath Prasad, S/o Sri Mahadeo Prasad Yadav | BiharSVC/2079/2001 | Vill.-Magharajganj,PO-Sughari,Thana-Gobindpur,Dist.-Nowada | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 12/12/72 |
| 315 | BHAGIRATH SONI | RAJSVC/2632/2000 | SH.SAMPAT SADAR PL. NO.230,ADARSH NAGAR,PHALADI,JODHPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI. UNIV./2000 16.08.75 |
| 316 | BHAGURE TATANLAL CHHOTURAM | MSVC/6394/2000 | JINFAR ROAD SARVODAYA NAGAR, SAILU TAL.SAILU, DIST. PARBHANI- 430153 | BVSc&AH/MAU/ 2000 05-01-74 |
| 317 | Bhagwan Prasad, S/o Late Keshav Prasad | BiharSVC/1178/2000 | Vill.-Balua Tal, PO+Thana-Motihari,Dist.-Motihari | B.V.Sc.&A.H./R U/69 02/01/48 |
| 318 | Bhagwan Singh, S/o Late Ram Naresh Singh | BiharSVC/1555/2000 | Vill.-Kalyanpur,PO-Silari,Thana-Kargahar,Dist.- Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RU/70 02/09/47 |
| 319 | Bhagwat Pd. Mandal, S/o Late Sheena Lal Mandal | BiharSVC/1652/2000 | Vill.+PO-Pathra,Thana-Pipra,Dist.-Supaul,Pin.- 852131 | B.V.Sc. & A.H./RU/70 20/07/46 |
| 320 | Bhagwati Choudhary,S/o Late Prithvi Choudhary | BiharSVC/1641/2000 | Vill.+PO- Suknupur,Thana+Dist.- Supaul,Pin-852131 | B.V.Sc. & A.H./RU/67 30/10/44 |
| 321 | BHAGWATI SHARAN SHARMA S/O SRI R.S. SHARMA | UPVC/3246 | MO.-AGARWALAN, PO-SASNI, DISTT. HATHRAS, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/83 12.02.61 |
| 322 | BHANU PRATAP SINGH S/O SHRI NATTHU SINGH CHAUHAN | UPVC/3298 | 237, CHOWK, PURANPUR, PILIBHIT, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 01.07.78 |
| 323 | Bhanu Shankar, S/o Sri Hari Pd. Sah | BiharSVC/935/2000 | Vill.-Madmucha,PO-Miran Hat,Thana-Mojahidpur,Dist.- Bhagalpur,Pin-812005 | B.V.Sc.&A.H./R AU/86 31/12/62 |

| रजिस्टरेशन नंबर | नाम | मुकाम | विवर | उपलब्धि |
|-----------------|--|---------------------|---|-----------------------------------|
| 324 | Bhanupreakash,S/o S Siddaiah | Karna/3205 | Mathighatta,Chikkanayakan ahalli Tq, Tumkur Dist | BVSc&AH/UAS, 2.5.77 Blore/2000 |
| 325 | BHARAT BHUSHAN RAWAT, S/O. SH. JHAMMAN LAL RAWAT | RAJSVC/2747 /2001 | 1416, VIJAY NAGAR, VIJAY MANDIR ROAD, LIVESTOCK DEVELOPMENT OFFICE | BVSc&AH/AW/7 09-07-55 6 |
| 326 | Bharat Prasad, S/o Late Kamla Prasad | BiharSVC/887/ 2000 | Moh.-Kachanori Mata,PO- Hathna,Thana- Meerganj,Dist.- Gopalganj,Pin-831436 | B.V.Sc.&A.H./M 31/07/45 U/66 |
| 327 | Bharat Sahu, S/o Heera Lal Sahu | BiharSVC/103 6/2000 | V.+PO-Badhima,Thana- Palkot,Dist.-Cumila,Pin.- 835207 | B.V.Sc.&A.H./B 28/01/61 AU/88 |
| 328 | Bharat Singh, S/o Late Hardwar Singh | BiharSVC/140 7/2000 | Vill.+PO-South Akona,Thana-Udvant Nagar,Dist.-Bhojpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 21/07/49 |
| 329 | Bharathi D.N | A&NSVC/80/2 000 | C/o S.Sunil,Pay&Accounts Office,Port Blair,D/o S.Dorai Swamy Goal Ghar | BVSc/TNVASU/ 9.9.76 2000 |
| 330 | BHARATHI P. D/O P. RANGASWAMY | APSVC/03619 /2000 | GONEGANDLA(P), KURNOOL DT. | BVSc&AH/ANG 01.06.75 RAU/2000 |
| 331 | Bhardwaj Rishi, S/o Late Chote Lal | BiharSVC/111 0/2000 | M.-64,State Bank Colony,PO+Thana-Digha Ghat,Dist.-Patna,Pin.- 800011 | B.V.Sc.&A.H./M 10/01/43 U/65 |
| 332 | Bhartendu Prasad, S/o Sri Ram | BiharSVC/117 9/2000 | M.-Vasant Bihar,Road No.13,PO+Thana- Harmn,Dist.-Ranchi | B.V.Sc.&A.H./B 06/11/57 AU/82 |
| 333 | BHASKAR S. S/O S. NARAYANA | APSVC/03640 /2000 | H.NO.9, UPSTAIRS, SBI COLONY, IND ROAD, ADONI (P), KURNOOL DT. | BVSc&AH/APA 01.06.66 U/92 |
| 334 | BHATTA DR. MANOJ KUMAR S/O LATE NAGEN BHATTA | ASM/1920/200 0 | KAHILIPARA (DAKHINGAON PATH) P.O. KAHILIPARA, GHY- 781019 | BVSc&AH/AAU/ 2000 |
| 335 | Bhattacharya Anjan | Pondi/99/2000 | 12-D, VVP Nagar, Pondicherry 605009 | BVSc&AH/BCK 20.12.56 VV/79 |

| SR. NO. | NAME | REG. NO. | ADDRESS | DATE OF BIRTH | CLASS |
|---------|---|------------------------|--|----------------------------|---------------|
| 336 | BHAVANNARAYANA K.S. S/O RAMA SUBBA RAO | APSVC/03628/ 2000 | PALAPARRU(P), PEDANANDIPADU(M), GUNTUR DT. | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 25.06.73 |
| 337 | BHEEMASHANKAR KANNUR S/O HANAMANTH KANNUR | KARNASVC/3 155 | ATHARGA POST, INDI TALUK, BIJAPUR DIST. | BVSc&AH/JAS DHARWAD/200 | 01.02.78 0 |
| 338 | BHIMESWARA RAO M. S/O M. VENKATA RAO | APSVC/03535/ 2000 | CHALLAVARIGUDEM(P), J ANGAREDDIGUDEM(M), WEST GODAVARI DT.534447 | BVSc&AH/ANG RAU/99 | 09.06.75 |
| 339 | BHISHAM SHARMA S/O SH. LEKH RAM | HPSVC/589/20 00 | VILL. DHALA P.O, DEOTHI TEH. & DIST. SOLAN, HP. | BVSc&AH/HPK V/2000 | |
| 340 | BHOKRE CHETNA MOHANRAO | GOASVC/114/ 01 | AG-1, DULUX APARTMENTS, TONCA - MIRAMAR | BVSc&AH/KKV/ 83 | 19.4.62 |
| 341 | Bhola Pd. Gupta, S/o Late Babujee Pd. Sah | BiharSVC/149 7/2000 | Moh.-Ward No.2, PO+Thana- Nirmaly, Dist.-Supaul, Pin.- 847452 | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 06/01/53 |
| 342 | Bhola Prasad, S/o Late Bundi Shaw | BiharSVC/163 1/2000 | Vill.-Madhopur, PO- Basudeopur, Thana+Dist.- Munger, Pin.-811202 | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 31/12/45 |
| 343 | BHOSLE RAOSAEB BALU S/O SH. BALU SAHEBRAO BHOSALE | RAJSVC/2729/ 2001 | GOVT. VET. HOSPITAL, BHINYAD, TEH. SEO, DIST. BARMER -344705 | BVSc&AH/MPK/ VV/95 | 01.06.72 |
| 344 | BHOTE RATAN RAMCHANDRA | MSVC/6362/20 00 | AT POST WAGHOLE, TAL.KOREGAON, DIST. SATARA-415525 | BVSc&AH/MPK/ V/2000 | 21-05-78 |
| 345 | BHUPENDRA PRAKASH S/O SRI BABU LAL | UPVC/3232 | H.NO.38/17/14, GOPAL PURA, GWALIOR ROAD, AGRA-282001 | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 14.07.75 |
| 346 | BHUPESH KUMAR S/O SH. KEWAL KRISHAN | HPSVC/586/20 00 | H.NO.3248, SEC.47-D, CHANDIGARH | BVSc&AH/PAU/ 98 | 01.04.75 |
| 347 | Bhupesh Nandan Prasad, S/o Late Brainandan Prasad | BiharSVC/865/ 2000 | Moh.-Awasthi Ghat, PO+Thana-Danapur Digha, Dist.-Patna, Pin- 800012 | B.V.Sc.&A.H./M U/64 | 06/10/43 |

| SERIAL NUMBER | REGISTRATION NUMBER | NAME | ADDRESS | QUALIFICATION | DATE OF BIRTH |
|---------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 348 | BHUYAN DR.(MS) SANGITA W/O SRI DIPANKAR BORAH | ASM/1926/200 0 | MADHAV VILL., P.O. JAMUGURIHAT, DIST. SONITPUR, PIN-784180 | BVSc&AH/AAU/ 99 | |
| 349 | Bibha Kumari, S/o Sri Ranjeet Singh | BiharSVC/132 1/2000 | M.-Sikandarpur, PO- Jamalpur, Thana-East Coly, Jamalpur, Munger- 811244 | B.V.Sc. & A.H/BAU/91 | 14/09/65 |
| 350 | BIBHUTI BHUSHAN DAS S/O CHITTA RN.DAS | TRIPURA/77/2 000 | C/O T.R.DAS, RAMNAGAR- 9, AGARTALA, TRIPURA WEST | BVSc&AH/APA U/90 | 15/02/64 |
| 351 | Bibhuti Nath Thakur, S/o Late Ram Eqbal Thakur | BiharSVC/206 2/2000 | Vill.-Fulparasi, PO- Sigarhiya, Thana- Bathnaha, Dist.-Sitamadhi | B.V.Sc. & A.H./G.B.P.U.A.T/7 | 08/01/54 |
| 352 | BIDYA SANTOSH VASUDEO | MSVC/6380/2 000 | 16/494, SHOSHRI NAGAR, GOREGAON(WEST), MUMBAI- 400104 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 31-05-78 |
| 353 | Bigan Singh, S/o Late Kishun Singh | BiharSVC/964/ 2000 | Vill.-Derwan, PO-Derwan, Thana-Kudra, Dist.-Kaimur. | B.V.Sc.&A.H./B AU/82 | 19/08/57 |
| 354 | BIJAN KR.BHATTACHARJEE S/O SH.JATINDRA CH. | TRIPURA/25/2 000 | T.G.ROAD,KRISHNA NAGAR,AGT.TRIPURA WEST | BVSc&AH/RAU/ 77 | 01/06/51 |
| 355 | Bijay Kumar Pandey, S/o Late Baldeo Pandey | BiharSVC/178 9/2000 | V.-F/43, People's Co- op. Colony, PO+Thana- Kankarbagh, Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 04/03/45 |
| 356 | BIMAL KRISHNA DAS S/O BINOVY KRISHNA DAS | TRIPURA/75/2 000 | ARUNDHUTINAGAR, 6/1, RAMTHAKUR LANE, AGARTALA, TRIPUR A WEST | BVSc&AH/BCK VV/88 | 15/11/66 |
| 357 | BIMAN BEHARI PAUL CHOWDHARY S/O BARADA CH. PAUL | TRIPURA/36/2 000 | GANORAJ CHOWMOHONI, AGARTA LA, TRIPURA(W), BANAMA LIPUR | BVSc&AH/BCK VV/78 | 01/11/51 |
| 358 | Bindeshwar Jha, S/o Late Satyadeo Jha | BiharSVC/122 3/2000 | Vill.+PO-Varuar, Thana- Lokahi, Dist.-Madhubani | B.V.Sc.&A.H./R U/70 | 07/05/47 |
| 359 | BINDU P | KERALASVC/ 2486/2000 | PADMAVILASAM, KIZHAKEKARA, KOTTarakara, KOLLAM-691506 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 26.04.75 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | |
|-------------|---|-------------------------|--|--------------------------|----------|
| 360 | BINDU RAGHAVAN | DVC/0555/200 0 | M.P. VIJAYA RAGHAVAN, BB/27-B, JANAK PURI, NEW DELHI - 58 | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 18.5.75 |
| 361 | BINDU RAJ R. | KERALASVC/ 2475/2000 | PADINJATTEMURIVIL,R.K. HOUSE,MAMOOD,KONNI P.O.,PATHANAMTHITTA,P IN-689691 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 25.04.76 |
| 362 | Binita Kumar, D/o Dr. Bhuvneshwar Rav | BiharSVC/190 6/2000 | Vill.-Marwa,PO+Thana- Bihpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/94 | 08/12/67 |
| 363 | Binod Bihari Sinha, S/o Late K.P.Sinha | BiharSVC/191 6/2000 | Moh+PO- 5/2,Dalmiyanagar,Thana- Dehri-on-Sone,Dt.- Rohats,Pin-831505 | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 11/02/49 |
| 364 | Binod Kumar, S/o Dr.P.M. Mall | BiharSVC/203 7/2000 | Vill.+PO-Punak,Thana- Darauli,Dist.-Siwan | B.V.Sc. & A.H./RAU/81 | 14/11/55 |
| 365 | Binod Kumar, S/o Late Faudi Sahu | BiharSVC/135 9/2000 | M.-Main Road,Gudri Bazar,PO+Thana+Dist.- Lohardagga,Pin-835302 | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 04/05/59 |
| 366 | BINOD P.G. | KERALASVC/ 2467/2000 | GOKULAM, NR. FCI GODOWN, PERUMPUZHA PO KOLLAM-691504. | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 22.01.77 |
| 367 | Binod Prasad Singh, S/o Late Bhawan Mahto | BiharSVC/206 1/2000 | Vill.+PO-Pilich,Thana- Ekangersary,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 11/11/49 |
| 368 | Bipin Bihari Prasad, S/o Sri Satyadeo Prasad | BiharSVC/187 4/2000 | Vill.- Nigrayanpar,PO+Thana- Vind,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H.RAU/84 | 08/05/56 |
| 369 | Bipin Bihari Singh, S/o Sri Rajendra Pd. Singh | BiharSVC/110 7/2000 | Vill.+PO+Thana- Shamba,Dist.-Begusarai | B.V.Sc.&A.H./B AU/86 | 09/04/62 |
| 370 | Bipin Bihari Srivastava,S/o Sri Kapildeo Lal Srivastava | BiharSVC/118 3/2000 | Vill.+PO-Hajipur,Thana- Hajipur,Dist.-Vaishali,Pin- 844101 | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 01/07/43 |
| 371 | Bipin Bihari Verma, S/o Late Bajrang Sahay | BiharSVC/205 2/2000 | V.-Damodarpur,PO-Simi Basar,Thana- Govirdganj,Dt.-E. Champaran | B.V.Sc. & A.H./BU/58 | 19/01/37 |

| SR. NO. | NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIFICATION | DATE OF BIRTH |
|---------|--|------------------------|--|------------------------|---------------|
| 372 | Bipin Khalkho, S/o Sri Jafnir Khalkho | BiharSVC/153 0/2000 | Vill.-Purana Loyadih, PO+Thana-Namkum, Dist.-Ranchi, Pin.-834010 | B.V.Sc. & A.H./BAU/90 | 28/10/65 |
| 373 | Bipin Kr. Sinha, S/o Late Radha Kant Prasad | BiharSVC/105 3/2000 | M.-Indira Nagar, Kachi Pakki, PO+Thana-Muzaffarpur, Dist.-Muzaffarpur | B.V.Sc. & A.H./R U/66 | 15/06/42 |
| 374 | Bipin Kr. Sinha, S/o Late Sheo Nandan Prasad | BiharSVC/847/ 2000 | Vill.-Laxmipur, P.O.-Loghdhani, Thana-Piro Bager, Dist.-Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./B AU/83 | 01/07/58 |
| 375 | Bipin Kumar, S/o Sri Guljar Prasad | BiharSVC/101 1/2000 | Vill.-Haidarchak, PO-Khorampur, Thana-Islampur, Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./R AU/79 | 02/07/55 |
| 376 | Bipin Kumar, S/o Sri Surendra Prasad Singh | BiharSVC/160 4/2000 | Vill.-Baruntor, PO-Salimpur, Thana-Harnaut, Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 03/01/70 |
| 377 | BIPUL KR.DE S/O SH. DHANIRAM DE | TRIPURA/106/ 2001 | BARDOWALI, PO-ARUNDHUTINAGAR, EAST OF JSWAHAR BRIDGE, AGARTALA, TRIP | BVSc&AH/AAU/ 92 | 31/12/63 |
| 378 | BIPUL PAL | WBSVC/2833/ 2000 | VILL PATTABUKA P.O. NATAGRAM, DT. 24 PRGS(N) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 379 | Birendra Prasad, S/o Late Ramavtar Pd. | BiharSVC/146 4/2000 | Vill.-Bujakipur, PO-Kamranw, Thana-Dalsinghsarai | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 04/01/46 |
| 380 | Birju Linda, S/o Sri Meena Uranw | BiharSVC/181 8/2000 | M.-Naya Sarav, PO-Saparom Pilka Ng, Thana-Jagannathpur, Dist.-Ranchi, P-835302 | B.V.Sc. & A.H./BAU/88 | 13/05/63 |
| 381 | Birsa Oraon, S/o Sri Mangra Oraon | BiharSVC/200 1/2000 | Vill.-Hochay, PO-Sadma, Thana-Ormanjhi, Dist.-Ranchi | B.V.Sc. & A.H./BAU/82 | 08/01/58 |
| 382 | Birsa Uranw, S/o Sri Ratiyan Uranw | BiharSVC/114 8/2000 | Villi.-Chordanir, PO+Thana-Palket, Dist.-Gumla, Pin.-835220 | B.V.Sc. & A.H./B AU/93 | 02/02/66 |
| 383 | Bisheshwar Prasad, S/o Sri Bairvanath Prasad | BiharSVC/131 2/2000 | Vill.+PO-Purtha, Thana-Ranchi, Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/84 | 13/01/57 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADDRESS | QUALF | |
|------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|----------|
| 384 | Bisheshwar Prasad, S/o Sri Tulsimohan Ram | BiharSVC/197 4/2000 | Vill+PO-Sripur Sukhsan, Thana- Visanpur, Dist.-Supaul, Pin- 852138 | B.V.Sc. & A.H./RAU/98 | 06/02/71 |
| 385 | Bishram Bhagat, S/o Late Gandur Bhagat | BiharSVC/137 4/2000 | Vill.-Ranhen, PO- Kuganw, Thana- Ghaghora, Dist.-Gumla | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 29/01/47 |
| 386 | BISI T.V. | KERALASVC/ 2478/2000 | VEBITHA, CHELANNUR P.O., KOZHIKODE PIN- 673616 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 31.08.75 |
| 387 | BISWA PRIYA DATTA S/O SH.PRAFULLA RN.DUTTA | TRIPURA/104/ 2000 | C/O PRAFULLA RN.DATTA, PRATAP RAY ROAD, KRISHNANAGAR, A GT. | BVSc&AH/AAU/ 84 | 29/04/60 |
| 388 | BISWAJIT BRAHMA | WBSVC/2837/ 2001 | VILL MEUDIPUR, P.O. KULIARRA, DT. MIDNAPUR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 389 | BISWANATH BHATTACHARYYA S/O LT. BHUPATI KR. | TRIPURA/14/2 000 | DR.N.N.BHATTACHARYY A,BEH.AGARTALA DAIRY, INDRANAGAR, P.O. KUNJABAN, PIN: 799006 | BVSc&AH/BCK V/75 | 12/01/49 |
| 390 | BISWARUP GOSWAMI | WBSVC/2784/ 2000 | KATWA THAKUR PUKUR PAR (NORTH WEST CORNER), P.O. KATWA, DT. BRDWA | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 391 | BITAN BINDU BAGCHI | WBSVC/2831/ 2000 | MAA-ANADAMOYEE HOUSING NATUN KALIPUR, P.O. BHATJANGLA | BVSc&AH/ASS AM AGRI. UNIV./2000 | |
| 392 | Blentino Lyngdoh S/o (L) Iskat Singh Thawmuit | Megh/180/01 | Umlyngka, Shillong-793005 | BVSc&AH/HAU/ 80 | 1.1.55 |
| 393 | BORA DR.(MS) MALOSHRI D/O MR. T.C. BORA | ASM/1932/200 0 | NO.2, BAMUNGAON, KENDUGURI, JORHAT- 10, ASSAM | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 394 | BORA DR.(MS)MONALISA D/O MR. DEBENDRA NATH | ASM/1936/200 0 | C/O MR. D.N. BORA, B.R. ROAD, USHANAGAR, P.O. KACHARIGAON, TEZPUR | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 395 | BORAH DR. GUNINDRA S/O SRI MAHIM CH. BORAH | ASM/1922/200 0 | C/O SRI MAHIM CH. BORAH, VILL.NAOKATA, P.O. DALAICHUBA, DIST. MORI | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |

| रजिस्टरेशन नंबर | नाम | राज्य | मुकाम | उपलब्धि |
|-----------------|--|------------------------|---|--------------------------|
| 396 | BORAH DR. PRANJAL S/O MR. PADMA KANTA BORAH | ASM/1936/200 1 | C/O PADMA KANTA BORAH, VILL.&P.O. DESOINAGAR, DIST. JORHAT, ASSAM | BVSc&AH/AAU/ 2000 |
| 397 | BORAH DR. ROOPAM KUMAR S/O PADMA KANTA BORAH | ASM/1883/200 0 | C/O P.K. BORAH, TARADUBI, KARBI- ANGLONG, PIN-782485 ASSAM | BVSc&AH/AAU/ 99 |
| 398 | BORAIAH D S/O DODDA BORAIAH | KARNASVC/3 124 | CHITRAIAHNNAHATTY, CHALLAKERE TOWN AND POST, CHITHRADHURGA DIST. | BVSc/UAS B'LORE/2000 |
| 399 | BORDALAI DR.(MS) MONIKA D/O LATE PRAFULLA SHARMA | ASM/1918/200 0 | VILL. BHAGAWOTI CHUCK, P.O. SALAGURI (JAMUGURIHAT)DIST. SONITPUR,ASSAM | BVSc&AH/AAU/ 2000 |
| 400 | BORO DR. PRASANTA KUMAR S/O SH. KULENDRA KR. BORO | ASM/1890/200 0 | JATIA, P.O. DISPUR (SACHIBALAYA) PIN- 781006 | BVSc&AH/AAU/ 2000 |
| 401 | Brahmadeo Pd. Yadav, S/o Dr.Rameshwar Prasad Yadav | BiharSVC/180 7/2000 | Vill.-Asuachak,PO- Mananpur,Thana- Chanan,Dist.-Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 |
| 402 | Brahmeshwar Choubey, S/o Late Rajnath Choubey | BiharSVC/122 5/2000 | Vill.+PO-Masudhi,Thana- Jagdishpur,Dist.-Bhojpur, Arrah-802158 | B.V.Sc.&A.H./R U/68 |
| 403 | Brainav Kumar, S/o Sri Ram Kishore Pd. Sinha | BiharSVC/177 8/2000 | M-P/165,People's Co- op.Colony,PO+Thana- Kankarbagh,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/88 |
| 404 | Braj Kishore Pandey, S/o Late Mukh Lal Sharma | BiharSVC/183 4/2000 | Vill.+Thana-Tharthari,PO- Raypur Kol Bigha,Dist.- Nalanda | B.V.Sc. & A.H./MU/63 |
| 405 | Braj Nandan Singh, S/o Late Yamuna Pd. Singh | BiharSVC/102 2/2000 | Vill.-Murli,PO- Bhavanipur,Thana- Gopalpur,Dist.- Bhagalpur,Pin.-853204 | B.V.Sc.&A.H./R AU/93 |
| 406 | Brajesh Kr. Prasad Sinha, S/o Late Ram Balak Sinha | BiharSVC/173 3/2000 | Vill.+PO-Saray- Vake,Thana-Amnaur,Dist.- Chapra | B.V.Sc. & A.H./RU/66 |
| 407 | Brajesh Kumar Singh, S/o Late Raj Narayan Singh | BiharSVC/148 8/2000 | Vill.-Ray Saheb Pokhar,PO- Laheriasarai,Thana- Bahadurpur,Dist.- Darbhanga | B.V.Sc. & A.H./MU/65 |

| SNM | NAME | RNOM | ADD | QUALIF | DOB |
|-----|--|------------------------|--|--------------------------|----------|
| 408 | Brajeshwar Pd. Singh, S/o Sri Ram Swarath Singh | BiharSVC/104 7/1000 | Vill.-Dhandhanachok,PO- Misarpura,Thana- Fulwari,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H/B AU/88 | 15/06/64 |
| 409 | Brajnandan Kumar, S/o Sri Krishnandan Prasad | BiharSVC/151 9/2000 | Vill.+PO-Shavani,Thana- Bakhtyarpur,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./BAU/82 | 05/07/53 |
| 410 | Brajnandan Pd. Singh, S/o Late Ram Sharan Pd. Singh | BiharSVC/187 9/2000 | Vill.-Ahiyachak,PO- Jamsari,Thana-Bind,Dist.- NalandaB.V.Sc. & A.H. | B.V.Sc. & A.H./MU/57 | 05/01/38 |
| 411 | Brajnandan Prasad Sharma, S/o Late Laxmi Narayan Singh | BiharSVC/870/ 2000 | M-LaxmiNiwas,Bhutnath Road,PO+Thana- Kankerbagh Agamkuan,Patna-800008 | B.V.Sc.&A.H./R U/66 | 23/05/45 |
| 412 | BRAJWASIPRASAD SATNAMI S/O SHRI RAMCHANDRA | MPSVC/1884/ 00 | VETY. EXTENSION OFFICER KASANWEL DISTT. JASHPUR NAGAR - 496220 | BVSc&AH/JNKV V/89-90 | 05.09.64 |
| 413 | Brij Lal,S/o Sh Kanshi Lal | HarSVC/1624 | VPO Kairu,Tehsil Tosham, Dt-Bhiwani | BVSc&AH/CCS HAU/99 | 12.12.74 |
| 414 | Brij Mohan S/o Sh. Satya Narayan | HarSVC/1665 | 770/8 Sonu Silai Centre, C. pura (RTK) | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 26.2.76 |
| 415 | BRIJENDRA PRATAP SINGH YADAV S/O SRI V.S. YADAV | UPVC/3291 | G-178, PANDAV NAGAR, MEERUT. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 02.09.77 |
| 416 | BRIJLAL S/O SH. MEHAR CHAND | RAJSVC/2714/ 2000 | V.P.O. GUSAINWALA, DIST. SIRSA, HARYANA | BVSc&AH/CCS HAU/98 | 05.04.74 |
| 417 | Brindavan Prasad, S/o Sri Prameshwar Prasad | BiharSVC/105 8/2000 | Vill.+PO-Piro,Thana- Piro,Dist.-Arrah (Bhojpur) | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 07/06/46 |
| 418 | BUTCHI RAMAYYA SASTRY D. S/O D. RAMA | APSVC/03641/ 2000 | 7/366, KHAJIPURA, BEHIND OLD POST OFFICE, ADONI (P), KURNOOL DIST.-518301 | BVSc/ANGRAU/ 75 | 08.02.53 |
| 419 | C. LALMUANTHANGA. | MZ01/0134 | DINTHAR VENG. SERCHHIP,DIST.- SERCHHIP,PO:SERCHHIP MIZORAM. | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 26.02.76 |

| SLN. NO. | NAME | REG. NO. | ADD. | QUALIF. | REMARKS |
|----------|--|------------------------|--|-------------------------|----------|
| 420 | C.RINAWMA | DVC/0560/200 0 | SH.C.ENGLINA,86/SECTOR R-XII,RK.PURAM | BVSc&AH/MKV/ 2000 | 07/02/75 |
| 421 | C.RINAWMA | VCI/2252/00 | 86, SECTOR XII R.K.PURAM NEW DELHI- 110022 | BVSc&AH/MAU/ 00 | 07/02/75 |
| 422 | C.SARUMATHI | PONDI/137/20 01 | 21,TENTH CROSS, BRINDAVAN,PON DICHERRY-605013 | BVSc&AH/PU/2 000 | 03/11/77 |
| 423 | C.VIJAYALAKSHMI | PONDI/136/20 01 | 11,CHURCH STREET,NEAR DON BOSCO SCHOOL,PONDICHERRY- | BVSc&AH/PU/2 000 | 24/05/78 |
| 424 | CH. V.K.S. KIRAN KUMAR S/O SUBBA RAO | APSVC/03663/ 2000 | D.NO.10-5-21/2, RAMRAOPET, KAKINADA, EAST GODAVARI DT.-533 004 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 11.08.77 |
| 425 | CHAITANYAN KISHORE J. S/O J. VENKATAIAH | APSVC/03607/ 2000 | 27-I-885, LAKSHMI NAGAR, NELLORE | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 26.06.78 |
| 426 | CHAKRABORTY DR. SUJOY S/O SRI G.K. CHAKRABORTY | ASM/1885/200 0 | BAKRAPARA, P.O. MOIDAM, BELTOLA CHARALI, GUWAHATI-28 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 427 | CHANDAN DHAR | WBSVC/2798/ 2000 | VILL & P.O. AURANGABAD, DT. MURSHIDABAD | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 428 | Chandan Govind Deb, S/o Sri Kamal Govind Deb | BiharSVC/119 4/2000 | M-Pasaudih,5 Pramatha Nagar,PO- Tasanagar,Thana- Parsudin,Dt-Jamshedpur | B.V.Sc.&A.H./B AU/93 | 17/01/68 |
| 429 | CHANDAN KUMAR RAY S/O SH. NITYANANDA RAY | TRIPURA/24/2 000 | JAIL ASHARM ROAD,P.O.DHALESWAR,A GARTALA,TRIPURA (W),PIN-799007 | BVSc&AH/RAU/ 77 | 21/09/54 |
| 430 | CHANDAN SINGH RATHORE, S/O. SH. G.S.RATHORE | RAJSVC/2762/ 2001 | VPO. RANSIGAON, DIST. JODHPUR | BVSc&AH/MSU/ 85 | 15-08-61 |
| 431 | CHANDELKKAR MANOHAR BHASKARRAO | MSVC/6277/20 00 | GURUKRUPA, H.NO.39, BEHIND VWS COLLGE, SAKRI ROAD, DHULE- 424001 | BVSc&AH/MPK V/73 | 24-2-49 |

| SR. NO. | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | D.O.B. |
|---------|---|------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 432 | Chandeshwar Pandey, S/o Late Ram Lakan Pandey | BiharSVC/100 0/2000 | Vill.-Pirti,PO-Pirti,Thana- Babu Barhi,Dist.- Madhubani | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 07/08/46 |
| 433 | Chandra Bhushan Prasad, S/o Late Bishundhari Singh | BiharSVC/203 2/2000 | Vill.+PO-Tope,Thana- Shahjanhpur,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./BU/60 | 06/07/38 |
| 434 | Chandra Bhushan Prasad, S/o Late Shivnandan Prasad | BiharSVC/101 7/2000 | Vill.-Narsanda, PO- Narsanda,Thana- Chandi,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 02/03/46 |
| 435 | Chandra Bhushan Tripathi, S/o Late Pandit Devdutta Tripathi | BiharSVC/888/ 2000 | Moh.-Khas Mahal,B- Block,Road No.1,PO- Chiraivatar,Thana- Jakkanpur,Dt.-Patna | B.V.Sc.&A.H./R U/66 | 02/01/45 |
| 436 | Chandra Bushan Kumar Sinha,S/o Late Harindra Pd. Verma | BiharSVC/839/ 2000 | Vill+P.O.-Koily, Thana - Nanpur,Dist. - Sitamadhi | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 05/01/46 |
| 437 | CHANDRA KHUB. | PONDI/107/20 00 | 6 IST FLOOR, VTH CROSS RAJAJI NAGAR LAWSPET, PONDICHEERY - 605 008 | BVSc&AH/GBP KEVPVV/PNAG AR/76 | 04.01.54 |
| 438 | Chandra Kishore Lal, S/o Late Laxmi Lal | BiharSVC/982/ 2000 | Vill.-Bara,PO-Bara,Thana- Khadawandpur,Dist.- Begusera,Pin-848210 | B.V.Sc.&A.H./R AU/77 | 10/01/54 |
| 439 | CHANDRA MOHAN REDDY C. S/O C. CHENNA REDDY | APSVC/03543/ 2000 | 14/1, R.S. ROAD, KAMALAPURAM, CUDDAPAH-516289 | BVSc&AH/ANG RAU/99 | 15.08.75 |
| 440 | Chandra Mohan,S/o Siddaiah | KARNASVC/3 135 | Pranami No.2035, 26th Cross,K R Road, B S K II Stage, Bangalore | BVSc/UAS B'lore/99 | 5.6.75 |
| 441 | Chandra Naik B.M,S/o Mari Naik | KARNASVC/3 168 | Basvegowdanadoddi,Byad arahali Post, Halagur Hobil,Malavalli,TQ- Mandyadist | BVSc&AH/UAS Bangalore/2000 | 11.6.77 |
| 442 | Chandra Shekhar Azad, S/o Sri Prabhunarayan Yadav | BiharSVC/160 7/2000 | Vill.-Balaita,PO-Mahua Bazar,Thana- Basanohi,Dist.-Sahorsa | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 06/11/69 |
| 443 | Chandra Shekhar Pd. Singh, S/o Sri Saudagar Singh | BiharSVC/114 3/2000 | Vill.-Neemi,PO- Nishchalganj,Thana- Ekangarsarai,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R U/69 | 04/05/46 |

| SL. NO. | NAME | RAJYA | NUM | ADD | DISA | DEPT | QUALIF | INDIA MUL |
|---------|---|---------------------|---|--------------------|------|------|------------------------|-----------|
| 444 | Chandra Shekhar Poddar, S/o Sri Arjun Poddar | BiharSVC/167 | Vill.+PO-Gorgama, Thana-6/2000 | Bauni, Dist.-Banka | | | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 08/11/52 |
| 445 | Chandra Shekhar Sinha, S/o Late Umesh Pd. Sinha | BiharSVC/924/2000 | Vill.-Marichai Ali Lane, PO- Thorpakora, Thana-Lalpur, Dist.-Ranchi, Pin-834001 | | | | B.V.Sc. & A.H./B/AU/88 | 11/12/64 |
| 446 | Chandra Shekhar, S/o Sri Ramdahin Singh | BiharSVC/972/2000 | M-Vikas Nagar Colony, Road No.1, PO-Mahendru, Thana-Alamganj, Patna-800006 | | | | B.V.Sc. & A.H./B/AU/83 | 01/11/59 |
| 447 | Chandradeo Narayan Singh, S/o Late Deep Narayan Singh | BiharSVC/124/4/2000 | Moh.-Rajeevnagar, PO-Keshrinagar, Thana-Deegha, Dist.-Patna | | | | B.V.Sc. & A.H./R/U/69 | 01/11/46 |
| 448 | Chandradeo Pd. Singh, S/o Late Lala Pd. Singh | BiharSVC/188/0/2000 | Vill.-Ahiyachat, PO-Jamsari, Thana-Bind, Dist.-Nalanda | | | | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 05/07/36 |
| 449 | Chandradeo Prasad, S/o Sri Ram Keshvar Singh | BiharSVC/129/0/2000 | Vill.-Tilaiya, PO-Pathraura, Thana-Rajgir, Dist.-Nalanda | | | | B.V.Sc. & A.H./BAU/82 | 14/03/57 |
| 450 | CHANDRAKANT DIVEDI S/O SHRI J.N. DIVEDI | MPSVC/1893/00 | 43-A, EKTA NAGAR, UKHARIA ROAD, JABALPUR 482004 | | | | BVSc&AH/JNKV/V/60 | 09.06.41 |
| 451 | Chandramani Prasad, S/o Late Lala Prasad | BiharSVC/201/8/2000 | Vill.-Suatar Dih, PO-Nirpur, Thana+Dist.-Nalanda | | | | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 01/12/46 |
| 452 | Chandramani, S/o Late Yugalkishore Pd. Sinha | BiharSVC/160/9/2000 | Moh.-House No.27, New Punaichak, Hanuman Nagar, Dist.-Patna, Pin.-800023 | | | | B.V.Sc. & A.H./RAU/80 | 02/06/57 |
| 453 | CHANDRAMOHAN J. | KERALASVC/2523/2000 | PLAVARTHALA PUTHEN VEEDU, KAVALAKULAM, NEYYATTINKARA P.O. KERALA, INDIA | | | | BVSc&AH/KAU/87 | 29.05.59 |
| 454 | CHANDRAMOULI CH S/O CH. KOMMALU | APSVC/03668/2001 | H.NO.11-26-172, KOTHAWADA, WARANGAL DT.-506 102. | | | | BVSc&AH/APA/U/92 | 05.04.68 |
| 455 | CHANDRASEKHARA REDDY P. S/O P. PITCHI REDDY | APSVC/03670/2001 | PADMARAJA NAGAR, KOMAROLU(M), KOMAROLU(M), PRAKASAM DT. | | | | BVSc&AH/APA/U/93 | 24.01.68 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-------------|---|------------------------|---|---------------------------------|------------|
| 456 | CHANDRASHEKAR G S/O ESWARAPPA | KARNASVC/3 150 | R/O HADARAMAGGI, KATHARAKI GUDLANOOR, KOPPAL DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 01.04.77 |
| 457 | CHANDRASHEKAR MADHUKAR AMHBULKAR | MPSVC/1890/ 00 | GOVT. POLYTECNIC HOSTEL FAMILY BLOCK, SHYAMLA HILLS, BHOPAL-462011 | BVSc&AH/DR.P DKVP/98 | 15.07.71 |
| 458 | Chandrashekhar Prasad, S/o Late Janak Prasad Singh | BiharSVC/199 1/2000 | V.+PO-Chap Sudarshan Chapivan,Thana- Mashrak,Dist.-Saran | B.V.Sc. & A.H./MU/62 | 15/02/42 |
| 459 | CHANDRASHEKHAR SINGH S/O LATE SHRI VISHAMBHAR DAYAL | MPSVC/1918/ 00 | GOVT. VETY. HOSPITAL, AHMADPUR DISTT. SEHORE - 466 001 | BVSc&AH/JNK VV/80-81 | 12.12.55 |
| 460 | Chandru Pd. Singh, D/o Late Arjun Prasad Singh | BiharSVC/925/ 2000 | Vill.-Hasipur,PO-Mirga Chowki,Thana+Dist.- Saheganj, Pin-813208 | B.V.Sc.&A.H./R AU/98 | 15/04/74 |
| 461 | CHANGMAI DR. SUKHEN S/O SRI JOYNATH CHANGMAI | ASM/1923/200 0 | VILL. NAGAON, P.O. BORDALONI, DIST. DHEMAJI, PIN -787 026 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 462 | CHARANJEET S/O SH. CHHOTU RAM | PB.SVC- 2186/2000 | H.NO. B-756, NEAR CITY POLICE STATION, BATALA-143505 GSP. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 25.09.75 |
| 463 | CHARJAN RUPALI YASHWANTRAO | MSVC/6361/2 000 | KASHINAGAR, PLOT NO. 54, RAMESHWARY, NAGPUR-440027 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 21-05-77 |
| 464 | Chaturgun Singh, S/o Sri Rajeshwar Singh | BiharSVC/871/ 2000 | Vill.-Sondnila,PO- Sondnila,Thana- Buxar,Dist.-Buxar | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 18/02/47 |
| 465 | CHAUDHARI KAMLAKAR SUDHAKAR | MSVC/6400/2 000 | AT POST MASKAWAD(BK), SUBHASH CHOUK, TAL. RAVER, DSIT.JALGAON- | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 13-08-77 |
| 466 | CHAUDHURY DR. ANKAN S/O SRI JAGADHAR | ASM/1897/200 0 | VILL. KANDUPUR, P.O. MIRZA, DIST. KAMRUP, ASSAM | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 467 | CHAVAN PRABHAKAR SAHEBRAO | MSVC/6322/2 000 | AT SAMBAR, POST SADEGAON, TAL. PARBHANI, DIST. PARBHANI-431401 | BVSc&AH/MAU/ 99 | 09-02-70 |

| STUDY NAME | DEPT | CLASS | QUALIF |
|--|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 468 CHAVAN RANJANA MAHADEV | MSVC/6300/20 00 | B.K.ROAD, VENGURALA, DISTT.SINDHUDURG- 416516 | BVSc&AH/KKV/ 2000 30-05-77 |
| 469 CHAVAN SANGRAM SHANKARRAO | MSVC/6354/20 00 | SOMESHWAR COLONY, GHATNANDUR, TAL. AMBEJOGAI, DIST. BEED- 411519 | BVSc&AH/MAU/ 2000 11-06-77 |
| 470 Chavi Nath Mishra, S/o Late Pandit Jawala Pd. Mishra | BiharSVC/184 9/2000 | Vill.-Mohanpur,PO- Vasantpur,Thana-Arrah Mufasil,Dist.-Bhojpur | B.V.Sc. & A.H./RU/67 02/01/44 |
| 471 Chhatrapati Shukla,S/o Late Ram Briksh Shukla | BiharSVC/189 0/2000 | M.-Shekhpura Beldar Tola,PO-BV Coll.Thana- Shastrinagar,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./PU/61 01/10/38 |
| 472 CHETAN SHARMA S/O SH. SURENDER SHARMA | PB.SVC- 2233/2001 | 115, NEW FRIENDS COLONY, OPP. D.A.V. COLLEGE, JALANDHAR - 144 008 | BVSc&AH/PAU/ 2000 31.12.76 |
| 473 CHETIA DR. DHRUBAJYOTI S/O SRI PREMA KANTA CHETIA | ASM/1899/200 0 | VILL. GHARIALDUBIGAON, P.O. BOKAJAN DIST. KARBI-ANGLONG(ASSAM) | BVSc&AH/AAU/ 2000 - |
| 474 CHINTU RAVISHANKAR | KERALASVC/ 2463/2000 | ANITHA SADAN, TC.13/335,MRA HOUSE NO.96,KUNNUKUZHI PO,TRIVANDURM-695037. | BVSc&AH/KAU/ 2000 09.06.76 |
| 475 Chiranjib Bhuyan | Megh/155/01 | Jingkieng, Shillong-793003 | BVSc&AH/BAU/ 92 16.1.67 |
| 476 CHITNIS ADITI AJAY | MSVC/6356/20 00 | VIJAYA H.NO.18, NOFRA COLABA, MUMBAI-400005 | BVSc&AH/KKV/ 2000 08-07-77 |
| 477 CHITTA PRIYA GHOSH | WBSVC/2838/ 2001 | VILL. & P.O. TALIT, DT. BURDWAN | BVSc&AH/WBU AFS/2000 |
| 478 CHITTA RANJAN ROY S/O LT. AMULYA KR. ROY | TRIPURA/6/20 00 | KASHIPUR,MISSION ROAD,P.O.RESHAMBAGA N,TRIPURA(W) | BVSc&AH/AAU/ 69 17/10/45 |
| 479 CHONDE MANGESH SHIVAJIRAO | MSVC/6321/20 00 | TEACHER'S COLONY, NEAR DANDANIK COMPLEX, USMANABAD- 413501 | BVSc&AH/MAU/ 2000 10-06-77 |

| SLN. NO. | NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIF. | DATE |
|----------|--|------------------------|--|------------------------------------|----------|
| 480 | CHOPADE RAMESH NIMBAHIRAO | MSVC/6329/20 00 | BUDDHA GAYA, PLOT NO.37, PARLI RAOD, SIRALA, TAL.PARDI(V), BEED | BVSc&AH/MAU/ 2000 2000 VILCANAM | 07-06-77 |
| 481 | Chote Lal Choudhary, S/o Late Bihari Choudhary | BiharSVC/141 4/2000 | M.-Roshan Lal Colony,PO- Anisabad,Thana- Fulwarisharif,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 12/07/44 |
| 482 | CHOWDHURY DR. (MS) SANTANA D/O DR. Bhabananda | ASM/1914/200 0 | C/O DR. B.N. CHOWDHURY SIV MANDIR ROAD, KHANAPARA, GUWAHATI- | BVSc&AH/AAU/ 2000 | 07-06-77 |
| 483 | CHOWDHURY DR. BHASKAR S/O LATE SRI TARUN CHOWDHURY | ASM/1948/200 1 | SIXMILE, ANANDANAGAR, GHY-22 99 | BVSc&AH/AAU/ | 15-06-77 |
| 484 | CHOWDHURY DR. JAYANTA S/O MR. MAHIDHAR | ASM/1886/200 0 | VILL. MALIKUCHI, DIST. NALBARI PIN-781335 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | 07-06-77 |
| 485 | CHOWDHURY DR.KAMAL BEHARI DEV S/O PULIN BEHARI DEV | ASM/1908/200 0 | VILL. SARIHA CHAKLA, P.O. PATACHARKUCHI, DIST. BARPETA, PIN- 781326 ASSAM | BVSc&AH/AAU/ 2000 | 07-06-77 |
| 486 | Christine Wanswett | Megh/162/01 | Jaiaw Shyrap, Shillong | BVSc&AH/AAU/ 2000 | 25.12.73 |
| 487 | CHUBAYANGLA D/O WATIKUMBA | NSVC/83/98 | C/O MEREN PAUL, DEPUTY COMMISSIONER OF TRANSPORT, KOHIMA, | BVSc&AH/DR PDKV/98 | 5-3-73 |
| 488 | CHURAMANI TIWARI | PONDI/111/20 00 | B-1,"B"ZONE CAMPUS,RAGACOVAS,P ONDICHERRY-605009 | BVSc&AH/JNKV V/83 | 30/04/60 |
| 489 | CYRIL ROY R. | VCI/2292/01 | CHAMPARUTHIVILAI PO. THUCKALAY VIA KANYAKUMARI DISTRICT TAMILNADU | BVSc/TNVASU/ 95 | 09/06/72 |
| 490 | D.VENKA REDDY | PONDI/118/20 00 | 27,I,CROSS,BHARATHI NAGAR,PONDICHERRY- 605008 | BVSc/APAU/78 | 15/08/54 |
| 491 | DAGA SHIVPRASAD SHIRIRAMJI | MSVC/6376/20 00 | MARWADI GALLI, AT POST BORI, TAL JINTUR, DIST. PARBHANI- 431508 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 28-06-78 |

| SIMILAR NAME | ADDRESS | NAME | ADDRESS | NAME | ADDRESS |
|---|--|--|-------------------------------|----------|---------|
| 492 Daku Soren, S/o Sri Lakhan Soren | BiharSVC/109 4/2000 A.M.T.H.C. | VILL.-Chatakurma, PO- Sripur, Thana- Mirsachawki, Sahebganj- 813208 | B.V.Sc.&A.H/R AU/95 | 10/12/67 | |
| 493 DALVI.GIRISH WAMAN | MSVC/6363/20 AT POST MOHODI, DIST. NAGPUR | AT POST MOHODI, (DALVI), TAL. NARDHED DIST. NAGPUR | BVSc&AH/DR.P | 01-09-78 | |
| 494 Damodar Pd. Singh, S/o A. Late Ram Chandra Singh | BiharSVC/170 5/2000 M.T.H.C. | VILL.+PO-Maidah, Thana- Barbigha, Dist.-Shekhupura | B.V.Sc. & R.A. A.H./RAU/78 | 05/07/53 | |
| 495 Damodar Prasad Singh, S/o Late Siva Raghuwar Sharan Singh | BiharSVC/203 1/2000 | VILL.-Diharkot Paharichak, PO+Thana- Sonpur, Dist.-Saran | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 07/10/37 | |
| 496 Dara Shinkoh, S/o Sayed, Sujauddin Ahmad | BiharSVC/128 8/2000 | Moh.-Kutubpur Chistinagar, PO+Thana+Dis- t.-Hasaribagh, Pin.-825301 | B.V.Sc. & A.H./BAU/88 | 10/12/63 | |
| 497 Darshan Raj G S/o Sh. Ganga Raj | Karna/3198 Gangasandra | No.246 Shilpa Dharshan Road, Maralur, Tumkur | BVSc&AH/UAS Blore/2000 | 45.77 | |
| 498 DAS DR. DHRUBAJYOTI S/O SRI RAMANI MOHAN DAS | ASM/1884/200 S/O SRI RAMANI MOHAN DAS | PATHSALA TOWN, P.O. PATHSALA DIST. BARPETA | BVSc&AH/AU/613 99 | | |
| 499 DAS DR. HIRANYA KUMAR S/O SRI DINESH CH. DAS | ASM/1888/200 S/O SRI DHIRENDRA LAL DAS | JANIA ROAD(S.C. PATH) O.D. 1000 HOMI P.O. & DIST. BARPETA PIN-781301 | BVSc&AH/AU/610 2000 | | |
| 500 DAS DR. HRIDUL LAL S/O SRI CHAKRADHAR DAS | ASM/1945/200 S/O SRI CHAKRADHAR DAS | VILL. HARIPUR, P.O. 1 VILL. KULHATI P.S. BARPETA, ASSAM | BVSc&AH/AU/618 2000 | | |
| 501 DAS DR. JADUMANI S/O SRI CHAKRADHAR DAS | ASM/1946/200 SRI CHAKRADHAR DAS | DR. JADUMANI DAS, P.O. VILL. KULHATI & VILL. KULHATI P.S., BARPETA, ASSAM PIN-781104 | BVSc&AH/AU/613 2000 | | |
| 502 DAS DR. KALYAN KUMAR S/O SRI BINANDI DAS | ASM/1911/200 S/O LATE SRI | C/O SRI BINANDI DAS VILL. & P.O. KULHATI, DIST. KAMRUP, PIN- 781104 | BVSc&AH/AU/618 2000 | | |
| 503 DAS DR. MANABENDRA S/O LATE SRI GIRINDRA NATH DAS | ASM/1895/200 | VILL. CHARIHA CHAKLA, VILL. PATACHAR KHUTHI DIST. BARPETA | BVSc&AH/AU/618 2000 | | |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-------------|--|------------------------|---|--------------------------|------------|
| 504 | DAS DR. MUKUT S/O SRI NAREN DAS | ASM/1900/200 0 | VILL.&P.O. BEZERA, DIST. KAMRUP PIN - 781 121 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 505 | DAS DR. PRASANTA KUMAR S/O SHRI POMINDRA CH. DAS | ASM/1887/200 0 | VILL. UTTAR JANARPUR (SOALKUCHI) P.O. SOALKUCHI,DIST.KAMRU P, ASSAM-781103 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 506 | DAULAT SINGH RAWAT S/O LATE SRI B.C. RAWAT | UPVC/3244 | KADAMBARI BHAWAN, LAXMI NARAIN MANDIR MARG, PAURI GARHWAL, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 16.01.75 |
| 507 | Davender Pal S/o Sh. Hukam Chand | HarSVC/1664 | VPO Motla Kalan, D. Rewari | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 31.7.76 |
| 508 | DAVENDRA KUMAR | VCI/2248/00 | SCIENTIST NIRI (CSWRI) GARSA KULLU (H.P) 257141 | BVSc&AH/GBP UAT/93 | 08/07/68 |
| 509 | DAVENDRA KUMAR S/O SH. PHOOL SINGH | HPSVC/588/20 00 | VILL. KHANPUR, P.O. THANA DISTT. MUGAFFAR NAGAR, U.P. 247 777 | BVSc&AH/GBP UA&T/94 | 08.07.68 |
| 510 | Davinder Hooda S/o Sh. Ram Narain | HarSVC/1669 | 1851/30, Chhotu Ram Colony, Khanali Road, Rohtak | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 21.7.76 |
| 511 | DAVINDER PAL SINGH LUBANA S/O SH. TEHAL SINGH | PB.SVC- 2209/2000 | 145, MASTER TARA SINGH NAGAR, JALANDHAR CITY. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 11.06.77 |
| 512 | Daya Nand Kumar, S/o Late Chandra Deep Kunwar | BiharSVC/166 9/2000 | VILL.+PO-Marwa,Thana- Vihpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/79 | 01/01/54 |
| 513 | DAYAL KUMAR BALANI | VCI/2271/01 | F,17-18 F-BLOCK STREET-3,PANDAV NAGAR, PATTPAR GANJ DELHI-110091 | BVSc&AH/AV/6 3 | 25/05/40 |
| 514 | Dayanand Prasad, S/o Sri Lala Prasad | BiharSVC/181 1/2000 | VILL.+PO-Bind,Thana- Bind,Dist.-Nalanda,Pin- 811108 | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 03/04/61 |
| 515 | Dayanand Prasad, S/o Sri Satyadeo Prasad | BiharSVC/160 6/2000 | VILL.-Gosaypur,PO- Yogipur,Thana-Hilsa,Dist.- Nalanda | B.V.Sc. & A.H.BAU/86 | 02/11/56 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADDRESS | QUALIF | DATE |
|------|---|------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 516 | DAYARAM AHIRWAR S/O SHRI RAM DAS AHIRWAR | MP\$VC/1898/ 00 | VILL KURRAI, POST RAM NAGAR TEH. JATARA DISTT. TIKAMGARH 472001 | BVSc&AH/JNKV | 1.7.69 V/98-99 |
| 517 | Dayoohun Papang | Megh/166/01 | Shangpung, Jaintia Hills | BVSc&AH/AAU/A 92 | 31.10.67 |
| 518 | DEBANANDA DEB S/O DIPTI LAL DEB | TRIPURA/72/2 000 | VILL- GOBINDAPUR,P.O.KAILAS HAHAR,NORTH TRIPURA | BVSc&AH/PAU/A | 08/06/62 |
| 519 | DEBASHIS CHAKRABORTY S/O SRI RABINDRA KR. | TRIPURA/97/2 000 | BORDOWALI, WEST PRATAPGARH ARUNDHATINAGAR, AGARTALA-3 | BVSc&AH/CSA KEPV/87 | 23.8.65 |
| 520 | Debashish Bose, S/o Late Pranab Kumar Bose | BiharSVC/196 3/2000 | M-486,Basu Vagar Colony,PO+Thana- Madhyam Gram,Dist.-24 Pargana,Pin-743275 | B.V.Sc. & A.H./BAU/82 | 13/04/39 |
| 521 | Debashish Deb, S/o Late Dinesh Ranjan Deb | BiharSVC/176 6/2000 | Vill.+PO+Thana- Baguihati,Dist.-24 Parganas, Pin-700057 | B.V.Sc. & A.H./BAU/88 | 02/07/60 |
| 522 | DEBASISH BHATTACHARJEE | ARUNA/199/0 0 | LUMLA, TWANG DIST ARUNACHAL PRADESH | BVSc&AH/OUA &T/85 | 6.4.62 |
| 523 | DEBASISH GHOSH | WBSVC/2835/ 2000 | VILL MUTRA, P.O. BARAWA MOHESH, DT. BURDWAN | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 524 | DEBRAJ NANDI | WBSVC/2823/ 2000 | RATHER SARAK, P.O. CHANDAN NAGAR, DT. HOOGHLY (NEAR NABIN SANGHA CLUB) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 525 | Deenanath Sharma, S/o Sri Chandshwer Sharma | BiharSVC/906/ 2000 | Vill.-Noawan, PO-Noawan, Thana-Shakurabad, Dist.- Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./R AU/95 | 03/05/68 |
| 526 | Deenbandhu Sharma/ S/o Sri Mathura Pd. Singh | BiharSVC/152 5/2000 | Vill.+PO-Madwan, Thana- Dhanrua,Dist.-Patna,Pin.- 804453 | B.V.Sc. & A.H./RAU/75 | 11/11/49 |
| 527 | DEENDAYAL | RAJSVC/2655/ 2000 | S/O SH.SITARAM AGARWAL,OPP. LAL NISHAN PRESS,MATHURA | BVSc&AH/RAJ AGRI.UNIV./200 0 | 15.07.76 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|---------------------|--|--------------------------------|----------|
| 528 | DEEPA A.K. | KERALASVC/2492/2000 | 24/614, AISWARYA, LITTLE NAGAR, NURANI P.O., PALAKKAD PIN- 678004 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 31.12.75 |
| 529 | Deepak Kr. Singh, S/o Sri Basuki Prasad Singh | BiharSVC/1353/2000 | Vill.+PO-Vindi, Thana-Banka, Dist.-Banka | B.V.Sc. & A.H./BAU/91 | 03/03/64 |
| 530 | DEEPAK KUMAR SHARMA | RAJSVC/2675/2000 | VILLAGE & POST POHUNA, DIST. CHITTORGARH | BVSc&AH/RAJ. AGRI UNIV/2000 | 13.06.75 |
| 531 | Deepak Kumar, S/o Sri Kailash Nath Gupta | BiharSVC/2082/2001 | Vill.-Vidupur Bazar, PO-Vidupur Bazar, Thana-Vidupur Bazar, Dist.-Vaishali | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 05/01/76 |
| 532 | Deepak Oraon, S/o Late Bhikha Khalkho | BiharSVC/1976/2000 | Vill-Nagartoli, PO+Thana-Lalpur, Dist.-Ranchi, Pin-834001 | B.V.Sc. & A.H./RAU/98 | 23/08/70 |
| 533 | Deepika Lather, S/o Sh BPS Lather | HarSVC/1616 | H.No.9B-2,O Campus, HAU, Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/99 | 28.12.77 |
| 534 | DEKA DR. DHANJIT S/O SRI PRASSNNACH. DEKA | ASM/1896/2000 | VILL.&P.O. NIZ NAMATI, DIST. NALBARI, PIN-781355 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 535 | DEKA DR. DIPAK S/O SRI NARENDRA NATH DEKA | ASM/1917/2000 | C/O SRI NARENDRA NATH, DEKA VILL.&P.O. HARIBHANGA, TIHU DIST. NALBARI | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 536 | Deo Kumar Mukherjee, S/o Sri Amirchand Mukherjee | BiharSVC/1902/2000 | M.-Arsandey, PO-Boraiya, Thana-Kanke, Dist.-Ranchi, Pin.-835240 | B.V.Sc. & A.H./MU/63 | 08/12/40 |
| 537 | Deo prakash Arya, S/o Late Bhuneswar Prasad | BiharSVC/1069/2000 | M.-Station Bazar, PO-Railway Station, Thana-Barh, Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./M U/68 | 07/04/47 |
| 538 | Deo Prasad, S/o Sri Deena Nath | BiharSVC/1869/2000 | Vill.-Narayanpur PO-Niyajipur, Thana-Simri, Dist.-Buxar | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 07/07/68 |
| 539 | Deo Prasanan Singh, S/o Late Ram Nath Singh | BiharSVC/846/2000 | V.+Post-Khanori Kalan, Thana-Agaria, Bager, Dist.-Arrah | B.V.Sc. & A.H./M U/70 | 01/06/47 |

| SLN# | NAME | RNUM | ADD | PERIOD | QUALIF | DOB |
|------|--|------------------------|--|--------|--------------------------|----------|
| 540 | Deoki Nandan Prasad, S/o Sri Sheo Nandan Prasad | BiharSVC/109 7/2000 | Vill.-Patambar, PO-Patambar, Thana-Sikandra, Dist.-Jamui | | B.V.Sc.&A.H./R AU/81 | 08/09/55 |
| 541 | Deonandan Choudhary, S/o Late Vishwanath Choudhary | BiharSVC/180 6/2000 | Vill.-Bavangama, PO+Thana-Triveniganj, Dist.-Supaul | | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 01/07/48 |
| 542 | Deonath Singh, S/o Late Phulena Singh | BiharSVC/175 4/2000 | Vill.-Dumara, PO-Kala Dumara, Thana-G.B.Nagar, Dist.-Siwan | | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 17/07/46 |
| 543 | Deopujan Singh, S/o Sri Yadu Ram Singh | BiharSVC/142 6/2000 | Moh.-Mohaveer Tola, PO+Thana-Arrah, Dist.-Arrah (Bhojpur) | | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 09/01/45 |
| 544 | DEORI DR. SOURABH S/O SH. UMESH CH. DEORI | ASM/1927/200 0 | VILL.KOLOWLOWA DEORI GAON, P.O.ADARSHĀ DEORI GAON, DIST.DIBRUGARH, | | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 545 | DESAI KABIR RASULSO | MSVC/6314/20 00 | UCHGAONKAR GALLI SHIROLI(P), HATKANONGALE, DIST. KOLHAPUR- 416122 | | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 21-01-78 |
| 546 | DESHMUKH GANPAT BHASDARRAO | MSVC/6279/20 00 | B-20, PUNJABRAO KRISHI VIDYAPEETH COLONY, KRISHINAGAR, AKOLA-444104 | | BVSc&AH/PKV/ 77 | 24-08-95 |
| 547 | DESHPANDE MAHINDRA PRABHAKAR | MSVC/6312/20 00 | C/O.P.G.DESHPANDE, PITRA CHAYA, RAMKRISHNA NAGAR, BASMAT | | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 20-05-78 |
| 548 | Deshrath Pd. Gupta, S/o Sri Kamleshwari Pd. Gupta | BiharSVC/147 2/2000 | Vill.-Maraiva, PO-Pipra Latif, Thana-Parbatta, Dist.-Khageria | | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 17/07/47 |
| 549 | DEV RAJ S/O SH. MELA RAM | PB.SVC- 2207/2000 | H.NO.101, SHAHED BHAGHAT SINGH COLONY, LEHRAGAGA-148031, DIST.SANGRUR | | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 20.03.77 |
| 550 | DEVA LAKSHMI N. D/O N. DEVASAHYAM | APSVC/03632/ 2000 | H.NO.1-13-13, TELAGAPALEM, I WARD, PONNUR, GUNTUR DIST. | | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 10.08.77 |
| 551 | DEVANAND SAMBHA RAO K. S/O K. SAMBHA RAO | APSVC/03678/ 2001 | C/O BALAJI RAO P. JADHAV, R/O SINGANGOVE, TANOOR(M), MUDHOL (TQ), | | BVSc&AH/PDK V/98 | 07.01.76 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF |
|-------------|---|-------------------------|--|--|
| 552 | DEVENDRA KUMAR | RAJSVC/2673/ 2000 | C/O HARICHARAN LAL GUPTA HOUSE NO. 7, KILA, NEAR AGARWAL HOSPITAL BHARATPUR | BVSc&AH/GBP 01.01.67 UA&T/91 |
| 553 | DEVENDRA KUMAR VISHWAKARMA S/O SHRI H.K. DAS | MPSVC/1932/ 01 | H.NO.1, INFRONT OF GIRLS COLLEGE, JAIL ROAD, TIKAMGARH- 472001 | BVSc&AH/JNKV 01.09.62 V/84-85 |
| 554 | Devendra Nath Dwivedi, S/o Sri Guptnath Dwivedi | BiharSVC/163 2/2000 | Vill.-Roja Ke Amidhi,PO- Nauhatta,Thana- Rampur,Dist.-Bhabhua | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 19/02/59 |
| 555 | Devendra Pd. Singh, S/o Sri Deosharan Singh | BiharSVC/139 7/2000 | Vill.-Hemanchak,PO- Shorampur,Thana- Naubatpur,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/80 04/01/55 |
| 556 | Devendra Prasad, S/o Sri Vaidyanath Lal Das | BiharSVC/159 8/2000 | Moh.-Chitragupt Nagar,PO+Thana+Dist.- Saharsa,Pin.-852201 | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 15/12/49 |
| 557 | DEVENDRAKUMAR | PONDI/106/20 00 | 99 RAJAJI NAGAR EXTN 32 IIND CROSS STREET, AVVAI NAGAR 4TH MAIN PONDICHERRY | BVSc&AH/GBP 22.11.51 KEVPVV/PNAG AR/76 |
| 558 | Devesh Kr. Singh, S/o Mahendra Pd. Singh | BiharSVC/146 6/2000 | Moh.+PO+Thana- Latehar,Dist.-Palamu | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 28/01/66 |
| 559 | DEVI PRASAD ISORE | WBSVC/2804/ 2000 | P.O. TUFANGANJ, DT. COOCHBEHAR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 |
| 560 | DEVI SHANKAR RAJORIA S/O SH. SHAMBHULAL RAJORIA | RAJSVC/2626/ 2000 | V.P.O. RAMGARH PACHWARA,DAUSA. | BVSc&AH/RAJ. 23.04.71 AGRI. UNIV./2000 |
| 561 | DEVI SINGH RAJPUT S/O SH. MAL SINGH | RAJSVC/2672/ 2000 | KACHWA ICE FACTORY, BLD. GAJNER-ROAD, BIKANER-334001 | BVSc&AH/RAJ. 23.12.74 AGRI.UNIV./200 0 |
| 562 | Devnandan Prasad, S/o Late Chotty Mahto | BiharSVC/109 8/2000 | Vill.- Nimnawada,Thana+Dist.- Jamui | B.V.Sc.&A.H./R AU/83 01/04/58 |
| 563 | DHAMODARAN N. | KERALASVC/ 2440/2000 | IV/303, VARIYATH PARAMBU, KERALASSERY, PALAKKAD DIST. PIN | BVSc/TNV&AS 15.03.71 U/94 |

| SR. NO. | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | D.D.A.M. NO. |
|---------|--|---------------------|---|------------------------|--------------|
| 564 | Dhananjay Kr. Singh, S/o Late Parag Nath Singh | BiharSVC/849/ 2000 | Vill.+P.O.-Mohanpur Karia,Thana-Barhora, Dist.-Arrah | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 10/07/44 |
| 565 | Dhananjay Kr. Sinha, S/o Dr. Ram Das Sinha | BiharSVC/118 9/2000 | M.-Boring Road,PO- G.P.O., Thana-Digha,Dist- Patna,Pin-800001 | B.V.Sc.&A.H./B AU/93 | 28/11/67 |
| 566 | Dhananjay Kumar, S/o Sri Ram Vilas Prasad | BiharSVC/845/ 2000 | Vill.-Narotamchak,PO- Chistipur,Thana-Nagar Nausa,Dist.-Nalanda, Pin-803202 | B.V.Sc.&A.H./R AU/89 | 25/05/64 |
| 567 | Dhananjay Kumar, S/o Sri Saryu Singh | BiharSVC/118 5/2000 | V.+PO-Dhanadihri,Thana- Kurtha,Dist.- Jehanabad,Pin.-804429 | B.V.Sc.&A.H./R AU/94 | 27/09/68 |
| 568 | Dhananjay Pd. Singh, S/o Sri Ashok Kr. Singh | BiharSVC/873/ 2000 | Vill.-Hakikatpur,PO+Thana- Baktyarpur,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./B AU/88 | 20/03/62 |
| 569 | DHANANJOY GHOSH S/O SH.RABINDRA NATH GHOSH | TRIPURA/22/2 000 | SREE NAGAR,MILANCHAKRA,P. Q.AD.NAGAR,TRIPURA WEST-799003 | BVSc&AH/RAU/ 77 | 11/07/53 |
| 570 | DHANDAR CHANDRAKANT RAMKRUSHNA | MSVC/6301/20 00 | C/O DHANDAR, M.N.ADV.BHIMNAGAR, BHAOSINGPURA, AURANGABAD | BVSc&AH/DR.P. DKV/2000 | 19-08-73 |
| 571 | Dhanik Lal Mandal, S/o Late Bhurtnu Mandal | BiharSVC/944/ 2000 | V.-Bari Chataiya,PO- Khawaspur,Thana- Peerpainti, Dt.- Bhalgapur,Pin-813209 | B.V.Sc.&A.H./R AU/91 | 26/01/67 |
| 572 | DHANIRAM PRADHAN S/O SHRI LALARAM PRADHAN | MPSVC/1907/ 00 | BLOCK COLONY, LAILOONGA DIST. RAIGARH-496113 | BVSc&AH/JNKV. V/91-92 | 15.06.64 |
| 573 | Dhanraj Prasad,S/o Late Baldeo Pd. Sah | BiharSVC/877/ 2000 | Vill.-Podia,PO- Podia,Thana-Falka,Dist.- Katihar | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 18/01/45 |
| 574 | DHARASKAR SAMRADHNI DHRUVA | MSVC/6342/20 00 | NEELGIRI, 156 RAMDASPETH, NAGPUR DIST. NAGPUR-440010 | BVSc&AH/DR.P. DKV/2000 | 13-12-77 |
| 575 | Dharmdeo Pd. Singh, S/o Late Rampukar Singh | BiharSVC/159 3/2000 | Vill.+PO-Neur,Thana- Lankahi,Dist.-Madhubani | B.V.Sc. & A.H./BAU/82 | 06/11/59 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB | REG. NO. |
|------|---|------------------------|--|--------------------------------------|----------|----------------------|
| 576 | Dharmdeo Prasad, S/o Late Darogi Shaw | BiharSVC/168 5/2000 | Vill.+PO+Thana- Harnaut,Dist.-Nalanda,Pin- 803110 | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 08/04/44 | 00000000000000000000 |
| 577 | Dharmdeo Tiwari, S/o Sri Sarvug Tiwari | BiharSVC/174 6/2000 | V.-Sahjadpur,PO- Korhua,Thana- Momagadh,Dist.- Gopalganj,Pin.-841427 | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 02/07/43 | 00000000000000000000 |
| 578 | DHARMENDRA KUMAR | RAJSVC/2659/ 2000 | 172 B,TALWANDI,KOTA 00000000000000000000 | BVSc&AH/RAJ/15 AGRI:UNIV/200 0 | 10.71 | 00000000000000000000 |
| 579 | Dharmendra Kumar, S/o Sri Narendra Mohan Prasad | BiharSVC/209 0/2001 | Vill.-Changheri,PO- Sabaur,Thana- Sabaur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./KKV/2000 | 25/06/74 | 00000000000000000000 |
| 580 | Dhirendra Kumar Singh, S/o Late Shiveshwar Prasad Singh | BiharSVC/208 0/2001 | Vill+PO-Khurhan, Thana- Alamnagar, Dist.- Madhepura | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 17/08/55 | 00000000000000000000 |
| 581 | Dhirendra Kumar, S/o Sri Pravag Narayan Singh | BiharSVC/208 6/2001 | Vill.-Parsurai,PO- Panhar,Thana- Khudaganj,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./KKV/2000 | 21/05/74 | 00000000000000000000 |
| 582 | Dhoolappa Melinamani,S/o Siddappa | KARNASVC/3 164 | Kannal Post,Vidarbha Basavañà,Begawadi, Taluk,Bijapur | BVSc&AH/UAS/1677 B'Lore/2000 | 16.77 | 00000000000000000000 |
| 583 | DHOTE SHITAL DNYANESHWAR | MSVC/6297/20 00 | MATHURA NIWAS, RATHI NAGAR, AMRAVATI,ODD COMPUTER CIRCLE ROAD,AMRAVATI-444606 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 21-12-76 | 00000000000000000000 |
| 584 | Dhruvdeo Shankar Pandey, S/o Late Gokhulanand Pandey | BiharSVC/158 2/2000 | Vill.-Chakhari,PO- Rajvati, Thana- Bagaha, Dist.- W.Champaran, Pin.-845101 | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 21/07/44 | 00000000000000000000 |
| 585 | Dhurkholi Ram, S/o Late Muknial Ram | BiharSVC/138 8/2000 | Vill.-Dekuli,PO- Musepur, Thana-Bihta, Dist.- Patna, Pin.-801103 | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 08/02/48 | 00000000000000000000 |
| 586 | Digamber Pd. Singh, S/o Sri Jyotish Pd. Singh | BiharSVC/167 9/2000 | Vill.-New Shivpuri,PO- Polytechnic, Thana- K.Hat, Dist.-Purnea, Pin- 854301 | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 30/03/58 | 00000000000000000000 |
| 587 | Dil Narayan Choudhary, S/o Sri Nathun Choudhary | BiharSVC/120 4/2000 | V.-Akali Vigha, PO+Thana- Belaganj, Dist.-Gaya | B.V.Sc.&A.H./R. AU/77 | 03/07/53 | 00000000000000000000 |

| SNUM | NAME | DESG | RMNUM | ADD | DISA | INRNO | QUALIF | SNUM | NAME |
|------|--|------|------------------------|--|------|--|--|------|------|
| 588 | DILIP DEBNATH S/O LT. ATUL DEBNATH | | TRIPURA/65/2 000 | INDRANAGAR,P.O.INDRAN AGAR,TRIPURA (W),PIN- 799006 | | BVSc&AH/RAU/ 12/07/61 83 | DATE: 20/07/2006 SRI SRINIVAS PRAKASH | | |
| 589 | Dilip Kr. Jha, S/o Sri Ram Ratan Jha | | BiharSVC/131 0/2000 | VIII,+PO+Panchay, Thana- Bisampur, Dist.-Darbhanga | | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 15/07/52 Date: 20/07/2006 C. Pandey | | |
| 590 | DILIP KR. NATH S/O UMESH CH. NATH | | TRIPURA/21/2 000 | DHALESWAR,JAIL ASHRAM ROAD,P.O.DHALESWAR,T RIPURA WEST | | BVSc&AH/RAU/ 11/04/54 77 | | | |
| 591 | Dilip Kr. Rajak, S/o Shankar Lal Rajak | | BiharSVC/175 0/2000 | M-Upper Bazar,Gwala Toh, Tharia-Kotwali, Dt.- Ranchi, P-834001 | | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 26/01/66 Date: 20/07/2006 Sh. T. Singh | | |
| 592 | DILIP KUMAR DAS S/O MADAN MOHAN DAS | | KARNASVC/3 149 | P N 54/2, C R S AREA, AIR FORCE STATION, BIDAR | | BVSc&AH/JAS 22/09/77 DHARWAD/200 0 | | | |
| 593 | Dilip Kumar Jha, S/o Sri Tej Narayan Jha | | BiharSVC/131 3/2000 | VIII,+PO+Pachhi, Thana- Madhepur, Dist.- Madhubani, Pin.-847408 | | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 04/03/69 Kailash Singh | | |
| 594 | Dilip Kumar Kachap, S/o Late Agapit Kachap | | BiharSVC/159 7/2000 | Moh.-Kanke,Patratoli, PO- R.V.C., Thana-Kanke, Dist.- Ranchi, Pin-834007 | | B.V.Sc. & A.H./BAU/86 | 01/09/59 S/o Sh. Ramlal Chopra | | |
| 595 | DILIP KUMAR PRASAD | | WBSVC/2782 2000 | 2/18, AHSOK AVENUE (A- ZONE) DURGAPUR 713204 DT. BURDWAN | | BVSc&AH/BU AFS/2000 | 00/ Deepak S/o Sh. Gopal Jaiswal | | |
| 596 | Dilip Kumar Singh 'Dran', S/o Late Tej Narayan Singh | | BiharSVC/200 4/2000 | VIII,+PO+Araha, Thana- Dhauri, Dist.-Madhepura | | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 14/09/54 AMRANG | | |
| 597 | Dilip Kumar, S/o Sri Nageshwar | | BiharSVC/157 8/2000 | VII,-Dhunha, PO- Babhan, Thana- Camhanya, Dist.- Madhepura, Pin.-852131 | | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 08/01/73 S/o Sh. Ram Bharti | | |
| 598 | Dilip Kumar, S/o Sri Mathura Nath Singh | | BiharSVC/102 1/2000 | VIII,+PO+Uttamnagar Narmidiyara, Thana- Sahebganj, Dist.-Sahebganj | | B.V.Sc. & A.H./RAU/94 | 06/03/69 S/o Sh. Ram Bharti | | |
| 599 | Dindayal Prasad, S/o Late Laxmi Prasad | | BiharSVC/157 3/2000 | VIII,-Mandera, PO+Thana- Banjarpur, Dist.-Munger Rajasthani | | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 01/09/46 S/o Sh. M. Ram | | |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 600 | DINESH CHANDRA S/O LATE SRI GUN PRAKASH | UPVC/3197 | C/O R.C. JINDAL, 54/4, VISHAL KHAND GOMTI NAGAR, LUCKNOW | BVSc&AH/AGR A UNIV/72 | 24.11.47 |
| 601 | Dinesh Choudhary, S/o Late Kapoor Chand Chaudhary | BiharSVC/833/ 2000 | Vill-Tenduvahar,PO- Ranjandih,Thana- Rajpur,Dt-Rohtas,Pin- 802219 | B.V.Sc.&A.H./R AU/80 | 02/06/56 |
| 602 | DINESH JAIN | RAJSVC/2651/ 2000 | 22,VEER LOKSHA COLONY,AJMER | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 19.12.73 |
| 603 | Dinesh Kant Thakur, S/o Sri Tejnaranayn Thakur | BiharSVC/150 9/2000 | Vill.+PO-Kariyan,Thana- Rosara,Dist.-Samastipur | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 11/10/40 |
| 604 | Dinesh Kr. Singh, S/o Late Priyadarshi Singh | BiharSVC/931/ 2000 | M-Sri Krishna Nagar,PO+Thana- Aurangabad,Dist.- Aurangabad-824101 | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 08/08/42 |
| 605 | Dinesh Kr. Singh, S/o Sri Kailash Pd. Singh | BiharSVC/172 1/2000 | Vill.-Baniya,PO- Bhawanipur,Thana- Gopalpur,Dist.- Bhagalpur,Pin-853204 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 20/09/70 |
| 606 | Dinesh Kr.Chaudhary, S/o Sri Ramdeo Chaudhary | BiharSVC/130 9/2000 | Vill.+PO-Sahari,Thana- Barh,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 | 05/10/59 |
| 607 | Dinesh Kumar Jaunpuri, S/o Sri Satyamnarayan Janpuri | BiharSVC/157 1/2000 | Moh.-Mirchawari,PO- Mirchawari Chowk,Thana+Dist.-Katihar | B.V.Sc. & A.H./OUAT/91 | 14/12/67 |
| 608 | DINESH KUMAR SHARMA | RAJSVC/2664/ 2000 | P.NO.169,STREET NO.3,VIJAY BARI, SIKAR ROAD,JAIPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 01.05.75 |
| 609 | DINESH KUMAR SHIVRAIN, S/O. SH. BHARAM PAL SHIVRAIN | RAJSVC/2752/ 2001 | VPO. KAKROLE HATHI DIST.,BHIWANI, HARYANA | BVSc&AH/RAU/ 96 | 27-09-68 |
| 610 | DINESH KUMAR VESHNAVE S/O SH. SURESH KUMAR | RAJSVC/2671/ 2000 | H.NO.38,NEW JAWAHAR NAGAR,KOTA-324005 | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 13.12.75 |
| 611 | DINESH SINGH NEHRA S/O SH. M.R. NEHRA | RAJSVC/2708/ 2000 | JASSI KA WASH CHALA, NEEM KA THANA, SIKAR, RAJASTHAN | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 27.12.75 |

| SNM NAME | RNUM | ADD | REF | REG. |
|--|------------------------|--|---------------------------|----------|
| 612 DINESH SINGH RAWAT, SRI V.P. SINGH | UPVC/3247 | IV/1992, JHA COLONY, PANTNAGAR, U.S. NAGAR, U.P. | BVSc&AH/GBP U&T/2000 | 28.03.78 |
| 613 DINESHKUMAR GAUTAM S/D SRI RAM SUNDER GAUTAM | MPSVC/1931/ 01 | VILLAGE & PDST BADEGADN, DISTT. TIKAMGARH-472001 | BVSc&AH/JNKV V/74 | 06.06.51 |
| 614 Dineswar Prasad Sharma, S/o Late Ramashish Singh | BiharSVC/913/ 2000 | Vill.-Saywan-Yadgara,PD- Gorkhori,Thana- Vikram,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./R AU/76 | 08/02/52 |
| 615 DINIZ ELIZABETH JUDE DD CARMO | MSVC/6285/20 00 | 14/7 MALAVIKA KANTI NAGAR, J.B.NAGAR, ANDHERI (EAST), MUMBAI-400059 | BVSc&AH/KKV/ 98 | 12-01-77 |
| 616 Dinkar Kumar, S/o Sri Virendra Prasad | BiharSVC/928/ 2000 | Moh.-Laskarichak,PO- Parsa,Thana-Pathua, Dist.- Patna | B.V.Sc.&A.H./R AU/93 | 03/01/70 |
| 617 DIPAJIT PURKAYASTHA S/O SH. RASAMAY PURKAYASTHA | TRIPURA/52/2 000 | SANKAR CHOWMAHANI (EAST),KRISHNANAGAR, AGARTALA, TRIPURA WEST | BVSc&AH/RAU/ 82 | 02/10/57 |
| 618 DIPANGSHU CHOWDHURY S/O SH. SACHINDRA MOHAN | TRIPURA/51/2 000 | THAKURPALLI ROÄD,KRISHNANAGAR (NR.SKY LARK CLUB) PO.AGARTALA,TRIPURA(| BVSc&AH/BCK VV/82 | 18/12/56 |
| 619 DIPTI RDY | WBSVC/2788/ 2000 | BLOCK 2/6 TYPE-III, PD LATBAGAN GOVT. HOUSE, BARRACKPORE, DT. 24 PRGS (N) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 620 Divyanshu Prakash, S/o Late Uttam Chandra Singh | BiharSVC/186 6/2000 | Vill.-Daulatpur,PO-Khanpur Mal,Thana-Sultanganj,Dist.- Bhagalpur,Pin-814113 | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 01/04/52 |
| 621 Diwakar Pd. Singh, S/o Late Ganga Pd. Singh | BiharSVC/159 1/2000 | Vill.+PD-Kutaut,Thana- Barbigha,Dist.- Shekhpura,Pin.-811101 | B.V. Sc. & A.H./MU/65 | 01/01/43 |
| 622 DIWAKARA REDDY P. S/O P. VENKATA RAMAN REDDY | APSVC/03599/ 2000 | PLDT ND. 86, SAINAGAR, MAMATHANAGAR, NAGOLE(P), R.R. DT.-500 068 | BVSc/APAU/77 | 01.01.53 |
| 623 DNYANESWAR KAMBLE S/D JDTIBA KAMBLE | KARNASVC/3 077 | JAKARALLI PDST, ATHANI TQ. BELGAUM DT. | BVSc&AH/UAS DHARWAR/99 | 20.07.76 |

| SLN. NO. | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|----------|---|------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 624 | DR. MUKESH KUMAR GAUR S/O LATE SRI CHAMAN LAL SHARMA | UPVC/3259 | SD-144, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD(U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 25.04.77 |
| 625 | DR. SANDEEP KUMAR SINGH S/O SRI R.P. SINGH | UPVC/3289 | 112, PRADEEP BHAWAN NAI BASTI, KHURJA, DIST. BULANDSHAHAR (U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 01.05.77 |
| 626 | Durga Ram, S/o Late Bhabhuti Ram | BiharSVC/110 6/2000 | M.-Koin Tola, PO+Thana-Betiah,Dist.-Betiah,Pin.-845438 | B.V.Sc.&A.H./R AU/75 | 12/01/50 |
| 627 | DURGA SINGH S/O SRI BHUPAL SINGH | UPVC/3216 | VILL-GHINGHRANA,PO-GDPESHWAR,DIST.CHAM OLI(U.P.) | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 12.03.72 |
| 628 | DUTTA BHUYAN DR.DWIPENDRA S/O LATE NARENDRA NATH | ASM/1893/200 0 | VILL.CHAMATA,PO.PACHI M,Dt.NALBARI,PIN-781306, CHAHATA | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 629 | DWIJENDRA DEB S/O LT. NAGENDRA DEBBARMA | TRIPURA/40/2 000 | JOYNAGAR (DESHAMIGHAT),P.O.AGA RTALA,TRIPURA(W) | BVSc&AH/BCK VV/80 | 10/03/55 |
| 630 | Elanchezhian.N | Pondi/87/2000 | 97,5th Cross,Kumaran Nagar,Lawspet,Pondicherry -8 | BVSc&AH/Mara wada Agil Uni/95 | 10.5.73 |
| 631 | ENGTIPI DR.(MS) HONGBARI D/O LATE HARSING ENGTI | ASM/1891/200 0 | C/O.TENZING ENGTI, RONGMILI DIPHU, KARBANGLONG, PIN 782460 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 632 | Fanindra Nath Dwivedi, S/o Late Badri Narayan Dwivedi | BiharSVC/164 9/2000 | Vill.-Kritpur Madiyan,PO+Thana-Harsidhi,Dist.-W.Champaran | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 07/06/46 |
| 633 | Fatehuzzma Md., S/o HakimAbdul Ali | BiharSVC/101 9/2000 | M.-New Colony,Milk Mohalla,PO-Ara,Thana-Town Thana,Dist.-Bhojpur,P.-802301 | B.V.Sc.&A.H./R AU/93 | 05/01/69 |
| 634 | PHANI SANKARA SREEKANTH K. S/O K. CHANDRASEKHAR RAO | APSVC/03660/ 2000 | 49-1-133, OPP: POWER HOUSE, GUNADALA, VIJAYAWADA | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 16.11.75 |
| 635 | G.KANDEEPAN | PONDI/134/20 01 | 24,KUDIERUPUPALAYA M,SELIAMEDU POST,PONDICHERRY-607402 | BVSc&AH/PU/2 000 | 22/08/77 |

| SNM | NAME | NUM | ADM | QUALIF | REG |
|-----|---|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 636 | G.YUAVARAJ | PONDI/133/20 01 | 190, CUDDALORE MAIN ROAD, MUTHALIARPET, P ONDICHERRY-605004 | BVSc&AH/PU/2 000 | 05/08/76 |
| 637 | GABBAR SINGH BISHT S/O LATE SH. D.S. BISHT | RAJSVC/2669/ 2000 | H.NO.171, BEH.IDGAH, KISHORPURA, KOTA- 324009. | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 01.06.74 |
| 638 | Gadadhar Pd. Singh, S/o Late Ram Singar Singh | BiharSVC/112 6/2000 | Vill.- Saidanpur, PO- Mandalbad, Thana- Patuha, Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 12/05/42 |
| 639 | GADE PRUTHVIRAJ LAXMAN | MSVC/6389/20 00 | AT POST BORIBEL(GADEWADI), TAL.DAUND, DIST.PUNE- 413801 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 05-07-78 |
| 640 | GADGE VIJAYKUMAR BHASKAKRRAO | MSVC/6306/20 00 | NEAR TELE. EXCHANGE OFFICE, SAWARKARPETH, ANJANGAON SURJI, | BVSc&AH/DR.P DKV/1999 | 02-07-76 |
| 641 | GADIYARAM KRISHNA MOHAN S/O SESHAPHANI | APSVC/03548/ 2000 | QR.NO. AE-28, 'B' COLONY, NEW PALANCHIA, KHAMMAM DT. 507 115. | BVSc&AH/ANG RAU/99 | 30.01.75 |
| 642 | GAGAN DEEP GUPTA S/O SH. SHAM LAL GUPTA | PB.SVC- 2246/2001 | H.NO.1895, SECTOR 22- B, CHANDIGARH | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 18.10.75 |
| 643 | GAGANDEEP SINGH S/O SH. BACHAN SINGH | PB.SVC- 2230/2001 | H.NO.2019, MOH.BAGWALA, GALI NO. 6, VPO.SHAHKOT, DIST. JALANDHAR | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 11.02.78 |
| 644 | GAHDAGE RANJITSINGH BALSO | MSVC/6340/20 00 | SHRADDA, AKOLA ROAD, AT POST SANGOLA, TAL. SANGOLA, DIST. | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 20-07-78 |
| 645 | GAIKWAD SANTOSH SITARAM | MSVC/6346/20 00 | VITHAI, MANIK NAGAR, NEAR PUNE ROAD, NEAR SHILPA APPARTMENT, AHMEDNA | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 20-07-77 |
| 646 | GAIKWAD VILAS TUKARAM | MSVC/6303//2 000 | AT PORGON, TAH. KHANDALAL DIST. SATARA- 412802 | BVSc&AH/KKV/ 1998 | 17-05-76 |
| 647 | GAJANAN ATHANI S/O GULLAPPA TAMMANNA ATHANI | KARNASVC/3 108 | ATHANI POST, ALAKNOOR, RAIBAGH TALUK, BELGAUM DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/98 | 01.08.69 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|------|---|------------------------|--|------------------------------|----------|
| 648 | Gajendra Pd. Roy, S/o Late Ramishwlok Roy | BiharSVC/144 1/2000 | Vill.-Bariyarpur,PO-Baghara,Thana-Shahpur,Factory,Dist.-Samastipur | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 09/07/48 |
| 649 | GAJRAJ GIRI S/O LATE SHRI R.R. GIRI | MPSVC/1879/ 00 | RAGHURAJ TULSI CHHAYA, SAIN MAINDIR ROAD, JARHA BHATA, BILASPUR 495115 | BVSc&AH/JNKV V/69 | 13.01.43 |
| 650 | GAKARE MADHURI UTTAMRAO | MSVC/6407/20 01 | PLOT NO. 221, W.NO.22, SUDAMPURI, WARDHA, DIST: WARDHA- 442001 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 06-09-77 |
| 651 | GALDHAR CHANDRAKANT NARAYANRAO | MSVC/6373/20 00 | C/O SAKHARAM KAKDE KIRANA MARCHANT, KAKDE WADA MALIGALLI, PARBHANI- | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 29-05-77 |
| 652 | Ganesh Kr. Jha, S/o Sri Bhola Nath Jha | BiharSVC/166 5/2000 | V.-Sikandarpur,PO-Mirjanhat,Thana-Majahipur,Dt.-Bhagalpur,P.- 800005 | B.V.Sc. & A.H./RAU/82 | 27/02/57 |
| 653 | GANESH KUMAR DUBEY S/O SHRI K.L. DUBEY | MPSVC/1900/ 00 | 7-AS.P./A-SECTOR, 9, BHILAI DISTT. DURG 490006 | BVSc&AH/JNKV V/87 | 02.09.62 |
| 654 | GANESH LAL NAYAK | RAJSVC/2661/ 2000 | 20, NAYAK COLONY, JHOTWARA, JAIPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./2000 | 06.12.70 |
| 655 | Ganesh Pd. Yadav, S/o Sri Maujilal Yadav | BiharSVC/159 4/2000 | Vill.-Bhalni,PO-Gangapur,Thana-Murliganj,Dist.-Madhepura,Pin.-852112 | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 18/07/49 |
| 656 | Ganesh Prasad Verma, S/o Late Bindeshwari Pd. Verma | BiharSVC/132 7/2000 | Moh.-Varsai Ghat,Thana-Varsai,Dist.-Katihar | B.V.Sc. & A.H./MU/71 | 16/06/45 |
| 657 | Ganga Naik S, S/o Shekya Naik | KARNASVC/3 165 | Roppadatti,Rajagondanaha II Post,Channagiri Taluk,Davangere Dist | BVSc/UAS,B'lor e/2000 | 18.6.75 |
| 658 | Gangadharaiyah H K,S/o Kamaiah | Karna/3202 | Hoysalakatte,Chikkanayaka nahalli Tq,Tumkur Dist | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 21.7.75 |
| 659 | Ganganand Jha, S/o Late Kumudanand Jha | BiharSVC/172 4/2000 | Vill.+PO-Mirdaul,Thana-Narpatganj,Dist.-Areria | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 17/05/47 |

| SNUM | NAME | RNUM | ABD | QUALIF | DOB |
|------|---|---------------------|--|---------------------------|----------|
| 660 | GANGU NAIDU S. S/O S. RAMU NAIDU | APSVC/03648 /74 | S.R. PETA (P), KOTANANDURU(M), EAST GODAVARI DT.- 533410 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 15.02.74 |
| 661 | GAURAV RATHORE S/O DR. B.S. RATHORE | UPVC/3283 | 146, JANAK PURI, IZATNAGAR, BAREILLY (U.P.)-243122 | BVSc&AH/GBP UA&T/91 | 23.06.69 |
| 662 | Gauri Shankar Prasad, S/o Late Bakhori Sah | BiharSVC/107 5/2000 | Vill.+PO-Guljarpur, Thana-Sahar,Dist.-Bhojpur, (Arrah) | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 10/01/48 |
| 663 | GAUTAM DAS GUPTA S/O SATYA RANJAN DAS GUPTA | TRIPURA/44/2 000 | ITI ROAD,P.O.INDRANAGAR, AGARTALA,TRIPURA WEST,PIN-799006 | BVSc&AH/BCK VV/79 | 09/01/59 |
| 664 | Gautam Prasad, S/o Late Triveni Prasad | BiharSVC/189 5/2000 | Vill.+PO-Singhia,Thana-Ramnagar,Dist.-Munger | B.V.Sc. & A.H./RAU/75 | 16/01/51 |
| 665 | Gaya Nand Singh, S/o Late Srinivas Singh | BiharSVC/102 0/2000 | Vill.+PO-Cidha,Thana-Koilwar,Dist.-Bhojpur (Arrah) | B.V.Sc.&A.H./M U/64 | 05/05/44 |
| 666 | GAYATHRI RAMANATHAN | PONDI/140/20 01 | 2,AGRAHAM STREET,BAHOUR, PONDI CHERRY-607402 | BVSc&AH/PU/2 000 | 04/02/78 |
| 667 | Geeta Malik,D/o Sh Om Prakash | HarSVC/1620 | H.No.219-Acre(PiliKO thi)Jawahar Nagar,Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/99 | 1.1.77 |
| 668 | GHADGE JAYESH PANACHAND | MSVC/6349/2 000 | AT DEGAON ROAD, AHIRE COLONY, MIDC, TAL.DIST. SATARA- 415004 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 16-05-78 |
| 669 | Ghanshyam Prasad, S/o Sri Rajendra Prasad | BiharSVC/134 0/2000 | Vill.+PO-Sonsa,Thana-Rahui,Dist.-Nalanda,Pin.- 803119 | B.V.Sc. & A.H./BAU/87 | 15/12/62 |
| 670 | GHEVAR SINGH | RAJSVC/2608 /2000 | RANA PRATAP BAZAR GUDAMALANI BARMER, RAJASTHAN | BVSc&AH/RAJ AGRI.UNIV./99 | 13.08.73 |
| 671 | GHOKE SURESH SAMADHAN | MSVC/6417/2 001 | ASLPHA GAON, N.S.S.ROAD, JAMBHALIPADA, GHATKOPER(W), | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 25-06-77 |

| SNUM NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|---|------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 672 GHURDE PRAVIN SHALIGRAMJI | MSVC/6305/20 00 | AT POST DARAPUR, TAL. DARYAPUR, DITT. AMRAVATI-444814 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 01-09-74 |
| 673 GIBA PRASAD SENGUPTA S/O LT. S.K.SENGUPTA | TRIPURA/5/20 00 | OPP.JUNIOR BASIC SCHOOL,ABHOYNAGAR,A GT.TRIPURA(W),PIN- 799005 | BVSc&AH/APA U/68 | 02/01/42 |
| 674 GIRENDRA KUMAR SINGH S/O SRI R.P. SINGH | UPVC/3269 | C/O LATE SRI R.P. SINGH (VAKIL) NEAR SBI CIVIL LINES, KOTCHERI ROAD,JAUNPUR | BVSc&AH/GBP UA&T/88 | 02.10.64 |
| 675 GIRI DR. SURENDRA S/O SRI NATHRUNI GIRI | ASM/1902/200 0 | VILL. & P.O. JAGIROAD, DIST. Morigaon, ASSAM, PIN-782410 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 676 Girija,C.R | Pondi/92/2000 | No.5,Sruthi,4th Cross,Natesan Ng, Pondicherry-605005 | BVSc&AH/Keral a Agril Uni/78 | 30.11.56 |
| 677 Girish Chandra Jha, S/o Sri Tarakant Jha | BiharSVC/155 1/2000 | Vill.+PO-Hariharpur,Thana- Kamtaul,Dist.-Darbhanga | B.V.Sc. & A.H./BAU/81 | 09/06/56 |
| 678 Girish Chandra Roy, S/o Late Dash Rath Roy | BiharSVC/116 0/2000 | Vill.-Ukai,PO- Manigadhi,Thana- Sarwan,Dist.-Deoghar,Pin- 814112 | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 01/01/43 |
| 680 GIRISH CHANDRA SHARMA | VCI/2251/00 | KANG MANSION BEHIND ALLAHABAD BANK WARD NO.18 SURALGARH(RAJASTHA | BVSc&AH/RAU/ 00 | 26/09/74 |
| 679 GIRISH CHANDRA SHARMA | RAJSVC/2689/ 2000 | KANG MANSION, BEHIND ALLAHABAD BANK,SURALGARH- 335804 | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 26.09.74 |
| 681 Girish Kumar Sinha, S/o Sri Sidheshwar Prasad Sinha | BiharSVC/204 8/2000 | Vill.+PO-Chewsa,Thana- Shekhpura,Dist.-Shekhpura | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 12/12/70 |
| 682 Girish Prasad, S/o Late Jagannath Prasad | BiharSVC/111 6/2000 | Vill.-Yogini,PO- Koath,Thana-Dawath,Dist.- Rohtas | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 18/08/42 |
| 683 GOGOI DR. (MS.)RUMI D/O LATE RABI RAM GOGOI | ASM/1906/200 0 | C/OMS.MANJU GOGOI,SEWALI PATH PRAGATI NAGAR,P.O.UDAYAN | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |

| SNOM | NAME | INUM | ADM | QUALIF | DOB |
|------|--|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 684 | GOGOI DR. DEEPOK S/O SRI MUNIN CH. GOGOI | ASM/1904/200 0 | TEPOR VILL., P.O. HAFULATING DIST. SIBSAGAR | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 685 | GOGOI OR. PRASHANNA S/O SRI BHUBAN CH. GOGOI | ASM/1912/200 0 | C/O SRI BHUBAN CH.GOGOI,VILL.KONWAR GAON,P.O.LAKHIMPUR,DI ST.NORTH LAKHIMPUR | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 686 | GOGOI DR.(Ms) SHYAMALIMA D/O SH.JAJNESWAR GOGOI | ASM/1941/200 1 | C/O J.GOGOI, N.N. BAROOAH LANE RUKMINIGAON, P.O. KHANAPARA, GUWAHATI- | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 687 | Gokula Nand Verma, S/o Late Ram Janki Prasad Verma | BiharSVC/191 7/2000 | Vill.-Shivnagar Bhandari,PO- Bhandari,Thana- Belsand,Dt.-Sitamarhi | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 21/06/43 |
| 688 | GOPAL B. S/O B. URUKUNDAPPA | APSVC/03673/ 2001 | VETY. ASST. SURGEON, VAJRAKARRU(M), ANANTAPUR-515812 | BVSc&AH/ANG RAU/89 | 05.06.66 |
| 689 | GOPAL KRISHAN AGGRWAL | RAJSVC/2666/ 2000 | B 260 B, S.NO.5, SETIA COLONY, SRIGANGA NAGAR -433 245 | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 17.07.73 |
| 690 | Gopal Krishan Gupta, S/o Late Ram Oas Sah | BiharSVC/107 2/2000 | Moh.-Dumuhan Path,PO+Thana- Manchurpur,Dist.-West Singhbhum | B.V.Sc.&A.H./R U/69 | 21/02/46 |
| 691 | GOPAL KRISHNA S/O SRI LAKHAN LAL JAISWAL | UPVC/3214 | C/O SRI L.L. JAISWAL, MO.-CHILBILA,POST- MADHOGANJ, DIST. PRATAPGARH | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 15.06.74 |
| 692 | Gopal Kumar Agarwal, S/o Sri Nagarmal Agrawal | BiharSVC/197 8/2000 | M-Kharangatar,PO+Thana- Telco,Dist.-East Singhbhum,Pin-831004 | B.V.Sc. & A.H./BAU/95 | 15/12/68 |
| 693 | Gopal Narayan Singh, S/o Late Din Dayal Singh | BiharSVC/134 5/2000 | Vill.-Piyam Kla,PO- Telari,Thana-Chenari,Dist.- Rohtas | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 04/02/44 |
| 694 | Gopal Pd. Shukla, S/o Late Nankhu Shukla | BiharSVC/128 2/2000 | Moh.-Tagore Hill Road,PO- Mora Badi,Thana- Bariyatu,Dist.-Ranchi | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 10/02/46 |
| 695 | Gopal Pd. Singh, S/o Late Ghoftan Singh | BiharSVC/179 9/2000 | Thana-Peerpainti,Dist.- Bhagalpur,Pin-813209 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 08/12/68 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 696 | Gopal Prasad, S/o Late Devi Mahto | BiharSVC/128 6/2000 | Vill.+PO-Bara Malva,Thana-Sarmera,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 19/11/47 |
| 697 | GOPAL RAM REGAR | RAJSVC/2635/ 2000 | NEAR GIRLS SCHOOL,UDAIPUR WATI,JHUNJHUNU. | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | |
| 698 | GOPAL SAMANTA | WBSVC/2825/ 2000 | VILL. & P.O. SAHAPUR, VIA KHUKURDAHA, DT. MIDNAPUR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 699 | Gopi Kant Jha, S/o Late Chandra Kumar Jha | BiharSVC/181 3/2000 | Vill.+PO- Rajaribabhangama,Thana- Bihariganj,Dist.-Madhepura | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 09/06/52 |
| 700 | GOPI KRISHNA BOHRA, S/O. SH. RADHA KRISHNA BOHRA | RAJSVC/2759/ 2001 | NAV. CHOWKIYA DAMJI VYAS KA CHOKE RAMDEO STREET JODHPUR | BVSc&AH/RU/6 0 | 16-10-31 |
| 701 | GOPINATH P. S/O P. SREERAMULU | APSVC/03666/ 2000 | D.NO.6/471-8 B1, RAMNAGAR, ANANTAPUR DT. | BVSc/APAU/76 | 16.10.50 |
| 702 | Gorakh Pd. Yadav, S/o Sri Matukdhari Pd. Yarav | BiharSVC/175 2/2000 | V.+PO-Belwa Bahuari,Thana- Gaunoha,Dt.-W. Champanar,Pin.-845455 | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 12/06/49 |
| 703 | GOSWAMI AVINASH RAMGIR | MSVC/6313/20 00 | AL LOHGAON, TAL. BIROLI, DIST. NANDED- 431732 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 05-02-78 |
| 704 | GOSWAMI SUNIL NARSINGHGORI | MSVC/6282/20 00 | DAHAPUTE BUILDING, AMBIKANAGAR, PARKLHA, DIST. YAVATMAL- 445202 | BVSc&AH/PKV/ 92 | 17-06-69 |
| 705 | GOVIND YADAV | RAJSVC/2676/ 2000 | V.P. MELKHRI,DIST. BARAN | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 01.07.72 |
| 706 | Govinda Menon R, S/o Late T Rangaiah | KARNASVC/3 134 | C/o T K Ningappa,Seguriah Street, Tarikere,Chikkamagalore | BVSc/UAS,B'lor e/83 | 1.8.59 |
| 707 | GOVINDRAM MEGWAL | RAJSVC/2629/ 2000 | V.P.JHAJHU TEH. KOLAYAT,BIKANER | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 03.12.74 |

| STUDY NAME | REGN | ADD | QUALIF | DOB |
|--|---------------------|--|--------------------------|----------|
| 708 Gowda B L, S/o Bhoothaiah | Karna/3192 | Thovinekere,Koratagere Tq, Tumkur Dist | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 20.4.77 |
| 709 Greesha C M,S/o Sh Mokshanathaiah C | Karna/3196 | Giresha C M,Chithana Nilaya,Gopalpura,Extn,Hiriyur Post Chitradurga | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 5.5.76 |
| 710 Grenburgh Hynniewta | Megh/164/01 | Madan Laban, Shillong | BVSc&AH/OUA &T/97 | 30.7.72 |
| 711 Gulab Chand Bhagat, S/o Late Sukh Lal Bhagat | BiharSVC/910/2000 | Vill.+PO+Thana-Borhanwa,Dist.-Sahebganj,Pin-816101 | B.V.Sc.&A.H./B AU/82 | 06/05/57 |
| 712 Gulab Chand, S/o Sri Ram Pd. Sah | BiharSVC/162 8/2000 | V.-East Ajimganj,PO+Thana-Haveli Khozajpur,Dist.-Mungher,Pin.-811213 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 05/01/74 |
| 713 Gunanand Prasad Singh, S/o Sri Krishna Mohan Singh | BiharSVC/194 9/2000 | V.+PO+Thana-Bhapatiyahi Bazar,Dist.-Supaul,Pin-852105 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 09/05/70 |
| 714 GUNJAN DAS S/O SUBASH CH. DAS | TRIPURA/98/2 000 | RABINDRAPALLI, GOVT.Q TR.NO.- 17/IV,AGARTALA,TRIPUR A WEST | BVSc&AH/AAU/ 99 | 04/02/75 |
| 715 Guntur Butchiah | Pondi/82/2000 | B- 4, Govt.Quarters,Lawspet,Pondicherry-8 | BVSc/APAU/69 | 1.7.46 |
| 716 GURNAM SINGH GILL S/O SH. PAL SINGH GILL | PB.SVC- 2010/2000 | 88, SBS COLONY RAJPURA, 140401, PUNJAB | BVSc&AH/PAU/ 1998 | 15.12.75 |
| 717 GURPREET SINGH S/O SH. BALBIR SINGH | PB.SVC- 2211/2000 | H.NO.98, ST. NO. 3, NEAR BUS STAND, SHARIFPURA, AMRITSAR. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 29.10.76 |
| 718 GURPREET SINGH S/O SH. PREM SINGH | PB.SVC- 2251/2001 | M/S JIWAN SINGH KARNAIL SINGH, CLOTH MERCHANTS, MAIN BAZAR, KHANNA - | BVSc&AH/PAU/ 2001 | 08.06.76 |
| 719 GURUMURTHY N M S/O MANJUNATHA NR | KARNASVC/3 103 | 6TH CROSS ADARSHA NAGAR, HASSAN. | BVSc/UAS B'LORE/99 | 10.02.76 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|---|------------------------|--|-----------------------------|----------|
| 720 | GURUNG DR. (MS) MEENA D/O SHRI CHANDRA BD. GURUNG | ASM/1905/200 0 | D/O C.B. GURUNG,P.O. PASIGHAT DIST. EAST EANG, ARUNACHAL PRADESH PIN-791102 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 721 | GURUVA REDDY P. S/O P. BALI REDDY | APSV/03677/ 2001 | VETY. ASST. SURGEON, VETY. DISPENSARY, PIDUR, MANUBOLU(M), NELLORE DT. | BVSc&AH/APA U/93 | 16.04.68 |
| 722 | GURVINDER SINGH S/O SH. MILKHA SINGH | PB.SVC- 2227/2001 | H.NO.239, FOUR ROOM SET, HOUSING BOARD COLONY, FEROZEPUR CITY | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 04.09.78 |
| 723 | Gyan Prakash Srivastava, S/o Late Ram Bahadur Lal | BiharSVC/183 6/2000 | Vill.-Japlinganj, (Naya Chowk),PO+Dist.- Baliva,Thana-Kotwali | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 03/09/42 |
| 724 | Gyandra Kumar Srivastava, S/o Late Ramdeo Prasad | BiharSVC/152 1/2000 | Vill.+PO-Manik Chowk,Thana-Runni Saipur,Dist.-Sitamadhi | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 22/08/45 |
| 725 | Gyandra Sharma, S/o Late Pyare Lal Sharma | BiharSVC/108 6/2000 | Vill.-Fagiraganj,PO- Kanth,Thana-Kanth,Dist.- Muradabad,Pin-244001 | B.V.Sc.&A.H./G BPA&TU/93 | 25/03/68 |
| 726 | H.N.Verma, S/o Sri Mahendra Verma | BiharSVC/129 4/2000 | Moh.-Janta Road,New Yarpur,PO-GPO,Thana- Gardanibagh,Patna-800001 | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 01/10/44 |
| 727 | Halbar Roy, S/o Late Ram Bhavan Roy | BiharSVC/144 0/2000 | Vill.+PO-Chilhari,Thana- Dumranw,Dist.-Buxar | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 12/02/44 |
| 728 | HANDE AMOL DATATRAYA | MSVC/6388/20 00 | NIGOTWADI, COLONY MANCHAR, TAL.AMBEGAON, DIST.PUNE- 410503 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 19-06-78 |
| 729 | HANDE PRASHANT, S/O. SH. MAHADEORAO B HANDE | RAJSVC/2749/ 2001 | 1/C GOVT. VET. HOSPITAL, VIA-DEGNA, DIST - NAGOUR | BVSc&AH/PKV/ 94 | 09-11-71 |
| 730 | Hanuman Prasad Verma, S/o Late Dangarmal Verma | BiharSVC/146 3/2000 | M.-Kalpana Cinema Road,PO+Thana- Kahalgaon,Dist.- Bhagalpur,Pin.-813203 | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 01/01/50 |
| 731 | Haobijam Mangoljao Singh | Mani/369/00 | Thanga Chingkha Leikai | BVSc&AH/AAU/ 00 | 1.3.74 |

| SLIM NAME | REGN | ADD | QUALIF | DOB |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|----------|
| 732 Hardeo Singh, S/o Late Sita Ram Singh | BiharSVC/111 3/2000 | Vill.+PO-Mahuli,Thana-Arrah Field,Dist.-Bhojpur | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 28/06/44 |
| 733 HARENDRA PRAKASH S/O SRI S.P. CHAURASIA | UPVC/3198 | C/O DR.S.P. CHAURASIA,5/1308,T.A. COLONY, PANTNAGAR DISTT, U.S. NAGAR (U.P) | BVSc&AH/GBP UA&T/91 | 20.06.68 |
| 734 Harendra Roy, S/o Sri Kunj Bihari Roy | BiharSVC/143 3/2000 | Vill.+PO-Sasamusa,Thana-Kuchaikat,Dist.-Gopalganj | B.V.Sc. & A.H./GBPUA&T/ 84 | 01/03/63 |
| 735 HARI BABU S. S/O S. CHANDRASEKHAR REDDY | AP SVC/03617/ 2000 | TIRUPATI ROAD, PACHIKAPALEM, CHITTOR DT.-512569 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 06.03.77 |
| 736 HARI BABU Y S/O Y MUNI RAMAIAH | KARNASVC/3 212 | ASSOCIATE PROF. DEPT OF VETY. MICROBIOLOGY VETY. COLLEGE BIDAR | BVSc&AH/AP. AGRI. U.HYD./74 | 20.06.52 |
| 737 Hari Shankar Jha, S/o Sri Mukund Jha | BiharSVC/915/ 2000 | Moh-Dumariya,PO-Chapri,Thana-Thakur Gangh, Dist.-Godda | B.V.Sc.&A.H./R AU/91 | 21/01/65 |
| 738 Hari Shankar Kumar, S/o Sri Chandra Narayan Jaiswal | BiharSVC/195 9/2000 | Vill+PO-Daulatpur,Thana-Raghopur,Dist.-Supaul,Pin-852215 | B.V.Sc. & A.H./RAU/99 | 15/07/75 |
| 739 HARIBHAN SINGH BHADORIA S/O SHRI M.S. BHADORIA | MPSVC/1925/ 01 | F-93/11, TULSI NAGAR, BHOPAL-462023 | BVSc&AH/JNKV V/79-80 | 20.07.59 |
| 740 Harihar Prasad Choudhary, S/o Sri Ram Chalitar Choudhary | BiharSVC/158 4/2000 | Moh.-Anandpuri,PO-Harmu Hou.Colony,Thana-Argora,Dist.-Ranchi,Pin-240137 | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 26/12/42 |
| 741 Harihar Prasad Singh, S/o Late Vishum Pd. Singh | BiharSVC/134 4/2000 | Vill.-Jeervaknanda, PO-Chiksaura,Thana-Hilsa,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 16/12/45 |
| 742 Harihar Prasad Singh, S/o Sri Kamta Prasad Singh | BiharSVC/193 4/2000 | Vill.+PO-Barhan, Thana-Kargahar,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 21/05/45 |
| 743 Harihar Prasad, S/o Sri Ram Sagar Sah | BiharSVC/113 0/2000 | Vill.-Sahubasa,PO-Sorkanda,Thana-Ishipur,Barahat,Bhagalpur-813209 | B.V.Sc.&A.H./B AU/92 | 10/01/66 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-----|---|---------------------|---|-----------------------|----------|
| 744 | HARIHARAN A.K. | KERALASVC/2512/2000 | EDAPPARA HOUSE, KARATTUPALLIKARA, PERUMBAVOOR, ERNAKULAM-42. | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 04.03.71 |
| 745 | HARIKUMAR M | KERALASVC/2503/2000 | SREE BHAVAN, PUTHENCRUZ ERNAKULAM PIN-682308 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 20.05.76 |
| 746 | Harinandan Pandey, S/o Late Ramchandrama Pandey | BiharSVC/122 4/2000 | Vill.-Kharj,PO+Thana-Surajpura,Dist.-Rohtas,Pin.-802221 | B.V.Sc.&A.H./R U/70 | 01/02/46 |
| 747 | HARIPRASAD SHUKLA S/O SHRI P.D. SHUKLA | MPSVC/1892/00 | BLOCK COLONY, PALLY DISTT. UMARIYA-484551 | BVSc&AH/JNKV V/92-93 | 27.09.71 |
| 748 | HARISH B.T. S/O B. RAMANAYAK | KARNASVC/3 079 | BALUR, KAGINAHALLI POST, SHIKARIPUR TQ. SHIVAMOGA DT. | BVSc/UAS B'LORE/97 | 12.05.75 |
| 749 | Harish Kumar Vashisth S/o Mukand Lal Vashisth | HarSVC/1661 | VPO Garhi, T. Hansi, Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 23.11.77 |
| 750 | Harishchandra, S/o Late Ramjanam Singh | BiharSVC/120 8/2000 | Vill.-Khoraitha,PO+Thana-Vikram,Dist.-Patna,Pin.-800114 | B.V.Sc.&A.H./R AU/72 | 20/01/50 |
| 751 | Harnandan Sah, S/o Sri Ganeshi Sah | BiharSVC/179 0/2000 | Vill.+PO-Raksa,Thana-Karja,Dist.-Muzafferpur | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 12/08/46 |
| 752 | HATLE KETKI MADHUSUDAN | MSVC/6422/20 01 | 201/6-A MADHU MILAN, GOVANDI STATION ROAD, GOVANDI(E), MUMBAI-400088 | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 01-05-78 |
| 753 | Heera Rajak, S/o Late Ramdhari Rajak | BiharSVC/180 3/2000 | Vill.-Paithana,PO-Bhagan Bigha,Thana-Rohui,Dist.-Nalanda,Pin-803118 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 16/11/72 |
| 754 | Hemant Kr. Verma, S/o Late Dwarka Pd. Verma | BiharSVC/172 3/2000 | Vill.-Mauna,PO-Chapra,Thana-Sadar,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 25/02/47 |
| 755 | Hemant Kumar Pandey, S/o Dr.S.N.Pandey | BiharSVC/195 2/2000 | Vill.+PO+Thana-Pandeypatti,Dist.-Buxar | B.V.Sc. & A.H./BAU/97 | 10/12/69 |

| SLN. NO. | NAME | INSTITUTION | ADDRESS | QUALIFICATION | DOB |
|----------|---|---------------------|---|-------------------------------|----------|
| 756 | Hemant Victor Shaw, S/o Late Godwill Shaw | BiharSVC/921/ 2000 | Moh.-Bhadhraghat,PO-Cullerbagh,Thana-Alamganj, Dist.-Patna,Pin-800007 | B.V.Sc.&A.H./R AU/88 | 22/07/62 |
| 757 | HEMENDRA KUMAR SHARMA | RAJSVC/2656/ 2000 | NEAR KHADI BHANDAR,BHUSAWAR,B HARATPUR-321406 | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./2000 | 10.11.75 |
| 758 | Hemnarayan Singh, S/o Late Hansnath Singh | BiharSVC/142 8/2000 | Vill.-Benaut,PO-Sarenw,Thana-Ragulpur,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 15/07/48 |
| 759 | HILAL MUSADIQ KHAN | RAJSVC/2609/ 2000 | S/O REHMATTULLAH KHAN, SOPORE, SRINAGAR, J & K. | BVSc&AH/SKU AST/94 | 07.03.70 |
| 760 | HIMADARI PEGU YADAV W/O DR. SANJAY KUMAR | UPVC/3302 | VILL.-BANKESHER,PO-ISMIL GUNJ, DIST.ALLAHABAD (U.P.) | BVSc&AH/ASS AM AGRI. UNIV./95 | 01.03.68 |
| 761 | Himanshu Kr. Soni, S/o Late Mahesh Pd. Soni | BiharSVC/122 0/2000 | M.-Choti Badalpura,PO+Thana-Thana Road Khagaul,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./R AU/82 | 01/02/57 |
| 762 | HIMANSHU S/O SH. TILAK RAJ GUPTA | PB.SVC- 2237/2001 | ABINANDAN SARNA CANAL, P/O MALIKPUR, TEHSIL PATHANKOT. | BVSc&AH/PAU/ 99 | 19.03.77 |
| 763 | HIRAK BISWAS | WBSVC/2808/ 2000 | B/I, 7/1/2, JYANGRA RABINDRAPALLY, P.O. BAGUIATI DT. 24 PRGS(N0 | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 764 | Hirak Kumar Mukhopadhyay | Pondi/89/2000 | 11,Second Street,Kailash Nagar,Lawspet,Pondicherry -8 | BVSc&AH/BCK VV/88 | 3.1.66 |
| 765 | HORAKERAPPA S. S/O SESHANNA | KARNASVC/3 115 | C/O HENJERAPPA,SKH SCHL.CHANNAMMA,MEG ATIHALLI PT,CHALLAKERE | BVSc&AH/UAS DHARWAD/99 | 22.02.73 |
| 766 | Hridayshankar Sinha, S/o Late Shankar Dayal Sinha | BiharSVC/108 9/2000 | M.-Yamuna Aptt.,F.No.1,Thana-Godda Town,PO-Kankey Road,Ranchi-834008 | B.V.Sc.&A.H./R U/67 | 27/10/43 |
| 767 | Hukum Chand,S/o Sh Roop Chand | HarSVC/1638 | VPO Ballah T Ásandh (KNL) | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 12.4.75 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|---|------------------------|--|--------------------------|----------|
| 768 | HUSSAIN DR. MUSTAFA MORTEZA S/O MD. MORTEZA | ASM/1925/200 0 | MITHAPUKHURI ROAD, JORHAT, ASSAM, PIN- 785001 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 769 | Ibanylla Daimon Slong | Megh/170/01 | Laitumkhrah, Shillong | BVSc&AH/AAU/ 2000 | 9.11.76 |
| 770 | ILA PANDE D/O LATE MAJOR T.C. PANDE | UPVC/3275 | C/O MRS. GIRIJA PANDE TARA BHAWAN RAMNAGAR, NAINITAL | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 18.03.76 |
| 771 | ILango I | Pondi/85/2000 | 1,13th Cross, Avvai Nagar, Lawspet, Pondicherry -8 | BVSc/TNUASU/ 2000 | 28.2.76 |
| 772 | IMLIDANGIT S/O MERENZUNGBA | NSVC/62/98 | C/O S. ATULA, DIRECTORATE OF SOIL & WATER CONSERVATION, | BVSc&AH/DR. PDKV/97 | 27.10.69 |
| 773 | IMMANARO JAMIR D/O TAKUSANGBA JAMIR | NSVC/80/98 | A.P.O. VETERINARY HOSPITAL, KOHIMA, NAGALAND | BVSc&AH/DR. PDKV/98 | 7.3.73 |
| 774 | Indradeo Pd. Sharma, S/o Late Ramdeo Pd. Singh | BiharSVC/183 3/2000 | Vill.-Manikpur, PO-Saraiya Factory, Thana- Saraiya, Dist.- Muzafferpur, Pin-84312 | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 24/12/39 |
| 775 | Indrajeet Prasad Sharma, S/o Late Keshwar Prasad | BiharSVC/191 9/2000 | Vill.+PO+Thana- Baurdih, Dist.- Deoriya, State-U.P. | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 01/05/43 |
| 776 | INDRANI MANDAL | WBSVC/2801/ 2000 | D-II/21, J.C. BOSE RD, DURGAPUR-713205 | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 777 | Indu Shekhar, S/o Seema Mandir Roy | BiharSVC/126 1/2000 | Vill.-Senduar, PO- Dayalpur, Thana-Janta Bazar, Dist.-Chapra, Pin- 841206 | B.V.Sc.&A.H./R AU/86 | 05/11/62 |
| 778 | INDULKAR ROSHMI BHARMU | MSVC/6344/2 000 | MODA BUILDING 1-A, 105, PRATIKSHA NAGAR, SION, MUMBAI- 400022 | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 26-06-77 |
| 779 | INGAWALE MAHESHKUMAR VITTHALRAO | MSVC/6345/2 000 | AT POST MEDISHINGAI, TAL. SANGOLA, DIST, SOLAPUR-413307 | BVSc&AH/MPK V/1999 | 20-12-76 |

| SL. NO. | NAME | REGN. NO. | ADD | QUALIF | DOB |
|---------|---|-------------------------|--|--------------------------|----------|
| 780 | INGOLE RANJIT SURESH | MSVC/6364/20 00 | PASAYDAN, PLOT NO. 2, YEOTMAL, DIST. YEOTMAL-445001 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 12-04-77 |
| 781 | Intekhab Akhtar, S/o Prof.Menhadi Akhtar | BiharSVC/154 4/2000 | Vill.+PO+Thana- Tatarpur,Dist.- Bhagalpur,Pin.-812002 | B.V.Sc. & A.H./RAU/93 | 14/02/70 |
| 782 | ITWALE VIJAY ANANDRAO | MSVC/6367/20 00 | C/O A.G.ITWALE,RURAL HOSPITAL, ARJUNI MORGON, TAL.ARJUNI MOR,GONDIA441701 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 13-10-76 |
| 783 | J.BALAMURUGAN | PONDI/135/20 01 | 42,HEALTH CLONY,DIWAN KANDAPPA NAGAR,NAINAMANDABA | BVSc&AH/PU/2 000 | 08/04/78 |
| 784 | J.SANTHY | PONDI/128/20 01 | 16,CUDDALORE ROAD,TOLGATE,ARIYANK UPPA P.O.,PONDICHERRY- | BVSc&AH/PU/9 9 | 01/09/76 |
| 785 | JABINA,MARTHA PHILIP | KERALASVC/ 2454/2000 | VALLIYAMTHADATHIL HS.,NR.URUMBIL BRIDGE,KANGIRAMATTO M | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 08.10.73 |
| 786 | JADHAV SACHIN SADASHIV | MSVC/6320/20 00 | AT POST PARE, TAL. KHANPUR, DIST. SANGLI- 415311 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 07-10-77 |
| 787 | Jaganath Jha Basant, S/o Late Vishwanath Jha | BiharSVC/129 7/2000 | Vill.-Kurso,PO-Kurso Narivami,Thana- Sakalpur,Dist.-Darbhanga | B.V.Sc. & A.H./RAU/75 | 02/07/51 |
| 788 | JAGANNADHA RAO M. S/O M. SAMBASIVA RAO | APSVC/03572/ 2000 | IC: 163,ERRAMANZIL COLONY,ERRAMANZIL, HYDERABD-500082 | BVSc&AH/APA U/96 | 18.08.71 |
| 789 | JAGANNATH BANIK S/O SH.RABINDRA KR.BANIK | TRIPURA/86/2 000 | PO&VILL- MAHESHPUR,PS- JATRAPUR SONAMURA, TRIPURA WEST | BVSc&AH/AAU/ 92 | 23/01/67 |
| 790 | Jagar Nath Uranw,S/o Sri Sukra Uranw | BiharSVC/169 9/2000 | M.-Patra Toli Kanke,PO- R.V.C.,Thana-Kanke,Dist.- Ranchi,Pin.-834007 | B.V.Sc. & A.H./BAU/86 | 19/05/60 |
| 791 | Jagat Narayan Choudhary, S/o Late Chanand Choudhary | BiharSVC/102 6/2000 | M-New Kunwar Singh Colony,PO- DMCH,Laheriasari,Th.- Bela,Dt.-Darbhanga | B.V.Sc.&A.H./R AU/78 | 02/02/54 |

| SNM | NAME | RMUM | ADD | QUALF | DOB |
|------------|---|------------------------|---|--------------------------------|------------|
| 792 | Jagat Prasad, S/o Sri Asharfi Prasad | BiharSVC/158 5/2000 | Vill.-Dhokroha,PO+Thana- Ramnagar,Dist.- W.Champaran,Pin.-845106 | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 25/01/56 |
| 793 | JAGBIR SINGH | RAJSVC/2607/ 2000 | I/C GOVT. VETERINARY HOSPITAL SANKHFORT, CHURU | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 17.11.69 |
| 794 | JAGDALE RAVIKANT BABURAO | MSVC/6385/20 00 | AT JADHAWADI, POST BIJAWADI, TAL.MAN, DIST.SATARA- 415508 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 01-12-77 |
| 795 | JAGDALE SURESH DATTATRYA | MSVC/6419/20 01 | AT PACHWAD, POST BIJAWADI, TAL. MAN, DIST. SATARA- 415508 | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 17-04-77 |
| 796 | JAGDEEP SINGH S/O SH. BALWINDER SINGH | PB.SVC- 2018/2000 | VILL. KUTHA KHERI, P/O HARPALPUR, TEHSIL RAJPURA, DISTRICT PATIALA, PUNJAB | BVSc&AH/PAU/ 1998 | 22.08.73 |
| 797 | JAGDISH CHANDAR JEENGAR | RAJSVC/2679/ 2000 | S/O SH. RAMPAL JEENGAR,P.O. MAHAGROP,VIA HAMIRGARH,DIST. 0 | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 | 08.12.72 |
| 798 | Jagdish Chander,S/o Sh Bhagat Ram | HarSVC/1643 | c/O B.R. Sheela VPO Umedpura Dt-Sirsia | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 10.3.77 |
| 799 | Jagdish Sharma, S/o Late Kumar Singh | BiharSVC/990/ 2000 | Vill.-Muraura,PO- Muraura,Thana- Biharsharif,Dist.-Nalanda. | B.V.Sc.&A.H./R U/67 | 01/01/45 |
| 800 | Jagdish,S/o Sh D.R. Sukhija | HarSVC/1646 | H.No.1135 Sec 6, U.E. Karnal | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 9.10.76 |
| 801 | Jageshwar Lal, S/o Sri Shashi Kant Lal Das | BiharSVC/156 7/2000 | Vill.-Belahi,PO- Lohar,Thana-Pandaul,Dist.- Madhubani,Pin.-847231 | B.V.Sc. & A.H./RAU/80 | 03/09/57 |
| 802 | JAGJEEWAN RAM S/O SH.(LATE) VEER CHAND | RAJSVC/2711/ 2000 | V.P. BALARWA,TEH. OSIAN, DIST. JODHPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 | 13.07.71 |
| 803 | JAGJIT SINGH S/O SH. GULZAR SINGH | PB.SVC- 2183/2000 | 353, TILAK NAGAR, AMRITSAR | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 15.03.74 |

| STUDY NAME | DEPT | ADD | QUALIF |
|---|------------------------|--|---|
| 804 Jagmohan Jha, S/o Late Shaktinath Jha | BiharSVC/100 8/2000 | V.+PO-Borharwa Siwan, Thana-Djala,Dist.- Motihari(E.Champaran) | B.V.Sc.&A.H./M U/70 24/04/49 |
| 805 Jagmohan Prasad, S/o Late Bhan Prakash | BiharSVC/123 4/2000 | Vill.-Pobi,PO+Thana-Jamua,Dist.-Giridih | B.V.Sc.&A.H./R AU/71 07/05/47 |
| 806 JAGMOHAN SINGH S/O SH. DIAL SINGH | PB.SVC- 2176/2000 | RAM NAGAR, AJNALA, DISTRICT AMRITSAR | BVSc&AH/PAU/ 2000 13.08.74 |
| 807 Jagmuni Tiwari, S/o Late Gajadhar Tiwari | BiharSVC/100 5/2000 | Vill.-Khairamudhar,PO-Natwar,Thana-Bikramganj,Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./R U/68 05/07/47 |
| 808 Jagannath Baitha, S/o Sri Sukhavam Baitha | BiharSVC/180 5/2000 | Vill.-Kushiyari,PO-Karua(Pusa),Thana-Chakmehasi,Dist.-Samastipur,Pin-848125 | B.V.Sc. & A.H./RAU/88 13/03/59 |
| 809 Jagannath Prasad, S/o Late Mahadeo Raut | BiharSVC/205 7/2000 | M-Ranchi Vet.College Campus,PO-R.V.C.,Thana-Kanke,Dt.-Ranchi | B.V.Sc. & A.H./PU/61 01/06/38 |
| 810 Jagram Prasad Soman, S/o Sri Bharat Ram | BiharSVC/201 3/2000 | Vill+PO-Awajpur,Thana-Dhanapur,Dist.-Varanasi,Pin-232108 | B.V.Sc. & A.H./GBPUAT/6 6 30/07/42 |
| 811 Jagriti Prasad Singh, S/o Late Surendra Narayan Singh | BiharSVC/106 8/2000 | Vill.+PO-Badhauniya,Thana-Sangrampur,Dist.-Mungher | B.V.Sc.&A.H./R AU/82 20/01/59 |
| 812 Jahanara Yasmeen | A&NSVC/81/2 000 | R/o Haddo Port Blair,Andamans,C/o Mohd Pervaiz Sr.Manager,ANIIDCO,Pot | BVSc/TMV&AS U/2000 12.9.74 |
| 813 JAI PRAKASH MEHARDA | RAJSVC/2628/ 2000 | WARD NO.7,MEENO KA MOHALLA,SHRI MADHOPUR,SIKAR,RAJA STHAN | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 30.10.75 |
| 814 JAISWAL SHAILENDRA S/O JAISWAL BABULAL | APSVC/03546/ 2000 | C/O MR. SHANKARLAL JAISWAL,H.NO.3-6- 823/A/7,DATTANAGAR,NA RAYANGUDA,H'BAD-29 | BVSc&AH/MAR ATHWADA AG.U./89 26.02.67 |
| 815 Jalaluddin Ahmed, S/o Late Maddique | BiharSVC/147 5/2000 | Moh.-Salapati Ganj,Gudri Bazar,PO+Thana+Dist.- Chapra (Saran) | B.V.Sc. & A.H./RU/66 10/03/43 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|--------------------------|---|--------------------------|----------|
| 816 | Jamaluddin, S/o Md. Abdul Shakur | BiharSVC/183 9/2000 | V.-Darji Mohalla Khirgaon,PO+Thana+Dist.- Hazaribag,Pin-825301 | B.V.Sc. & A.H./RAU/92 | 01/03/66 |
| 817 | JAMBHULA DILIP PATRUJI | MSVC/6302/20 00 | KUKADHARI, POST KALYANGAON, (GANNA), TAL. SINODHEWAHI, DISTT. CHANDRAPUR | BVSc&AH/OR.P DKV/2000 | 30-05-71 |
| 818 | Jameel Ahmad, S/o Late Abdul Hamid Ansari | BiharSVC/188 6/2000 | Vill.-Karbla,PO+Thana- Fulwanisharif,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 10/06/46 |
| 819 | JANAKAWADE KAMAJEE BANDERAO | MSVC/6348/20 00 | AT NANOUSHA, POST NANDUSA, TAL. NANOED, DIST. NANDED- 431704 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 01-06-77 |
| 820 | JANARCAN MAURYA S/O SH. RAGHUNATH MAURYA | RAJSVC/2719/ 2000 | I/C GOVT. VET.HOSPITAL,BAYTU, BARMER | BVSc&AH/CSA KEPVV/99 | 15.06.69 |
| 821 | JASBIR SINGH S/O SH. NARWANT SINGH | PB.SVC- 2228/2001 | B-278, RANJIT AVENUE, AMRITSAR | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 25.05.78 |
| 822 | JASJEET JOSAN | VCI/2250/00 | 20-A BHAWANI KUNJ, D-II VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070 | BVSc&AH/CCS HAU/94 | 25/07/71 |
| 823 | JASMIN DEB BARMA MISS. D/O LT.RAJENDRA | TRIPURA/96/2 000 | C/O BISHU DEB BARMA,PRATAP ROY ROAD,AGARTALA,KRISH NANAGAR | BVSc&AH/OUA T/99 | 27/12/75 |
| 824 | JASPAL SINGH HUNDAL S/O SH. BALDEV SINGH | PB. SVC/2231/200 1 | VPO.SAROBAOH, VIA ADAMPUR, DIST.- JALANDHAR | BVSc&AH/PAU/ 1999 | 15.10.75 |
| 825 | JASPREET KAUR O/O SH. PIARA SINGH | PB.SVC- 2249/2001 | H.NO. 22009, STREET NO. 12/1, POWER HOUSE ROAO, BATHINDA | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 09.01.77 |
| 826 | JASTIN DHIRAVIYAM S. | KERALASVC/ 2443/2000 | 7-32B, SAIRAM BUILDINGS,S.R.K.NAGAR, OTTAPALAM,PALAKKAD DIST. | BVSc/TNV&AS U/91 | 03.05.67 |
| 827 | JASWINDER KAUR D/O SH. HARMOHINOER SINGH | PB.SVC- 2214/2000 | 29-A, HIRA NAGAR, PATIALA-147001 | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 28.04.77 |

| STUDY NAME | DEPT | ADD | QUALIF | DATE |
|---|---------------------|---|-----------------------|----------|
| 828 Jawahar Lal Singh, S/o Late Rama Singh | BiharSVC/129 6/2000 | Vill.-Khaliariya,PO-Gohaya,Thana-Bikramganj,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RAU/80 | 12/02/57 |
| 829 Jawahar Lal,S/o Late Bachchu Lal | BiharSVC/112 2/2000 | Vill.-Jankinagar,PO-Nauwagadhi,Thana-Mungerh,Dist.-Mungerh | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 01/01/46 |
| 830 Jawahar Pd. Singh, S/o Late Chavinath Singh | BiharSVC/983/ 2000 | Vill.-Bavandih,PO-Chitankhar,Thana-Nasriganj,Dist.-Tohtas | B.V.Sc.&A.H./R AU/78 | 10/12/53 |
| 831 JAWLE MAHESH RAVINDRA | MSVC/6382/20 00 | KANSHUBH, AT POST ANGAON, TAL. BHIWANDI, DIST. THANE-421302 | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 22-04-78 |
| 832 Jay Govind Ram, S/o Late Ramdhari Ram | BiharSVC/115 6/2000 | V.-Rampur Bhikhanpura,PO-Basantpur,Thana-Sahebganj,Dist.- | B.V.Sc.&A.H./R AU/77 | 09/09/48 |
| 833 Jay Govind Singh, S/o Late Surajvarish Singh | BiharSVC/170 3/2000 | Vill.-Anayedh,PO+Thana-Nawada,Dist.-Bjojpur | B.V.Sc. & A.H./PU/61 | 20/01/39 |
| 834 Jay Prakash Mahto, S/o Sri Bhim Mahto | BiharSVC/106 1/2000 | Vill.-Oakeriya,PO- Karkaghpat, Thana-Pathargama,Dist.-Godda | B.V.Sc.&A.H./R AU/89 | 21/02/59 |
| 835 Jay Prakash Narayan S/o Sh. Bihari Sharan Singh | BiharSVC/128 0/2000 | Vill.-Gaurabnagar,PO-Gaurabnagar,Thana-Parbalpur,Dist.-Nalanda,Pin-803114 | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 | 08/09/60 |
| 836 Jay Prakash Narayan, S/o Late Ramesh Prasad Singh | BiharSVC/143 0/2000 | Vill.-Indupur,PO+Thana-Barahia,Dist.-Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./RAU/73 | 13/01/53 |
| 837 Jay Prakash Narayan, S/o Sri Veeran Cop | BiharSVC/117 0/2000 | Vill.-Bacha,PO+Thana-Sahidayanagar,Dist.- Begusarai,Pin.-851218 | B.V.Sc.&A.H./R AU/82 | 25/01/61 |
| 838 Jay Prakash Thakur, S/o Sri Surya Nand Thakur | BiharSVC/150 7/2000 | Vill.-Bhallu,PO-Sukhari,Thana-Maherma,Dist.-Godda | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 01/01/54 |
| 839 Jay Prasad Bhagat, S/o Sri Bindeshwari Bhagat | BiharSVC/154 1/2000 | Vill.-Gamharia Bazar,PO+Thana-Gamharia,Dist.-Madhepura,Pin.-852108 | B.V.Sc. & A.H./BAU/87 | 05/08/58 |

| SLN. NO. | NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIF. | DOB |
|----------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 840 | Jay Ram Singh, S/o Late Uday Narayan Singh | BiharSVC/183 8/2000 | Vill.- Bhagwatpur, PO+Thana- Manishi, Dist.-Saharsa | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 07/01/56 |
| 841 | JAY SINGH SIKARWAR | RAJSVC/2644/ 2000 | V.P.O. SARMATHURA, DHOOLPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI. UNIV./2000 | 14.02.69 |
| 842 | JAYA PHILIP | KERALASVC/ 2498/2000 | CARATHEDATHU MYSORE ROAD, SULTAN BATTERY, WAYANAD DIST. PIN - | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 02.05.76 |
| 843 | JAYAKRISHNAN T.R. | KERALASVC/ 2471/2000 | THAKURUSSI HS., DLASSERI PO, KODUMBA, PALAKKAD- 678551 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 12.02.75 |
| 844 | JAYANTA KUMBHAKAR | DVC/0565/200 0 | GAUTAM SARKAR, H1/23A, MAHAVIR ENCLAVE, NEW DELHI-45 | BVSc&AH/BCK VV/88 | 21/01/65 |
| 845 | JAYANTA SARKAR | WBSVC/2802/ 2000 | VILL & P.O. DHUCHNIKHALI, P.S. SANDESHKHALI DT. 24 PRGS (N) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 846 | JAYAPAL RAJA A. S/D ARMUGA SAMY | APSVC/03658/ 2000 | 1-128, C/O AVVARI SURYANARAYANA, GODIC HERLA(P), NAKKAPALLI(M) , VISAKHAPATNAM | BVSc/TNVASU/ 96 | 07.05.74 |
| 847 | JAYAPRAKASH T. S/D T. RAMA RAD | APSVC/03613/ 2000 | 16-3-130, RAMALINGA PURAM, NELLORE- 524003 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 14.08.76 |
| 848 | JAYASREE S. | KERALASVC/ 2470/2000 | AISWARYA, CHERAVALLY, KAYAMKULAM P.O., ALAPPUZHA | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 17.01.77 |
| 849 | JAYDIP SARKAR | WBSVC/2820/ 2000 | VILL & P.O. BUNIADPUR DT. D/DINAJPUR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 850 | Jaynarayan Prasad Roy, S/o Sri Hari Charan Roy | BiharSVC/111 8/2000 | Vill.-Babukhari, PO-Pahleja Barka, Thana-Sonpur, Dist.- Saran (Chapra). | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 30/12/47 |
| 851 | JEETENDRA KUMAR S/O SHRI M.N. KULHARE | MPSVC/1914/ 00 | BLOCK COLONY KESHLA, DIST. HOSHANGABAD | BVSc&AH/JNKV V/92-93 | 10.10.61 |

| SIMILAR NAME | REGISTRATION NO. | ADDRESS | QUALIFICATION |
|---|----------------------|--|--------------------------------|
| 852 Jeneviya Lakra, D/o Late William Lakra | BiharSVC/139 5/2000 | Vill.-Arsandev,Near Anil Coal Dipo,PO+Thana-Kanke,Dist.-Ranchi,Pin.-834007 | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 17/02/70 |
| 853 JESSY JOSEPH | KERALASVC/ 2453/2000 | AREEPARAMPIL HOUSE, MELUKAVUMATTAM P.O.,KOTTAYAM-686652 | BVSc&AH/KAU/ 09.05.72 2000 |
| 854 Jesterwell Lyngdoh | Megh/165/01 | Ladmaureng | BVSc&AH/JNKV 17.11.73 V/2000 |
| 855 Jitender Singh,S/o Sh Gani Singh | HarSVC/1626 | 11,B/4,O Campus, HAU Hisar | BVSc&AH/CCS 24.9.73 HAU/98 |
| 856 Jitendra Bahadur Singh, S/o Late Nathuni Singh | BiharSVC/111 4/2000 | Vill.-Ambari,PO-Mandpur,Thana-Raghunothpur,Dist.-Siwan | B.V.Sc.&A.H./R AU/74 21/11/49 |
| 857 Jitendra Choudhary, S/o Sri Rameshwar Choudhary | BiharSVC/106 5/2000 | Vill.-Moza,PO-Maghau, Thana-Khodawantpur,Dist.- Begusarai,Pin-848202 | B.V.Sc.&A.H./B AU/83 30/12/57 |
| 858 Jitendra Kr. Sahu, S/o Sri Achutanand Pd. Sahu | BiharSVC/121 1/2000 | V.+PO-Sahu Porvalta,Thana- Navgachia,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc.&A.H./R U/69 01/06/47 |
| 859 Jitendra Kr. Singh, S/o Sri Ramjanam Singh | BiharSVC/184 1/2000 | Vill.+PO-Chirianwa,Thana-Atri,Dist.-Gaya | B.V.Sc. & A.H/RAU/93 18/03/69 |
| 860 Jitendra Kr.Deepak, S/o Sri Prasadi Saw | BiharSVC/875/ 2000 | Moh.-Nichli Bazar,PO+Thana-Rajgir,Distt.-Nalanda,Pin-803116 | B.V.Sc.&A.H./R AU/99 12/01/76 |
| 861 Jitendra Kr.Sinha,S/o Late Sridhar Narayan Prasad | BiharSVC/852/ 2000 | Moh.-Daltatta,Near Masjid,PO+Thana-Munger, Munger - 811201 | B.V.Sc.&A.H./B AU/83 20/01/58 |
| 862 Jitendra Kumar, S/o Late Braj Nandan Pd. | BiharSVC/125 4/2000 | Vill.-Shrinagar,PO+Thana-Biharsharif,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R U/68 30/06/47 |
| 863 Jitendra Kumar, S/o Late Shivnath Pd. | BiharSVC/102 7/2000 | V.+PO-Mamorakha,Thana-Malahi,Dt.- Motihari,E.Champaran-845001 | B.V.Sc.&A.H./M U/70 20/06/48 |

| SR# | NAME | RNUM | ABD | QUALF | DOB |
|-----|---|-------------------------|---|--------------------------|----------|
| 864 | Jitendra Nath Sahay, S/o Late Uma Nath Sahay | BiharSVC/115 5/2000 | V.-Sikanderpur,PO-Mirjanhat,Thana-Mojahidpur,Bhagalpur-812005 | B.V.Sc.&A.H./M U/63 | 25/06/42 |
| 865 | Jitendra Prasad Verma, S/o Late Ratneshwar Prasad Verma | BiharSVC/103 9/2000 | Moh.- Murarpatti,PO+Thana-Raghuneshpur, Dist.-Siwan | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 21/01/49 |
| 866 | Jitendra Prasad, S/o Sri Chanu Sahu | BiharSVC/104 5/2000 | V.+PO-Ahwarshekhan Fuluria,Thana-Majhwalia,Dt.-Betiah (W.Champaran) | B.V.Sc.&A.H./G U/97 | 12/03/73 |
| 867 | JITENDRA PRATAP SINGH S/O LATE SRI SABHANAND SINGH | UPVC/3250 | VILL-MAHARAURA, POST-KILAIN, DIST. JAUNPUR, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 04/07/74 |
| 868 | JITENDRA S.V.V. S/O S. BRAHMA REDDY | APSVC/03651/ 2000 | D.NO.27-II-660, A.C. NAGAR, NELLORE-524 002 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 02.08.77 |
| 869 | Jitendra Singh, S/o Sri Bhikhari Singh | BiharSVC/110 9/2000 | V.-Karmaini Khurd,PO-Maighara,Thana-Bikramganj,Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 01/02/46 |
| 870 | Jivachhnarayan Yadav, S/o Sri Rajendra Prasad Yadav | BiharSVC/193 2/2000 | Vill.-Jhajbapati Asha,PO-Ekhatta,Thana-Khutauna,Dist.-Madhubani | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 25/10/57 |
| 871 | JOBY CYRIAC | KERALASVC/ 2465/2000 | THOTTIYIL (H), MOOZHUKULANGARA P.O., NEENDOOR (VIA),KOTTAYAM PIN- | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 05.05.75 |
| 872 | JOGENDRA MUKHOPADHYAY S/O LT.DEBENDRA KR. | TRIPURA/3/20 00 | MUKHERJEE VILLAI,EAST OF IOC,ABHOYNAGAR,AGT.T RIPURA WEST,PIN-4 | BVSc&AH/CU/6 4 | 09/04/41 |
| 873 | JOGIRAJ DUTTA C/O SH.NISHIT CH. DUTTA | TRIPURA/35/2 000 | KUMARITILLA, ABHOYNAGAR,AGARTALA A,-799005 | BVSc&AH/BCK VV/78 | 16/06/54 |
| 874 | John Kongwang | Megh/159/01 | 3rd Mile, Upper Shillong | BVSc&AH/AAU/ 2000 | 9.6.69 |
| 875 | JOMY JOSE | KERALASVC/ 2477/2000 | MADAPPATT MUKKOLAKKAL, NEDUMANGAD P.O., TRIVANDRUM-695541 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 19.05.77 |

| STUDY NAME | ENRUM | AMQ | QUALF | DATE |
|---|-------------------------|---|--------------------------------|----------|
| 876 JDSHI DILIP KRISHNARAO | MSVC/6281/20 00 | PLOT NO.15, SHRINAGAR COLONY, PARSODI LAYOUT, PRATAP NAGAR, | BVSc&AH/PKV/ 78 | 11-09-52 |
| 877 JOYDEEP SARKAR S/O SUKHA RANJAN SARKAR | TRIPURA/100/ 2000 | RAMNAGAR ROAD NO.4, PO-RAMNAGAR-5, AGARTALA, TRIPURA (W) | BVSc/UAS B'LORE/98 | 15.1.75 |
| 878 JUBI V. | KERALASVC/ 2487/2000 | PEROOR HOUSE, KOTTATHALA P.O., KOTTARAKKARA, KOLLAM. | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 25.05.76 |
| 879 JUGAL KISHOR BHARDWAJ S/O SHRI VIKRAMLAL BHARDWAJ | MPSVC/1902/ 00 | 3736 KATRA SUBHASH WARD, ADHARTAL, JABALPUR-482 004. | BVSc&AH/JNKV V/77 | 01.07.55 |
| 880 JUGAL KISHDR TANEJA | RAJSVC/2642/ 2000 | 22/30/4, SAWARN PATH, MANSAROVER, JAIPUR-302 020 | BVSc&AH/RAJ AGRI.UNIV./2000 | 23.02.77 |
| 881 Julie B. Marak | Megh/171/01 | Chandmary, Tura | BVSc&AH/AAU/ 2000 | 31.7.74 |
| 882 Jung Bahadur Singh, S/o Late Anup Lal Singh | BiharSVC/164 3/2000 | Vill.+PO-Pansalwa, Thana-Beldaur, Dist.-Khagaria | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 31/12/48 |
| 883 Jyoti Minz, S/o Sri Telesphar Minz | BiharSVC/118 2/2000 | V.-Kasanga Deepa Toli, PO- Pandripani, Thana-Simdega, Dist.-Gumla, Pin.- 855223 | B.V.Sc.&A.H./B AU/91 | 13/04/66 |
| 884 Jyoti Rani Mondal | A&NSVC/76/2 000 | C/o A.K. Mondal, Forest Training School, Wimberlygunj, South Andaman | BVSc&AH/WBU A&FS/2000 | 19.3.77 |
| 885 Jyotindra Pd. Srivastava, S/o Late Harihar Pd. Srivastava | BiharSVC/191 4/2000 | M-1, A. Prabhat Tower, Thana-Latpur, PD+Dist.- Ranchi, Pin-834001 | B.V.Sc. & A.H./BU/60 | 03/06/39 |
| 886 JYOTIRMOY CHAKRABORTY S/O SH.DINABANDHU | TRIPURA/23/2 000 | P.O.&VILL-ARUNDHATI NAGAR, ROAD NO.- 8, BATTALA, AGARTALA TRIPURA WEST-799003 | BVSc&AH/RAU/ 77 | 02/05/53 |
| 887 JYOTIRMOY ROY S/O SH.NIRANJAN KR.ROY | TRIPURA/82/2 000 | C/O NAresh CH.MODAK, NEW TOWN ROAD, UNDAIPUR, PO.R.K. PUR, SOUTH TRIPURA | BVSc&AH/BCK VV/89 | 31/01/67 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|------|---|------------------------|---|------------------------------------|----------|
| 888 | K. LANU JAMIR | NSVC/50/98 | ASSISTANT PRJECT OFFICER (VETY), MON, NAGALAND | BVSc&AH/DR. PDKV/98 | 7.2.75 |
| 889 | K.DANASSEGARANE | PONDI/117/20 00 | 6,THIRUVALLUVAR SALAI, AYYANAR NAGAR,PONDICHERRY- 605013, | BVSc/TV&ASU/ 93 | 09/11/69 |
| 890 | K.P.MINI | PDNDI/125/20 00 | BLDCK-A,LAKSHMI HOMES,LYANKUTTIPALA YAM,PONDICHERRY- 605009 | BVSc&AH/KAU/ 90 | 06/10/66 |
| 891 | K.RAJALAKSHMI | PDNDI/139/20 01 | 58,CLUNY MAIN ROAD, RAJAJI NAGAR,LAWSPET,PONDI CHERRY-605008 | BVSc&AH/PU/2 000 | 15/11/77 |
| 892 | K.Venkata Subba Reddy | Pondi/91/2000 | A/4,Vety College,Qtrs Kurumbapet,Pondicherry- 605009 | BVSc/APAU/71 | 15.05.48 |
| 893 | KACHAVE CHANDRAKANT DIGAMBARRAO | MSVC/6324/20 00 | AT PDST GANGAKHED- LACHURER CDLDNY, TAL. GANGAKHED, DIST. PARBHANI | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 12-09-77 |
| 894 | KADAM AMILA BHARAT MISS | MSVC/6317/20 00 | SARVODAY 3/133, GOKHALE RAOD (S), DADAR (W), MUMBAI- 400028 | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 22-11-77 |
| 895 | KADAM JAYANT JANARDAN | MSVC/6399/20 00 | AT POST RAJARAM NAGAR COLONY, R.NO.D/60, TAL.WALWA, DIST. SANGLI- 415414 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 22-07-76 |
| 896 | Kafil Ahmad, S/o Late Md. Jalil Ahmad | BiharSVC/142 1/2000 | Vill.-Islampur,PO-Nautan Dubey,Thana-Nautan,Dist.- Betiah,Pin-845438 | B.V.Sc. & A.H./RAU/80 | 02/01/54 |
| 897 | KAILASH CHANDRA BAIRWA MEERWAL | RAJSVC/2648/ 2000 | V.P. JHANPARAWAS (MOHCHINGPURA),TEH. SIKRAY,DIST. DAUSA | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 24.06.74 |
| 898 | KAILASH KMAR RANA S/D SRI RANVIR SINGH RANA | UPVC/3267 | VILL & PO.- DOGHAT,DISSTT. BAGHPAT, U.P.-250622 | BVSc&AH/GBP UA&T/96 | 01.07.74 |
| 899 | Kailash Pd. Yadav, S/o Sri Ramcharan Pd. Yadav | BiharSVC/158 7/2000 | Vill.-Kanhaul,PO- Fulwaria,Thana- Gomari,Dist.-Khagaria | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 02/03/59 |

| SR. NO. | NAME | INM | ADD | QUALIF | DIS |
|---------|--|---------------------|--|----------------------------|----------|
| 900 | Kailashpati Thakur, S/o Late Shivlal Thakur | BiharSVC/103 1/2000 | M.-Choritola,PO+Thana-Kanke,Dist.-Ranchi,Pin-834006 | B.V.Sc.&A.H.R U/70 | 08/01/48 |
| 901 | Kailashpati Thakur, S/o Sri Singheshwar Thakur | BiharSVC/167 2/2000 | Vill.-Narkatiyan,PO+Thana-Vihpur,Dist.-Navgachia | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 13/12/48 |
| 902 | Kaladhar Prasad, S/o Late Hari Prasad Singh | BiharSVC/123 6/2000 | Moh.+PO-Khawaspur,Thana-Peerpainti,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc.&A.H./R AU/81 | 31/08/52 |
| 903 | KALDHONE RAHUL JAGANNATH | MSVC/6284/20 00 | AT POST BHALWANI, TAL. PANDHARPUR, DIST. SOLAPUR-413304 | BVSc&Ah/MAU/ 2000 | 04-07-77 |
| 904 | KALE DAYANAND NEWTON | MSVC/6343/20 00 | AT SAWARDE, POST KALE, TAL.PANHALA, DIST. KOLHAPUR-416205 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 01-06-77 |
| 905 | KALE SACHIN BHIMRAO, C/O ADV.B.G.KALE | MSVC/6413/20 01 | B-96, SHOBHANAGAR, POLICE COLONY, NANGED- 431605 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 20-02-77 |
| 906 | KALIDAS ACHARYA S/O SH. JOGESH ACHARJEE | TRIPURA/13/2 000 | P.O/VILL. DHALESWAR,NUTAN PALLY,NORTH OF CENTRAL | BVSc&AH/UNI OF CALCUTTA/74 | 02/01/49 |
| 907 | KALITA DR. APURBA KUMAR S/O MR. BHOGESWAR KALITA | ASM/1937/200 0 | C/O MR.BHOGESWAR KALITA VILL.KUMARGAON, P.O. AMGURI DIST. | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 908 | KALITA DR. PRANAB RANJAN S/O CHANDI CHARAN KALITA | ASM/1894/200 0 | C/O DR. C.C. KALITA, MATHURANAGAR, K.K. HANDIQUE PATH, DISPUR, GUWAHATI-6. | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 909 | KALPANA DEB BARMA MISS. D/O SH.BIDYA MOHAN DEB BARMA | TRIPURA/95/2 000 | VILL-SRIRAM PARA,PO- SONARAM BAZAR TRIPURA WEST,PS-SIDHAI | BVSc&AH/RAU/ 99 | 17/01/74 |
| 910 | Kalpana Bhengra, S/o Sri Kalyan Bhengra | BiharSVC/175 8/2000 | M.-Rashmi Kunj,PO-Buti,Thana-Sadar Ranchi,Dist.-Ranchi,Pin-835217 | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 08/07/72 |
| 911 | Kalpnath Pandey, S/o Late Jagannath Pandey | BiharSVC/142 7/2000 | Moh.-Anandpuri Colony,PO+Thana+Dist.-Hazaribagh,Pin-825301 | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 04/01/43 |

| SLN NUM | NAME | RNUM | ABD | QUALF | DOB |
|------------|---|------------------------|---|----------------------------------|----------|
| 912 | KALSE KAMALKISHOR PRABHAKARRAO | MSVC/6310/2 000 | KALSLE NIWAS, BANSHELKI ROAD, UDGIR, NEAR RLY. STATION LATUR- 413517 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 19-07-74 |
| 913 | KALYAN RAY S/O LT.SUSHIL KR. RAY | TRIPURA/34/2 000 | MISSION ROAD,KASHIPUR,P.O.RE SHAMBAGAN,TRIPURA WEST | BVSc&AH/BCK VV/79 | 28/02/55 |
| 914 | Kamakhya Das, S/o Sri Harinandan Das | BiharSVC/102 3/2000 | Vill.-Sonpura,PO- Sonpura,Thana- Udwantnagar,Dist.- Bhojpur,Pin-802206 | B.V.Sc.&A.H./R AU/95 | 22/02/70 |
| 915 | KAMAL CHAKRABORTY S/O SH. GOBINDA CHAKRABORTI | TRIPURA/50/2 000 | VILL-NETAJINAGAR, PO.O.N.G.C. TRIPURA WEST | BVSc&AH/BCK VV/81 | 05/01/59 |
| 916 | Kamal Kishore, S/o Late Ras Bihari Pd. | BiharSVC/101 6/2000 | Moh.-Tar Bengla,PO+Thana-Dehri- Om-Son,Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./R AU/67 | 09/01/44 |
| 917 | KAMAL SINGH MEENA S/O SH. SHIV CHAIRAN MEENA | RAJSVC/2702 /2000 | V/P HURLA,TH. MAHWALA,DIST. DAUSA,RAJASTHAN- 321608 | BVSc&AH/RAJ. AGRI,UNIV./20 00 | 15.07.71 |
| 918 | KAMALJEET JOSHI S/O SH. AVINASH CHANDER JOSHI | PB.SVC- 2232/2001 | VPO-HANDIAYA, TEHSIL BARNALA, DIST. SANGRUR. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 28.03.77 |
| 919 | KAMAT PRACHI PRATAP | MSVC/6420/2 001 | C-4, RIDDHI-SIDDHI APARTMENT, DIN DAYAL ROAD, DOMBIVLI(W), THANE- 421202 | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 05-04-78 |
| 920 | KAMATHE CHANGDEO SOPAN | RAJSVC/2604 /2000 | QR. NO. III/2(WFP), R.C.P. COLONY MOHANGARH, JAISALMER | BVSc&AH/PKV P/92 | 01.07.67 |
| 921 | KAMBLE BALIRAM SAMBHAIJI S/O SAMBHAIJI | APSVC/03565 /2000 | H.NO. 11-10- 698/A/1,BURHANPURAM, KHAMMAM | BVSc&AH/MAR ATHWADA AG. U./97 | 05.11.70 |
| 922 | KAMBLE RAMDAS SUKA | MSVC/6351/2 000 | AT:KOTGAL, POST PARDIM DHIWAR, MOHALLA, TAL. DIST. GADHIROLE-422605 | BVSc&AH/Dr.P DKV/2000 | 20-07-77 |
| 923 | Kamdeo Prasad, S/o Late Laxmi Narayan Singh | BiharSVC/181 0/2000 | Vill.-Viskurwa,PO- Masathy,Thana- Belohi,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./BAU/81 | 07/06/56 |

| SNO | NAME | INUM | REG | ADDRESS | QUALF | DOB |
|-----|--|------------------------|---|--------------------------------|----------|-----|
| 924 | Kameshwar Pd. Yadav, S/o Late Devnandan Pd. Yadav | BiharSVC/176 1/2000 | VIII.+PO-Aran, Thana- Bihra, Dist.- Saharsa | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 09/04/46 | |
| 925 | Kameshwar Prasad Mallick, S/o Late Jagdeo Lal Mallick | BiharSVC/190 5/2000 | V.-C-3, Indrapuri Coly, PO- BV College, Thana- Shastrinagar, Dist.- Patna, Pin-800 | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 02/01/36 | |
| 926 | Kameshwar Prasad Sinha, S/o Late Raghuvansh Narayan | BiharSVC/202 2/2000 | VIII.+PO-Darihara, Thana- Dariyapur, Dist.- Saran | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 05/02/43 | |
| 927 | Kameshwar Prasad Srivastava, S/o Late Dharamnath Sahay | BiharSVC/190 3/2000 | VIII.+PO-Atimi, Thana- Nawanagar, Dist.- Buzar | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 08/01/44 | |
| 928 | Kameshwar Prasad Yadav, S/o Late Mahabeer Prasad Yadav | BiharSVC/203 5/2000 | M-Indrapuri H. Colony, POBV College, Thana- Shastrinagar, Dt-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 10/01/40 | |
| 929 | Kameshwar Prasad, S/o Sri Ramjee Pd. Sharma | BiharSVC/187 8/2000 | Moh.-Gorgama, PO+Thana- Shahpur Patori, Dist.- Samastipur | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 17/10/46 | |
| 930 | Kameshwer Prasad Singh, S/o Late Ramdeo Singh | BiharSVC/936/ 2000 | M-Kankarbagh, 58A Secretariat Coly, PO+Thana- Kankarbagh, Dist.- Patna | B.V.Sc. & A.H./R AU/76 | 31/03/52 | |
| 931 | Kameshwer Sharma, S/o Sri Ram Naresh Singh | BiharSVC/869/ 2000 | VIII.-Govindpur, PO- Datiyana, Thana- Vikram, Patna-801115 | B.V.Sc. & A.H./B AU/84 | 15/12/60 | |
| 932 | KAMESWARA RAO Y.V. S/O VENKATESWARLU | APSVC/03646/ 2000 | NEAR AMBEDKAR STATUE, KONDAPI(V) PRAKASAM DT.-523270 | B.V.Sc. & A.H./ANG RAU/2000 | 01.04.76 | |
| 933 | Kamla Kant Singh, S/o Late Hariher Pd. Singh | BiharSVC/117 7/2000 | V.+PO-Khawaspur, Tharia- Khawaspur, Dist.- Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./R AU/76 | 09/08/52 | |
| 934 | Kamla Kant, S/o Sri Chottu Gorav | BiharSVC/911/ 2000 | VIII.-Kaswa, PO - Kaswa, Thana - Kunzer | B.V.Sc. & A.H./M U/70 | 19/04/46 | |
| 935 | Kamlendra Dwivedi, S/o Late Baidyanath Dwivedi | BiharSVC/128 5/2000 | VIII.+PO- Kaulna, Maigampur, Thana- Ahiyapur, Dist.- Muzafferpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/80 | 31/12/55 | |

| SR# | NAME | RNUM | AO | QUALF | DOB |
|-----|---|---------------------|---|-------------------------------|----------|
| 936 | KAMLESH KUMAR MEENA | RAJSVC/2683/ 2000 | VILL. GUDALI, POST BAGOR, TEH. NADOTI, DIST. KAROULI | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 21.07.74 |
| 937 | Kamlesh Pd. Singh, S/o Late Ramdeo Singh | BiharSVC/119 6/2000 | V.-Mahesh Chapra, PO-Sikti Bheekhem, Thana-Mashrakh, Dist.-Chapra (Saran) | B.V.Sc.&A.H./R AU/93 | 24/12/65 |
| 938 | Kamlesh Singh, S/o Sri Vijay Narayan Singh | BiharSVC/149 5/2000 | Vill.+PO-Paligadh, Thana-Saraylakhansi, Dist.-Mau, U.P. | B.V.Sc. & A.H./GBPUA&T/ 91 | 01/01/64 |
| 939 | Kamleshwar Kumar Bharati, S/o Sri Hari Ram | BiharSVC/135 4/2000 | V.+PO-Garari Klam, Thana-Keredari, Dist.-Hagaribag, Pin.-825311 | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 25/01/68 |
| 940 | Kamleshwari Jha, S/o Late Bodh Narayan Jha | BiharSVC/201 2/2000 | Vill-Rasalpur, PO-Ekchari, Thana-Kahalgaon, Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 23/01/54 |
| 941 | Kamta Prasad, S/o Late Buchu Prasad | BiharSVC/115 9/2000 | Vill.-Hasnabib, PO+Thana-Semra, Via Godhra; Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./B AU/78 | 30/01/53 |
| 942 | KANAN BIHARI GOSWAMI S/O LT. HARI RAMAN GOSWAMI | TRIPURA/4/20 00 | KUNJABAN COLONY, P.O. ABHOYNAGAR, AGT. TRIPURA(W) | BVSc&AH/CU/6 5 | 01/07/42 |
| 943 | Kanavikar C R, S/o R M Kanavikar | Karna/3208 | 264 Matru Ashish, 3rd Cross, Domlur, 2nd Stage, Bangalore | BVSc/UAS, B'l/or e/72 | 30.12.50 |
| 944 | Kanchana, D/o Dr.B.P. Yadav | BiharSVC/197 5/2000 | Vill.+PO-Shergadh, Thana-Gogni Jamalpur, Dist.-Khagaria | B.V.Sc. & A.H./GBPUAT/9 8 | 30/06/75 |
| 945 | Kanhaiya Prasad Singh, S/o Late Sitaram Singh | BiharSVC/152 9/2000 | Vill.+PO-Chatanna, Thana-Nokha, Dist.-Rohtas, Pin.-802225 | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 01/02/46 |
| 946 | Kanhaiya Singh, S/o Sri Ramdhari Singh | BiharSVC/180 2/2000 | Vill.+PO-Deval, Thana-Gahmar, Dist.-Gajipur, U.P.-232333 | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 24/03/43 |
| 947 | KANNAYYA NAIDU L. S/O L. THAMMI NAIDU | APSVC/03612/ 2000 | KO MALLAVARAM, TUNIK(M), EAST GODAVARI DT-533401 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 05.06.73 |

| STUDY NAME | REGN | AGE | QUALIF | |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 948 KANTHAIAH S/O YOHAN 2001 | APSVC/03683/ 2001 | CHALAKURTHY (V), PEDDAVOORA(M), NALGONDA DT. | BVSc/APAU/83 | 10.03.58 |
| 949 Kapil Deo Prasad, S/o Sri Govind Prasad | BiharSVC/201 9/2000 | Vill.-Juakardih,PO- Neenpur,Thana+Dist.- Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 03/03/46 |
| 950 Kapil Prasad Singh, S/o Sri Suresh Prasad Singh | BiharSVC/118 0/2000 | Vill.- Bheekhonpur,PO+Thana- Mehkund,Dist.- Bhagalpur,Pin-813108 | B.V.Sc.&A.H./R AU/89 | 03/03/64 |
| 951 Kapil Singh, S/o Late Baleshwar Singh | BiharSVC/179 1/2000 | Vill.+PO-Dokri,Thana- Bairiya,Dist.-Baliya,State- U.P. | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 16/06/43 |
| 952 Kapildeo Ray, S/o Late Ram Uchit Ray | BiharSVC/189 4/2000 | V.-Vishunpur Pakri,PO- Beur,Anisabad,Thana- Fulwarisharif,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 02/12/47 |
| 953 Karam Chand S/o Sh. Mukhtiar Singh | HarSVC/1687 | H.No. 778, N. Prem Nagar, Karnal | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 21.5.75 |
| 954 KARMENDRA KUMAR PALIWAL s/O SH. KASHI RAM | RAJSVC/2621/ 2000 | 13,JYOTI NAGAR,ALWAR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 30.03.74 |
| 955 KARTHA PREMA CHANDRASHEKHARN | MSVC/6298/20 00 | SANT SPARSH- 2/TRIBHAVAN HOUSING SOCIETY, KALOLINAGAR, | BVSc&AH/DR.P DKV/98 | 19-02-77 |
| 956 Kashi Nath Ram, S/o Sri Bithal Ram | BiharSVC/175 7/2000 | V.-Basudeo Dihri,PO-Ganj Marsara,Thana-Dinara,Dt.- Rohtas,Pin-800035 | B.V.Sc. & A.H./RAU/73 | 03/09/49 |
| 957 KASI VISWANATHAN D. | KERALASVC/ 2458/2000 | QRTS. NO.10,LIVESTOCK RESEARCH STATION,THIRUVAZHAMK UNNU,MANNARKAD,PALA | BVSc/TNVSAS UNIS | 03.05.73 |
| 958 KATKADE SUNIL JAGANNATHRAO | MSVC/6278/20 00 | SANT JANABAI NAGAR, A/P/7 AT GANGAKHED, DIST. PARBHANI | BVSc&AH/MAU/ 99 | 24-10-75 |
| 959 Kathimsha Shalemi Tarao | Mani/370/00 | Leishaching Village, P.O. Komlathabi | BVSc&AH/AAU/ 00 | 24.3.75 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-------------|---|------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 960 | Kaushal Kumar Singh, S/o Sri Nirmal Kumar Singh | BiharSVC/202 6/2000 | Vill.-Rihta,PO+Thana- Bihta,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 31/01/54 |
| 961 | Kaushilendra Kumar, S/o Sri Dwarika Prasad | BiharSVC/164 7/2000 | Vill.-Satakpur,PO- Barhoga,Thana-Bind,Dist.- Nalanda,Pin.-803107 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 02/02/71 |
| 962 | Kaushlendra Kr. S/o Late Ramshavan Prasad | BiharSVC/178 8/2000 | Vill.-Panthna,PO-Bhagan Bigha,Thana-Vena,Dist.- Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RU/71 | 01/10/48 |
| 963 | KAVITA TYAGI | RAJSVC/2682/ 2000 | OPP. DEV NARAYAN TEMPLE,KANSUWA,, KOTA | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 30.12.74 |
| 964 | KAVITHA RANI B D/O DR. B.S. NAIDU | KARNASVC/3 086 | NO.1697, SRI-SHAKTHI NILAYA,2ND CROSS SHANKARAPURA, CHIKKAMAGALUR-577101 | BVSc/UAS BANGALORE/9 7 | 26.06.74 |
| 965 | KAWLE SANJAY NARAYAN | MSVC/6328/20 00 | AT POST RENAPUR, TAL. BHOKAR, DIST. NANDED- 431801 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 02-06-76 |
| 966 | Kedar Nath Prasad, S/o Late Bhikhari Sah | BiharSVC/186 1/2000 | Vill.-Anawarpur, PO- Paura,Thana-Lalganj,Dist.- Vaishali | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 20/10/43 |
| 967 | Kedar Nath Singh, S/o Sri Thakur Pd.Singh | BiharSVC/115 4/2000 | Vill.-Ambariyan,PO- Ruphara,Thana- Chiraiya,Dist.- E.Champaran (Motihari) | B.V.Sc.&A.H./R U/68 | 11/10/48. |
| 968 | KESHAV KUMAR PARASAR S/O SH. LAXMI NARAYAN | RAJSVC/2618/ 2000 | C-18 A, KUMAWAT COLONY JHATWARA, JAIPUR | BVSc&AH/RAU/ 2000 | 14.11.73 |
| 969 | KESHAV MISHRA S/O LATE SRI S.N. MISHRA | UPVC/3190 | VILL.-RAHI,PO- SAHABAD,DISTT.- HARDOI, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/89 | 05.12.66 |
| 970 | Keshav Pd. Singh Yadav, S/o Sri Daroga Singh | BiharSVC/100 9/2000 | Vill.+PO-Bhadsera,Thana- Tasari,Dist.-Arrah (Bhojpur) | B.V.Sc.&A.H./R AU/84 | 02/11/58 |
| 971 | KH. SNGEETA DEVI D/O SRI IBOCHOURA SINGH | UPVC/3211 | 1114/21, INDIRA NAGAR, LUCKNOW, U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 16.05.72 |

| STUDY NAME | INSTITUTION | ADDRESS | COURSE | QUALIF | DATE |
|--|------------------------|--|--------|-----------------------|----------|
| 972 Khalilur Rahman, S/o Late Md. Bashiruddin | BiharSVC/172 5/2000 | Vill.-Maheshpur,PO-Hirumbi,Thana-Dhoraiya,Dist.-Banka,Pin.-813109 | | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 02/09/51 |
| 973 KHAN JAVED FAROOQUE | MSVC/6424/20 01 | AT SANDAGAR PURA,BRAHMANWADA, TAL.CHANDURBAZAR, DIST.AMRAVATI-444720 | | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 10-12-76 |
| 974 KHANDAGALE RAJKUMAR KRISHNA | MSVC/6323/20 00 | AT POST SANGEWADI, TAL. SANGOLE, DIST. SOLAPUR- 413307 | | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 04-01-77 |
| 975 Khangembam Sanjeeta Devi | MANI/367/00 | Keishampat Keisam Leikai | | BVSc&AH/CSA UA&T/00 | 16.5.72 |
| 976 Khangoban Bijubala Devi,S/o Late Khangoban Gopal Singh | BiharSVC/197 1/2000 | Vill.-Hairok,PO-Vanjing,Thana+Dist.-Thaubal,Pin-795148 | | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 01/02/71 |
| 977 KHARGHARIA DR. SANJIB S/O FARAFULLA CH. | ASM/1942/200 1 | MILAN NAGAR, DHEMAJI, PO-DHEMAJI,DIST.DHEMAJI | | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 978 KHICHAR SANGRAMSINGH RANDHIRSINGH | MSVC/6287/20 00 | SEC.COLONY, 30/8 BAJAJ AUTO LTD.WALUJ, 98 DIST. AURANGABAD- 432236 | | BVSc&AH/MAU/ 18-11-78 | |
| 979 Khishna Nand Das, S/o Late Satya Narayan Das | BiharSVC/140 0/2000 | Vill.-Dumari,PO-Achalpur,Via-Gopalganj,Thana-Raghopur,Dist.-Supaui | | B.V.Sc. & A.H./MU/71 | 06/01/46 |
| 980 Khainbor Singh Nongrum | Megh/158/01 | Rynjah, Shillong-6 | | BVSc&AH/AAU/ 91 | 18.11.66 |
| 981 KHOKAN MANNA | WBSVC/2779/ 2000 | VILL CHANDABILA P.O. JHARGRAM, DT. MIDNAPUR | | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 982 KHOMANE TANAJI BABAN | MSVC/6294/20 00 | AT POST WALUNJ, TAL PURANDAR, DIST. PUNE- 412301 | | BVSc&AH/MPK V/2000 | 01-06-77 |
| 983 Khraw Kupar Kharmihpen | Megh/168/01 | Nongkseh, Upper Shillong | | BVSc&AH/MAU/ 91 | 17.3.60 |

| STUDY NAME | REGN | ADD | QUALF | DIS |
|--|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 984 KHUSHAL SINGH SOLANKI S/O RAM SINGH | RAJSVC/2617/ 2000 | NEAR GANESH JI TEMPLE KHAND GOWANDI CIVIL LINES, NAYAPURA, KOTA | BVSc&AH/RAU/ 2000 | 3.11.73 |
| 985 KHUSHDEEP KAUR D/O SH. GURNEK SINGH | PB.SVC- 2222/2001 | TOOR PATTI, BHAWANIGARH, NEAR MISHRA SINGH ADV. DISTRICT SANGRUR | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 30.10.77 |
| 986 KHUSHDEEP SINGH SANDHU S/O SH. RAJWANT SINGH | PB.SVC- 2194/2000 | 40-A/3, GOBIND BHAWAN, GALI NO. 2, GOPAL NAGAR, MAJITHA ROAD, HOSHIARPUR | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 03.11.74 |
| 987 KINGE YOGESH ASHOK | MSVC/6393/20 00 | AT POST KHARBADI, TAL.MOTALA, DIST. BULDHANA-443001 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 15-01-77 |
| 988 Kinkar Kr. Mahto, S/o Sri Badal Chandra Mahto | BiharSVC/135 2/2000 | Vill.-Lota,PO-Lota,Thana- Silli,Dist.-Ranchi,Pin- 835102 | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 05/01/66 |
| 989 KIRAN A.M S/O MAHADEVAPPA | KARNASVC/3 068 | NO.1645/98 12TH CR.RAMEHWARA NILYA TECH'S LAYOUT,VIDYANG,DAVA | BVSc&AH/UAS Dharwar/99 | 01.05.77 |
| 990 Kiran D/o Sh. Dharam Singh | HarSVC/1679 | C/o Dr. Mohinder Singh, 1113, S-1, RTK | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 24.9.77 |
| 991 KIRAN KUMAR B. S/O B. RAVINDRANATH | APSVC/03626/ 2000 | VETAPALEM(V&M), PRAKASAM DT.-523187 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 25.07.76 |
| 992 KIRAN KUMAR KOTRAPPA S/O KOTRAPPA K KOPPAD | KARNASVC/3 157 | 11TH CROSS, B BLOCK BASAVESHWARA NAGAR, HAVERI | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 31.05.77 |
| 993 KIRAN SUDHAKAR RAO DESHPANDE S/O SUDHAKAR | APSVC/03547/ 2000 | M/S AVION HATCHERIES PVT. LTD., RAMCHANDRAPUR(V), NARSAPUR(M), | BVSc&AH/MAR ATHWADA AG.U./89 | 25.06.66 |
| 994 KISHAN CHAWLA | RAJSVC/2663/ 2000 | C/O DR. KAMLESH CHAWLA, GANDHI PARK, TONK | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 16.08.71 |
| 995 KOCH DR. PRANJIT PRATIM S/O SRI P.D. KOCH | ASM/1882/200 0 | C/O PRANJAL SAIKIA(KAKU) BAMPARBATIA BHOGI CHUBRI,P.O.TEZPUR,DIS | BVSc&AH/AAU/ 99 | |

| STUDY NAME | REGN | ADDRESS | EDUCATION | DATE |
|--|------------------------|---|-----------------------------|----------|
| 996 KOGNOLE SATISH MAHAVIR | MSVC/6326/20 00 | NEAR VITHAL MANDIR, A/P KAWATHE EKND TALUKA TALEGAON, DIST. SANGLI- 410637 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 15-02-77 |
| 997 KOMARESHWAR M. S/O M. VENKATAIAH | AP SVC/03557/ 2000 | H.NO.3-4-465, SUDHANAGAR, HANAMKONA, WARANGAL. | BVSc/APAU/78 | 05.01.44 |
| 998 Kotra Swamy M, S/o M Harischandra Gowda | Karna/3194 | Anandadevanahalli,Pinjar Hegdal Post,Hagari Bommanahalli Tq, BellaryOist | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 22.7.77 |
| 999 KOUSIK GIRI | WBSVC/2817/ 2000 | VILL & P.O.D. SHIBPUR, P.S. SHYAMPUR, OT. HOWRAH | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1000 Kr. Narendra Narayan Singh, S/o Sri Balmukund Singh | BiharSVC/164 4/2000 | Vill.- Nawadih,PO+Thana+Oist.- Aurangabad | B.V.Sc. & A.H/MU/69 | 01/07/47 |
| 1001 Kr. Virendra Nath, S/o Sri Ramchandra Singh | BiharSVC/166 4/2000 | Vill.+PO-Oatiyana,Thana- Vikram,Oist.-Patna,Pin.- 801115 | B.V.Sc. & A.H./RAU/88 | 10/03/62 |
| 1002 KRIHSNA MOHAN CHANDRA S/O SREERAMULU NAIOU | APSVC/03606/ 2000 | H.NO.26-1/502, B.V. NAGAR, NELLORE | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 15.08.75 |
| 1003 Krishan Chandra Jha, S/o Late Sundar Lal Jha | BiharSVC/170 1/2000 | Moh.-Baunsi Main Road,PO+Thana- Baunsi,Oist.-Banka | B.V.Sc. & A.H./OUAT/76 | 03/09/50 |
| 1004 Krishan Kant Kumar, S/o Late Bhuvneshwar Pd. Beranwal | BiharSVC/101 8/2000 | M.-Biharishav Lane,PO- Bankipur,Thana- Pirbahore,Oist.-Patna,Pin- 800004 | B.V.Sc.&A.H./R AU/82 | 23/11/58 |
| 1005 Krishan Kr. Bhagat, S/o Late Harinandan Pd. Bhagat | BiharSVC/124 6/2000 | Vill.+PO+Thana- Jamui,Dist.-Jamui | B.V.Sc.&A.H./R AU/75 | 05/08/50 |
| 1006 Krishan Kr. Mishra, S/o Late Shyam Sunder Mishra | BiharSVC/186 5/2000 | Vill.+PO-Deopura,Thana- Bejipatti,Dist.-Madhubani | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 15/10/54 |
| 1007 Krishan Kr. Prasad, S/o Late Nand Kishore Singh | BiharSVC/185 7/2000 | Moh.-Chandhrain Chowk,PO-Masthu,Thana- Barh,Oist.-Patna | B.V.Sc. & A.H/RAU/79 | 25/10/54 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1008 | KRISHAN KUMAR | DVC/0567/200 1 | E-8C CHANAKYA PLACE,PANKHA ROAD, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-59 | BVSc&AH/HAU/ 88 | 31/05/65 |
| 1009 | Krishan Kumar Krishan, S/o Sri Ram Shovit Jha | BiharSVC/137 1/2000 | M.-B-1,Sachivalaya Colony,PO+Thana- Kankarbagh,Dist:- Patna,Pin-800020 | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 02/01/60 |
| 1010 | Krishan Kumar, S/o Sri Banke Pd. Singh | BiharSVC/184 6/2000 | Vill.-Acusnagar,PO- Kenar,Thana- Sarnera,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/79 | 01/07/55 |
| 1011 | Krishan Mohan Pd. S/o Late Girja Prasad | BiharSVC/146 7/2000 | Moh.-Road No.9,PO- Rajendra Nagar,Thana- Kadamkuhn,Dist:- Patna,Pin.-800016 | B.V.Sc. & A.H./MU/63 | 01/12/40 |
| 1012 | Krishan Murari Ambastha, S/o Late Jaydeo Narayan | BiharSVC/103 4/2000 | M.-M/4,B.S.Harmu Housing Colony,Thana- Argora,Dt.-Ranchi | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 26/07/47 |
| 1013 | Krishan Murari Sah, S/o Late Laxman Pd. Sah | BiharSVC/974/ 2000 | Vill.-Shermarl,PO+Thana- Pirpaintl, Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc.&A.H./R AU/78 | 14/08/53 |
| 1014 | Krishan Singh Yadav, S/o Late Chandradeo Singh Yadav | BiharSVC/143 8/2000 | Vill.-Durgachak,PO- Chitauno,Thana-- Katasya,Dist.-Gopalganj | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 01/01/57 |
| 1015 | Krishna Choudhary, S/o Late Gano Choudhary | BiharSVC/145 1/2000 | Moh.-Dayachak,PO- Railway Station,Thana- Barh,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/81 | 13/03/55 |
| 1016 | Krishna Choudhary, S/o Sri Ramchandra Choudhary | BiharSVC/136 5/2000 | Vill.-Fakrabad,PO- Sonpur,Thana- Sonpur,Dist.-Chapra,Pin- 841101 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 14/01/74 |
| 1017 | Krishna Gopal Mandal, S/o Sri Nikunja Bihari Mandal | BiharSVC/176 8/2000 | V.+PO-Gochati,Thana- Daspur,Dist.- Midnapur,W.Bengal- 721148 | B.V.Sc. & A.H./BCKVV/82 | 21/01/57 |
| 1018 | KRISHNA KANT S/O SRI JAI DEO SARASWAT | UPVC/3207 | VILL.-KARAB,PO.- KARAB,DISTT.- MATHURA,U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/93 | 28.03.65 |
| 1019 | KRISHNA KAPARDHI R. S/O R. VENKATESWARLU | APSVC/03533/ 2000 | H.NO.11-16- 22/149, RAMIREDDYPET,N ARASARAOPET,GUNTUR, DT.-522 601 | BVSc&AH/ANG RAU/99 | 26.04.74 |

| SR# | NAME | REG# | ADDRESS | QUALIF. | DOB |
|------|--|---------------------|--|---------------------------|----------|
| 1020 | Krishna Kr. Tiwari, S/o Sri Vanshropan Tiwari | BiharSVC/948/ 2000 | V-Gosaipur,PO+Thana-Shahpur Patti,Dist.-Arrah | B.V.Sc.&A.H./R AU/89 | 01/01/63 |
| 1021 | Krishna Kumar Shrivastava, S/o Late Bharat Lal | BiharSVC/112 3/2000 | M.-Gaduri Bazar,PO+Thana-Chapra,Dist.-Siwan | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 20/11/45 |
| 1022 | Krishna Kumar, S/o Late Hari Prasad Singh | BiharSVC/136 8/2000 | Vill.+PO- Pathraita,Thana+Dist.- Sheikhpura | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 09/06/48 |
| 1023 | KRISHNA NAG CHAUDHARY S/O GIRENDRA KR. NAG | TRIPURA/15/2 000 | HOSPITAL ROAD,P.O.DHARAMNAGA R,TRIPURA NORTH | BVSC&AH/RAU/ 76 | 07/11/53 |
| 1024 | Krishna Nand Pathak, S/o Late Bachche Lal Pathak | BiharSVC/142 4/2000 | Vill.-Atha,PO- Asarganj,Thana- Tarapur,Dist.-Munger,Pin.- 813221 | B.V.Sc. & A.H./RAU/75 | 06/07/49 |
| 1025 | KRISHNAKUMAR SHARMA S/O SHRI RAJBEER SHARMA | MPSVC/1911/ 00 | 160, JAWAHAR MARG, NEEMUCH DIST. NEEMUCH | BVSc&AH/JNKV V/86-87 | 10.05.63 |
| 1026 | KRISHNAKUMAR SHARMA S/O SHRI SHIVCHARANLAL | MPSVC/1921/ 00 | C/O RAMGOPAL SHARMA, TIKONIYA PARK KE PASS ZAURA DIST. MURENA-476221 | BVSc&AH/IGKV V/99-2000 | 21.05.78 |
| 1027 | KRISHNAPPA S/O MEGAPPA K RATHOD | KARNASVC/3 161 | HANAPUR POST, BADAMI TQ. BAGALKOTE | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 20.07.77 |
| 1028 | Krityanand Lal Das, S/o Late Surya Narayan Das | BiharSVC/140 8/2000 | Vill.-Balat,PO-Aunsi,Thana-Visfi,Dist.-Madhubani | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 01/01/57 |
| 1029 | KU. DEEPTI TRIFLE D/O DR. MADHUKAR TRIFLE | MPSVC/1899/ 00 | 58,JR. MIG OLD SUBHASH NAGAR,BHOPAL-462023 | BVSc&AH/JNKV V/91-92 | 27.9.69 |
| 1030 | KU. LATA CHAUHAN D/O SHRI S.R. CHAUHAN | MPSVC/1894/ 00 | ACHWAL WARD, BINA DISTT. SAGAR 470113 | BVSc&AH/JNKV V/98-99 | 23.09.75 |
| 1031 | Kuldeep Singh,S/o Sh Jagdev Singh | HarSVC/1655 | 243/22 Vikas Nagar, Rohtak | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 28.8.75 |

| SLN. NO. | NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIF. | DOB |
|----------|--|------------------------|--|--------------------------|----------|
| 1032 | KULDIP SINGH S/O SH. SOHAN SINGH | PB.SVC- 2201/2000 | HOUSE NO. 316, PHASE- II, MOHALI | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 06.04.74 |
| 1033 | KULJANT SINGH S/O SH. KASHMIR SINGH | PB.SVC- 2191/2000 | VILL.CHATIWIND, P/O UDHO NAGAR, TEHSIL BABA, BAKALA, DISTRICT AMRITSAR. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 01.05.72 |
| 1034 | KULKARNI BHALCHANDRA ATMARAM | MSVC/6325/20 00 | SAI PALACE, FLAT, NO.36, SEC-14, WASHI NEW MUMBAI-400703 | BVSc&AH/OU/1 958 | 07-02-32 |
| 1035 | Kumar Kanta Prasad, S/o Sri Ramjas Singh | BiharSVC/140 4/2000 | M.-Road No.32, Blk.150/2/1, Thana- R.I.T., Dist.-W. Singhbhum, Pin-831013 | B.V.Sc. & A.H./BAU/91 | 05/09/67 |
| 1036 | Kumar Vikas,S/o Shri Parkash | HarSVC/1631 | H.No.281 Hosing Board Colony,Namaul (Mgarh) | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 29.6.78 |
| 1037 | Kumar Yugal Kishore Singh, S/o Sri Damodar Singh | BiharSVC/203 9/2000 | Vill.+PO-Mahdalichak, PO- Nayagaon, Thana- Sonpur, Dist.-Saran | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 23/12/43 |
| 1038 | Kumud Ranjan, S/o Sri Rabindra Kr. Singh | BiharSVC/927/ 2000 | Moh.-Chitragupta Nagar, PO- Lohianagar, Thana- Patrakar Nagar, Patna- | B.V.Sc.&A.H./R AU/93 | 25/06/67 |
| 1039 | KUNAL CHAKRABORTY | WBSVC/2800/ 2000 | 27, LIBRARY ROAD, TALIKHOLA, P.O. CHUCHURA(R.C.) DT. HOOGHLY | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1040 | Kundan Kr. Mishra, S/o Sri Dinesh Mishra | BiharSVC/103 2/2000 | Vill.+PO- Bhramarpur, Thana- Bilhpur, Dist.-Bhagalpur, Pin- 853201 | B.V.Sc.&A.H./R AU/91 | 20/05/67 |
| 1041 | Kunj Bihari Pd. Agarwal, S/o Late Kuseswar Pd. Agarwal | BiharSVC/147 6/2000 | M.-Indirapuri Q.No.D/23, PO-BV College, Thana- Shastrinagar, Patna-800014 | B.V.Sc. & A.H./MU/63 | 15/07/40 |
| 1042 | KURESHI MOHD. IZHAR MOHD. ABDUL KARIM | MSVC/6291/20 00 | AZAM COLONY, DARGAH ROAD, PARBHANI, DIST. PARBHANI-431401 | BVSc&AH/KKV/ 77 | 01-01-50 |
| 1043 | Lakhi Ram Conjhу, S/o Late Harinath Conjhу | BiharSVC/979/ 2000 | Vill.-Patratu, PO- Patratu, Thana-Silli, Dist.- Ranchi, Pin-835102 | B.V.Sc.&A.H./B AU/87 | 24/06/61 |

| STUDY NAME | SEX | AGE | EDUCATION | DATE |
|---|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1044 LAKHWINDER PAL SINGH S/O SH. SOHAN LAL | PB.SVC- 2189/2000 | VILL. NAI MAZARA, P/O KISHAN PURA, TEHSIL & DISTT. NAWAN SHAHR | BVSc&AH/PAU/ | 10.01.76 |
| 1045 LAKKAWAR AVINASH WARUNDEO | PONDI/122/20 00 | 33,II CROSS,ANANDAPURAM, PAKKUMUDAYANPET,PO NDICHERRY | BVSc&AH/PKV/ | 11/02/69 |
| 1046 LAKSHMI I. | KERALASVC/ 2489/2000 | INDIRA MANDIRAM,SWATHI NGR.LANE NO.1,PEROORKADA | BVSc&AH/KAU/ | 26.04.77 |
| 1047 LAKSHMI KUTTAPPAN | KERALASVC/ 2484/2000 | PERACODE, TC., 29/434, THENGAPURA LANE, PETTAH, TRIVANDURM. | BVSc&AH/KAU/ | 24.10.75 |
| 1048 LAKSHMI NARAYANA P. S/O P. CHINA NARAYANA | APSVC/03610/ 2000 | NARASAPURAM(V), PEDDAPAPPUR(M), ANANTAPUR DT. -515408 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 01.06.73 |
| 1049 Lal Babu Singh, S/o Late Durga Singh | BiharSVC/167 3/2000 | V.-Dilawarpur,PO- Manoharpur,Thana- Raghunathpur,Dist.- Motihari | B.V.Sc. & A.H.BAU/81 | 27/10/53 |
| 1050 Lal Babu Singh, S/o Sri Mahendra Prasad Singh | BiharSVC/899/ 2000 | Vill.-Vishnupur Pratap,PO- Matha Sonho,Thana- Amnaur,Dist.-Chapra | B.V.Sc.&A.H./R AU/78 | 15/01/53 |
| 1051 Lal Bahadur Singh, S/o Late Rajeswar Singh | BiharSVC/174 7/2000 | VIII.+PO-Mirdaul,Thana- Narpatganj,Dist.-Areria | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 01/12/46 |
| 1052 Lal Bihari Pd., S/o Late S. Bhagat | BiharSVC/985/ 2000 | Vill.-Chokiya,PO- Nadiyanwa,Thana- Aandor,Dist.-Siwan | B.V.Sc.&A.H./R AU/92 | 07/07/87 |
| 1053 Lala Naresh Prasad, S/o Sri Yugal Kishore Lal | BiharSVC/201 7/2000 | Moh-Shekhpura,PO- B.V.College,Thana- Shastrinagar,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 01/06/43 |
| 1054 Lalan Kumar, S/o Sri Rajendra Prasad Yadav | BiharSVC/207 5/2001 | Vill.-Rampur Road,PO- Jamaipur Gogri,Thana- Gogri,Dist.-Khagariya | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 15/03/74 |
| 1055 Lalan Prasad Singh, S/o Late Chandrika Singh | BiharSVC/202 8/2000 | M-A/50,Sunanda Sadan,PO-BV College,Thana- Shastrinagar,Patna | B.V.Sc. & A.H./BU/58 | 02/10/34 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------|
| 1056 | Lalit Kr. Sinha, S/o Late Jagdeep Narayan | BiharSVC/937/2000 | M-Ashoknagar,Rd.No.8A/2,P O+Thana-Kankarbagh, Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./M U/68 | 25/03/47 |
| 1057 | Laliteshwar Lal Das, S/o Sri Tarni Lal Das | BiharSVC/151/2000 | Moh.-Arsande,PO-Boreja,Thana-Kanke,Dist.-Ranchi | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 01/09/50 |
| 1058 | Laliteshwar Pd. Sinha, S/o Late Lal Bihari Sinha | BiharSVC/141/2/2000 | Vill.-Ghardaur,PO-Lakhna,Thana-Punpun,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 01/07/42 |
| 1059 | LALITHA N. D/O N. VENKATESWARLU | APSVC/03605/2000 | 18-3-61/7, KHADI COLONY, TIRUPATI | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 13.05.76 |
| 1060 | Lalitnarayan Roy, S/o Late Ram Sunder Roy | BiharSVC/129/3/2000 | Vill.-Pakari,PO-Arrah,Thana-Nawada,Dist.-Bhojpur,Arrah-802301 | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 08/10/42 |
| 1061 | LATTO SARAG HARI | MSVC/6335/2/000 | MATRU-SHRADDHA, B/12, TILAK NAGAR, TALUKA KALAYAN, DIST. THANE | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 23-06-78 |
| 1062 | LAVANYA KUMAR T D/O T. THIRUMALA RAO | APSVC/03622/2000 | AMBEDKAR NAGAR, TANGUTUR, PRAKASAM DT. 523 274 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 20.07.76 |
| 1063 | Laxman Murmu, S/o Late Karan Murmu | BiharSVC/945/2000 | V.-Banshila,PO-Kalikapur,Thana-Porka,Dist.-Jamshedpur | B.V.Sc.&A.H./B AU/94 | 10/01/63 |
| 1064 | LAXMI KANT SANWAL D/O LATE SRI M.M. SANWAL | UPVC/3303 | SANWAL SADAN GURU NIWAS COMPOUND, PO-TALLI, TAL-NAINITAL, Y COLL.,MATHU | BVSc&AH/VET | 01.06.38 |
| 1065 | Laxmi Mahto, S/o Late Ram Pd. Mahto | BiharSVC/161.4/2000 | Vill.-Mohanpur,PO-Gobindpur,Thana-Mansurchak,Dist.- Begusarai,Pin-851128 | B.V.Sc. & A.H./RAU/75 | 01/06/51 |
| 1066 | Laxmi Narayan Sudhanshu, S/o Sri Bindeshwari Prasad Singh | BiharSVC/987/2000 | Vill.-Salavatpur,PO-Kawa,Thana-Hilga,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 03/01/43 |
| 1067 | LEELA RAM S/O SH. RAMA RAM | RAJSVC/2724/2000 | V/P KODKA, VIA RANIWARA,JALORE-343040 | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./2000 | 08.08.72 |

| STUDY NAME | INSTITUTION | ADDRESS | QUALIF | DATE |
|---|----------------------|--|-------------------------------|----------|
| 1068 LEENA CHANDRASEKHAR | KERALASVC/ 2500/2000 | KENGAYIL HOUSE(NO.327,MADAYIK ONAM P.O., IRINJALAKUDA. | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 01.01.76 |
| 1069 LIJOY K. MATHEW | KERALASVC/ 2479/2000 | KULATHOOR, NANNOKKADU, PATHANAMTHITTA PIN- 687645 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 13.01.76 |
| 1070 LINGAIAH J. S/O J. KOTAIAH | APSVC/03587/ 2000 | C/O CH. SATYANARAYANA REDDY, LINGAPALEM(P&M),W.G. | BVSc&AH/APA U/93 | 18.05.69 |
| 1071 LITON BISWAS | WBSVC/2812/ 2000 | VILL CHOATIA, P.O. BHABANIPUR, P.S. BAGDHA, DT. 24 PRGS(N) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1072 LOKESH DAS S/O NAresh CH. DAS | TRIPURA/91/2 000 | SANKAR CHOWMUHANI KRISHNANAGAR, AGARTALA TRIPURA (WEST) | BVSc&AH/KKV/ 98 | 6.1.73 |
| 1073 LOKESH GAUTAM | RAJSVC/2684/ 2000 | OPP. DEV NARAYAN TEMPLE,KANSUWA, KOTA | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 23.11.74 |
| 1074 LOKESH M.S. | KERALASVC/ 2524/2001 | VIII/124,NEAR MURUGAN TEMPLE, KIDANGOOR,ANGAMALY- 683572 | BVSc/UAS'Bangalore/92 | 15.08.64 |
| 1075 Lumlang Jyrwa | Megh/179/01 | Oxford Hill Laban, Shillong- 4 | BVSc&AH/AAU/ 82 | 1.1.53 |
| 1076 LYDIA DHANAMMAL CHRISTOPHER | PONDI/119/20 00 | ASST.WARDEN(LADIES HOSTEL),RESIDENTIAL ZONE,RGCV&AS,PONDICHERRY-9 | BVSc/TV&ASU/ 92 | 13/11/57 |
| 1077 M.GOPALAKRISHNAN NAIR | PONDI/120/20 00 | B-6,STAFF QURTERS,RGCV&ASC.,PONDICHERRY-9 | BVSc&AH/KAU/ 83 | 09/08/61 |
| 1078 M.K. PALIT | ARUNA/184/9 8 | THIZNO, WEST KAMENG DIST ARUNACHAL PRADESH | BVSc&AH/AAU/ 81 | 1.2.54 |
| 1079 M.Pazlur Rahman, S/o Late Md.Yusuf | BiharSVC/866/ 2000 | M.-80,Haroon Nagar Colony,PO+Thana- Phulwari Sharif,Dist- Patna,Pin-801505 | B.V.Sc.&A.H./ 64 | 08/01/43 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 1080 | M.RAJALAKSHMI MYTHILI | PONDI/130/20 01 | 12.7TH CROSS ROAD,BHARATHI NAGAR LAWSPET PONDICHERRY-605008 | BVSc&AH/PU/2 000 | 07/08/78 |
| 1081 | M.SATHYANARAYANA RAJU | PONDI/123/20 00 | 29.III CROSS, FIRST MAIN ROAD,KUMARAN NGR.EXTN.,LAWSPET,PO NIDICHERRY-605008 | BVSc/APAU/79 | 01/05/56 |
| 1082 | Madan Mandan Sahay, S/o Late Gorakh Nandan Sahay | BiharSVC/838/ 2000 | M-Block No.7,Flat No.82,PO-Rajendra Nagar,Thana- Kadambamkuan,Patna- | B.V.Sc.&A.H./M U/66 | 01/07/42 |
| 1083 | MADAN MOHAN MALI | RAJSVC/2654/ 2000 | S/O SH.RAMCHARANLAL MALI,NR. DISTT. EDUCATION OFFICE,BAPUPARA,KARA | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 08.11.75 |
| 1084 | Madan Mohan, S/o Sri Chandrika Pd. Sinha | BiharSVC/167 8/2000 | Vill.-Shambhupura,PO- Tiskhora,Thana- Naubatpur,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/81 | 05/11/54 |
| 1085 | Madan Murari Prasad, S/o Late Ram Sharan Prasad | BiharSVC/172 6/2000 | Vill.-Alipur,PO-Kesri,Thana- Vind,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 16/03/51 |
| 1086 | MADHAVLAL RAIKWAR S/O SHRI BABOOLAL RAIKWAR | MPSVC/1880/ 00 | PANDITPURA, SILWANI, DISTT. RAISEN 464886 | BVSc&AH/JNKV V/98-99 | 03.01.67 |
| 1087 | MADHU CHANDRA KHAN | WBSVC/2796/ 2000 | VILL DURLOV GANJ, P.O. SATBANKURA, DT. MIDNAPORE | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1088 | MADHU CHAUDHARY D/O SHRI A.P. CHAUDHARY | MPSVC/1908/ 00 | CHAUDHARY NIWAS 9,MADHUVAN FARM VINEET KUNJ AKHAPPUR,KOLAR | BVSc&AH/JNKV V/98-99 | 16.07.74 |
| 1089 | MADHU KUMAR U S/O UMEPAATHI | KARNASVC/3 084 | N.W.C. 247/A GANESH COLONY BHADRAVATHI SHIVAMOGA | BVSc&AH/UAS DHARWAR/99 | 08.05.76 |
| 1090 | Madhukant Jha, S/o Late Ramakant Jha | BiharSVC/170 7/2000 | Vill.-Tetri,PO-Tetri Pakra,Thana- Navgachia,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 01/01/48 |
| 1091 | MADHUKAR N. S/O N. GOVINDA | APSVC/03570/ 2000 | 34/B, VENKATESWAR NILAYAM, PADMANABHA NAGAR, MEHDIPATNAM, HYDERABAD-500028 | BVSc/APAU/72 | 16.02.48 |

| STUDY NAME | REGN | ADD | QUALIF | DOS |
|---|---------------------|--|------------------------------|----------|
| 1092 MADHUKESHWAR H S/O GURUMURTHY H | KARNASVC/3 088 | DOOR NO.7/877 KB EXTN. DAVANAGERE - 577002 | BVSc&AH/UAS DHARWAR/ | 17.05.76 |
| 1093 MADHUMITA MITRA MISS. D/O SH.SANKAR KR.MITRA | TRIPURA/92/2 000 | 66,SHIBNAGAR,COLLEGE ROAD,PO AGARTALA COLLEGE,TRIPURA WEST | BVSc&AH/JNKV V/96 | 03/01/72 |
| 1094 Madhurendu Kumar Gupta, S/o Dr. Rajendra Kumar Gupta | BiharSVC/825/ 2000 | Vill Arsandev PO-Boraiva, PS Kankev, Ranchi-835240 | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 02/05/61 |
| 1095 Madhuri Kumari, D/o Sri Surendra Nath Vidyarthi | BiharSVC/886/ 2000 | Moh.-Ashanagar,PO-Hathna,Thana-Meerganj,Dist.- 803118 Gopalganj. | B.V.Sc.&A.H./R AU/99 | 31/12/74 |
| 1096 Madhusoodanan Pillai.R | Pondi/90/2000 | No.3,Block-A,Prof.Qtr,Raji Gandhi Vety Coll Residential Zone,Kurumbapet,Pond | BVSc/The Kerala Agril Uni/74 | 12.5.52 |
| 1097 Madhusudan Bhagat, S/o Sri Vishram Bhagat | BiharSVC/163 8/2000 | Vill.-Chaprong,PO-Mungo (Charhu),Thana-Senna,Dt.- Lohardagga,P.-835302 | B.V.Sc. & A.H./BAU/91 | 25/02/64 |
| 1098 Madhusudan Prasad Singh, S/o Sri Chandreshwar Prasad | BiharSVC/194 5/2000 | M-Chitraguptanagar,PO-Kankarbagh,Thana-Patrakar,Dist.-Patna,P- 800020 | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 05/11/54 |
| 1099 Madhusudan Singh, S/o Late Ramnandan Singh | BiharSVC/182 8/2000 | Vill.-Machauli,PO-Amras,Thana-Manivari,Dist.-Muzafferpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/69 | 21/12/48 |
| 1100 Madhusudhan J R,S/o Rajanna K N | Karna/3190/ | Jonnapalli,Kotaballapalli,Sri nivasapur Tq,Kolar Dist | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 1.7.76 |
| 1101 MADHUSUDHANA RAJU N. S/O N. VENKATAIAH | APSVC/03584/ 2000 | 12-2-823/A/87,FL.NO.7, SHANTHI APRT.,SANTOSHNAGAR COLY.,MEHDIPATNAM,H' | BVSc/APAU/73 | 10.08.45 |
| 1102 Maha Singh,S/o Sh Shubh Ram | HarSVC/1614/ | VPO Sanga Dt Bhiwani | BVSc&AH/CCS HAU/99 | 7.11.75 |
| 1103 Mahadevana Gounda V Pateel,S/o Venkanagouda L Pateel | Karna/3210 | Hamfihelli PPost,Sureban,Ramdurga Tq, Belgaum Dist | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 15.3.77 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-------------|---|------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 1104 | MAHANTA DR. SANJEEV KUMAR S/O LATE PADMA MAHANTA | ASM/1909/200 0 | P.O. AZAD PURANI GAON, VILL. BASHPATIGAON, DIST. LAKHIMPUR. | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 1105 | MAHATUGADEM SANJAY MANKU | MSVC/6330/20 00 | AT POST- SAVARDE BUDRUK TAL.KOGAL, DSIT. KOLHAPUR- 416219 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 24-12-76 |
| 1106 | MAHENDRA KUMAR ARYA | RAJSVC/2630/ 2000 | A-14,AMBEDKAR NAGAR,TONK PHATAK,JAIPUR | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 12.11.75 |
| 1107 | MAHENDRA KUMAR GUPTA S/O SH. RAMESH CHAND GUPTA | RAJSVC/2697/ 2000 | VILL.JAMALPUR,P.KHERA ,TEH.HINDAUN,KARAULI, RAJASTHAN | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 02.07.73 |
| 1108 | Mahendra Narayan Pandit, S/o Sri Panchn Pandit | BiharSVC/864/ 2000 | Moh.-Bariarpur,(E.R.BHU) PO+Thana - Munger Sadar,Dist.-Munger | B.V.Sc.&A.H./M U/68 | 04/10/43 |
| 1109 | Mahendra Pd. Singh, S/o Late Ramnandhan Singh | BiharSVC/162 7/2000 | Vill.-Ghosait,PO+Thana- Peerobazar,Dist.- Lakhisarai,Pin.-811112 | B.V.Sc. & A.H./RAU/73 | 01/07/48 |
| 1110 | Mahendra Prasad, S/o Late Satya Narayan Lal | BiharSVC/104 3/2000 | Vill.+PO-Mordiha,Thana- Thakur Gangh, Dist.-Goddha | B.V.Sc.&A.H./M U/68 | 08/07/42 |
| 1111 | MAHENDRA SINGH PARIHAR S/O SHRI RAM RATAN PARIHAR | MPSVC/1870/ 00 | VILL. INDARAGARH DISTT. DATIYA (M.P.) 475675 | BVSc&AH/JNKV V/98-99 | 20.7.75 |
| 1112 | MAHESH CHAND | RAJSVC/2678/ 2000 | V/P. HELAK,VIA SEWAR,BHARATPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 01.01.76 |
| 1113 | MAHESH GUPTA | RAJSVC/2665/ 2000 | C/O SH.VISHNU KUMAR PRADHAN,NR.ADARSH HOTEL,PRADHAN MEDICAL | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 20.03.73 |
| 1114 | MAHESH KUMAR SUMAN | RAJSVC/2647/ 2000 | V/P TISAYA TEH & DIST. BORON,RAJASTHAN | BVSc&AH/RAJ AGRI.UNIV./200 0 | 26.06.73 |
| 1115 | MAHESH KURIYAWAR S/O NINGAPPA KURIYAWAR | KARNASVC/3 101 | C/O SHIMABIKA TRADERS,APMC COMP. SHOP NO.2,OPP.VENKATESH | BVSc&AH/UAS DHARWAR/98 | 12.12.75 |

| SLN# | NAME | REG# | AGE | QUALIF | DOB |
|------|--|------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 1116 | Mahesh Prasad Sah, S/o Late Natvar Pd. Sah | BiharSVC/123 9/2000 | M.-Sahebganj,PO-Mathura Saheb,Thana-Belhor,Dist.- Banka,Pin.-813202 | B.V.Sc.&A.H./B AU/83 | 27/12/55 |
| 1117 | Maheshwar Nath Tiwari, S/o Late Raghunath Tiwari | BiharSVC/126 4/2000 | Moh.-Dahiyanwa Tola,PO+Thana+Dist.- Chapra | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 21/08/42 |
| 1118 | Mahima Minz, S/o Sri Martin Minz | BiharSVC/137 5/2000 | Moh.-Tigra Ganga Toli,PO- Guru (Ratu),Thana- Ratu,Dist.-Ranchi,Pin.- 835222 | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 02/02/71 |
| 1119 | MAHIPAL SINGH | RAJSVC/2658/ 2000 | 1/117,HOUSING BOARD,JHUNJHUNU | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 28.02.74 |
| 1120 | MAHITHA O. D/O O. VENKATESWARLU | APSVC/03615/ 2000 | PRIYADARSHAN COLONY OPP: TELEPHONE EXCHANGE, ATMAKUR, | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 19.08.75 |
| 1121 | Mahmood Alam, S/o Dr. Md. Ahsan | BiharSVC/199 5/2000 | Vill+PO-Hussaina,Thana- Bahia,Dist.-Begusarai,Pin- 851211 | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 01/01/44 |
| 1122 | MAHURKAR ASHWIN VISHNUPANT | MSVC/6375/20 00 | JIJAMAT NAGAR, NEAR JAIN MANDIR, TAL.HINGOLI, DIST. HINGOLI- 431513 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 02-10-78 |
| 1123 | MAHYUA DATTA | WBSVC/2828/ 2000 | 26/4/1, BANERJEEPARA RD., CHATTERJEE BAGAN, CAL-41 | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1124 | Maity Nimai Kumar | Pondi/100/200 0 | 57, 3rd Cross, Kumaran Nagar, Lawspet, Pondicherry 605009 | BVSc&AH/BCK VV/75 | 19.06.54 |
| 1125 | Makeshwar Sah, S/o Late Vanarsi Sah | BiharSVC/150 2/2000 | Vill.-Konipar,PO- Daghari,Thana- Suryagadha,Pin.-811106 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 03/07/69 |
| 1126 | Makneshwar Prasad, S/o Late Kunwar Prasad | BiharSVC/932/ 2000 | Vill.-Jhilganj Road,PO- Gaya,Thana-Kotwali,Dist- Gaya,Pin-823001 | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 04/01/43 |
| 1127 | Malathesh D S/o Shanmukapa | KARNASVC/3 166 | Behind Malatesh Complex,6th Cross, Rajarajeshwari Ng,Renebennur,Haveri | BVSc&AH/UAS, Blore/2000 | 13.11.77 |

| SR# | NAME | REG# | ADD | QUALIF | DOB |
|------|---|---------------------|--|---------------------------|----------|
| 1128 | Malay Kumar Ray, S/o Late Sanat Kumar Ray | BiharSVC/2014/2000 | M-Deshbandhupara,PO+Than a-Siliguri,Dt.-Darjeeling,West Bengal | B.V.Sc. & A.H./MU/63 | 18/08/42 |
| 1129 | MALAY KUMAR SHRIVASTVA, S/O. SH. RAHAS BIHARI | RAJSVC/2755/2001 | BK, A.CHOMU HOUSE, C- SCHEME, JAIPUR | BVSc&AH/RKV V/87 | 28-05-64 |
| 1130 | Malcolm Dkhar | Megh/154/01 | Mawlai Kynton Massar, Shillong | BVSc&AH/AAU/ 81 | 1.3.52 |
| 1131 | MALLA REDDY B. S/O B. HANUMANTH REDDY | APSVC/03551/2000 | PLOT NO. 83/A, OLD GAYATRINAGAR, JILLELAGUDA(P), R.R.DT. | BVSc&AH/APA U/84 | 21.11.38 |
| 1132 | MALLESWARA RAO U.V.N. S/O U. KRISHNA GOPALA RAO | APSVC/03624/2000 | RAYAVARAM, GUDURU(M), KRISHNA DT.-521162 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 03.10.75 |
| 1133 | Mamatha G S,D/o Sanjeeva Murthy B N | KARN SVC/3182 | Gotakanapura Kalludi PPost,Gowribidanur, BEL Layout Bangalore-97 | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 10.9.77 |
| 1134 | Man Mohan Mahto, S/o Sri Chand Mahto | BiharSVC/1633/2000 | Vill.-Palna,PO-Baburamdih,Thana-Tamer,Dist.-Ranchi,Pin.-835225 | B.V.Sc. & A.H./BAU/95 | 03/01/68 |
| 1135 | MANDALATH SUJA JOHN | KERALASVC/2517/2000 | MANDALATH HS.,MADAPPATTU ROAD,SANTHI NAGAR, VENNALA P.O.,COCHIN | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 28.10.77 |
| 1136 | Mandavi Ballabh Jha, S/o Sri Dashrath Jha | BiharSVC/1962/2000 | Vill.-Parsa,PO-Haripur Mairwanna,Thana+Dist.-Godda,Pin-814133 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 08/08/70 |
| 1137 | MANDEEP SINGLA S/O SH. KIDAR NATH | PB.SVC-2253/2001 | 3XX-1650/1, NEW PREM NAGAR, LUDHIANA. | BVSc&AH/PAU/ 2001 | 17.03.77 |
| 1138 | MANE SUREKHA DIGAMBARRAO | MSVC/6370/2000 | MINAKSHI, BHAGYANAGAR, NAGAR ROAD, TAL.BEED, DIST. BEED- 431122 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 26-11-75 |
| 1139 | Mani Bhushan Pd., S/o Sri Braj Bhushan Pd. | BiharSVC/1511/2000 | M.-Pratapnagar,Madhubani,P O-Purnea,Thana-Khanjachi,Dt.-Purnea | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 07/05/48 |

| SNO | NAME | REGN | ADDRESS | EDUCATION | DATE |
|------|---|------------------------|---|------------------------------------|----------|
| 1140 | Mani Lal Rastogi, S/o Late Purushotam Lal Rastogi | BiharSVC/205 3/2000 | M.-B.B.Ghosh Lane,Moti Jheel,PO-G.P.O.,Thana-Town Thana,Dist.-Muzafferpur | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 07/06/45 |
| 1141 | Mani Mohan, S/o Late Lal Bahadur Prasad | BiharSVC/192 6/2000 | M-Friend's Colony,PO-Ashiyana Nagar,Thana-Shastri Nagar,Patna-800025 | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 10/01/42 |
| 1142 | MANIK CHANDRA PAKHIRA | WBSVC/2829/ 2000 | VILL & P.O. SAHARDA DT. MIDNAPORE | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1143 | MANIKANCHAN CHAKRABORTI S/O ASIT BARAN | TRIPURA/17/2 000 | OLD KALIBARI LANE,KRISHNANAGAR,A GT. | BVSc&AH/RAU V/76 | 04/01/54 |
| 1144 | Manikant Singh, S/o Sri Viswanath Singh | BiharSVC/830/ 2000 | Vill.+P.O. -Dheema, Thana - Banmankhi, Dist. - Purnea | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 01/07/40 |
| 1145 | Manindra Nath Deo, S/o Sri Ram Chandra Prasad | BiharSVC/133 3/2000 | Moh.-Indra Nagar,RNS Colony,PO-Lohianagar,Thana-Kankarbagh,Patna-800020 | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 06/01/43 |
| 1146 | Manindra Nath Sinha, S/o Late Keshri Pd. Sinha | BiharSVC/189 9/2000 | M-A/10,Indirapuri Coly,PO-BV Coll.,Thana-Shastrinagar,Patna-800014 | B.V.Sc. & A.H./BU/58 | 03/07/37 |
| 1147 | MANISH KUMAR | DVC/0556/200 0 | SH.I.SINGH, MUBARAKPUR DEBAS,H.NO.392,PO- RANIKHERA,DELHI-81 | BVSc&AH/GBP UA&T/97 | 17/01/74 |
| 1148 | MANISH KUMAR SHUKLA S/O SRI AWADH NARAYAN | UPVC/3285 | VILL.&P.O.-DEORI BUJURG,DIST.-FATEHPUR, (U.P.) | BVSc&AH/ASS AM AGRI UNI/2000 | 15.08.77 |
| 1149 | MANISH KUMAR SINGLA S/O SH. MILKHI RAM | PB.SVC- 2239/2001 | H.NO.3146, ST. NO.1, COURT ROAD, BATHINDA | BVSc&AH/PAU 2000 | 03.03.77 |
| 1150 | Manish Kumar, S/o Late Janardan Prasad | BiharSVC/192 2/2000 | Vill.-Lohadi,PO+Thana-Sohsarai,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/99 | 01/06/75 |
| 1151 | MANJULA CH. D/O CH. SUBRAHMANYAM | APSVC/03596/ 2000 | D/O VANAJAKSHAMMA, MALLAMMA TEMPLE STREET, VENKATAGIRI TOWN, NELLORE DIST. | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 31.05.71 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|------------------------|--|------------------------------|----------|
| 1152 | Manjunath B M,S/o Muniraju | KARNSVC/318 1 | Bodhaganhalli,Thippenhalli Post,Chikkaballapur Tq, Kolar Dist | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 25.12.75 |
| 1153 | Manjunath H T,S/o Thippeswamy H B | KARNSVC/317 8 | Hulikunte Post Sira Tq,Tumkur Dt | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 5.6.77 |
| 1154 | Manjunath Prabhu B M, S/o M Muthahanumaiah | Karna/3191 | No.14 Gokula,1st Stage,1st Phase,Bangalore | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 8.8.76 |
| 1155 | Manjunath Sugur, S/o B. M Meenakshappa | KARNASVC/3 137 | Jail Road, 4th Corss, Hosamane Extn., Shimoga | BVSc/UAS B'llore/97 | 18.5.75 |
| 1156 | MANJUNATHA K.N. S/O NAGAPPA | APSVC/03552/ 2000 | C/O M.B. RAMAKRISHNA, BUKKAPATNAM(M), ANANTAPUR DT. | BVSc/UAS/96 | 08.07.68 |
| 1157 | Manmohan Prasad, S/o Sri Arjun Prasad | BiharSVC/195 5/2000 | M-Sadar Hospital,PO+Thana- Daltenganj,Dist.- Palamau,Pin-822101 | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 05/01/62 |
| 1158 | MANMOHAN SINGH DARDI S/O SH. RAMPARKASH | PB.SVC- 2225/2001 | VPO.HARIANA, DIST. HOSHIARPUR | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 01.05.75 |
| 1159 | Manohar Kumar, S/o Sri Noni Gopal Singh | BiharSVC/122 1/2000 | Vill.-Barohiya,PO- Budhchak,Thana- Kahalgao,Dist.- Bhagalpur,Pin-813222 | B.V.Sc.&A.H./R AU/95 | 07/06/70 |
| 1160 | Manohar.R, S/o Sh M.N.Ramaswamy | KARNASVC/3 093 | NO.37,MIGIA A Main New Town,Yelahanka,Bangalore | BVSc/UAS,B'lor e/99 | 11.4.76 |
| 1161 | Manoj Kr. Mahanta, S/o Late Lathu Ram Mahanta | BiharSVC/133 6/2000 | V.+PO+Thana- Rajnagar,Dist.-Chaibaga (W.Singbhumi),Pin.-832113 | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 15/11/67 |
| 1162 | Manoj Kr. Prasad, S/o Late Lalit Narayan Prasad | BiharSVC/137 7/2000 | Moh.-Nadi Dipo,PO+Thana- Kanke,Dist.-Ranchi,Pin.- 834006 | B.V.Sc. & A.H./BAU/91 | 17/07/68 |
| 1163 | MANOJ KUMAR JOSHI S/O SRI DEVI DUTTA JOSHI | UPVC/3261 | SRI D.D. JOSHI, VILL&P.O.-WADDA, DISTT.-PITHORAGARH, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 06.03.75 |

| STUDY NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|--|---------------------|--|-------------------------|----------|
| 1164 Manoj Kumar Mani, S/o Late Dinanath Mandal | BiharSVC/171 3/2000 | V.-Hajipur (Rajgaon),PO-Mirsa Chowki,Thana+Dist.-Sahebganj,Pin.-813203 | B.V.Sc. & A.H./RAU/92 | 29/01/67 |
| 1165 Manoj Kumar Mehta, S/o Sri Vishnudeo Mehta | BiharSVC/156 4/2000 | Vill.+PO-Ghoswari,Thana-Bakhtyarpur,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 06/11/67 |
| 1166 MANOJ KUMAR TIWARI S/O SHRI MATA BADAL TIWARI | MPSVC/1905/ 00 | C/O SHRI K.P.QJHA BACK SIDE OF CONVENT SCHOOL PANDAV NAGAR, SHAHDOLE- | BVSc&AH/JNKV V/98-99 | 01.07.75 |
| 1167 Manoj Kumar, S/o Dr.Keshav Pd.Chaudhary | BiharSVC/836/ 2000 | Moh+P.O. - Chaturbhaj Varang, Thana - Piro, Dist - Arrah | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 04/06/71 |
| 1168 Manoj Kumar, S/o Late Pachu Lohar | BiharSVC/138 0/2000 | Moh.+PO-Guru,Thana-Ratu,Dist.-Ranchi,Pin.-835222 | B.V.Sc. & A.H./BAU/97 | 05/01/71 |
| 1169 Manoj Kumar, S/o Sri Basudeo Roy | BiharSVC/148 3/2000 | Vill.-Kamalpur,PO-Dighwara,Thana-Avtarnagar,Dist.-Chapra (Saram) | B.V.Sc. & A.H./BAU/82 | 19/05/58 |
| 1170 Manoj Kumar, S/o Sri Kashi Nath | BiharSVC/142 9/2000 | Vill.-Sakrogadh,PO+Thana-Sahebganj,Dist.-Sahebganj | B.V.Sc. & A.H./BAU/88 | 08/07/63 |
| 1171 Manoj Kumar, S/o Sri Vinay Kumar | BiharSVC/200 9/2000 | Vill-Jagdishpur,PO- Meerpur,Thana+Dist.- Nalanda,Pin-803111 | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 05/09/76 |
| 1172 Manoranjan Banerjee, S/o Late Kali Charan Banerjee | BiharSVC/130 2/2000 | Vill.+PO+Thana-Vihpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 18/01/43 |
| 1173 Manoranjan Prasad Singh, S/o Late Yogendra Prasad Singh | BiharSVC/201 0/2000 | Vill-Paharichak,PO+Thana-Sonepur,Dist.-Saran | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 07/01/43 |
| 1174 Manoranjan Prasad Sinha, S/o Late Chit Ranjan Rama | BiharSVC/203 4/2000 | Vill.+PO-Sodipur,Via-Peerpainty,Dist:-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 03/11/54 |
| 1175 Manoranjan Prasad, S/o Sri Braj Kumar Prasad | BiharSVC/857/ 2000 | Moh.-180,Manas Marg,Nehru Nagar,PO+Thana-Patliputra,Patna-800013 | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 17/01/45 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|------|---|------------------------|--|------------------------------------|----------|
| 1176 | MANORANJAN SARKAR S/O HARI CHARAN SARKAR | TRIPURA/61/2 000 | NEAR HOUSING ESTATE CORNER, CHANBAN, PO R.K.PUR, UDAIPUR SOUTH TRIPURA | BVSc&AH/RAU/ 83 | 10.2.58 |
| 1177 | Mansoor Alam Mohmad,S/o Shekh Md.Jakki Hussain | BiharSVC/976/ 2000 | M+PO-Barhawa Lakan Sen Tola,Dist.- Motihari(E.Champaran) | B.V.Sc.&A.H./B AU/84 | 08/01/56 |
| 1178 | MARAL UMESH JAISINGRAO | MSVC/6396/20 00 | 223/8, KOYANABAI CHAWAL, BEHIND KURLA POLICE STATION,KURLA(W) | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 09-05-77 |
| 1179 | MARAMWAR VINIKUMAR VIJAYKUMAR | MSVC/6415/20 01 | PRYAG SMRUTI, DEGLOOR ROAD, UDGIK, DIST. LATUR- 413517 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 13-08-77 |
| 1180 | MARLI ETE | ARUNA/212/0 1 | C/O TUMAR ETE VETY. COLONY, SIYAM COLONY, W/SIANG ATONG | BVSc&AH/AAU/ 01 | 29.3.75 |
| 1181 | MAYANK GOYAL | RAJSVC/2631/ 2000 | V.P. BOHARAWAR - DO KHURD,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 01.07.75 |
| 1182 | Mazibur Rahman Ansari. S/o Late Md. Abdur Rahman Ansari | BiharSVC/103 3/2000 | Vill.-Singarpur,PO- Chaina,Via- Parjwara,Thana- Dhuraiya,Dist-Banka | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 05/10/48 |
| 1183 | Md. Abdul Aas, S/o Late Md. Abdul Fatah Sidhique | BiharSVC/190 9/2000 | Vill.- Lohsinghna,PO+Thana- Hazaraibagh,Dist.- Hazaraibagh,Pin-825301 | B.V.Sc. & A.H./BU/60 | 07/01/42 |
| 1184 | Md. Abul Hayat, S/o Dr. M.A. Nausrat | BiharSVC/173 2/2000 | Moh.-Khajoor Banna,PO- Mahendru,Thana- Sultanganj,Dist.-Patna,Pin- 800006 | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 01/09/46 |
| 1185 | Md. Alim Ismayil, S/o Late S.M. Ismayil | BiharSVC/175 3/2000 | Vill.-Dharampur,PO-Near Bhola Takis,Thana+Dist.- Samastipur | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 31/06/52 |
| 1186 | Md. Amin Ansari, S/o Md. Israphil Ansari | BiharSVC/150 1/2000 | Vill.-Ghormera,PO- Kamdeodin,Thana- Katoriya,Pin.-813106 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 23/12/68 |
| 1187 | Md. Anjarul Haque, S/o Md. Jiva Ul Haque | BiharSVC/175 5/2000 | Vill.+PO-Tariyaman,Thana- Simri Baktyarpur,Dist.- Saharsa | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 01/07/49 |

| STUDY NAME | REGN | ADD. | QUALIF | DOB |
|---|------------------------|--|-----------------------|----------|
| 1188 Md. Asif Ahmad, S/o Late Md. Ahamad Ali | BiharSVC/110 0/2000 | Vill.+PO-Tippahar,Thana-Raj Mahal,Dist.-Sahebganj,Pin.-816116 | B.V.Sc.&A.H./B-AU/96 | 25/02/70 |
| 1189 Md. Azaz Kashim, S/o Md. Kashim Khan | BiharSVC/191 1/2000 | Moh.-Harun Nagar,PO+Thana-Fulwarisharif,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 20/07/60 |
| 1190 Md. Ejaz Ahmad, S/o Late Abdul Mannan | BiharSVC/118 1/2000 | M.-Lodi Katra,PO+Thana-Patnacity,Dist.-Patna,Pin.-800008 | B.V.Sc.&A.H./B-AU/84 | 16/02/60 |
| 1191 Md. Ekram, S/o Md. Fazole Haque | BiharSVC/132 3/2000 | Vill.+PO-Mahiz Bathma,Thana-Bahadurganj,Dist.-Kishanganj,Pin-855101 | B.V.Sc. & A.H./RAU/92 | 04/03/65 |
| 1192 Md. Farhat Jabbar, S/o Late Md. Abdul Jabbar | BiharSVC/158 8/2000 | Vill.+PO-Habeebpur,Thana-Habeebpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/94 | 15/08/62 |
| 1193 Md. Firoj Akhtar, S/o Md. Shafik | BiharSVC/168 0/2000 | Vill.-Lachanpur,PO-Bochganw,Thana-Jalalgadh,Dist.-Purnea,Pin.-854301 | B.V.Sc. & A.H./BAU/87 | 07/01/63 |
| 1194 Md. Imran Ansari, S/o Md. Muslim Ansari | BiharSVC/110 4/2000 | Vill.+PO-Kalajhor,Thana-Kathikund,Dist.-Dumka | B.V.Sc.&A.H./B-AU/94 | 13/01/69 |
| 1195 Md. Ivasin Azad, S/o Late Imarat Hussain | BiharSVC/157 5/2000 | Vill.+PO-Shivanandpur,Thana-Abadpur,Dist.-Kathihar | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 01/01/44 |
| 1196 Md. Jamil Ahamad, S/o Late Md. Maniruddin | BiharSVC/196 1/2000 | Vill.-Mohiuddinpur,PO+Thana-Habibpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 05/01/44 |
| 1197 Md. Jayauddin, S/o Md. Kayamuddin | BiharSVC/115 0/2000 | M.-Kashipur,Ward No.12,PO+Thana+Dist.-Samastipur, Pin-848101 | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 01/11/43 |
| 1198 Md. Kalam, S/o Late Sahadat Hussain | BiharSVC/135 5/2000 | Vill.-Gopi Line Savar,PO+Thana+Dist.-Lohardagga,Pin.-835302 | B.V.Sc. & A.H./BAU/89 | 01/01/63 |
| 1199 Md. Kaleem, S/o Late Sabdul Mian | BiharSVC/180 9/2000 | V.-Chak Dhorha,PO-Dhorha Kurtha,Thana-Makhdoompur,Dt.-Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 15/06/42 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DAT |
|-------------|--|------------------------|--|--------------------------|------------|
| 1200 | Md. Kalimuddin Ansari,S/o Md. Ansar Ali | BiharSVC/115 1/2000 | Vill.+PO-Chatikodar Jama,Thana+Dist.- Sahebganj,Pin.-816109 | B.V.Sc.&A.H/RA U/95 | 01/05/68 |
| 1201 | Md. Kalimuddin, S/o Sekh Nomani | BiharSVC/200 3/2000 | Vill-Jaminikola,PO-Ajay Pakariya,Thana- Pathargama,Dist.-Godda | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 04/02/53 |
| 1202 | Md. Khalid Ansari, S/o Hafiz Md. Mazhaul Haque | BiharSVC/179 3/2000 | Vill.-Dumduma,PO+Thana- Laheria Sarai,Dist.- Darbhanga | B.V.Sc. & A.H./RU/68 (A) | 01/06/47 |
| 1203 | Md. Latiphul Kabir, S/o Abdul Rauf | BiharSVC/142 5/2000 | Vill.+PO-Janka,Thana- Rajmahal,Dist.- Sahebganj,Pin.-816116 | B.V.Sc. & A.H./RAU/92 | 01/07/68 |
| 1204 | Md. Maksud Alam, S/o Late Abdul Cafur Ansari | BiharSVC/178 4/2000 | Vill.-Ambatanr,PO+Thana- Giridih,Dist.-Giridih | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 02/02/45 |
| 1205 | Md. Masidur Rahman, S/o Late Mahmoodur Rahman | BiharSVC/206 8/2000 | Vill.-Nohata,PO+Thana- Nohta,Dist.-Saarsa | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 02/01/43 |
| 1206 | Md. Masihuzzama,S/o Late Md. Musa Ansari | BiharSVC/187 7/2000 | Moh.-Malkana,PO+Thana- Masaudhi,Dist.-Patna,Pin- 804452 | B.V.Sc. & A.H./BAU/97 | 10/12/62 |
| 1207 | Md. Moinuddin, S/o Late Md. Hanif | BiharSVC/128 3/2000 | Vill.+PO- Shalehpur,Mohanpur,Thana -Falka,Dist.-Katihar | B.V.Sc. & A.H./BAU/87 | 27/01/63 |
| 1208 | Md. Murtza, S/o Md. Mofid | BiharSVC/126 5/2000 | V.-Shekhpura Dani,PO- Shekhpura Akhara,Thana- Kewati,Dist.-Darbhanga | B.V.Sc.&A.H./R U/68 | 01/01/48 |
| 1209 | Md. Naiyer Asam, S/o Late Abdul Jabbar | BiharSVC/994/ 2000 | M.-Rasi Pura,PO+Thana- Laheria Sarai,Dist.- Darbhanga | B.V.Sc.&A.H./M U/68 | 24/03/47 |
| 1210 | Md. Najib Asraf, S/o Late Abdul Alim | BiharSVC/154 7/2000 | Vill.-Milkichak,PO-Kaji Fatuchak,Dist.-Shekhpura | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 27/10/42 |
| 1211 | Md. Nasimiul Haque, S/o Late Maqubul Haque | BiharSVC/179 5/2000 | M-Nagmatia Bunglow,PO- Nagmatia,Thana-Gaya Mofasil,Dist.-Gaya | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 04/11/41 |

| SIMILAR NAME | ENRUM | ADD | QUALIF | DOB |
|--|------------------------|--|--------------------------|----------|
| 1212 Md. Nasiruddin Ansari, S/o Late Ramjan Ali | BiharSVC/135 6/2000 | M.-Navadin,Near Masjid,PO+Thana+Dist.- Aurangabad,Pin.-824101 | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 02/01/48 |
| 1213 Md. Noor Uddin, S/o Late Queyam Uddin | BiharSVC/884/ 2000 | Vill.-Mirzapur (Diari),PO- Araria-R.S.,Thana- Raniganj,Dt.-Araria,Pin- 854312 | B.V.Sc.&A.H./M U/64 | 15/05/41 |
| 1214 Md. Riyaz Ansari, S/o Md. Rafik Ansari | BiharSVC/139 3/2000 | M.-Near Baratiya H.Sch.,PO+Thana- Barahia,Dist.- Lakhisarai,Pin.-811302 | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 04/07/46 |
| 1215 Md. Salah Uddin, S/o Md.Allaudin | BiharSVC/133 4/2000 | Moh.-Betvan Bazar,PO+Thana- Munger,Dist.-Munger | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 10/01/62 |
| 1216 Md. Shahid Parvej, S/o Md. Yunus | BiharSVC/192 3/2000 | Vill.-Kaji Tola,PO-Arrah Chowk,Thana-Town,Dist.- Bhojpur,Pin-802301 | B.V.Sc.,& A.H./RAU/96 | 01/01/70 |
| 1217 Md. Shamim Khan, S/o Abdul Samid Khan | BiharSVC/991/ 2000 | M.-Magar Batta(Majid Chowk,PO+Thana- Hajipur,Dist.-Vaishali,Pin- 844101 | B.V.Sc.&A.H./M U/71 | 20/07/46 |
| 1218 Md. Shamini Uddin, S/o Late Md. Salimuddin | BiharSVC/145 7/2000 | Vill.+PO- Alinagar,Ragpur,Thana- Sabour,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 05/06/46 |
| 1219 Md. Shayak, S/o Late Md. Farook | BiharSVC/130 5/2000 | M.-A-19, Indrapuri Colony,PO-BV College,Thana- Shastrinagar,Patna-800014 | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 02/09/46 |
| 1220 Md. Sidhiguel Manauvar, S/o Md. Jahur Ali | BiharSVC/145 9/2000 | Vill.-Mainachak,PO- Kasvadudhichak,Thana- Mehrima,Dist.-Godda | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 12/09/71 |
| 1221 Md. Sohail Khan, S/o Md. Kaphil Khan | BiharSVC/148 6/2000 | Vill.-Kabirpur,PO+Thana- Nathnagar,Dist.- Bhagalpur,Pin.-812006 | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 | 06/01/63 |
| 1222 Md. Tahir, S/o Late Din Ali | BiharSVC/165 8/2000 | Vill.-Chourasi,PO+Thana- Bahadurganj,Dist.- Kishanganj | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 30/06/47 |
| 1223 Md. Umair Mallick, S/o Late Dr. Md. Söyab | BiharSVC/128 4/2000 | Moh.-Mallick Tola,PO- Desna,Thana- Asthawan,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 09/07/42 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DAT |
|------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| 1224 | Md.Ashraful Haque, S/o Late Md. Jasimul Haque | BiharSVC/187 5/2000 | M.-Faijula Khan,PO-Darbhanga,Thana-Laheriyasaray,Dist.-Darbhanga | B.V.Sc. & A.H./PU/61 | 16/10/39 |
| 1225 | Md.Leyakat Ansari, S/o Md. Gani Haidar Ali Ansari | BiharSVC/140 9/2000 | Vill.+PO-Teri,Thana-Menhadiya,Dist.-Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./RAU/84 | 28/06/53 |
| 1226 | Md.Saifullah Sidiq, S/o Sri Abdul Gani | BiharSVC/109 5/2000 | Vill.+PO-Ganeshpur,Thana-Harawna,Dist.-Supaul | B.V.Sc.&A.H./R AU/81 | 30/12/55 |
| 1227 | Md.Shahabuddin Md., S/o Late Abdul Latif | BiharSVC/127 2/2000 | M.-Bakarganj,Bajava Gali,PO-Imambara,Thana-Gandhi Maidan,Patna-700004 | B.V.Sc.&A.H./R AU/72 | 14/05/48 |
| 1228 | Md.Yasin., S/o Kasim | BiharSVC/163 0/2000 | Moh.-Kasikalichak,PO-Basudeopur,Thana-Kotwali,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 30/12/44 |
| 1229 | MEENA RAMNARESH MANIRAM S/O SH. MANIRAM MEENA | RAJSVC/2718/ 2000 | H.NO.4335, GOVIND RAJAN KA RASTA, PURANI BASTI,JAIPUR | BVSc&AH/GUJ. AGRI.UNIV./2000 | 18.04.77 0 |
| 1230 | MEENA VERMA D/O SRI AMAR LAL VERMA | UPVC/3278 | VERMA NIWAS BERINAG, PO-BERINAG,DIST.-PITHORAGARH,U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 31.08.77 |
| 1231 | Meenu D/o Sh. Ghanshyam Dass | HarSVC/1678 | 52/14, Vidut Nagar Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/99 | 2.8.76 |
| 1232 | Meenu Sharan, S/o Sri Ram Deo Sharan | BiharSVC/108 1/2000 | M.-Chankhandipur,PO+Thana-Biharsharif,Dist.-Nalanda,Pin.-803101 | B.V.Sc.&A.H./B AU/87 | 05/03/62 |
| 1233 | Meera Sanyukta Nensi Khalkho, D/o S.K. Khalkho | BiharSVC/181 9/2000 | Vill.-Shankarpur,PO-Sarjamda,Thana-Parsudih,Dt.-E.Singhbhum,Pin-831002 | B.V.Sc. & A.H./RAU/92 | 14/03/63 |
| 1234 | MENEZES RAMEELA MARIA P | GOASVC/113/ 01 | SHANTINAGAR - PONDA | BVSc&AH/GAU/ 98 | 25.7.73 |
| 1235 | MERJA RAJESH MAGANLAL S/O SH. MERJA MAGANLA | RAJSVC/2713/ 2000 | MORBI,(GUJARAT)-363641,PANCHWATI SOCIETY,B/H G.I.D.C.,MAMTA | BVSc&AH/GUJ ARAT AGRI.UNIV./94 | 30.06.73 |

| SNM NUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------------|--|-------------------------|---|------------------------------------|----------|
| 1236 | Merylin Kharwanlang | Megh/172/01 | Jaiawlangsning, Shillong | BVSc&AH/AAU/ 2000 | 20.1.74 |
| 1237 | Miedson Hadia | Megh/178/01 | Nongbah, Jaintia Hills | BVSc&AH/AAU/ 76 | 20.10.50 |
| 1238 | MILAN KANTI PAUL S/O LT. NIBARAN PAUL | TRIPURA/56/2 000 | C/O CHANDAN CHAUDHURY, OFFICE LANE, AGARTALA, TRIPUR A (W) | BVSc&AH/BCK VV/82 | 02/04/57 |
| 1239 | MILTON THOMAS | KERALASVC/ 2507/2000 | NAMBADAN HS., MARKET LINK ROAD, IRINJALAKUDA, THRISSU R-680121 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 16.02.76 |
| 1240 | MIR WAJAHAT ALI S/O MIR MAHBOOB ALI | APSVC/03581/ 2000 | F.NO.306, II RD FLOOR, BL.-I, SHANTI GARDEN APTS, RAJENDRANAGAR, | BVSc&AH/MAR ATHWADA AG.U./76 | 15.08.54 |
| 1241 | Miren Thangjba | Mani/368/00 | Chingmeirong Mamang Leikai, Imphal | BVSc&AH/AAU/ 00 | 1.1.75 |
| 1242 | MIRZA YAMIN BAIG S/O MIRZA YASIN BAIG | APSVC/03669/ 2001 | 5-2-37, KOTTUR STREET, HANAMKONDA, WARANGAL DIST. | BVSc/APAU/79 | 15.08.57 |
| 1243 | Misbah Uddin Ansari Md., S/o Late Jaur Ali Ansari | BiharSVC/996/ 2000 | Moh.-Kabir, PO- Aurangabad, Thana- Aurangabad, Dist.- Aurangabad | B.V.Sc.&A.H./R U/70 | 07/07/46 |
| 1244 | MISHRACHANDRA PRAKASH S/O SHRI SIYARAM MISHRA | MPSVC/1888/ 00 | K-79, GYANSAROWAR COLONY, RAMGHAT ROAD, ALIGARH. U.P. 202002 | BVSc&AH/KKV/ 97 | 10.06.75 |
| 1245 | MITA SINHA MAHAPATRA | WBSVC/2832/ 2000 | VILL & P.O. SARENGA DT. BANKURA | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1246 | Mitesh Kumar Gaur S/o Sh. M.P. Gaur | HarSVC/1676 | 715, Vidut Nagar, Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 21.9.76 |
| 1247 | Mithelesh Kumar, S/o Sri Raghunath Singh | BiharSVC/207 4/2001 | Vill.-Shivnagar, PO- Kariyan, Thana-Rosra, Dist.- Samastipur | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 25/01/73 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-------------|--|-------------------------|---|------------------------------|------------|
| 1248 | Mithilesh Kr. Sinha, S/o Late Ram Swarup Singh | BiharSVC/176 7/2000 | M.-Shahmeer Takéya(North of Miram School) Thana-Civil Line,Dist.-Gaya | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 01/0548 |
| 1249 | Mithilesh Kumar, S/o Sri Sidheswar Prasad Sinha | BiharSVC/141 5/2000 | Vill.-Khirbojama,PO-Naromurar,Thana-Varsaliganj,Dist.Nawada,Pin.-805130 | B.V.Sc. & A.H./RAU/95 | 21/01/67 |
| 1250 | Mithilesh Pd. Singh, S/o Sri Chandrika Pd. Singh | BiharSVC/186 4/2000 | Vill.-Sidhaul,PO+Thana-Beloganj,Dist.-Gaya | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 04/01/55 |
| 1251 | Mithilesh Prasad, S/o Late Ramkishun Prasad | BiharSVC/139 0/2000 | Vill.-Ramdiha,PO-Amba,Thana-Noorsarai,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 08/02/43 |
| 1252 | Mohamad Shahabuddin, S/o Late Md. Shoab | BiharSVC/146 5/2000 | Moh.-Ramna Road,PO-Bankipur,Thana-Peerbabor,Dist.-Patna,Pin.-800004 | B.V.Sc. & A.H./MU/63 | 25/05/42 |
| 1253 | MOHAMMED NAWAZISH S/O SRI ABDUL MANNAN | UPVC/3245 | H.NO. IV/1121/F, JHA COLONY, PANTNAGAR, DIST. U.S. NAGAR, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 27.12.76 |
| 1254 | MOHAMMED RAFEEK KHAN | RAJSVC/2696/ 2000 | S/O SH. UMAR KHAN,KHAMKHANI NAGAR, DEGANNA JN,NAGOUR(RAJ) | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./2000 | 01.07.74 |
| 1255 | MOHAMMED RASHAD AUGANDUVAR | KERALASVC/ 2450/2000 | HIMAGIRI APARTMENT,FLAT NO.C-3,ST.ALBERTS LANE,BANERJI ROAD, | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 30.10.72 |
| 1256 | MOHAN LAL GUPTA | VCI/2260/01 | WARD NO. 5 HOUSE NO. 39 KATHUA (J&K) 184101 | BVSc&AH/UOU/ 73 | 15/04/36 |
| 1257 | MOHAN SINGH JAT | RAJSVC/2652/ 2000 | VILL.BAKSHIPURA, P.O.HASAMPUR,DIST.SIKAR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./2000 | 19.12.74 |
| 1258 | MOHD. SAIFUDDIN S/O MOHD. AZIZUDDIN | APSVC/03576/ 2000 | H.NO.1-9-771,BASITHNAGAR, SUBEDARI, HANAMKONDA, | BVSc/APAU/75 | 27.04.52 |
| 1259 | Mohinder Singh,S/o Sh Prem Singh | HarSVC/1656 | VPO Baghru Kalan, T. Safidon (Jind) | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 10.5.77 |

| SNOM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | |
|------|---|-------------------------|---|--------------------------|----------|
| 1260 | Mohmmad Kasim, S/o Late Abdul Latif | BiharSVC/198 2/2000 | Vill.-Deoriya,PO+Thana-Mashorak,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 02/01/39 |
| 1261 | Moidujiman, S/o Late Md. Abul Hasan | BiharSVC/149 1/2000 | Moh.-Kagaj,PO+Thana-Biharsharif,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 03/07/46 |
| 1262 | Moinuddin, S/o Md. Reyaz Uddin | BiharSVC/127 5/2000 | Vill.-Mafsuspur Bara, PO+Thana+Dist., Munger | B.V.Sc.&A.H./R AU/72 | 25/12/48 |
| 1263 | Mokami Pd. Sinha, S/o Late Chhotu Mahto | BiharSVC/151 8/2000 | Vill.-Bahari Bigha,PO-Lal Bigha,Thana-Warisaliganj,Dist.-Nawada,Pin-805108 | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 28/10/44 |
| 1264 | Mokhtar Hassan, S/o Late Abdul Havi | BiharSVC/159 6/2000 | Vill.-Bank,PO-Vyapur,Thana-Maner,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 06/01/43 |
| 1265 | MOLINA SARKAR | WBSVC/2811/ 2000 | VILL PROFULLA NAGAR, P.O. BONGAQN, DT. 24 PRGS(N) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1266 | MONIKA SHARMA W/O DR. MUKESH GURTA | UPVC/3222 | TRIMURTI FLOORINGS, BAZPUR ROAD, KASHIPUR, UDHAM SINGH NAGAR (U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/94 | 19.11.72 |
| 1267 | MORE SACHIN RAMDAS | MSVC/6383/20 00 | SADICHHA NIWAS, AT POST JAIKHEDA, TL.SATANA, DIST.NASIK-423303 | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 17-12-77 |
| 1268 | Mozahir Hussain, S/o Late Hakim Md. Hussain | BiharSVC/125 6/2000 | Vill.+PO+Thana-Nasirganj,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. &A.H./R AU/74 | 01/01/49 |
| 1269 | MRIDULA C. | KERALASVC/ 2476/2000 | KARTHIKA VALLUVANGADU SOUTH PO.,PANDIKKAD,MALAPPURAM PIN-676521 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 09.05.76 |
| 1270 | MRINAL KANTI DAS S/O SH. NIRARAN CH.DAS | TRIPURA/94/2 000 | VILL.R.K.NAGAR(SUKANT A PALLI),PO.KHAYERPUR,T RIPURA WEST | BVSc&AH/AAU/ 98 | 14/04/74 |
| 1271 | Mritunjay Sharan, S/o Sri Jagdish Narayan Mahto | BiharSVC/123 1/2000 | V.+PO-Bahilvara Dhanushi,Thana-Runni Sayedpur,Dist.- Sitamarhi,P.-843302 | B.V.Sc.&A.H./R AU/92 | 24/10/64 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | |
|------|---|-------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 1272 | MRS. MEENA ARORA, W/O SRI RAJNISH ARORA | UPVC/3225 | BANGLOW NO.22, O.L.W. VARANASI | BVSc&AH/JNKV V/88 | 05.08.64 |
| 1273 | MUDIT CHANORA S/O SRI YOGESH CHANDRA | UPVC/3240 | VISHWAS KHANAD GOMTI NAGAR, LUCKNOW, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 26.03.77 |
| 1274 | MUJEEB S/O RAZAAQ H. | KARNASVC/3 070 | SHASHEEN FLOUR MILL H.NO.A-8-332,(OLO)A-8- 343(NEW)MULTANI CLY BIDAR 585401 | BVSC&AH/UAS OHARWAR/99 | 21.05.76 |
| 1275 | MUKESH GUPTA S/O DR. R.P. GUPTA | UPVC/3221 | TRIMURTI FLOORINGS BAZPUR ROAO, KASHIPUR, UDHAM SINGH NAGAR (U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/94 | 04.02.70 |
| 1276 | Mukesh Kr. Sinha, S/o Sri Upendra Kishore Prasad | BiharSVC/133 1/2000 | Moh.-Argaghatal,PO- Makatpur,Thana+Oist.- Giridih,Pin.-815301 | B.V.Sc. & A.H./BAU/89 | 23/12/66 |
| 1277 | Mukesh Kr. Srivastava,S/o Sri Bipin Bihari Srivastava | BiharSVC/192 0/2000 | M.-New AC Coly,Basant Bihar,PO+Thana- Harmu,Dist.-Ranchi | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 21/07/60 |
| 1278 | MUKESH KUMAR OUMKA S/O SRI R.C. DUMKA | UPVC/3258 | C/O SRI R.C. OUMKA, VILL-OEENA, PO- HALOUCHAUR,OIST. NAINITAL(U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 20.06.77 |
| 1279 | MUKESH KUMAR JATAV | RAJSVC/2660/ 2000 | P.NO.16, MOTI NAGAR, NEW SANGANER ROAD, JAIPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 08.08.72 |
| 1280 | MUKESH KUMAR S/O SRI OM PRAKASH | UPVC/3229 | VILL.-JAMALPUR, GOMA, POST-SAKOTI,TANDA, OISTT.-MEERUT | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 01.12.73 |
| 1281 | MUKESH KUMAR SHARMA S/O SHRI GHANSYAM OAS | MPSVC/1928/ 01 | NAGAR PALIKA QTR.NO.4, BACK SIDE OF LAXMI NIWAS HOTEL,A.B.ROAO,SHIVPU | BVSc&AH/IGKV /99-2000 | 05.07.76 |
| 1282 | Mukesh Kumar Singh, S/o Sri Sant Lal Singh | BiharSVC/196/ 8/2000 | Vill.-Bhajilishpur,PO- Mathura,Thana- Vidupur,Oist.-Vaishali | B.V.Sc. & A.H./GBPUAT/9 7 | 05/06/71 |
| 1283 | Mukesh Kumar, S/o Sri Ganauri Singh | BiharSVC/208 9/2000 | Vill.-Nakdoy,PO- Acugory,Thana- Ekangersaray,Oist.- Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 01/03/78 |

| STUDY NAME | RNUM | ADDRESS | QUALIF |
|--|----------------------|---|----------------------------------|
| 1284 Mukesh Kumar, S/o Sri Ram Prasad Singh | BiharSVC/916/ 2000 | Moh.-Danapur,PO-Patna,Thana-Islampur,Dist.-Nalanda,Pin-801303 | B.V.Sc.&A.H./R AU/99 04/01/74 |
| 1285 Mukesh Kumar, S/o Sri Sheonandan Prasad | BiharSVC/207 3/2001 | Vill.-Murarpur,PO-Katary,Thana-Korma,Dist-Shekhpura | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 22/10/77 |
| 1286 MUKESH MEENA S/O SH: BHARAT LAL MEENA | RAJSVC/2619/ 2000 | VILL-NANDIPUR, POST MANNAUJ, TEH. TODABHIM, KARAULI, RAJASTHAN | BVSc&AH/RAU/ 30.11.74 2000 |
| 1287 Mukesh Mishra, S/o Sri Rajendra Prasad Mishra | BiharSVC/189 8/2000 | M-HBC Cly,QNB-III-470,PO-Dhurva,Thana-Hatiya,Dts-Ranchi,P-834004 | B.V.Sc. & A.H./RAU/95 05/06/71 |
| 1288 Mukesh Pd.Mehta, S/o Sri Surya Narayan Mehta | BiharSVC/104 6/2000 | V.+PO-Gadhia Balua,Thana-Krishnanand Nagar,Dist.-Purnea,Pin-851301 | B.V.Sc.,&A.H./R AU/86 15/12/62 |
| 1289 Muktinath Singh, S/o Sri Bharat Singh | BiharSVC/127 8/2000 | Vill.-Ratanpur,PO-Avsar,Thana-Rasulpur,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./RU/68 15/11/42 |
| 1290 MUKUNDAPPA S/O RAMULU | APSVC/03585/ 2000 | H.NO:3-14-49,SUBASH ROAD,NARAYAMPET,MA HABUBNAGAR-509 210 | BVSc/APAU/79 24.06.55 |
| 1291 MUKUNDAPPANAVAR Y S S/O SHIVAJI | KARNASVC/3 104 | N MAIN ROAD, MATRUCHAYA, GANDHI NAGAR, DHARWAAD | BVSc/UAS B'LORÈ/77 20.05.49 |
| 1292 MULEY VIJAY DIGAMBARRAO | MSVC/6353/20 00 | DHANSHREE, 39-PARIKH COLONY, BUS STAND,TAL.SELU, DIST.PARBHANI-431503 | BVSc&AH/MAU/ 07-12-77 2000 |
| 1293 MULIK JAIDEEP SHABASRAO | MSVC/6387/20 00 | SHAMDIP, BALWANT COLLEGE ROAD, HANMANT NAGAR, VITA,KHANAPUR,SANGLI- | BVSc&AH/MPK V/2000 10-12-76 |
| 1294 MUMTAZ BEEGUM | KERALASVC/ 2472/2000 | SHIFAN MANZIL, NETTIRACHIRA NEDUMANGAD P.O., TRIVANDRUM-695541 | BVSc&AH/KAU/ 19.01.77 2000 |
| 1295 MUNDE VITTHAL KUNDLIKRAO | MSVC/6402/20 00 | AT DAHI POST TDKWADI, TALUKA PARLI(V), DIST. BEED- 431514 | BVSc&AH/MAU/ 01-02-76 2000 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADQ | QUALF | DOB |
|------|--|------------------------|--|---------------------------------|----------|
| 1296 | Mundrika Das, S/o Sri Mohan Das | BiharSVC/125 7/2000 | Vill.-Nawada,PD-Jarava,Thana-Simariya,Dist.-Chapra | B.V.Sc.&A.H./B-AU/97 | 13/03/69 |
| 1297 | Muni Ranjan Singh, S/o Late Triveni Pd. Mandal | BiharSVC/122 2/2000 | Moh.-Tingachia,PD-Katihar,Thana+Dist.-Katihar | B.V.Sc.&A.H./B-AU/82 | 01/10/50 |
| 1298 | MURALI MOHAN G. S/O G. MOGILESWARA NAIDU | APSVC/03629/ 2000 | GADDAMVARIPALLE(V), THUMBAKUPPAM(P), BANGARUPALAYAM(M), CHITTDOR DT-517416 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 01/06/75 |
| 1299 | MURALI MOHAN REDDY K. S/O K. SUBBA REDDY | APSVC/03566/ 2000 | H.NO. 28-3-513, ROAD ND.1, UPSTAIRS, SARADA NAGAR, ANANTAPUR-515001 | BVSc&AH/SVU/64 | 01.07.42 |
| 1300 | MURALIDHAR M. S/O M. BALAKRISHNA RAO | APSVC/03623/ 2000 | PLDT NO.6, SRIPURAM COLONY, MALAKPET, HYDERABD-500036 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 19.07.77 |
| 1301 | MURALIDHAR REDDY A. S/O A. VENKAT REDDY | APSVC/03590/ 2000 | ANNASAGAR (P), BHOUTPUR (VIA), MAHABOOBNAGAR DIST. | BVSc&AH/PKV/94 | 27.06.55 |
| 1302 | MURALIDHAR Y. S/O Y. RAGHAVENDRA SWAMY | APSVC/03642/ 2000 | M.I.G.-375, HOUSING-BOARD COLONY, ADONI(P), KURNDOL DT-518301. | BVSc&AH/MAR ATHWADA AG.U./91 | 26.07.39 |
| 1303 | MURALIKRISHNA D. S/O D. RAJENDRA PRASAD | APSVC/03662/ 2000 | FF-2, LOHIA RESIDENCY, MEGA TOWNSHIP AYYAPPANAGAR, VIJAYAWADA-520007 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 22.02.76 |
| 1304 | Murari Pd. Singh, S/o Late Swadebhi Singh | BiharSVC/179 4/2000 | Vill.+PO-Aounwa,Thana-Avtar Nagar,Dist.-Saran (Chapra) | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 05/01/51 |
| 1305 | Murari Sharan, S/o Late Girvardhari Sharan | BiharSVC/113 6/2000 | Vill.-Choti Kdavaari,PO+Thana-Mungher,Dist.-Mungher | B.V.Sc.&A.H./R-U/68 | 18/12/45 |
| 1306 | MURIRAJ SINGH S/O SRI LABNAR! | UPVC/3313 | VILL-MAHAGIPUR,PO-RAISIPUR,DISTT.VARANA SI | BVSc&AH/GBP UA&T/89 | 01.07.64 |
| 1307 | MURKUNDE YOGESHKUMAR VISHNUPANT | MSVC/6418/20 01 | QUARTERS OF COOPERATIVE SUGAR FACTORY LTD, KANNAD, DIST. AURANGABAD | BVSc&AH/MAU/2000 | 03-06-78 |

| Sl No. | NAME | SEX | AGE | EDUCATION | DATE OF BIRTH |
|--------|---|------------------------|---|---------------------------|---------------|
| 1308 | Murli Manohar Prasad, S/o Late Jagat Bahadur Prasad | BiharSVC/189 2/2000 | M.-Kailashpuri,W.No.1,PO- Sitamarhi Court,ThanaDumra,Dt.- Sitamarhi,P-843301 | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 02/11/42 |
| 1309 | Murlidhar Jha,S/o Sri Vishnu Prasad Jha | BiharSVC/872/ 2000 | Vill.-Asadhi Madhuri,PO- Podaiyahat,Thana+Dist.- Godda,Pin-814153 | B.V.Sc.&A.H./R U/66 | 06/12/44 |
| 1310 | Muridhar Pandey, S/o Dr. Chandra Deo Pandey | BiharSVC/121 8/2000 | Vill.+PO-Barhariya,Thana- Barhariya,Dist.-Siwan | B.V.Sc.&A.H./B U/74 | 20/01/50 |
| 1311 | MURUGESH HOOGAR S/O DHARMARAJ G HOOGAR | KARNASVC/3 089 | TAGAREGALLI, ATHANI TQ. BELGAUM DT.-591304 | BVSc&AH/UAS DHARWAD/99 | 22.07.76. |
| 1312 | Musaheb Lal Mandal Akela, S/o Late Rameshwar Pd, Mandal | BiharSVC/174 9/2000 | Vill.-Bhalave,PO- Ragheli,Thana- Dandkhora,Dist.-Katihar | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 10/07/45 |
| 1313 | Muzaffarul Hoda, S/o Late Abdul Zabar | BiharSVC/863/ 2000 | Moh.-Kathokar Talab,PO- Bari Road,Thana-Gaya, Dist.-Gaya | B.V.Sc.&A.H./R AU/67 | 15/05/45 |
| 1314 | N.ARULJOTHI | PONDI/116/20 00 | 29,II CROSS, VENKATA NAGAR, PONDICHERRY- 605011 | BVSc/TAU/89 | 04/11/65 |
| 1315 | NABADWIP KUMAR SARKAR | WBSVC/2816/ 2000 | VILL & P.O. PANCHITA, P.O. BONGADN, DT. 24 PRGS(N) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1316 | NABUM ARUN | ARUNA/188/9 8 | TALIHA, DIST-UPPER SUBANSIRI, ARUNACHAL PRADESH | BVSc&AH/APA U/98 | |
| 1317 | NAFE SINGH, S/O. SH. SURAT SINGH | RAJSVC/2754/ 2001 | V&PO.KUNDAL, DIST. SONEPAT HARYANA | BVSc&AH/RKV V/96 | 10-01-73 |
| 1318 | NAG DR. SUMANTA S/O SRI BRAJENDRA KR. NAG | ASM/1950/200 1 | VIL.SUBHARPALLY,NR.D. N.HIMMAT SINGHKA H.SCHOOL KOKRAJHAR - PO & DIST- | BVSc&AH/AAU/ 2001 | |
| 1319 | NAGA SRINIVAS K. S/O VENKATESHWARLU | APSVC/03560/ 2000 | 1-20 A, PRABHATH NAGAR, CHAITANYAPURI, DILSHUKNAGAR, | BVSc&AH/ANG RAU/99 | 09.08.76 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DIB |
|------|--|------------------------|--|---------------------------------|----------|
| 1320 | Nagaraj K,S/o Kenchappa 6 | KARNSVC/318 | Papenahally,Rayanahalli,P ost Chitradurga Tq and Dist | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 24.7.75 |
| 1321 | Nagaraj Kunabev,S/o Ningappa Kunabev | KARNASVC/3 184 | At Post- Medleri,Ranebennur,Tq- Haveri Dist | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 10.9.75 |
| 1322 | NAGARJU R. S/O R. CH. GIDDANNA | APSVC/03589/ 2000 | H.NO.14-106, SHAREEN NAGAR, KURNOOL | BVSc&AH/APA U/94 | 01.07.69 |
| 1323 | NAGENDRA G. S/O G. NAGARAJU | APSVC/03637/ 2000 | SOMANDEPALLE,, ANANTAPUR DIST. PIN - 515122 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 24.08.72 |
| 1324 | Nagendra Sah, S/o Sri Ramashish Sah | BiharSVC/163 6/2000 | Vill.+PO+Thana- Mohsaur,Dist.-Hasipur | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 19/09/45 |
| 1325 | NAGESH GURU S/O NAMDEV GURU | KARNASVC/3 147 | GURUNIVAS, VINAYAKA NAGAR COLONY, BEHD. KARNATAKA COMMERCE COLLEGE, | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 20.8.78 |
| 1326 | Nageshwor Pd. Singh, S/o Sri Rameshwor Pd. Singh | BiharSVC/106 7/2000 | South Chandmari Road,Near Water Pump,PO+Thana- Kankarbagh,Dt.-Patna | B.V.Sc.&A.H./R AU/86 | 07/11/61 |
| 1327 | Nagmani Kumar Sinha, S/o Sri Janki Prasad | BiharSVC/195 7/2000 | Vill+PO-Sonmaya,Thana- Dhanrua,Dist.-Patna,Pin- 804451 | B.V.Sc. & A.H./RAU/98 | 15/10/73 |
| 1328 | NAJIBULLAH S/O SRI HABIBULLAH KHAN | UPVC/3201 | MOH.-SALARGANJ, W.NO.-9, NEAR IDGAH ROAD, BAHRAICH, U.P. | BVSc&AH/U.P.A GRI.UNIV./67 | 03.04.42 |
| 1329 | Nakul Modi, S/o Sri Banwari Modi | BiharSVC/168 7/2000 | Vill.-Anantdih,PO- Pathdin,Thana+Dist.- Koderma,Pin-825410 | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 15/10/70 |
| 1330 | NALABADE SUNIL BALKRISHNA | MSVC/6318/20 00 | PANCHSHEEL APARTMENT,PLOT NO.10, E.I.24B, SEC-10, NARUL, NAVI | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 27-02-78 |
| 1331 | NALINI KISHOR D/O SH. RAM KRISHNA | RAJSVC/2615/ 2000 | GOVT. VETY HOSPITAL, KAILASH NAGAR, SIROHI, RAJASTHAN | BVSc&AH/GBP UA&T/95 | 15.10.69 |

| STUDY NAME | REG. | ADDRESS | QUALIFICATION | DATE |
|--|------------------------|--|------------------------------------|----------|
| 1332 Namita Kumari, D/o Sri Ramcharitra Mahto | BiharSVC/123 0/2000 | Vill.-Karspur, PO+Thana-Shambhuganj, Dist.-Banka | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 10/02/71 |
| 1333 NAND KISHOR VERMA | RAJSVC/2627/ 2000 | V&P. MORIJA VIA-CHOMU, JAIPUR | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 01/10/72 |
| 1334 Nand Kishore Kumar, S/o Sri Bindeshwari Prasad Mandal | BiharSVC/178 3/2000 | Vill.-Gouchhari, PO-Gopalpur, Thana-Gogri, Dist.-Khagaria, Pin-851203 | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 01/01/55 |
| 1335 Nand Kishore Pd., S/o Sri Ramkhelawan Pd. | BiharSVC/174 0/2000 | V.-Harinagar Kharijama, PO-Chandhati, Thana-Islampur, Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 25/05/46 |
| 1336 Nand Kishore Prasad, S/o Late Gajadhar Singh | BiharSVC/111 7/2000 | Vill.-Oknama, PO-Meghi, Thana-Deepnagar, Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R U/67 | 28/11/45 |
| 1337 Nand Kishore Prasad, S/o Sri Saryu Prasad | BiharSVC/135 8/2000 | Vill.+PO-Mohanpur, Thana-Karakar, Dist.-Rohtas- | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 28/06/53 |
| 1338 Nand Kishore Roy, S/o Late Uchit Lal Roy | BiharSVC/166 0/2000 | V.+PO-Saidpur, Thana-Göpalpur, Dist.-Bhagalpur, Pin-853205 | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 11/01/49 |
| 1339 Nand Kishore Sharma, S/o Sri Ram Narayan Sharma | BiharSVC/107 3/2000 | Vill.-Khadasin, PO-Shehar Telpa, Thana-Karp, Dist.-Jehanabad | B.V.Sc.&A.H./R AU/76 | 01/01/53 |
| 1340 Nand Kumar, S/o Sri Khomari Ram | BiharSVC/111 5/2000 | Vill.-Bhagirithiganj, PO+Thana-Sasaram, Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./R AU/81 | 11/01/55 |
| 1341 Nand Lal Prasad, S/o Late Raghu Mahto | BiharSVC/123 8/2000 | M.-Darivachak, PO-Malichak, Thana-Barbigha, Shekhpura-811101 | B.V.Sc.&A.H./R U/70 | 12/06/46 |
| 1342 NANDEKAR PANDIT VIRBHADRA | MSVC/6339/20 00 | SAISADAN, NEW MONDHA, NANDED, TAL. NANDED, DIST. NANDED-431602 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 25-06-78 |
| 1343 NANDESHWAR MANOJ CHARANDAS | MSVC/6299/20 00 | BHADNGA(MUNDIPAR) GOREGAON, GONDIA, DISTT. GONDIAN-441807 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 05-05-72 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DIS |
|------|---|------------------------|--|------------------------------------|----------|
| 1344 | NANDISHA G. K. S/O G.V. KONDAPPA | KARNASVC/3 081 | A-478 JODIDHAR STREET, BH ROAD CROSS, GOURIBIDANAUR | BVSc&AH/UAS DHARWAD/98 | 18.06.75 |
| 1345 | Narasimhamurthy,S/o Narasimhaiah | Karna/3195 | Namagandalu,D Palya,Gowribidanur Tq, Kolar Dist | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 18.9.75 |
| 1346 | NARAYAN CH. DAS S/O SH. JOYBASHI DAS | TRIPURA/12/2 000 | DHALESWAR,ROAD- 16,P.O.DHALESWAR,PIN: 799007 | BVSc&AH/UNI OF CALCUTTA/74 | 15/06/50 |
| 1347 | Narender,S/o S.K. Thakral | HarSVC/1642 | 125- Breeding Friends Colony HSR | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 15.8.77 |
| 1348 | NARENDRA CH.ROY S/O LT.BRAJABASI ROY | TRIPURA/2/20 00 | DHALESWAR NUTANI,PALLI,ROAD- 6,AGARTALA, TRIPURA WEST | BVSc&AH/CU/6 0* | 21/01/37 |
| 1349 | Narendra Dutt, S/o Sri Parma Nand Srivastava | BiharSVC/918/ 2000 | Moh.-Hem Nagar Colony,PO-Sandha,Thana- Sadar,Dist.-Chapra | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 22/12/44 |
| 1350 | Narendra Kr. Jha, S/o Late Kamleshwar Jha | BiharSVC/182 0/2000 | Vill.+PO-Jhandapur,Thana- Bihpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./MU/63 | 03/01/43 |
| 1351 | Narendra Kr. Singh, S/o Late Mahaveer Pd. Singh | BiharSVC/186 0/2000 | Vill.-Valipur,PO- Bhagwanpur,Thana- Hulasganj,Dist.-Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 01/12/43 |
| 1352 | Narendra Kr. Singh, S/o Sri Ram Bharosa Singh | BiharSVC/175 6/2000 | M.-Op.Arrah Garden,Rukumpura PO- BVColllege,Thana- Dinapur,Dt.-Patna,Pin-14 | B.V.Sc. & A.H./RAU/81 | 02/11/55 |
| 1353 | NARENDRA KUMAR CHAUHAN S/O SH. SOMNATH JI CHAUHAN | RAJSVC/2612/ 2000 | C/O SH. KIRAN SINGH CHUNDAWAT, ASIND, BHILWARA | BVSc&AH/JNKV V/69 | 04.05.45 |
| 1354 | NARENDRA KUMAR S/O SH. SITA RAM | RAJSVC/2623/ 2000 | SADAR BAZAR UCHAIR,BHARATPUR | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 08.12.75 |
| 1355 | NARENDRA KUMAR SINGH S/O SRI LAL BAHADUR SINGH | UPVC/3231 | H.NO.106/272, GANDHI NAGAR, KANPUR-208012 | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 21.07.74 |

| STUDY NAME | NUMBER | ADDRESS | QUALIF | DOB |
|--|------------------------|---|-----------------------------|----------|
| 1356 Narendra Kumar Singh, S/o Late VasudeoNarayan Singh | BiharSVC/109 1/2000 | Vill.-Babbhana,PO+Thana- Jehanabad,Dist.- Jehanabad,Pin-804408 | B.V.Sc.&A.H./G BPUA&T/78 | 02/10/55 |
| 1357 Narendra Kumar Singh. S/o Late Wokil Singh | BiharSVC/840/ 2000 | Vill.-Lakha,P.O.- Basbitta,Thana- Shambhuganj,Dist-Banka, Pin-813221 | B.V.Sc.&A.H./B AU/96 | 01/12/68 |
| 1358 Narendra Kumar, S/o Sri Kamta Prasad Singh | BiharSVC/195 1/2000 | Vill.-Bazipur,PO+Thana- Bikram,Dist.-Patna,Pin- 800104 | B.V.Sc. & A.H./BAU/95 | 01/10/70 |
| 1359 Narendra Kumar, S/o Sri Ram Kumar Mehta | BiharSVC/206 9/2000 | Vill.-Ganjala,PO+Thana- Saharsa,Dist.-Saharsa | B.V.Sc. & A.H/KKV/2000 | 15/08/76 |
| 1360 Narendra Narayan Labh, S/o Late Yaduvarsh. Narayan Labh | BiharSVC/954/ 2000 | V-Alai Patti,PO-Medical College,Thana- Laheりyasarai,Dist.- Darbhanga | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 28/12/44 |
| 1361 Narendra Nath Dixit, S/o Late Ram Pravesh Singh | BiharSVC/182 6/2000 | Vill.+PO+Thana- Bheldi,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 10/01/45 |
| 1362 NARENDRA SINGH S/O SHRI THAKUR PRASAD SINGH | MPSVC/1887/ 00 | VILL NUNERA P.O. KHARMARIA DISTT SARGUJA 497119 | BVSc&AH/JNKV V/93-94 | 25.09.71 |
| 1363 Narendra Singh, S/o Sri Prahlad Singh | BiharSVC/187 2/2000 | V.+PO-Ajagarwa,Thana- Pakridayal,Dt.- E.Champaran,P-845428 | B.V.Sc. & A.H./BAU/87 | 22/12/62 |
| 1364 NARENDRA UPADHYAY S/O SRI R.P. UPDHYAY | UPVC/3314 | BATA LANE, GANDHI NAGAR, DISTT. BASTI | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 01.07.62 |
| 1365 Naresh Kr. Sinha, S/o Late Dwarka Prasad | BiharSVC/900/ 2000 | Moh.-Shivpuri,PO- Anisabad,Thana- Gardanibag,Dist.- Patna,Pin-800002 | B.V.Sc.&A.H./M U/64 | 31/12/43 |
| 1366 Naresh Kumar S/o Hari Prakash | HarSVC/1657 | Ram Rai Gate, Behind Jain Snatak Brahaman Mohalla, Jind | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 30.1.77 |
| 1367 NARESH KUMAR S/O SH. DARSHAN RAM | PB.SVC- 2243/2001 | H.NO. MIG (IND) 775, PHASE-10, MOHALI, DIST. ROPAR. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 05.10.74 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | |
|------|--|------------------------|--|--------------------------|----------|
| 1368 | Naresh Mandal, S/o Sri Lakhan Lal Mandal | BiharSVC/192 5/2000 | Vill.-Kodwar,PO-Ghogha,Than-Kahalgao,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./BAU/86 | 13/05/56 |
| 1369 | Naresh Prasad, S/o Late Bisheshwar Prasad | BiharSVC/202 3/2000 | Vill.-Khakhara,PO-Jeeman Bigha,Thana+Dist.-Shekhpura | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 01/09/49 |
| 1370 | Naresh Prasad, S/o Sri Sadashiv Pd. | BiharSVC/174 5/2000 | Vill.+PO-Saryahadi,Thana-Manpur,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 09/04/45 |
| 1371 | Narsingh Pandit, S/o Late Kokay Pandit | BiharSVC/114 4/2000 | Moh.-Sant Tola, PO+Thana-Haveli,Kharagpur,Dist.-Munger | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 02/01/47 |
| 1372 | NATH DR. AJIT KUMAR S/O MR. HARENDRA NATH | ASM/1943/200 1 | VILL. PALASHGURI, P.O. NARAYANPUR, DIST.NALBARI PIN-781373 | BVSc&AH/AAU/ 2001 | |
| 1373 | NATH DR. ANJAN JYOTI S/O BALO RAM NATH | ASM/1931/200 0 | VILL. TARABARI,P.O.: ALIKUCHI DIST.NAGAON,PIN- 782103 | BVSc&AH/AAU/ 2001 | |
| 1374 | NATH DR. NIKHIL CHANDRA S/O LATE KSHIRENDRA KR. NATH | ASM/1901/200 0 | VILL.-NICHINTA,P.O. AGIA,DIST. GOALPARA (ASSAM) | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 1375 | NATH DR. NIKHIL RANJAN S/O SH. SJT. UPEN NATH | ASM/1935/200 0 | SIPAJHAR, P.O. & VILL. RAJAPUKHURI, DIST. DARRANG | BVSc&AH/AAU/ 99 | |
| 1376 | Naval Kishore Singh, S/o Sri Bharat Prasad Singh | BiharSVC/136 7/2000 | Vill.-Dahibhata,PO+Thana-Hasaudhi,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 01/07/49 |
| 1377 | NAVDEEP SINGH KHINDA S/O SH. GURDEV SINGH KHINDA | PB.SVC- 2248/2001 | 284, NEW PARTAP, NAGAR, G.T. ROAD, AMRITSAR-143006 | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 03.10.77 |
| 1378 | NAVDEEP SINGH S/O SH. BASANT SINGH | PB.SVC- 2200/2000 | H.NO. 747, WARD NO. 5, FATEHgarh CHURIAN, DIST. GURDASPUR | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 09.01.74 |
| 1379 | NAVDEEP SINGH S/O SH. SARWAN SINGH | PB.SVC- 2216/2000 | W3/327, CHAKKI WALI GALI, DASHMESH NAGAR, MOGA-142 001 | BVSc&AH/PAU/ 1999 | 06.10.75 |

| STUDY NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIF. | PERIOD |
|--|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 1380 Naveen Chandra Prasad, S/o Bhavesh Chandra Prasad | BiharSVC/826/ 2000 | Vill.+P.O. - Machagar,Thana:- Meergani,Dist.-Gopalganj | B.V.Sc.&A.H./R AU/89 | 16/01/65 |
| 1381 Naveen Chandra Singh, S/o Sri Ramashraw Singh | BiharSVC/112 8/2000 | Vill.+PO-Meghaul,Thana- Khadawantipur,Dist.- Begusarai,Pin-848202 | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 01/12/69 |
| 1382 NAVEEN GAKHAR S/O SH. AVINASH CHANDER GAKHAR | PB.SVC- 2217/2000 | W.M.257, BASTI GUZAN, JALANDHAR CITY. | BVSc&AH/PAU/ 1999 | 19.10.76 |
| 1383 NAVEEN KUMAR | RAJSVC/2650/ 2000 | V. BHEEMPURA,P.O. MAJRO,VIA KANAWAS,ALWAR- 301001. | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 19.07.75 |
| 1384 Naveen Kumar Arya, S/o Sri Bhagwan Jee Prasad | BiharSVC/106 4/2000 | M.+PO-Mahendru,Thana- Sultanganj,Dist.-Patna,Pin- 800006 | B.V.Sc.&A.H./R AU/94 | 08/09/69 |
| 1385 NAVEEN KUMAR B. S/O DHARMA RAO | APSVC/03627/ 2000 | POST OFFICE STREET, PONDI(R.S.), SRIKAKULAM-532 218 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 01.08.76 |
| 1386 Naveen Kumar S/o Sh. Bajinder Pal | HarSVC/1680 | 463 Dev Nagar, Palwal, Faridabad | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 5.3.75 |
| 1387 NAVEEN KUMAR S/O SHRI NEMICHAND JAIN | MPSVC/1901/ 00 | BACKSIDE OF JAISHRI OIL MILL, DIST. DURG- 491 001 | BVSc&AH/IGKV V/91 | 20.09.66 |
| 1388 Navin Kumar, S/o Sri Umesh Pd. Singh | BiharSVC/146 2/2000 | Vill.+PO-Mahsaura,Via- Sirahi,Thana+Dist.- Lakhisarai,Pin.-811007 | B.V.Sc. & A.H./BAU/82 | 31/12/57 |
| 1389 Navratna Pd. Singh, S/o Late Bhagan Singh | BiharSVC/185 4/2000 | Vill.-Sipara,PO- Delwan,Thana- Fulwanisharif,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 18/10/35 |
| 1390 NAWAL KISHOR MEENA S/O SH. CHOUTI LAL MEENA | RAJSVC/2624/ 2000 | VILL & POST RANOLI,TEH.TODOBHIM, DIST.KARAULI,PIN-322220 | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 13.07.73 |
| 1391 NAWAL KISHORE S/O SRI GYA PRASAD | UPVC/3228 | VILL-RAHMATPUR,PO- JONIHAN,DISTT.- FATEHPUR | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 25.01.76 |

| SR. NO. | NAME | R. NO. | ADDRESS | QUALIF. | DOB |
|---------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 1392 | NAWANG TOMDEN | ARUNA/211/0 1 | C/O S. CHAIKING SCHOOL COLONY, TOWANG, A.P. | BVSc&AH/AAU/ 01 | 17.4.75 |
| 1393 | Neelakanth,S/o Madivalappa | KARNSVC/317 6 | S/o Madivalappa Chanshety,At Post Songolgi Tq, Bider Dist | BVSc&AH/UAS B'LORE/2000 | 1.6.77 |
| 1394 | NEELAM SHARMA | RAJSVC/2670/ 2000 | 1005, RAM NAGAR, SHASTRI NAGAR, JAIPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 10.03.76 |
| 1395 | NEENA THOMAS | KERALASVC/ 2469/2000 | PUNNAMANNIL, P.O. MARIKUNNU, KOZHIKODE-12. | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 29.06.73 |
| 1396 | NEERAJ GUPTA | VCI/2298/01 | H.NO.551/K/442/3 SHAKTI NAGAR ALAMBAGH LUCKNOW-226005 U.P. | BVSc&AH/JNKV V/99-00 | 25/06/75 |
| 1397 | Neeraj Kumar Gupta, S/o Sri Dayanand Lal Gupta | BiharSVC/155 6/2000 | Moh.-Mishan Chowk, PO+Thana+Dist.- Lohardagga | B.V.Sc. & A.H./BAU/92 | 20/06/67 |
| 1398 | Neeraj Kumar Verma, S/o Sri R.K.L. Das | BiharSVC/122 7/2000 | Vill.+PO-Gonoun,Thana- Chanshyampur,Dist.- Darbhanga | B.V.Sc.&A.H./B AU/89 | 03/04/65 |
| 1399 | Neeraj Sharma | Mani/365/00 | House No. 993, Saraswati Vihar, Chakkespure, Gurgaon, Haryana | BVSc&AH/PAU/ 98 | 20.2.75 |
| 1400 | NEETI SINGH, | MSVC/6410/20 01 | C/O M.S. RAJPUT, RAILWAY AJNI COLONY, G-32-A, NAGPUR, DIST. NAGPUR | BVSc&AH/DR.P. DKV/2000 | 12-08-75 |
| 1401 | Newton Tirki, S/o Sri Herman Tirki | BiharSVC/169 1/2000 | M.-Churi Tola,PO+Thana- Kanke,Dist.-Ranchi,Pin.- 834006 | B.V.Sc. & A.H./BAU/91 | 30/10/65 |
| 1402 | Niadbor Giri Marbaniang | Megh/175/01 | Lawmali Pasteur Hills, Shillong | BVSc&AH/AAU/ 86 | 1.9.49 |
| 1403 | Nichat Manchar Motiramji, S/o Late Motiramji Nichat | BiharSVC/187 3/2000 | Vill.-Varipure,PO- Itwari,Dalganj,Thana- Nagpur,Dist.-Nagpur | B.V.Sc. & A.H./PKV/91 | 25/09/64 |

| SLNO | NAME | REGN | DOB | QUALIF | REGD. |
|------|---|---------------------|---|---------------------------|-----------|
| 1404 | NIDO TAYO | ARUNA/198/0 0 | C/O TAYA SITA, RAMAKRISHNA MISSION HOSPITAL, HANAGAR | BVSc&AH/VANG RAU/QO | 17.6.74 |
| 1405 | NIHAR RANJAN GHOSH | WBSVC/2836/ 2001 | VILL. KASHIPUR, P.O. BERBARI, DT. 24 PRGS(N) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1406 | NIKAM MAHALSAKANT GANGADHAR | MSVC/6397/20 00 | AT POST KAMTHA, TAL. ARDHARPUR, DIST. NANDED- 431704 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 07-11-77 |
| 1407 | NIKAM PRASHANT TUKARAM | MSVC/6292/20 00 | APSHINGE (MILITARY) SATARA, DIST. SATARA | BVSc&AH/PDK V/2000 | 02-06-76 |
| 1408 | NILAY KR.DAS S/O NEPAL CH. DAS | TRIPURA/76/2 000 | PO&VILL-AMTALI A.B.ROAD, AGT. TRIPURA WEST, PIN-799130 | BVSc&AH/BAU/ 87 | 09/01/65 |
| 1409 | NILIN GUPTA S/O SHRI V.K. GUPTA | MPSVC/1922/ 00 | SAAT BHAI KI GOTH, LAKKADKHANA LASHKAR, GWALIOR- 474001 | BVSc&AH/IGKV V/99-2000 | 12, 12.76 |
| 1410 | NIMAI CHAND PATRA | WBSVC/2821/ 2000 | VILL. CHAKGOPAL, P.O. ALANCHAK BELDA P.S. PATASPUR, DT. MIDNAPUR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1411 | NINAN JACOB | PONDI/109/20 00 | 20, II CROSS, SATHYA NAGAR(E), PONDICHERR Y-13. | BVSc&AH/GAU/ 90 | 15/08/65 |
| 1412 | NIPA DEBNATH MRS. D/O SH. SACHINDRA CH. DEBNATH | TRIPURA/79/2 000 | SANTIPARA, MOTORSTAN D, AGARTALA, TRIPURA (W) | BVSc&AH/JNKV V/89-90 | 18/11/66 |
| 1413 | NIRA MANIK SOREN | WBSVC/2813/ 2000 | C/O ROBIN SOREN AT SHYAMPUR, P.O. AKALPUR VIA GAZOLE, DT. MALDA | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1414 | NIRAJ KUMAR SHUKLA S/O SRI RAM ASRE SHUKLA | UPVC/3255. | VILL.-PARSIPUR, PO- LAMBHUA, DIST. SULTANPUR, U.P. | BVSc&AH/KKV/ 95 | 14.07.70 |
| 1415 | NIRMAL CH.RAY S/O SH.LT.CHANDRA MOHAN RAY | TRIPURA/30/2 000 | OLD COLLEGE ROAD, SHIBNAGAR, AGT. P. . O. AGARTALA COLLEGE | BVSc&AH/BCK VV/77 | 04/02/54 |

| SR.NO. | NAME | REGN | ADM | COLL | DIS |
|--------|---|-------------------------|---|----------------------------------|----------|
| 1416 | NIRMAL DASGUPTA S/O SH. DHANANJOY KR. DASGUPTA | TRIPURA/58/2 000 | VILL.SHALTILLA,P.O.BEL ONIA SOUTH TRIPURA | BVSC&AH/BAU/ 82 | 16/09/57 |
| 1417 | Nirmal Kr. Singh, S/o Late Ram Sewak Singh | BiharSVC/988/ 2000 | M.-Manlabagh Arrah,PO- Arrah,Thana-Nawada,Dist.- Arrah(Bhojpur) | B.V.Sc.&A.H./R AU/71 | 22/01/49 |
| 1418 | Nirmal Kumar Mishra, S/o Late Ram Vilas Mishra | BiharSVC/208 3/2000 | Vill.-Patrar,PO+Thana- Gorhani,Dist.-Bhejpur | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 15/10/43 |
| 1419 | Nirmal Kumar Sen, S/o Late Dwijendra Nath Sen | BiharSVC/198 5/2000 | M-Prafulla Niwas Kashida,PO+Thana- Chatsila,Dt-East Singhbhum,P-832302 | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 27/02/40 |
| 1420 | Nirmal Kumar Singh, S/o Dr. N.P. Singh | BiharSVC/158 0/2000 | Vill.-Bhajha,PO- Mativa,Thana- Laxmipur,Dist.-Jamui | B.V.Sc. & A.H./BAU/91 | 25/08/67 |
| 1421 | Nirmal Kumar, S/o Late Manikchand Singh | BiharSVC/107 7/2000 | Vill.+PO=Bhaluahi, Thana- Nakna,Dist.-Rohtas,Pin.- 802215 | B.V.Sc.&A.H./R AU/97 | 01/04/70 |
| 1422 | Nirmal Kumar, S/o Late Satya Narayan Sah | BiharSVC/138 1/2000 | M-Kishori Kuri,PO- Deegha,Thana- Danapur,Dist.-Patna,Pin.- 800012 | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 19/07/45 |
| 1423 | NIRMAL SATISH KUMAR BHASKARAN | KERALASVC/ 2448/2000 | KATHALIKKATTIL HS., S.N.NAGAR, IRINJALAKUDA NORTH,THRISSUR- | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 09.01.74 |
| 1424 | NIRMALENDU BIKASH PAUL S/O SH. SURESH CH.PAUL | TRIPURA/11/2 000 | C/O DR.N.B.PAUL,1ST LANE RAMNAGAR,ROAD NO.1,POST- RAMNAGAR,AGT.TRIPUR | BVSc&AH/UNI OF CALCUTTA/72 | 14/01/48 |
| 1425 | Nishi Kant Verma, S/o Late Munshi Kesho Lal | BiharSVC/184 2/2000 | Vill.-Ramduttpati,PO- Basbitti,Thana+Dist.- Supaul,Pin-852130 | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 15/01/51 |
| 1426 | NITHIN H S/O HALASIDDAPPA G.S. | KARNASVC/3 110 | NO.810/14,SRI SHIVAKUMARASWAMY NGR,1ST STAGE,VIDYANAGAR | BVSc&AH/UAS DHARWAD/98 | 22.03.76 |
| 1427 | Nochi Eustacia G. Momin D/o Kredith R. Marak | Megh/177/01 | Chandmary, Tura-794002 | BVSc&AH/JNKV V/99 | 20.4.75 |

| STUDY NAME | REGN | ADM | QUALIF | DOB |
|--|------------------------|---|------------------------------------|----------|
| 1428 Nongmaithem Marogni | Mani/364/01 | Kelshampat Keisam Leikai | BVSc&AH/GBP UA&T/97 | 1.6.74 |
| 1429 Noore Alam Teofary, S/o Md. Matim | BiharSVC/209 2/2001 | VIII.-Ghusmul,PO-Ghusmul Hat,Thana-Ghusmul Hat,Dist.-Purnea | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 02/01/74 |
| 1430 OBUL REDDY T. S/O T. SUBBA REDDY | AP8VC/03657/ 2000 | 25/186-A2, IIND FLOOR, SAINIVAS,SANJEEVANAG AR, NANDYAL (R.S.), KURNOOL DT. | BVSc/APAU/67 | 09.04.44 |
| 1431 OGESWARA RAO B. S/O B. RAMAYYA | APSVC/03625/ 2000 | LAXMIPURAM(V), BRAHMANATARLA(P), SRIKAKULAM DT-532220 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 10.06.76 |
| 1432 OJING RUKBO | ARUNA/210/0 1 | C/O R. SINGKAI, HEALTH BR. SECT COMPLEX, ITANAGAR | BVSc&AH/JNKV V/01 | 14.8.73 |
| 1433 OM PRAKASH BAIRWA S/O SH. SUMRAT LAL BARWA | RAJSVC/2620/ 2000 | VILL TODOGYANSINGH, P. TODANAGAR, TEH. RAJGARH, ALWAR | BVSc&AH/RAU/ 2000 | 1.10.73 |
| 1434 Om Prakash Biwakar, S/o Sri Mundrika Ram | BiharSVC/938/ 2000 | M.-New Binass Rd.,Haramchak,PO- Anisabad,Thana- Pulwari,Patna-800002 | B.V.Sc.&A.H./R AU/75 | 01/01/50 |
| 1435 Om Prakash Prasad, S/o Sri Shivrati Mahto | BiharSVC/147 0/2000 | Vill.-Laxmipur Don,PO- Naurangiya Don,Thana- Ramnagar,Dt.- Betiah(W.Champaran) | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 06/01/74 |
| 1436 OM PRAKASH S/O SRI R.R. GUPTA | UPVC/3226 | VILL.&PO-AMANIGANJ, FAIZABAD,U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 01.08.71 |
| 1437 OM PRAKASH SAINI | RAJSVC/2643/ 2000 | H.NO.3972,NEAR NAHARGARHTHANA,PUR ANI BASTI,JAIPUR | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 01.03.70 |
| 1438 Om Prakash Srivastava, S/o Sri Pyare Lal Srivastava | BiharSVC/148 7/2000 | VIII.-Ruhta,PO- Sadar,Thana- Ulandganj,Dist.-Jaunpur (U.P.) | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 02/09/43 |
| 1439 OMKAR DATTA UPADHYAY S/O SHRI L.P. UPADHYAY | MPSVC/1903/ 00 | NANDINI NIVAS H.NO. 454, WARD NO.9, BHARTIYA NAGAR, BILASPUR-495001 | BVSc&AH/JNKV V/78-79 | 22.08.52 |

| SLN# | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|---------------------|--|---------------------------------|----------|
| 1440 | OMPAL SINGH S/O SRI TUNDA SINGH | UPVC/3299 | P-201, SANJAY NAGAR, SEC.-23, RAJ NAGAR, GHAZIABAD (U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/71 | 08.07.47 |
| 1441 | OMPRAKASH K. S/O K. RAMKISHAN RAO | APSVC/03541/ 2000 | C/O ROYAL POULTRY FEEDS, HYDERABAD ROAD, SIDDIPET, MEDAK DT. 502 103 | BVSc&AH/MAR ATHWADA AG.U./97 | 25.05.75 |
| 1442 | Onkar Nath Diwakar, S/o Sri Mundrika Ram | BiharSVC/122 6/2000 | V.+PO-Lala Bhadsara,Thana-Dulhin Basar,Dist.-Patna,Pin.- 801102 | B.V.Sc.&A.H./R AU/89 | 05/01/60 |
| 1443 | P. YADWINDER SINGH S/O SH. SHER SINGH | PB.SVC- 2178/2000 | 30, DASHMESH COLONY, PATIALA GATE, NABHA, DIST. PATIALA. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 20.07.71 |
| 1444 | P.HEMAVATHY | PONDI/131/20 01 | 31,ANANDARANGAPILLAI NAGAR,IV CROSS,PONDICHERRY- 605008 | BVSc&AH/PU/2 000 | 07/07/75 |
| 1445 | P.THIRUSELVAME | PONDI/141/20 01 | 3,"THIRU ILLAM",SENGENIAMMAN KOIL STREET,APPAVU NGR.,VAZHIAKULAM,PON | BVSc&AH/PU/2 000 | 12/09/77 |
| 1446 | P.VIJAYALAKSHMI | PONDI/115/20 00 | 15,I CROSS,RAINBOW NAGAR, PONDICHERRY- 605011 | BVSc/TV&ASU/ 93 | 26/09/69 |
| 1447 | PABAN KR. MAJUMDAR S/O SURENDRA KR. MAJUMDAR | TRIPURA/66/2 000 | PO/VILL-JOLAMIBARI,BENONIA TRIPURA(S),PIN-799141 | BVSc&AH/PAU/ 87 | 01/01/62 |
| 1448 | Padm Bhushan Pd. S/o Sri Nand Kishore Pd. | BiharSVC/144 5/2000 | Moh.-New Forest Colony,PO+Thana+Dist.- Hazaribagh | B.V.Sc. & A.H./BAU/89 | 10/10/62 |
| 1449 | Padmananda K G,S/o Gangadharanmurthy K | Karna/3201 | K block, MIG 216,Ramakrishna Nagar,Mysore | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 22.7.74 |
| 1450 | PALKAR SHIRISH SHESHRAO | MSVC/6352/20 00 | SNEHAL NIWAS, GANESH NAGAR, KALAM, TAL. KALAM DIST. OSMANABAD- | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 10-08-78 |
| 1451 | PALLAB PRADHAN | WBSVC/2803/ 2000 | VILL. & P.O. BISHALAXMIPDRE, P.S. KUKDWIP DT. 24 PRGS(S) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |

| SERIAL NAME | REGN | ADD | QUALIF | REG. |
|---|---------------------|--|-------------------------------|----------|
| 1452 PALLAVI VERMA D/O SH. N.S. VERMA | RAJSVC/2703/ 2000 | 44,GOLF COURSE SCHEME,JODHPUR | BVSc&AH/RAJ AGRI.UNIV./2000 | 17.07.76 |
| 1453 PALVE SANTOSH SHIVAJI | MSVC/6398/20 00 | AT POST DEORAI, TAL.PATHORDI, DIST.AHMEDNAGAR- 414106 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 05-06-77 |
| 1454 PANCHABHAI CHETAK GULABRAO | MSVC/6368/20 00 | SAIBABA COLONY, KHAPATOLY, TUMSAR, TAL.TUMSAR, BHANDARA- 441912 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 14-12-76 |
| 1455 PANCHAKSHARI SANKH S/O SHIVALINGAPPA SANKE | KARNASVC/3 075 | DANAMMADEVI KRUPA,PL.NO.042,GACC HINKATTI CLY,BEHD SHIVALINGESWAR | BVSc&AH/UAS DHARWAR/99 | 15.07.76 |
| 1456 PANI PRASAD K. S/O K. SANKARA RAO | APSVC/03553/ 2000 | 301,TRANSIT BLDG.,CENTRAL INST.OF FISHERIES EDN. 7 BUNGALOWS,MUMBAI- | BVSc&AH/APA U/84 | 17.04.62 |
| 1457 PANKAJ CHAWLA S/O SH. OM PARKASH CHAWLA | P.B.SVG- 2208/2000 | MOHALLA KUNDGRAM, BASSI PATHANA, DIST. FATEHGARH SAHIB- 140412. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 24.10.73 |
| 1458 PANKAJ GUPTA | RAJSVC/2634/ 2000 | 37,SHAKTI NAGAR,KOTA. | BVSc&AH/RAJ. AGRI. UNIV./2000 | 26.06.75 |
| 1459 Pankaj Khurana,S/o Sh Avinash Chander Khurana | HarSVC/1622 | H.No.243/18,Moh. Rampura Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/99 | 29.11.75 |
| 1460 PANKAJ KUMAR S/O SRI BRIJ PAL SINGH | UPVC/3264 | VILL. JHINJHARPUR,PO- PILONA, DIST.-MEERUT, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 30.05.77 |
| 1461 Pankaj Kumar Singh, S/o Sri Maheswar Singh | BiharSVC/138 2/2000 | Moh.-Abadgenj,Thana- Daltanganj,Dist.- Palamu,Pin.-822101 | B.V.Sc. & A.H./BAU/97 | 04/03/72 |
| 1462 PANKAJ KUMAR THANVI S/O SH. BADRI NARAN THANVI | RAJSVC/2699/ 2000 | CITY LIGHT STUDIO GOLI,JOSHIWARA KOTE GATE,BIKANER | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./2000 | 15.08.75 |
| 1463 Pankaj Kumar, S/o Sri Pashupatinath Sahu | BiharSVC/194 8/2000 | M-Kuwari Viray Tola,PO- Hazipur,Thana- Gangabridge,Dt-Vaishali,P- 844101 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 08/07/73 |

| SNM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|------------|---|------------------------|--|---------------------------------|------------|
| 1464 | Pankaj Kumar,S/o Dr.Keshay Pd.Choudhary | BiharSVC/109 2/2000 | Vill.+PO-Chaturbhujji Baray,Thana-Piro,Dist.-Bhojpur | B.V.Sc.&A.H./R AU/94 | 07/06/69 |
| 1465 | PANSARE VASANT ANANDA | MSVC/6425/20 01 | PANSORE MALA, VIJAY NAGAR, TAL.SANGAMNER, DIST.AHMEDNAGAR- | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 21-07-78 |
| 1466 | PARAMJIT SINGH S/O SH. SHER SINGH | PB.SVC- 2234/2001 | VILL. KAKRALI, P/O MORINDA, DIST. ROPAR. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | |
| 1467 | Paras Nath Singh, S/o Late Deo Narayan Singh | BiharSVC/128 9/2000 | Moh.-Jamala,PO-Singar,Thana-Kanti,Dist.-Muzafferpur | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 03/09/42 |
| 1468 | Paras Nath Singh, S/o Late Sheo Prasad Singh | BiharSVC/907/ 2000 | Vill.-Chand, PO-Chand, Thana-Chand, Dist.-Kaimur | B.V.Sc.&A.H./P U/61 | 01/07/42 |
| 1469 | PARASHURAM KUMMANNANAVAR S/O FAKKIRAPPA H | KARNASVC/3 160 | ALALAGERI, BYADAGI TQ. HAVERI DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAR/200 0 | 08.08.75 |
| 1470 | PARDEEP SINGH S/O SH. GURNAM SINGH | PB.SVC- 2184/2000 | H. NO. 753/4, RUBY HOUSE, JAIL ROAD, GALI, OPP. GURU NANAK PARK, GURDASPUR | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 01.01.77 |
| 1471 | PARESH NATH CHATTERJEE | WBSVC/2839/ 2001 | VILL KOYAR, P.O. KOYAR, DT. BURDWAN-713423 | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1472 | PARIMAL CHANDRA KARMAKAR S/O SH. SANATAN KARMAKAR | TRIPURA/32/2 000 | INDRANAGAR,P.O.ABHOY NAGAR,AGARTALA,TRIPURA WEST RA WEST | BVSc&AH/RAU/ 78 | 18/08/53 |
| 1473 | PARIMAL DAS S/O SH. SURENDRA KR.DAS | TRIPURA/78/2 000 | VILL.CHANDANMURA,PO-BATTALI,WEST TRIPURA,PS-SONAMURA | BVSc&AH/PKV/ 89 | 27/09/67 |
| 1474 | PARIT PARESH MARUTI | MSVC/6337/20 00 | SNEHAL, GANDHINAGAR, GANDHINGLAJ, DIST. KOLHAPUR-416502 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 24-07-78 |
| 1475 | PARITOSH DAS | WBSVC/2787/ 2000 | VILL. BAGULAKHALI P.O. CHUNAKHALI P.S. BASANTI, DT. 24 PRGS(S) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |

| SNM NAME | RNM | ADD | QUALF | DOB |
|--|------------------------|--|-------------------------------|----------|
| 1476 PARITOSH MAJUMDER S/O LAL MOHAN MAJUMDER | TRIPURA/16/2 000 | HOSPITAL ROAD, EXT TOWN BARDWALI GANDHIGHAT, PO- AGARTALA, TRIPURA | BVSc&AH/RAU/ 15.8.53 76 | |
| 1477 PARITOSH MAJUMDER(SR) S/O LT. PAARIMAL MAJUMDER | TRIPURA/9/20 00 | 10,JOYNAGAR(NORTH),A GARTALA,TRIPURA(W) 1 | BVSc&AH/CU/7 | 28/12/46 |
| 1478 Parmanand Prasad Sinha, S/o Late Chandra Deo Prasad Sinha | BiharSVC/194 3/2000 | Vill.+PO-Kiratpur,Thana- Bhagwanpur,Dist.-Vaishali | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 25/12/45 |
| 1479 PARMAR VIMALBHAI KHODABHAI | VCI/2278/01 | F-23/4 STAFF QTR.GUJARAT AGRICULTL.UNIV. AT&PO S.K NAGAR DT- | BVSc&AH/GAU/ 06/07/75 99 | |
| 1480 Parmeshwar Prasad, S/o Sri Bhikhari Prasad | BiharSVC/142 3/2000 | Vill.-Haribela,PO- Haribela,Thana- Bathnaha,Dist.-Sitamadhi | B.V.Sc. & A.H./BAU/81 | 05/04/56 |
| 1481 PARMINDER SINGH S/O SH. PARMJIT SINGH | PB.SVC- 2244/2001 | VPO.MANGWAL, DIST. SANGRUR-148001 | BVSc&AH/PAU/ 17.02.71 2000 | |
| 1482 Parook Azam Md., S/o Late Md. Abunaseh | BiharSVC/984/ 2000 | M.-Milki Mohalla,PO-Arrah Chowk,Thana-Nagar Thana,Dist.-Arrah(Bhojpur) | B.V.Sc.&A.H./M U/64 | 24/07/42 |
| 1483 PARTHA PRATIM DAS | WBSVC/2791/ 2000 | 10 NO. WARD, BISWAPARA, BALURGHAT D/DINAJPUR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1484 PARTHA SARATHI JANA | WBSVC/2807/ 2000 | VILL PALIARAH, P.O. GOURANGOCHAK, P.S. UDAYANARAYANPUR, DT. HOWRAH | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1485 PARVEEN KUMAR S/O SH. SUDARSHAN LAL | PB.SVC- 2187/2000 | H.NO.210/2, (NEW 603/2) ADAMPUR DOABA, JALANDHAR: | BVSc&AH/PAU/ 14.10.74 2000 | |
| 1486 PATEL MANISH KUMAR DASHARATHALAL | VCI/2277/01 | 80, UMIYA NAGAR, AT&POST. KHORAJ,TA&DIST- GANDHINAGAR | BVSc&AH/GAU/ 04/07/74 97 | |
| 1487 PATEL MUKESHBHAI GOVINDBHAI | VCI/2254/00 | GUJARAT AGRICULTURAL UNIVERSITY QNO.NEW-F- 5-12,S.K.NAGAR-385506 | BVSc&AH/GAU/ 15/08/75 99 | |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|-------------------|--|------------------------------|----------|
| 1488 | PATEL RAJESHKUMAR GANDALAL | VCI/2259/01 | G/1 KALPTARU APPARTMENT OPP.GITA SCHOOL RANIP AHMEDABAD GUJARAT- | BVSc&AH/GAU/ 98 | 20/20/71 |
| 1489 | PATEL RAMESH BHAI SOMA BHAI S/O SH. SOMA BHAI | RAJSVC/2763/ 2001 | BLOCK NO. 23, DWARKESH SOCIETY, KHEDBHRAMA, DIST.SABARKUNNTA, | BVSc&AH/GAU/ 90 | 01-06-66 |
| 1490 | PATHAK DR. SIMANTA S/O MR. PRANKRISHNA PATHAK | ASM/1934/200 0 | MR. PRANKRISHNA PATHAK NEAR TELEPHONE EXCHANGE BARPETA | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 1491 | PATIL MAHENDRA SHRIKANTRAO | MSVC/6331/20 00 | RAJ BUILDING, JAWAHAR NAGAR, 23B WARD, KARVEER, KARVEER, KOLHAPUR | BVSc&AH/MPK V/2000 | 21-08-77 |
| 1492 | PATIL RANJIT KOMALSING | MSVC/6412/20 01 | AT POST VADGAON (BK), TAL. BHADGAON, DIST. JALGAON- 424104 | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 21-07-75 |
| 1493 | PATIL SATYAJIT GIRIDHARRAO | MSVC/6416/20 01 | ZUNJ, DEGLOOR ROAD, UDGIR, DIST. LATUR- 413517 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 22-03-77 |
| 1494 | PATIL SUDHAKAR ANANDA | MSVC/6338/20 00 | AT POST KAULAJE, GADHINGLAJ, DIST. KOLHAPUR-416526 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 11-02-78 |
| 1495 | PATWARDHAN ABHIJIT SHARAD | MSVC/6355/20 00 | 4-SWN LAKE, SAHAKAR NAGAR, DHAKE COLONY, JP.ROAD, ANDHERI(W),MUMBAI400 | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 18-05-78 |
| 1496 | PATWARI SANDEEP NARAYANARAO S/O NARASIMHA RAO | KARNASVC/3 096 | KAMALANAGAR, AURAD TALUK, BIDAR DIST. | BVSc&AH/MWA DA AGRI.UNIV./98 | 10.08.75 |
| 1497 | PAVAN KUMAR V. S/O V.S.H. GOPAL RAO | APSVC/3665/2 000 | C/O P. PRASAD, D.NO.12- 14-18, LALAPET(P), SECUNDERABAD | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 23.08.76 |
| 1498 | PAVNEET SINGH MAVI S/O SH. NACHHATTAR SINGH MAVI | PB.SVC- 2242/2001 | H.NO.1179,PHASE-X, MOHALI, PUNJAB | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 20.09.76 |
| 1499 | PAWALE NARSING HARISHCHANDRA | MSVC/6384/20 00 | PAWALE NIWAS, AT POST PANGAON, TAL.RAMPUR, DIST. LATUR- 431522 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 21-04-77 |

| STUDY NAME | REGN | ADD | QUALIF | DOB |
|---|----------------------|--|------------------------------------|----------|
| 1500 Pawan Kumar S/o Sh. Chander Bhan | HarSVC/1673 | V. Dhigana, PO Bhgana, Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 19.9.76 |
| 1501 PAWAN KUMAR SABAL | RAJSVC/2638 /2000 | I-31, J.P. COLONY, SEC.NO.3,SHAS TRI NAGAR,JAIPUR- 302016. | BVSc&AH/RAJ AGRI.UNIV./20 00 | 23.01.73 |
| 1502 PAWAR SHARAD PURUSHOTTAMRAO, C/O P.Z.PAWAR | MSVC/6371/2 000 | AT POST DEGLOOR, TALOTHI TAL.OFFICE DEGLOOR, DIST. NANDED- 431717 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 18-12-77 |
| 1503 PAWAR SHEETAL PANDURANG | MSVC/6327/2 000 | C/OPANDURANG KRISHAN PAWAR AT POST-PALUS, TAL. PALUS DIST. SANGLI- | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 17-05-78 |
| 1504 PAWAR SHRIPATI BHUNADAS | MSVC/6286/2 000 | AT POST ASU TAL. PHALTAN, DIST. SATARA-415523 | BVSc&AH/MPK V/99 | 01-06-75 |
| 1505 PAWSHE DAYANAND BALWANTRAO | MSVC/6290/2 000 | Q.NO.B/36 DR.PDKU CAMPUS,AKOLA M.P.O.BHAMOD,TAL.DRY APUR, AMRAVATI- | BVSc&AH/PKV/ 77 | 22-07-52 |
| 1506 PEGU DR. DILIP KR. S/O LATE MADAN PEGU | ASM/1924/200 0 | 8TH MILE, GANESH MANDIRGARO BASTI, P.O. AMERIGOG, GUWAHATI-781023 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 1507 PEGU DR.(MS.)SEEMARANI D/O MR. MANIK CH. | ASM/1915/200 0 | BARBHETA, JORHAT- 785013 ASSAM | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 1508 PHOOKAN DR. (MS.)ARUNDHATI D/O MAHENDRA MOHAN | ASM/1940/200 1 | C/OSH.M.M.PHOOKAN,R NG FOREST OFF.DOOMALI,A.P.OR KHOWANG | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 1509 Phraben Tariang | Megh/156/01 | Madan Ting Shillong-21 | BVSc&AH/AAU/ 90 | 11.9.63 |
| 1510 PHUKAN DR.(MS) JULIE D/O SRI PRIYA NATH PHUKAN | ASM/1910/200 0 | C/O SHRI PRIYA NATH PHUKAN NAWKARI NAGAR, WARD NO.2,NORTH | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 1511 PINAKI BISWAS | WBSVC/2824/ 2000 | DEY CHOWDHURY PARA WARD NO.6, RANAGHAT, DT. NADIA | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |

| SNM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | MD |
|------|---|---------------------|---|---------------------------|----------|
| 1512 | Pitamber Jha, S/o Sri Ram Sundar Jha | BiharSVC/133 0/2000 | Moh.-Argaghat Road, PO+Thana+Dist.- Giridih,Pin.-815301 | B.V.Sc. & A.H./BAU/89 | 12/10/86 |
| 1513 | Piyus Minz,S/o Late Simon Minz | BiharSVC/134 1/2000 | Mon.-Sisay Road,Kathal Toli,PO+Thana+Dist.- Gumla | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 02/02/87 |
| 1514 | POHANEKAR AMOL VASANTRAO | MSVC/6341/2 000 | HIRAI NIWAS, 27/364, SAMATA NAGAR, TAL. DIST. OSMANABAD- 413501 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 14-12-77 |
| 1515 | Ponnuvel.R | Pondi/93/2000 | No.1,2nd Cross,Anna Theresa Nagar,Mooiakulam,Pondicherry | BVSc/TNVASU/ 95 | 16.4.66 |
| 1516 | POOJA RANI D/O SH. VED KRISHNA | PB.SVC- 2193/2000 | ANAND NAGAR, GALI NO. 1, MOGA | BVSc&AH/PAU/ 1999 | 22.11.74 |
| 1517 | POONAM BATRA D/O SH. RAMJI DASS BATRA | PB.SVC- 2181/2000 | PRAKASH CLINIC, VPO. PAKHOWAL, DIST. LUDHIANA-141 108 | BVSc&AH/PAU/ 1999 | 31.10.75 |
| 1518 | Poonam Sinha, D/o Shri Jugeshwar Prasad | BiharSVC/205 8/2000 | Vill.-Bhawanipur Jeeran,Dist.-East Champaran | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 03/07/55 |
| 1519 | POONAM YADAV D/O SRI YADRAM YADAV | UPVC/3266 | C/O SRI GYANENDRA SINGH YADAV, VILL & PO-OADON OISTT. ALIGARH, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 28.05.77 |
| 1520 | POTDAR VINOD VIJAYRAO, | MSVC/6408/2 001 | C/O RAJENDRA MEDICAL, SHIVAJI NAGAR, BASMAT RAOD, PARBHANI, DIST. | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 13-06-78 |
| 1521 | Prabhakar Sinha, S/o Sri Kapil Deo Ram | BiharSVC/138 1/2000 | Vill.-Oevipur,PO- Nandlalpur,Thana- Kahalganj,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./BAU/91 | 01/01/67 |
| 1522 | PRABHAKARA A B S/O BASAVARAJAPPA | KARNASVC/3 151 | SIDDARAMESHWAR ROAD, AJJAMPUR TARIKERE TQ., CHIKKAMAGALUR OIST. | BVSc&AH/UAS OHARWAD/200 0 | 28.06.77 |
| 1523 | Prabhakaraiah D S,S/o Shiva Reddy | Karna/3204 | Dimbala Village,Ronur PPost,Srinivasapur Tq,Kolar Dist | BVSc&AH/UAS, Blore/2000 | 1.6.77 |

| SIMILAR NAME | RNUM | ADDRESS | QUALIF | DOB |
|--|---------------------|---|-----------------------|----------|
| 1524 PRABHAKARAN S. S/O J. SAMUEL RAJ | APSVC/03593 /2000 | 10-93, MARUTINAGAR, TIRUPATI-517 502 | BVSc/TNVASU/ 2000 | 17.06.74 |
| 1525 Prabhas Kumar Singh, S/o Late Dhanu Singh | BiharSVC/106 6/2000 | Vill.-Fulwaria,PO- Karsar, Thana- Raghunathpur, Dist.-Siwan | B.V.Sc.&A.H./R AU/84 | 01/01/60 |
| 1526 Prabhat Kr. Mishra, S/o Sri Chiranjivi Mishra | BiharSVC/181 2/2000 | Vill.+PO-Kharajpur, Thana- Bagadurpur, Dist.- Darbhanga, Pin.-846003 | B.V.Sc. & A.H./RAU/95 | 11/12/68 |
| 1527 Prabhat Kr. Sinha, S/o Late Sidheswari Sharan Sinha | BiharSVC/160 3/2000 | Vill.+PO-Harpur Karah, Thana- Banlyapur, Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 15/01/46 |
| 1528 PRABHAT KUMAR PANKAJ | VCI/2297/01 | TEERATH SINGH H.NO. 31 KAWARDHA HOUSE NEAR II BRIDGE JABALPUR M.P | BVSc&AH/JNK VV/99-00 | 02/01/76 |
| 1529 Prabhat Ranjan Rav, S/o Sri Mahendra Narayan Rav | BiharSVC/192 4/2000 | Vill.-Gangora,PO- Rahta, Chaumukh, Thana- Biharganj, Dt.- Madhepura, Pin-852101 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 15/01/68 |
| 1530 Prabhawati Kumari, S/o Late Ramsharan Prasad | BiharSVC/152 8/2000 | Vill.-Mojtara,PO- Bardih, Thana- Islampur, Dist.- Nalanda, Pin.-801303 | B.V.Sc. & A.H./RAU/94 | 05/07/69 |
| 1531 Prabhunarayan Mishra, S/o Late Shambhu Mishra | BiharSVC/124 0/2000 | Vill.+PO-Saray Mohan, Thana- Nardah, Dist.-Azamgadh | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 11/11/43 |
| 1532 Prabhunath Sahay, S/o Late Dr. Hanandan Sahay | BiharSVC/147 1/2000 | Vill.+PO-Deoria, Thana- Rayelganj, Dist.- Chapra, Pin.-841301 | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 12/10/43 |
| 1533 Prabhunath Singh, S/o Late Kamla Singh | BiharSVC/115 7/2000 | Vill.+PO-Basanw, Thana- Basenpur, Dist.-Siwan, Pin- 841406 | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 18/02/47 |
| 1534 Prabhunath Singh, S/o Late Singhasan Singh | BiharSVC/123 3/2000 | Vill.+PO-Methyalia, Thana- Reeviganj, Dist.-Chapra | B.V.Sc.&A.H./R AU/68 | 16/03/45 |
| 1535 PRABIR KUMAR KARMAKAR | WBSVC/2786/ 2000 | VILL KANCHKULI, P.O. DHARMADA, DT. NADIA | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|---|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 1536 | Prabodh Kr. Singh, S/o Sri Sidheshwar Nath | BiharSVC/185 8/2000 | Moh.-Vind Toli, Shekhpura, Dist.- Patna, Pin.-800014 | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 01/09/50 |
| 1537 | PRADEEP C B S/O BUDIHAL CA | KARNASVC/3 116 | 034/5 SERVICE ROAD, NEAR BTS GARAGE RPC LAYOUT, VIJAYANAGAR, BANGALORE | BVSc/UAS BANGALORE/9 8 | 07.04.76 |
| 1538 | Pradeep Kr. Biswas, S/o Thakur Pd. Biswas | BiharSVC/117 3/2000 | Vill.+PO-Basaiti, Thana- Basaiti, Dist.-Arenia, Pin- 854312 | B.V.Sc.&A.H./R AU/87 | 15/01/61 |
| 1539 | PRADEEP KUMAR | PONDI/126/20 00 | 585,ASHOK NAGAR, LAWSPET, PONDICHERRY -9 -605008 | BVSc&AH/JU/7 | 10/07/58 |
| 1540 | PRADEEP KUMAR SHARMA S/O SHRI LATE DR. SHANKARLAL | MPSVC/1917/ 00 | 5/282/SONKAR HS, INSDE OF KAMLA MKT., CIRCUIT HS CHAURAH MUKHTYARGANJ, SATNA | BVSc&AH/JNKV V/71 | 16.11.46 |
| 1541 | PRADEEP KUMAR SINGH, S/O. SH. SHESH NARAIN SINGH | RAJSVC/2758/ 2001 | VPO. SHERWAGH AT DIST. FAIZABAD, U.P | BVSc&AH/CSA KPVV/91 | 30-01-69 |
| 1542 | Pradeep Kumar, S/o Sri Dharnidhar Ram | BiharSVC/141 8/2000 | Vill.-Nagri Kalan, PO- Sijua, Thana- Tetulbhari, Dist.-Dhanbad | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 20/12/66 |
| 1543 | Pradeep Kumar, S/o Sri Vinod Kumar | BiharSVC/154 0/2000 | Vill.+PO-Pansalva, Thana- Beldaur, Dist.-Khagaria | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 31/12/67 |
| 1544 | Pradeep M C, S/o M C Chandrashekappa | Karna/3206 | Myllanehalli Post, Arasikere Tq, Hassan Dist | BVSc&AH/UAS, Blore/2000 | 31.7.77 |
| 1545 | PRADEEP SAKHARAM GAIKWAD | RAJSVC/2715/ 2000 | A/P. BADMORE (CHOURDHARIES BHAWAN), BHILWARA | BVSc&AH/HAU/ 95 | 01.12.72 |
| 1546 | PRADEEP YADAV S/O SH. SHER SINGH YADAV | RAJSVC/2668/ 2000 | H.NO.170, BHAGWATI NAGAR, KARTAR PURA, JAIPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 01.08.76 |
| 1547 | PRADIP KR. DUTTA- CHOWDHURY S/O LT.PARESHNATH | TRIPURA/38/2 000 | 29/IV, KUMARI TILLA GOVT.QTS.P.O.KUNJABA N AGARTALA, TRIPURA (W) | BVSc&AH/BCK VV/78 | 07/07/56 |

| SNO/ NAME | BNM | AB | QUALF | BB |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 1548 PRADIP KUMAR | PONDI/110/20 00 | B-5,QUARTERS COMPLEX,RAGACOVAS,K URUMBAPET,PONDICHE RRY-605009 | BVSc&AH/BCK VV/83 | 15/10/59 |
| 1549 Pradyuman Kr. Swave, S/o Sri Hare Krishan Swave | BiharSVC/177 0/2000 | Vill.-Nanjang,Thana- Titol,Dist.- Jagatsinghpur,Pin-754137 | B.V.Sc. & A.H./OUAT/89 | 23/09/66 |
| 1550 Praful Kr. Singh, S/o Sri Iswar Pd. Singh | BiharSVC/941/ 2000 | M-Devi Mandap Rd,PO- Hesal,Thana-Sukhdeo Nagar,Ranchi-834005 | B.V.Sc.&A.H./B AU/96 | 24/09/66 |
| 1551 PRAHLAD SAHAY RAIGAR S/O SH BANSI LAL RAIGAR | RAJSVC/2704/ 2000 | V.P.O. KARIRI,VIA KHEJROLI,JAIPUR - 303803 | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 05.06.73 |
| 1552 PRAJNA RAO P. S/O P. SUBBA RAO | APSVC/03537/ 2000 | PL.NO.119,H.NO.15- 263,O.H.P.LAYOUT,ADAR SANAGAR CLY,H.B.CLY.(P),VPATNA | BVSc&AH/APA U/73 | 06.12.45 |
| 1553 Prakash B, S/o Sh B.V Byra Reddy | KARNASVC/3 092 | No.1362,Judicial Layout,Opposite Jakkur Aerodrum,Bangalore (GKVK) | BVSc/UAS,B'lor e/99 | 23.2.75 |
| 1554 PRAKASH BRIJALAL PATIL | VCI/2253/00 | 29,PUSHPANJALI, JAYNAGAR SOCIETY, RAMBAUGH BEHIND SWAMI NAGAR | BVSc&AH/KKV/ 77 | 01/03/54 |
| 1555 Prakash Chandra Jha, S/o Late Indranan Jha | BiharSVC/165 9/2000 | Vill.+PO+Thana- Dhamdaha South,Dist.- Pumea | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 05/04/53 |
| 1556 Prakash Chandra Roy, S/o Late Janakdhari Roy | BiharSVC/124 7/2000 | V.-Bhagwanpur,PO- Ramgadhia,Thana- Dariapur,Dist.-Saran (Chapra) | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 15/05/44 |
| 1557 Prakash Chandra Roy, S/o Late Uday Narayan Roy | BiharSVC/153 6/2000 | Vill.+PO+Thana- Adityapur,Dist.-West Singhbhum,Pin.-831013 | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 13/03/60 |
| 1558 Prakash G,S/o Siddallingappa | KARNASVC/3 171 | III ward,Kudligi Taluk,Bellary Dist | BVSc&AH/UAS Bangalore/2000 | 1.6.75 |
| 1559 PRAKASH JATTENNAVAR S/O SIDDAPPA F | KARNASVC/3 091 | PRAKASH NILAYA, ANAND NAGAR, NEAR HUDCO COLONY GADAG | BVSc&AH/UAS DHARWAD/99 | 03.02.76 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | BIR |
|------|---|------------------------|---|--------------------------|----------|
| 1560 | Prakash Kuzur, S/o Sri Markus Kuzur | BiharSVC/152 2/2000 | M.+PO-Indian Ama Lane,Kanke, Thane- Kanke, Dist.-Ranchi, Pin.- 834006 | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 07/10/62 |
| 1561 | Prakash Singh Badal, S/o Sri Surya Deo Mandal | BiharSVC/205 0/2000 | M-Azad Colony,Rajni Chawk, PO-Bhattha Bazar, Thana-Khajanchi Hat | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 03/12/70 |
| 1562 | Pramila,D/o Pilla Kenchappa H] | Karna/3207 | Dharmapura,Vijayapura Post, Devanahalli, Tq Bangalore, Rural Dist | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 11.1.76 |
| 1563 | Pramod Kr. Arya, S/o Sri Satyanarayan Pd. Arya | BiharSVC/150 3/2000 | Vill.+PO+Thana- Luriya, Dist.-West Champaran, Pin.-845453 | B.V.Sc. & A.H./RAU/95 | 18/01/69 |
| 1564 | Pramod Kr. Das, S/o Late Yogdhar Lal Das | BiharSVC/150 6/2000 | Vill.-Beerdah, PO+Thana- Raghopur, Dist.- Supaul, Pin.-854111 | B.V.Sc. & A.H./BAU/78 | 15/08/52 |
| 1565 | Pramod Kr. Singh, S/o Late Devendra Singh | BiharSVC/175 9/2000 | Vill.+PO-Aer, Thana- Atari, Dist.-Gaya | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 27/02/52 |
| 1566 | Pramod Kumar Gupta, S/o Sri Baidyanath Sah | BiharSVC/105 5/2000 | V.+PO-Banghora, Thana- Chadho, Dist.- Samastipur, Pin.-848114 | B.V.Sc.&A.H./R AU/95 | 15/03/70 |
| 1567 | PRAMOD KUMAR KAUSHIK S/O SH. S.L. SHARMA | RAJSVC/2613/ 2000 | VPO MOLARANA DOONAGAR, SAWAI MADHOPUR | BVSc&AH/CCS HAU/94 | 24.11.70 |
| 1568 | Pramod Kumar Mehto, S/o Late Tanuk Lal Mahto | BiharSVC/108 3/2000 | V.-Tarahi, PO-Mohanpur Chanmukh, Thana- Behariganj, Dist.- Madhepura | B.V.Sc.&A.H./R AU/93 | 16/08/66 |
| 1569 | PRAMOD KUMAR PATHAK S/O SRI RAM NATH PATHAK | UPVC/3308 | VILL.&PO.- SARKARA, DISTT. BAREILL Y, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 01.01.75 |
| 1570 | Pramod Kumar Singh, S/o Sri Bhagwan Pd. Singh | BiharSVC/102 4/2000 | Vill.-Dayalpur, PO- Sangitvaita, Thana- Kahdgaon, Dist. Bhagalpur, P in.-813203 | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 14/10/67 |
| 1571 | Pramod Kumar Thakur, S/o Late Pravag Narayan Thakur | BiharSVC/194 4/2000 | M-East Patelnagar, PO+Thana- Shastrinagar, Dist.- Patna, Pin-800023 | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 01/07/54 |

| SURNAME | | | | | |
|---|------------------------|--|---------------------------------|----------|--|
| 1572 Pramod Kumar, S/o Late Ramkhelawan Singh | BiharSVC/139 4/2000 | Vill.-Kaknara,PO- Sehgarai,Thana- Noorsarai,Dist.Nalanda,Pin- 803118 | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 03/12/59 | |
| 1573 Pramod Kumar, S/o Sri Om Prakash Arya | BiharSVC/837/ 2000 | Moh-Megadh Colony, P.O.- Head P.O.,Thana-Medical College,Gaya, Pin-823s001 | B.V.Sc.&A.H./R AU/97 | 05/01/73 | |
| 1574 Pramod Kumar, S/o Sri Raghunandan Prasad | BiharSVC/914/ 2000 | Vill.+PO-Varsaliganj,Dist.- Nawada, Pin.-805130, Thana Varsawganj | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 05/10/70 | |
| 1575 Pramod Kumar,S/o Sri Ramchoritra Singh | BiharSVC/867/ 2000 | Vill.-Sonpura,PO-Bastivari, Thana-Manatu,Dist.- Palamu, Pin-822122 | B.V.Sc.&A.H./B AU/93 | 28/03/69 | |
| 1576 PRAMODKUMAR SHARMA S/O SHRI RAM NARESH SHARMA | MPSVC/1909/ 00 | VILLAGE POST KHURHA, DIST. SATNA-485001 | BVSc&AH/JNKV V/84-85 | 15.06.63 | |
| 1577 PRANAB DEBNATH S/O SH.HALADHAR DEBNATH | TRIPURA/103/ 2000 | VILL.NARAURA,PO- BISHALGARH,TRIPURA WEST | BVSc&AH/BCK VV/87 | 06/01/64 | |
| 1578 PRASAD DAS S/O PREMBINODE DAS | TRIPURA/60/2 000 | ROAD 1, ARUNDHUTINAGAR AGARTALA, TRIPURA WEST | BVSc&AH/RAU/ 83 | 1.1.61 | |
| 1579 PRASAD G. S/O G. MANIKYAM | APSVC/03582/ 2000 | GANDHINAGAR, 8-10- 102, BUCHIREDY PALEM, NELLORE-524305 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 01.06.75 | |
| 1580 Prasanan Bihari Pd. Singh, S/o Late Shashi Shekhar Pd. Singh | BiharSVC/177 9/2000 | Vill.-Hathidah,PO+Thana- Hathidah,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 07/01/43 | |
| 1581 Prasant Bhagat, S/o Sri Dwarika Pd. Bhagat | BiharSVC/946/ 2000 | M-Sheehampura Caddi,Purana Thana Road,PO+Thana- Dumranw, Buxzar-802119 | B.V.Sc.&A.H./W BUAFS/97 | 05/07/74 | |
| 1582 PRASHANTH M S/O MANOHAR | KARNASVC/3 143 | C/O CHRISTIAN COLONY, CHITGUPPA POST, HUMNABAD TQ., BIDAR DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 06.06.76 | |
| 1583 PRATAP K. S/O SUBBARAMAIAH | APSVC/03679/ 2001 | C/O G.VENGAL RAO, RETD.TEACHER, OLD SUNKESNLA ROAD, KHAJIPET(P&M) | BVSc&AH/APA U/93 | 01.07.67 | |

| SL. NO. | NAME | RNUM | AO | QUALIF | |
|---------|--|-------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 1584 | Pratap Kumar Manjhi, S/o Late Bibhuti Bhushan Manjhi | BiharSVC/194 1/2000 | V.-Amdanga,PO-Mahullya,Thana-Ghatshila,Dist.-East Singhbhum | B.V.Sc. & A.H./BAU/99 | 12/03/71 |
| 1585 | PRATAP P.M. S/O P. SUNKANNA | APSVC/03644 /2000 | ABDULLAPURAM, VELGODE(M), KURNOOL DT.-518 533 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 24.06.75 |
| 1586 | PRATISHTHA SHARMA | RAJSVC/2686 /2000 | 103, PARK STREET GOVIND NAGAR(EAST),AMER ROAD,JAIPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./20 00 | 15.09.75 |
| 1587 | Praveen D, S/o C Dasanna | Karna/3203 | Hudco B1/O,Hudco Colony,Bhadrawathi | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 27.4.78 |
| 1588 | PRAVEEN GARHWAL | RAJSVC/2692 /2000 | V. GUANNA KA BASS,P.O. KATRATHAL,SIKAR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./20 00 | 13.11.73 |
| 1589 | Praveen Kuma Gahlot,S/o Sh. Ram Prakash Gahlot | HarSVC/1625 | H.No.1338 Urban Estate-II | BVSc&AH/CCS HAU/99 | 12.12.74 |
| 1590 | Pravin Bharti, S/o Sri Indradeo Singh | BiharSVC/958/ 2000 | M.-Dariapur,PO-Kachiyamna,Thana-Nagernausa, Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R AU/97 | 26/02/75 |
| 1591 | Pravin Kumar, S/o Sri Chandi Pd. Shahi | BiharSVC/168 1/2000 | VILL.+PO- Pratapahonr,Thana-Bhagwanpur,Dist.-Vaishali | B.V.Sc. & A.H./BAU/99 | 16/06/62 |
| 1592 | PRAVINCHANDRA JAYANTILAL SHUKLA | VCI/2211/00 | 292B,VASHANJI MANOR'SKHADKI VADIGAM,DARIAPUR,AH MEDABAD GUJARAT- | BVSc&AH/SPU/ 72 | 28/4/40 |
| 1593 | PREETHI DAVIDSON | KERALASVC/ 2496/2000 | SHARON,31,CHEMPAKA NAGAR, BAKERY JN., TRIVADRUM-695001 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 15.10.75 |
| 1594 | Prem Chand Pandey, S/o Late Ram Kr. Pandey | BiharSVC/101 2/2000 | Vill.-Chewari,PO-Chewari,Thana-Ramgadh,Dist.-Kaimur (Bhobhna) | B.V.Sc.&A.H./R U/67 | 01/01/44 |
| 1595 | Prem Chand Saw, S/o Sri Nandlal Saw | BiharSVC/967/ 2000 | Vill.-Adampur,PO-Samhari Gadh,Thana-Roh,Dist.- Nawada | B.V.Sc.&A.H./R AU/97 | 16/11/67 |

| SNUM | NAME | NUMBER | | QUALIF | DOB |
|------|--|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 1596 | Prem Chandra Mishra, S/o Late Jagdish Mishra | BiharSVC/204 2/2000 | VILL.+PO+Thadhi,Thana- Andhara Thadhi,Dist.- Madhubani | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 09/05/50 |
| 1597 | Prem Chandra Sah, S/o Sri Satya Narayan Prasad Sah | BiharSVC/156 9/2000 | V.-+PO+Kotalpokhar,Thana- Barhanwa,Dist.- Sahebganj,Pin.-816105 | B.V.Sc. & A.H./BAU/81 | 12/01/55 |
| 1598 | Prem Kr. Das, S/o Sri Ram Kr. Das | BiharSVC/174 3/2000 | P/18,Vijaypuri,PO- Lihanagar,Thana-Patrakar Nagar,Dist.-Patna,Pin.- 800020 | B.V.Sc. & A.H./JNKVV/75 | 02/08/52 |
| 1599 | Prem Kumar, S/o Late Yogendra Prasad | BiharSVC/125 5/2000 | VILL.-Maripur,Thana-Kasi Mohammadpur,PO+Dist.- Muzafferpur,Pin-842001 | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 24/11/49 |
| 1600 | Prem Kumar, S/o Sri Jai Kishore Purbey | BiharSVC/207 8/2001 | VILL.- Ismavelganj,PO+Thana- Laheriyasaray,Dist.- Darbhanga | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 11/06/75 |
| 1601 | Prem Kumar, S/o Sri Ramudgar Kumar | BiharSVC/162 0/2000 | VILL.-Sonbarsha,PO+Thana- Vihpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./BAU/86 | 28/10/60 |
| 1602 | PREM LATA | DVC/0564/200 0 | C-43,SOUTH EXTENSION, PART-11, NEW DELHI-49 | BVSc&AH/CCS, HAU/98 | 31/01/76 |
| 1603 | PREM NATH SHUKLA S/O SHRI SAUMITRAPRASAD | MPSVC/1000 00 | P.O. BADI KHERA, DISTT. REWARI, H.P. - 12240 | BVSc&AH/JNKV V/86-87 | 01.06.61 |
| 1604 | PREMSINGH MEENA | RAJSVC/2000 2000 | V. CHIRANJIKA, P.NISHERA ,TEH. LAJMANDARH,ALWAR | BVSc&AH/RAJ. AGRI. UNIV./2000 | 01.06.75 |
| 1605 | PRITAM KUMAR SINHA | WBSVC/2019/ 2000 | MOKSRODA DHAM 108, SHIVA TEMPLE, EAST P.O.KALNA,DT. BURDWAN | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1606 | PRITAM SINGH S/O SH: NASIB SINGH | PB.SVC- 2215/2000 | H.M.-100, PWD.C., RANJIT AVENUE, BLOCK- C, AMRITSAR | BVSc&AH/PAU/ 1982 | 05.02.55 |
| 1607 | Prithvi Ram Mardi, S/o Sri Dibru Mardi | BiharSVC/017/ 2000 | VILL.-Kotalpokhar/PO- Kotalpokhar,Thana- Barhanwa,Dist.- Sahebganj,Pin.-816102 | B.V.Sc.&A.H./R AU/93 | 25/08/67 |

| SR. NO. | NAME | R. NO. | ADDRESS | QUALIF. | REMARKS |
|---------|---|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 1608 | PRITHWISH GUHA S/O SH.ABANI KR. GUHA | TRIPURA/31/2 000 | HOSPITAL EXTN.ROAD,TOWN BARDWALI, AGT.TRIPIURA WEST | BVSc&AH/RAU/ 78 | 01/12/52 |
| 1609 | PRODIP KUMAR SAHA | WBSVC/2818/ 2000 | VILL.KAYA, P.O. MAHADEVBATI, P.S. KANDI, DT. MURSHIDABAD | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1610 | PUNEET KUMAR S/O SRI K.L. BHATT | UPVC/3293 | C/O MR. PREM LAL VAIDYA, PO. DEV PRAYAG DIST.-TEHRI GARHWAL (U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 23.02.77 |
| 1611 | PURI NAGNATH SUDAM | MSVC/6336/20 00 | AT POST DHAMNI, TAL. AMBEGAON, DIST. PUNE- 410508 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 16-02-76 |
| 1612 | PURNACHANDRA RAO S. S/O S. PAPA RAO | APSVC/03580/ 2000 | D.NO.3-71, VETERINARY DISPENSARY, JUVVALAPALEM, W.G. DT., 534236 | BVSc&AH/APA U/88 | 20.08.65 |
| 1613 | PURUSHOTTAM KUMAR GUPTA | RAJSVC/2667/ 2000 | S/O SH. PRAHLAD LAL BAJAJ, BAJAJ BAZAR, NEAR HANUMAN TEMPLE, KARAULI | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 05.09.72 |
| 1614 | PUSHKAR SINGH HYANKI S/O SRI MOHAN SINGH HYANKI | UPVC/3296 | MALL BAZAR DIMARCHULA PITHORAGARH, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/98 | 21.09.73 |
| 1615 | PUSHPENDRA SINGH S/O SHRI AKSHYAWAR SINGH | MPSVC/1912/ 00 | VETY. HOSPITAL MIDHOLI, TEH. SINGROLI DIST. SIDHI-486886 | BVSc&AH/JNKV V/85-86 | 25.07.64 |
| 1616 | Puspa Kumari, S/o Sri Banarasi Bhagat | BiharSVC/128 7/2000 | VILL.+PO+Thana-Markacho, Dist.-Koderma | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 23/01/68 |
| 1617 | Puspa Raj Joshi | Megh/174/01 | Barapather, Shillong | BVSc&AH/JNKV V/91 | 15.3.66 |
| 1618 | R.KUMAR | POND/121/20 00 | 21,MARIAMMN KOIL STREET,PONDICHERRY- 605005 | BVSc/TV&ASU/ 93 | 10/04/70 |
| 1619 | Rabindra Bhagat, S/o Late Puneet Bhagat | BiharSVC/192 7/2000 | Vill.-Datiyana,PO+Thana- Bikram,Dist.-Patna,Pin- 800115 | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 04/01/47 |

| SERIAL NUMBER | NAME | REGISTRATION NUMBER | ADDRESS | QUALIFICATION | DATE OF BIRTH |
|---------------|---|------------------------|---|-------------------------|---------------|
| 1620 | Rabindra Kr. Singh, S/o Sri Raghunath Singh | BiharSVC/167 1/2000 | VIII.+PO-Behrauli,Thana-Mashrak,Dist.-Chapra (Saran) | B.V.Sc. & A.H./RAU/84 | 21/03/61 |
| 1621 | Rabindra Kumar, S/o Sri Chandeshwar Prasad | BiharSVC/204 6/2000 | VIII.-Bhaisasur,PO+Thana-Biharsarif,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 01/03/77 |
| 1622 | Rabindra Kumar, S/o Sri Ram Lakan Singh | BiharSVC/113 2/2000 | VIII.-Strichandpur,PO+Thana-Asthanwa,Dist.-Nalanda, Pin.-803107 | B.V.Sc.&A.H./O A&TU/78 | 02/12/53 |
| 1623 | Rabindra Nath Chaudhary, S/o Sri Megha Nath Chaudhary | BiharSVC/171 7/2000 | VIII.+PO-Basaidh,Thana-Benipatti,Dist.-Madhubani | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 03/12/61 |
| 1624 | Rabindra Nath Jha, S/o Late Girija Nath Jha | BiharSVC/153 8/2000 | Vill.-Aserna,PO-Vishnupur,Thana-Amaur,Dist.-Purnea,Pin.-854330 | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 24/02/61 |
| 1625 | Rabindra Nath Tagore, S/o Sri Ram Raghuveer Pd. | BiharSVC/110 8/2000 | V.+PO-Bari Chariyari,Thana-Thorthori,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R AU/83 | 01/11/56 |
| 1626 | RABINDRANATH CHAUDHURI S/O LT. A.N.CHAUDHURY | TRIPURA/33/2 000 | GOVT.QTR.NO.IV/24,MAL ANCHANAGAR,KUNJABA N.P.O.AGT.-799006 | BVSc&AH/BGK VV/78 | 08/05/53 |
| 1627 | Radhay Shyam Tripathi, S/o Late Ramkaran Tripathi | BiharSVC/105 6/2000 | V.-Bairiya,PO-D.K.Shimerpur,Thana-Shimerpur,Dist.-Betiah (W.Champaran) | B.V.Sc.&A.H./R U/67 | 02/07/43 |
| 1628 | Radhemohan Srivastava,S/o Sri Vishwanath Sahay | BiharSVC/199 3/2000 | VILL+PO-Chandganj,Dist.-Jaunpur | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 01/05/43 |
| 1629 | RADHESHYAM DAS S/O SH.GURUPADA DAS | TRIPURA/89/2 000 | VILL.BOXANAGAR,PO.BO XAMANAGAR,PS.KALAMC 92 HOURA,SONAMURA,TRIPURA WEST | BVSc&AH/AAU/ 17/11/67 | |
| 1630 | Radhey Shyam Kunwar, S/o Late Lekhan Lal Kumar | BiharSVC/153 7/2000 | Vill.-Bhawnathpur,PO-Mekandpur,Thana-Akbarnagar,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./BAU/86 | 03/01/62 |
| 1631 | Radhey Shyam S/o Sh. Chander Prakash | HarSVC/1671 | Shop No. 68, Phase-1, Shoping Centre, M.Garh | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 25.6.76 |

| SL. NO. | NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIF. | B.D.B. |
|---------|--|---------------------|---|-------------------------------|----------|
| 1632 | RADHEY SHYAM SHARMA, S/O. LATE DR. H.C.JOSHI | RAJSVC/2001/ 2001 | 27, GAYATRINAGAR 'B', MAHARANI FARM, DURGAPURA JAIPUR | BVSc&AH/AU/6 0 | 10-06-38 |
| 1633 | RADHIKA P. S/O P. NARASIMHA RAO | APSVC/03871/ 2001 | D.NO.8-5, GEETAMANDIR STREET, RYTUPETA, NANDIGAMA, KRISHAN DT.-821185 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 10.08.77 |
| 1634 | Raghu Raj Singh S/o Sh. Budh Ram | HarSVC/1638 | Plot No. 32, Nai Anaj Mandi, Ballabgarh, Faridabad | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 8.3.77 |
| 1635 | Raghbir Singh,S/o Sh Ram Kishan | HarSVC/1638 | C-11 Prem Nagar, Sonepat | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 21.4.76 |
| 1636 | Raghunandan Prasad, S/o Sri Ramchandra Mahto | BiharSVC/134 9/2000 | Moh.-Kutuvachak,PO- Ramjanpur,Thana-Barbigha,Dist.-Shekhpura | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 02/01/50 |
| 1637 | Raghunandan Singh, S/o Sri Basudeo Singh | BiharSVC/163 7/2000 | V.-Bhawanipur,PO- Didhari,Thana-Suryagadha,Dist.- Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 08/02/59 |
| 1638 | Raghunath Seth, S/o Late Sukharam Seth | BiharSVC/126 9/2000 | Vill.+PO-Sarjamdin,Thana-Tamar,Dist.-Ranchi,Pin- 835225 | B.V.Sc.&A.H./B AU/93 | 28/01/68 |
| 1639 | RAGHURAMA KUMAR R. S/O R. APPALA NAIDU | APSVC/0054/ 2000 | THANDRANGI(V), KOTTAM(P), JAMI(M), VIZIANAGARAM DIST. | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 12.06.75 |
| 1640 | RAGHUVENDRA SINGH S/O SRI RAM DAS | UPVC/3003 | MOMAN AUTO PARTS POKHRAYAN, KANPUR,DEHAT-209111 | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 30.05.75 |
| 1641 | RAGHUVIR SINGH CHARAN | RAJSVC/088/ 2000 | 3 A,HIGH COURT COLONY,RATANADA, JODHPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 23.06.74 |
| 1642 | Raghvendra Prasad Sharma, S/o Sri Shyam Sharan Singh | BiharSVC/200 7/2000 | M-Choudhary Tola,PO-Mahendru,Thana-Sultanganj,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 06/02/52 |
| 1643 | Ragni Kumari, D/o Sri Awadhesh Kumar | BiharSVC/120 7/2000 | VILL.-Birbal Bigha,PO-Saure,Thana-Nalanda,Dist.-Nalanda,Pin.- 803118 | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 13/07/68 |

| SIMILAR NAME | ADDRESS | NAME | ADDRESS | QUALIFICATION | DATE OF BIRTH |
|---|------------------------|--|---------|---------------------------|-----------------------|
| 1644 RAHUL DHAR PURKAYASTHA S/O RAMENDRA DHAR | TRIPURA/81/2 000 | C/O DHIRENDRA CH.NATH,VILL&PO- KADAMTALA,TRIPURA NORTH,PIN-799261 | | BVSc&AH/JNKV | 25/12/68 V/91-92 |
| 1645 RAJ BAHADUR SINGH S/O SRI RAMJAS YADAV | UPVC/3181 | VILL-JAHANGIR PUR, PO- HIRANGAON, DIST. FIROZABAD, UTTAR PRADESH | | BVSc&AH/CSA | 01.01.58 UA&T/2000 |
| 1646 Raj Gopal Gupta, S/o Sri Anandi Prasad Sahu | BiharSVC/181 7/2000 | Moh.-Argara-Road,Lallu Pokhar,PO+Thana+Dist.- Mungher,Pin.-811201 | | B.V.Sc. & A.H./BAU/86 | 15/02/58 |
| 1647 Raj Kishore Pandey, S/o Late Govardhan Pandey | BiharSVC/170 8/2000 | VIII.-Kuli,PO-Kakila,Thana- Jagdishpur,Dist.-Bhojpur (Arrah) | | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 01/06/44 |
| 1648 Raj Kishore Singh, S/o Late Vikramditya Singh | BiharSVC/141 9/2000 | VIII.-Mahiok Tola, PO- Keilgadh,Thana- Barharia,Dist.-Siwan | | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 29/05/43 |
| 1649 RAJ KUMAR | DVC/0503/200 0 | SH.MOHINDER SINGH,H.NO:-a- 1/12,KIRTI NAGAR, GURGAON-122001 | | BVSc&AH/HAU/- 92 | 22/09/69 |
| 1650 Raj Kumar Nayak, S/o Sri Nand Kumar Nayak | BiharSVC/190 8/2000 | V.-Aoriva,PO- Hativa,Thana- Jagarnathpur,Dist.- Ranchi,Pin-834003 | | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 20/11/73 |
| 1651 Raj Kumar, S/o Sri Radhey Shyam Sah | BiharSVC/160 4/2000 | V.-Badlaganj,PO- Isthipur,Thana- Peerpainti,Dist.- Bhagalpur,Pin-813206 | | B.V.Sc. & A.H./BAU/95 | 01/03/67 |
| 1652 Raj Kumar, S/o Sri Yadu Lal | BiharSVC/827/ 2000 | Moh.:Cola Road, P.O.+Thana:- Danapur, Dist. - Patna, Pin. - 801503 | | B.V.Sc. & A.H./R AU/79 | 05/03/54 |
| 1653 RAJ MOHAN S/O SH. RATTAN MOHAN | PB.SVC- 2245/2001 | H.NO.722/4, OPP. GURU NANAK PARK, GURDASPUR. | | BVSc&AH/PAU/- 2000 | 10.10.78 |
| 1654 Raj Narayan Singh, S/o Late Basudeo Singh | BiharSVC/202 9/2000 | VIII.-Falaswachak Dighwara,Dist.-Chapra | | B.V.Sc. & A.H./PU/61 | 15/08/37 |
| 1655 Raj Narayan Singh, S/o Late Raj Kishore Singh | BiharSVC/198 8/2000 | Moh.-Professor Colony,PO- T.Vilasi,Thana+Dist.- Deoghar | | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 01/07/42 |

| SR. NO. | NAME | REMARKS | ADDRESS | DATE |
|---------|---|------------------------|--|--|
| 1656 | RAJ SHEKHAR | DVC/0547/200 0 | MANOJ KUMAR, NEHRU VIHAR, A-34, CIVIL LINES, TIMARPUR-54 | BVSc&AH/RAU/ 2.4.76 98 |
| 1657 | RAJ SUKHBIR SINGH S/O SH. SURJIT SINGH | PB.SVC- 2221/2001 | 52, HUKUM SINGH ROAD, AMRITSAR | BVSc&AH/PAU/ 06.02.76 2000 |
| 1658 | RAJA BABU GUPTA S/O SRI OMPRAKASH GUPTA | UPVC/3260 | GUPTA CEMENT AGENCY SANKARA BUS STAND CHHARRA, ALIGARH (U.P.) | BVSc&AH/GBP 08.10.75 UA&T/2000 |
| 1659 | Raja Ram Choudhary, S/o Late Harangi Choudhary | BiharSVC/980/ 2000 | Vill.-Mdhipur, PO- Karaitta, Thana- Baktyarpur, Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./R 10/11/50 AU/75 |
| 1660 | RAJA SWAMINATHAN T. | VCI/2280/01 | 69, HOSPITAL ROAD, JAYANKONDAM(PO) TAMIL NADU-621804 | BVSc/TNVASU/ 25/06/72 95 |
| 1661 | Raja Velu | A&NSVC/74/2 000 | C/oSmti.Gandhimathi Dollygunj(Govt.Poultry Farm),Garachamma,Port Blair,Andm | BVSc/TNV&AS 18.3.75 U/2000 |
| 1662 | Rajaganapathy.N' | Pondi/86/2000 | 27,Victoria Nagar,1St Floor,Vittianur, Main Road, Pondicherry-5 | BVSc/TNAU/89 28.11.64 |
| 1663 | RAJAN CHAUDHARY S/O SH. R.S. CHOUDHARY | RAJSVC/2726 /2000 | NEAR SABU SCHOOL,PILANI, JHUNJHUNU | BVSc&AH/CCS 26.02.72 HAU/94 |
| 1664 | RAJAN DESWAL S/O SH. RAMPHAL DESWAL | RAJSVC/2710 /2000 | DR.RAJAN DESWAL,C/O SH.KHETA RAM,V.KALYANSARPURA NA,TEH.SHRI | BVSc&AH/CCS 14.10.74 HAU/96 |
| 1665 | Rajan Prasad Verma, S/o Sri Yugeswar Nath Verma | BiharSVC/206 0/2000 | Vill.-Masa Pandibbag,PO+Thana- Arrah,Dist.-Bhojpur | B.V.Sc. & A.H./RU/70 10/08/48 |
| 1666 | RAJASEKHAR P. S/O P. MADHAVA RAO | APSVC/03538 /2000 | 20-118-1, GANDHINAGAR, MACHILIPATNAM, KRISHNA, DT. -521002. | BVSc&AH/APA 09.07.68 U/92 |
| 1667 | RAJASHEKAR S H S/O SIDDAYYA R HIREMATH | KARNASVC/3 145 | GURUKRUPA TRADING COMPANY AFZALPUR TQ., GULBARGA DIST. | BVSc&AH/UAS 06.01.77 DHARWAD /2000 |

| SERIAL NUMBER | FATHER'S NAME | SEX | AGE | EDUCATION | DATE OF BIRTH |
|---------------|---|------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| 1668 | Rajbali Sharma, S/o Late Kailash Singh | BiharSVC/163 0/2000 | Vill.-Babuganj,Sheorandir Road,PO-Koraza,Than+Dist-Hazaribag | B.V.Sc. & A.H./BU/58 | 12/04/35 |
| 1669 | RAJBIR SINGH SANDHU S/O SH. GURMAHANT SINGH | PB.SVC- 2196/2000 | 8/26, PAU, LUDHIANA | BVS&AH/PAU/ 2000 | 08.05.75 |
| 1670 | Rajeev Kumar, S/o Late Ramjee Prasad | BiharSVC/116 7/2000 | Vill.-Chail Tal,PO-Gulzarbagh,Thana-Alamganj,Patna-800007 | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 16/11/71 |
| 1671 | RAJEEV PATIL S/O LINGANAGOWDA V PATIL | KARNASVC/3 159 | HULKUND POST RAMDURGA TQ. BELGUM DIST. | BVS&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 04.05.77 |
| 1672 | Rajeev Ranjan Choudhary, S/o Sri Ramanand Sharma | BiharSVC/152 3/2000 | Vill.+PO-Kodanda,Thana-Shahkund,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 22/07/63 |
| 1673 | Rajeev Ranjan Kumar, S/o Sri Lakhan Singh | BiharSVC/157 6/2000 | Vill.+PO-Pamera,Thana-Dhanua,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 02/10/68 |
| 1674 | Rajeev Ranjan Kumar, S/o Sri Nageshwar Prasad Singh | BiharSVC/204 7/2000 | Vill.+PO-Orikha,Thana-Bhawara Kothi,Dist.-Purnea | B.V.Sc. & A.H./RAU/2800 | 15/01/75 |
| 1675 | Rajeev Ranjan, S/o Late Shyam Sunder Singh | BiharSVC/171 2/2000 | Vill.+PO+Thana-Hatia,Dist-Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 15/01/70 |
| 1676 | RAJEEV VYAS | RAJSVC/2639 /2000 | KALIKA POCKET BOOKS,INDRA NAGAR,BHARATPUR | BVS&AH/RAJ AGRI.UNIV./20 00 | 13.07.75 |
| 1677 | RAJENDARA VADER S/O AJJAPPA VADER | KARNASVC/3 078 | NEAR BY COTTAGE-HOSPITAL,B.V.Sc& GOKAK, BELAGAUM DISTT. | BVS&AH/UAS DARWAR/89 | 04.11.75 |
| 1678 | RAJENDRA KUMAR H.S. S/O H.S. BANSILAL | APSVC/03661 /2000 | H.NO.4-1-75, ABIDS, HANUMAN TEKDI, HYDERABAD-500001 | BVS&AH/APA L/84 | 05.11.60 |
| 1679 | Rajendra Kumar, S/o Late Medni Kumar | BiharSVC/21 7/2000 | Vill.+PO-Farda,Thana-Mufall,Dist.-Munger | B.V.Sc.&A.H./R U/87 | 30/11/42 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD. | QUALIF | DATE |
|------|--|------------------------|--|---------------------------|----------|
| 1680 | Rajendra Kumar, S/o Sri Narayan Pd. Mahto | BiharSVC/150 0/2000 | Vill.-Takmantsipur,PO- Didhari,Thana- Suryagadha,Dist.- Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./RAU/84 | 30/11/59 |
| 1681 | Rajendra Paswan, S/o Sri Nanak Paswan | BiharSVC/898/ 2000 | Vill.-Sonaman,PO- Chandhari, Thana- Islampur,Dist.-Nalanda,Pin- 801303 | B.V.Sc.&A.H./R AU/74 | 02/01/44 |
| 1682 | RAJENDRA PRASAD D. S/O NAGESWARA RAO | APSVC/03643/ 2000 | GUDIMELLANKA(P), MALIKIPURAM (M), EAST GODAVARI DT.-533253 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 02.05.74 |
| 1683 | Rajendra Prasad Sinha, S/o Late Basudeo Singh | BiharSVC/125 8/2000 | Vill.-Nura,PO- Honidhi,Thana- Masaudhi,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 02/06/49 |
| 1684 | Rajendra Prasad Yadav, S/o Late Basudeo Yadav | BiharSVC/127 4/2000 | Vill.-Hegsar,PO- Hegsar,Thana- Khutanna,Dist.-Madhubani | B.V.Sc.&A.H./R AU/79 | 0103/54 |
| 1685 | Rajendra Prasad, S/o Sri Ajnas Prasad | BiharSVC/160 2/2000 | V.-Peepra (Chaurithom),PO- Keshavnagar,Thana- Chauntham,Dist.-Khageria | B.V.Sc. & A.H./BAU/81 | 16/06/58 |
| 1686 | Rajendra Prasad, S/o Sri Ram Vilas Yadav | BiharSVC/902/ 2000 | Moh.-Puroni Dharamsala Road,PO+Thana- Navinagar,Dist- Aurangabad,Pin-824101 | B.V.Sc.&A.H./R AU/86 | 03/01/59 |
| 1687 | Rajendra Singh, S/o Late Ram Lashan Singh | BiharSVC/202 1/2000 | Vill.+PO-Barahiya,Thana- Barahiya,Dist.-Lakhisaray | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 01/09/44 |
| 1688 | Rajendra Yadav, S/o Sri Bhuvneshwari Yadav | BiharSVC/200 5/2000 | Vill.-Arsandey,PO+Thana- Kanki,Dist.-Ranchi,Pin- 834006 | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 18/07/49 |
| 1689 | RAJESH AGARWAL S/O SHRI GOPAL DAS AGARWAL | MPSVC/1923/ 00 | HUJRAT POOL, LASHKAR,DIST. GWALIOR-474001 | BVSc&AH/IGKV V/99-2000 | 07.08.77 |
| 1690 | Rajesh Chauhan, S/o Late S. Singh Choauhan | BiharSVC/159 5/2000 | Vill.+PO+Thana+Dist.- Ganganagar,State- Rajasthan | B.V.Sc. & A.H./BAU/89 | 10/07/66 |
| 1691 | RAJESH G. S/O G. SATYANARAYANA | APSVC/03608/ 2000 | ODACHEEPURUPALLI(P), PARAVADA(M), VISAKHAPATNAM DT.- 531021 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 19.07.76 |

| STUDY NAME | REGN | AGE | QUALIF |
|--|---------------------|--|------------------------------------|
| 1692 RAJESH KASRIJA S/O SH. RAVI KANT KASRIJA | PB.SVC-2190/2000 | HOUSE NO.1798, STREET NO.14, ABOHAR-152116. | BVSc&AH/PAU/ 18.03.77 2000 |
| 1693 Rajesh Kr. Raju, S/o Late Shiyadhar Singh | BiharSVC/933/2000 | Vill.-Birsa Nagar, PO-Hatia, Thana-Jagnnathpur, Dist.-Ranchi, Pin-834003 | B.V.Sc.&A.H./B. 20/06/69 AU/95 |
| 1694 Rajesh Kumar Mahtha, S/o Sri Ram Prakash Mahtha | BiharSVC/207 1/2001 | V.-Rahamganj Naka No.6, PO-Lalbag, Thana-Laheriyasaray, Dist.-Darbhanga | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 25/01/75 |
| 1695 Rajesh Kumar S/o Sh. Ram Sharan | HarSVC/1672 | 7/5 Vidut Nagar, Hisar | BVSc&AH/CCS 1.1.76 HAU/2000 |
| 1696 RAJESH KUMAR UPADHYAY S/O SRI VINAY KUMAR | UPVC/3287 | VILL. DHARIPUR, PO-PREM KA PURA, VIA BALWERGANJ, DIST. JAUNPUR (U.P.) | BVSc&AH/GBP 09.09.69 UA&T/94 |
| 1697 Rajesh Kumar, S/o Late Bangali Pd. | BiharSVC/158 6/2000 | Vill.-Khanpar, PO-Kawadpur, Thana-Suryagadha, Dist.-Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./BAU/89 05/01/62 |
| 1698 Rajesh Kumar, S/o Sri Awadheshwar Pd. Sinha | BiharSVC/919/2000 | Moh.- Sidgoda, L.V.39, Krishna Road, PO-Agrico, Thana-Sidgoda, Jamshedpur- | B.V.Sc. & A.H./R 10/03/72 AU/96 |
| 1699 Rajesh Kumar, S/o Sri Bharat Prasad | BiharSVC/152 6/2000 | Vill.+Thana-Peerbahor, PO-Mahendru, Dist.-Patna, Pin.-800006 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 01/07/71 |
| 1700 Rajesh Kumar, S/o Sri Braj Kishore Singh | BiharSVC/173 5/2000 | Vill.+PO-Samsa, Thana-Mansoorchak, Dist.- Begusarai, Pin.-851128 | B.V.Sc. & A.H./RAU/94 05/11/69 |
| 1701 Rajesh Kumar, S/o Sri Mohan Pd. Verma | BiharSVC/144 2/2000 | Vill.- Salempur, PO+Thana+Dist.- Chapra, Pin.-841301 | B.V.Sc. & A.H./R 01/01/75 AU/99 |
| 1702 Rajesh Kumar, S/o Sri Ramsewak Rajak | BiharSVC/100 7/2000 | M.-Khajanchi Lane Mahuatoli, PO+Thana-Danapur Cant, Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./R 01/01/71 AU/96 |
| 1703 Rajesh Kumar, S/o Sri Visheshwar Prasad | BiharSVC/929/2000 | M.-MF.3,MIG.Blk-6,F.No.6, PO-Bahadurpur Hou. Cly, Thana-Agamkuan, Patna-800020 | B.V.Sc.&A.H./R 12/10/69 AU/93 |

| SNO. | NAME | REGN | ADD. | UNIF. |
|------|--|------------------------|---|---|
| 1704 | RAJESH NEHRA | RAJSVC/2685/ 2000 | S/O SH. S.R. NEHRA, V.P.O. KULOTHKHWR, JHunjhu NU | BVSc&AH/RAJ. 02.06.76 AGRI.UNIV./200 |
| 1705 | RAJESH PAUL S/O MONORANJAN PAUL | TRIPURA/101/ 2000 | BANAMALIPUR, EAST SIDE OF UTLAI DEGHI, PO: AGARTALA, TRI PURA WEST | BVSc&AH/WBU 29/03/77 AFS/2000 |
| 1706 | Rajesh Prasad, S/o Sri Murlidhar Prasad | BiharSVC/116 4/2000 | Moh.-Gumti No.2, PO+Thana- Munger, Dist.- Munger, Pin-811201 | B.V.Sc.&A.H./B 17/07/61 AU/86 |
| 1707 | Rajesh S/o Sh. Sham Lal | HarSVC/1670 | 238/15, Old Sabzi Mandi, Hisar | BVSc&AH/CCS 31.1.75 HAU/2000 |
| 1708 | RAJESH SANGWAN, S/O. DR. R.S.SANGWAN | RAJSVC/2761/ 2001 | 1/C, GOVT. VET. HOSPITAL UTTARADABAS HANUMANGARH | BVSc&AH/CCS 10-12-73 HAU/96 |
| 1709 | Rajesh, S/o Sri S.N.P.Yadav | BiharSVC/876/ 2000 | Moh.-Nishihora, PO- Kendra, Thana-Haveli Karagpur, Dist-Munger | B.V.Sc.&A.H./R 25/09/66 AU/92 |
| 1710 | Rajeshwar Prasad Ray, S/o Late Ramkaran Ray | BiharSVC/188 1/2000 | Vill.+PO-Dedhpura, Thana- Mahnar, Dist.-Vaishali, Pin- 844505 | B.V.Sc. & A.H.MU/65 24/07/44 |
| 1711 | Rajeshwar Singh, S/o Late Yamuna Singh | BiharSVC/119 0/2000 | Vill.-Kadlipur, PO- Narayanpur, Thana- Ekangersarai, Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./M 02/04/47 U/70 |
| 1712 | RAJIB LOCHAN CHOWDHURY | WBSVC/2778/ 2000 | VILL & P.O. KAICHOR, DIST. BURDWAN | BVSc&AH/WBU AFS/2000 |
| 1713 | RAJIV KUMAR S/O DR. V.D. GOEL | UPVC/3286 | C/O LALA B.D. BAJAJ(CLOTH MERCHANT) VEDWARA, SIKANDRABAD, | BVSc&AH/GBP 14.08.77 UA&T/2000 |
| 1714 | RAJIV NANDA S/O SH. OM PARKASH NANDA | PB.SVC- 2241/2001 | 374/100, BLOCK-J, BRS NAGAR, LUDHIANA | BVSc&AH/PAU/ 21.08.77 2000 |
| 1715 | RAJIV PANDEY S/O SRI DAYA SHANKAR PANDEY | UPVC/3305 | 3/1, VIVEK KHAND-3, GOMTI NAGAR, LUCKNOW. | BVSc&AH/APA 27.10.72 U/2000 |

| SERIAL NUMBER | | | | | |
|---------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|----------|
| 1716 | RAJIV RAI | ARUNA/213/0 1 | KASHINATH RAI TANKUHI RD, WARD NO.7, SEORAH ROAD, DIST - KUSHINAGAR, U.P. | BVSc&AH/AAU/ 31.12.70 81 | |
| 1717 | Rajiv Ranjan, S/o Dr. Braj Mandan Pd. | BiharSVC/173 9/2000 | Vill.-Murarpur,PO- Ketari,Thana-Kuma,Dist.- Shekhpura | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 03/01/70 |
| 1718 | Rajivkumar.R | PONDI/96/200 0 | Plot No 5, I Floor, II cross st, Kurinji Ngr, Lawapet, Pondicherry 605008 | BVSc&AH/HAU/ 19.08.57 81 | |
| 1719 | Rajkishore Prasad, S/o Late Visheshwar Prasad | BiharSVC/155 7/2000 | Vill.-Rasalpur,PO+Thana- Bind,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./BAU/87 | 08/05/62 |
| 1720 | Rajkumar Ramchandra Gongle, S/o Late Ramchandra Subhajee | BiharSVC/178 2/2000 | Vill.+PO+Thana- Govalkera,Dist.- W.Singhbhum,Pin.-833163 | B.V.Sc. & A.H./PKVA/91 | 12/05/68 |
| 1721 | Rajnandan Prasad Sinha, S/o Late Shyamacharan Singh | BiharSVC/203 6/2000 | M-Kankarbagh,C.A. 17 P.C. ColonyPO- Lohiyanager,Thana- Kankarbagh,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./BU/57 | 20/12/37 |
| 1722 | Rajnandan Singh, S/o Late Mahaveer Singh | BiharSVC/940/ 2000 | M.-Devi Mandap Rd.,PO- Hegal,Thana- Sukhdwnagar,Ranchi- 834001 | B.V.Sc.&A.H./B AU/95 | 10/09/66 |
| 1723 | RAJNARAYAN PAL | WBSVC/2780/ 2000 | VILL & P.O. RAKSHAS KHALI, P.S. PATHAR PRATIMA DT.24 PRGS(S) | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1724 | Rajneesh Kumar, S/o Sri Chitrangan | BiharSVC/129 2/2000 | Moh.-Abdullahchak,PO- Bairiya,Thana- Gaurichak,Dist.-Patna,Pin.- 800007 | B.V.Sc. & A.H./RAU/98 | 18/12/75 |
| 1725 | RAJNESHKUMAR JAMEENDAR S/O SHRI B.R. JAMEENDAR | MPSVC/1906/ 00 | C/O K.N. JOSHI MADHAV CLAVE ROAD, UJJAIN - 456001 | BVSc&AH/JNKV. 14.11.51 V/75-76 | |
| 1726 | Rajni Kant Sinha, S/o Late Jagatanand Sahay | BiharSVC/154 8/2000 | Vill.+Thana-Aroh Nawada, PO+Dist.-Arrah | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 14/03/43 |
| 1727 | Rajni Ramen Srivastava, S/o Sri Ramjee Lal | BiharSVC/152 4/2000 | Vill.+Moh.-Sohanni Patti (Laxmi Bhavan),PO+Thana+Dist.- Buxar | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 | 21/06/65 |

| SLN# | NAME | RNUM | ADD. | QUALIF | DATE |
|-------------|--|------------------------|--|-------------------------------|-------------|
| 1728 | Rajshekhar, S/o Sri Chandra Shekhar Saha | BiharSVC/198 1/2000 | V-Madriuchak,PO-Mirjanhat,Thana-Mojahidpur,Dist-Bhagalpur,Pin-812005 | B.V.Sc. & A.H./RAU/98 | 02/04/76 |
| 1729 | RAJU BAGCHI | WBSVC/2810/ 2000 | 46/16, SHYAMA NANDA BAGCHI LANE, P.O. KHAGRA, DIST. MURSHIDABAD | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1730 | Raju Prasad, S/o Sri Duheshwar Singh | BiharSVC/206 3/2000 | Vill.-Karmahee,PO-Sansa,Thana-Daudnagar,Dist.-Aurangabad | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 31/12/76 |
| 1731 | RAJU ROY | WBSVC/2790/ 2000 | THANACHOWPATHI, TUFANGANJ WARD NO.7, P.O. TUFANGANJ, DT. COOCHBEHAR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1732 | Raju Sharma,S/o Sh Jai Narain Sharma | HarSVC/1641 | H.No.1439/21,Prem Ng, Behind Police Line, Rhotak | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 18.3.76 |
| 1733 | RAJWANT RATHI | DVC/0569/200 1 | H.NO.23, MANDIR MARG, DELHI CANTT., NEW DELHI | BVSc&AH/HAU/ 96 | 15/10/70 |
| 1734 | Rakesh Kr. Panjiyora, S/o Sri Brahmdeo Panjiyora | BiharSVC/149 0/2000 | Vill.+PO+Thana-Makva Asarganj,Dist.-Munger | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 24/08/65 |
| 1735 | Rakesh Kr. Singh, S/o Sri Shesh Nath Singh | BiharSVC/111 9/2000 | M.+PO-New Shivpuri Colony,Thana-Gantt,Dist.-Gorakhpur,Pin-273016 | B.V.Sc.&A.H./G BPU&AT/92 | 01/01/71 |
| 1736 | Rakesh Kr., S/o Sri Bindeshwari Jha | BiharSVC/164 8/2000 | Vill.+PO-Kumharson,Thana-Gerhpura,Dist.-Begusarai,Pin.-848204 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 21/06/73 |
| 1737 | Rakesh Kumar | Megh/157/01 | I.C.D.P. Campus, Upper Shillong | BVSc&AH/JNKV V/98 | 8.4.75 |
| 1738 | RAKESH KUMAR | RAJSVC/2695/ 2000 | V&P-BURKIA,VIA-PIPAR ROAD,JOOPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 01.07.73 |
| 1739 | Rakesh Kumar Kumud, S/o Sri Rajendra Pd. Singh | BiharSVC/896/ 2000 | Vill.-Shekhali, PO-Beshwak, Thana-Islampur, Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R AU/94 | 03/07/70 |

| STUDY PERIOD | REG. | NAME | ADDRESS | QUALIF. |
|--------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|
| 1740 | RAKESH KUMAR S/O SRI AYODHYA PRASAD SHUKLA | UPVC/3236 | 15/176, FATEHPUR (PAKARI), AMBEDKARNAGAR-224 122 | BVSc&AH/GBP 01.07.74 UA&T/2000 |
| 1741 | RAKESH KUMAR SINGH S/O SRI P.K. SINGH | UPVC/3219 | VILL.HAIBAT, PATTI,PO- ARAKALE,DIST.- ALLAHABAD,U.P. | BVSc&AH/GBP 17.11.61 UA&T/90 |
| 1742 | Rakesh Kumar, S/o Late Devendra Pd. Singh | BiharSVC/168 8/2000 | Vill.-Hardayal Nagar Banni,PO-Babu Bagicha,Thana-Cogri,Dist.- Khagria | B.V.Sc.&A.H./R 02/02/59 AU/93 |
| 1743 | Rakesh Kumar, S/o Prof. Shivnandan Prasad | BiharSVC/882/ 2000 | Moh.-Mata Khudi Lane,PO- Mahendru,Thana- Suttanganj,Patna-800006 | B.V.Sc.&A.H./R 17/02/71 AU/96 |
| 1744 | Rakesh Kumar, S/o Sri Aknilleshwar Pd. Shrivastav | BiharSVC/149 8/2000 | Moh.+Thana- Mithanpura,Gaushala Road,PO-Ramana,Dt.- Muzafferpur,Pin-842002 | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 11/03/59 |
| 1745 | RAKESH RANJAN S/O DR. N.K. PRASAD | UPVC/3288 | VIDYA VIHAR,PO- NALANDA, DISTT. NALANDA, BIHAR-803111 | BVSc&AH/GBP 09.03.75 UA&T/2000 |
| 1746 | RAKHI KHANNA | VCI/2246/00 | 2/52, OLD DOUBLE STORY, LAJPAT NAGAR- IV, NEW DELHI-110024 | BVSc&AH/GKV 01/05/74 /96-97 |
| 1747 | RAKHI KHANNA MISS | DVC/0551/200 | C/O MANMOHAN KHANNA,D-1/145,LAJPAT NAGAR,NEW DELHI-24 | BVSc&AH/GKV 01/05/74 /97 |
| 1748 | Ram Babu Singh, S/o Late Haricharan Singh | BiharSVC/181 7/2000 | Moh.-Khaypura,PO- B.V.C.,Thana- Shastrinagar,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/62 27/11/39 |
| 1749 | Ram Bali Kumar, S/o Late Rajendra Kumar | BiharSVC/154 2/2000 | Vill.-Sinuar Gopal,PO- Laheria Sarai,Thana- Bahadurpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 02/01/61 |
| 1750 | Ram Bihari Prasad Singh, S/o Late Shivnandan Prasad | BiharSVC/131 9/2000 | M.-New Bangali Tola,Ramnagar Asthan,PO- GPO,Thana-Jakkanpur,Dt.- Patna-800001 | B.V.Sc. & A.H./MU/67 02/11/47 |
| 1751 | Ram Chandra Prasad Singh, S/o Sri Chet Narayan Singh | BiharSVC/190 9/2000 | Moh- R.V.College,PO+Thana- Kanke,Dist.-Ranchi,Pin- 834006 | B.V.Sc. & A.H./MU/64 01/11/42 |

| SLNO | NAME | RNUM | ADDRESS | QUALIF | DATE |
|------|---|------------------------|---|--------------------------|----------|
| 1752 | Ram Dahan Sharma, S/o Late Jagdeo Singh | BiharSVC/133 5/2000 | Moh.- Shekhpura, PO+Thana- Makhdumpur, Dist.- Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 03/09/50 |
| 1753 | Ram Das Prasad Gupta, S/o Late Radha Prasad | BiharSVC/895/ 2000 | Vill.-Barkagaon, PO- Barkagaon, Thana-Tarari, Dist.-Arrah | B.V.Sc.&A.H./R U/69 | 14/06/47 |
| 1754 | Ram Das Srivastava, S/o Sri Bhola Nath Srivastava | BiharSVC/104 1/2000 | Vill.-Carta, PO+Thana- Chakiya, Dist.- Varanasi | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 27/08/46 |
| 1755 | RAM DHARI RAM S/O SRI RAM RAJ | UPVC/3307 | VILL-BHAGWATIPUR,PO- THEKMA, DISTT.- AZAMGARH | BVSc&AH/CSA UA&T/96 | 01.07.65 |
| 1756 | Ram Govind Singh, S/o Late Shyamdeo Singh | BiharSVC/124 5/2000 | V.+Moh-Sudhari, PO- Sudhari Via Vasantpur, Thana- Bhagwanpur Hat, Dt.-Sivan | B.V.Sc.&A.H./M U/68 | 10/07/44 |
| 1757 | Ram Ittar Sinha, S/o Late Jaypati Sinha | BiharSVC/126 2/2000 | Vill.+PO-Solama, Thana- Darnaut, Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R U/68 | 25/02/44 |
| 1758 | Ram Jinish Roy, S/o Sri Saryug Roy | BiharSVC/164 5/2000 | Vill.+PO-Maraye, Thana- Jandaha, Dist.-Vaishali | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 20/06/47 |
| 1759 | Ram Kishore Prasad Mehta, S/o Sri Karilash Mahto | BiharSVC/103 8/2000 | Vill.-Gari Vishanpur, PO+Thana-Piro Bazar, Dist.-Lakhisarai | B.V.Sc.&A.H./B AU/82 | 05/01/57 |
| 1760 | Ram Kishore Sharma, S/o Sri Prabhu Dayal Sharma | BiharSVC/150 8/2000 | Bavanbigha, PO+Thana- Madhupur, Dist.- Deoghar, Pin.-815353 | B.V.Sc. & A.H./RAU/80 | 18/01/57 |
| 1761 | Ram Kishore Sharma, S/o Sri Saryu Sharma | BiharSVC/167 7/2000 | Vill.-Ganaul, PO- Narayanpur, Thana- Vihpur, Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 20/01/51 |
| 1762 | Ram Krishan Mishra, S/o Late Rameshwar Mishra | BiharSVC/934/ 2000 | Vill.-Kacher, PO- Pingadadan, Thana- Sonvarsia, Dist.- Sitamarhi | B.V.Sc.&A.H./R AU/78 | 13/09/53 |
| 1763 | Ram Krishan Sharma, S/o Sri Ramlagan Sharma | BiharSVC/148 2/2000 | Vill.+PO-Majhianwa, Thana- Kurtha, Dist.-Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./RAU/95 | 05/12/68 |

| SL/NM NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOS |
|--|---------------------|--|-----------------------|----------|
| 1764 Ram Krishan Singh, S/o Sri Ram Khelawan Singh | BiharSVC/104 4/2000 | Vill.+PO-Pokhrama,Thana-Kajra,Dist.-Lakhisarai | B.V.Sc.&A.H./R AU/72 | 01/07/48 |
| 1765. Ram Krishan Sinha, S/o Sri Bhagirath Prasad | BiharSVC/161 5/2000 | Vill.-Saidanpur,PO+Thana-Hilsa,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 15/08/58 |
| 1766 Ram Krishna Pd. Sinha, S/o Late Gopi Singh | BiharSVC/116 9/2000 | Vill.-Chachu Bigh,PO-Katauna,Thana-Giriyak,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./M U/64 | 12/08/43 |
| 1767 Ram Krishna Thakur, S/o Late Janki Thakur | BiharSVC/132 6/2000 | Vill.+PO+Thana-Tilothe Bagar,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 15/02/48 |
| 1768 Ram Krishna, S/o Sri Bishwa Nath Mehta | BiharSVC/188 9/2000 | Vill.+PO+Thana-Baha Chaoki,Dist.- Munger,Pin-811202 | B.V.Sc. & A.H./RAU/89 | 01/06/62 |
| 1769 Ram Lakhan Sinha, S/o Late Ram Pavare Sinha | BiharSVC/191 0/2000 | Vill.-Telpa Bigaha,PO-Oap,Thana-Ekangersarai,Dist.- Nalanda,Pin-367832 | B.V.Sc. & A.H./BU/57 | 18/02/38 |
| 1770 Ram Lalit Mandal,S/o Late Meva Lai Mandal | BiharSVC/880/ 2000 | Vill-Karghora,PO-Bhahoramath,Thana-Hathauri,Dist.-Samistipur | B.V.Sc.&A.H./R U/70 | 24/02/47 |
| 1771 Ram Narayan Ram, S/o Sri Fakirchand Ram | BiharSVC/168 8/2000 | Vill.-Madhopur,PO-Banauli,Thana-Simri,Dist.- Darbhanga,Pin.-847106 | B.V.Sc. & A.H./RAU/81 | 03/12/54 |
| 1772 Ram Narayan Sah, S/o Late Domi Lal Sah | BiharSVC/182 9/2000 | Vill/Moh.-Sheetalpur,Chakmaigar,PO +Thana-Vidupur Bazar,Dist.-Vaishali | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 20/04/46 |
| 1773 Ram Narayan Singh, S/o Sri Ram Itra Singh | BiharSVC/202 7/2000 | V.-Adarshpuri Arsandey,PO+Thana-Kanke,Dist.-Ranchi | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 05/08/48 |
| 1774 Ram Naresh Jha, S/o Late Shesh Kr. Jha | BiharSVC/171 8/2000 | Vill.+PO-Hinoo,Thana-Doranda,Dist.-Ranchi,Pin.- 834002 | B.V.Sc. & A.H./BAU/92 | 30/10/64 |
| 1775 Ram Narash Mishra, S/o Sri Siva Sharan Mishra | BiharSVC/100 3/2000 | Moh.-Ramna,PO+Thana-Muzaffarpur,Dist.- Muzaffarpur | B.V.Sc.&A.H./R AU/77 | 12/09/54 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-------------|---|------------------------|--|--------------------------|------------|
| 1776 | Ram Naresh Pd. Choudhary, S/o Late Dhrub Narayan | BiharSVC/174 4/2000 | Moh.- Jamusichak,PO+Thana- Barh,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/73 | 05/09/47 |
| 1777 | Ram Naresh Pd. Singh, S/o Late Harisokandra Pd. Singh | BiharSVC/159 0/2000 | Vill.+PO-Dhanour,Thana- Katra,Dist.-Muzafferpur | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 06/07/43 |
| 1778 | Ram Naresh Singh, S/o Late Babu Kameshwar Singh | BiharSVC/205 6/2000 | Vill.-Benipur,PO+Thana- Kurtha,Dist.-Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 02/12/35 |
| 1779 | Ram Niranjan Pd. Singh, S/o Late Sitaram Singh | BiharSVC/176 9/2000 | M.-Daudpur Kothi,PO- MIT,Thana- Brahmpura,Dist.- Muzafferpur,Pin-842003 | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 08/01/43 |
| 1780 | Ram Prakash Ram, S/o Sri Jay Narayan Prasad | BiharSVC/206 5/2000 | Vill.-Bikramganj,PO+Thana- Bikramganj,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 06/07/49 |
| 1781 | Ram Prakash Singh, S/o Late Sitaram Singh | BiharSVC/130 1/2000 | Vill.+Thana-Korma,PO- Gagaur,Dist.-Shekhpura | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 09/07/51 |
| 1782 | Ram Prasad Chandh, S/o Sri Bhailal Chandh | BiharSVC/129 5/2000 | Vill.-Kalapatti Barahi,PO- Kalapatti,Thana- Fulparas,Dist.-Madhubani | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 01/07/47 |
| 1783 | Ram Prasad Gupta, S/o Sri Suraj Pd. Gupta | BiharSVC/956/ 2000 | M-M/5,Scientist Flat,PO- Bihar Vet.College,Thana- Cardanibagh,Patna-800011 | B.V.Sc.&A.H./R U/70 | 07/01/46 |
| 1784 | Ram Prasidh Singh, S/o Sri Raghuvan Dayai | BiharSVC/134 7/2000 | Vill.+PO+Thana- Sansa,Dist.-Aurangabad | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 03/01/54 |
| 1785 | Ram Pravesh Pandey, S/o Sri Musafir Pandey | BiharSVC/168 4/2000 | Vill.-Morekhuro,PO- Jaipur,Thana- Sasaram,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 28/05/51 |
| 1786 | Ram Rekha Pd. Singh, S/o Sri Harit Lal Singh | BiharSVC/920/ 2000 | Moh.-Jai Prakash Nagar,Tinpalwa,PO- GPO,Thana- Jakkapur,Patna-800001 | B.V.Sc.&A.H./R AU/72 | 03/06/48 |
| 1787 | Ram Sakha Pandey, S/o Late Bal Mukund Pandey | BiharSVC/202 0/2000 | Vill.-Bhokri,PO- Khajhera,Thana- Mohenlyia,Dist.-Kaimur Bhabhua | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 01/07/43 |

| SNOM | NAME | INUM | AM | QUALF | DIS |
|------|--|------------------------|---|-------------------------|----------|
| 1788 | Ram Sarikh Pd., S/o Late Mahangi Prasad | BiharSVC/157 7/2000 | VILL.+PO-Kiriharapur,Thana-Bheempur,Dist.-Ballya | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 20/10/68 |
| 1789 | Ram Sewak Ram, S/o Late Ram Sundur Ram | BiharSVC/137 2/2000 | Moh.-Akhauri Didri,PO+Thana-Leslikganj,Dist.-Palamu | B.V.Sc. & A.H./BAU/90 | 08/06/80 |
| 1790 | Ram Sharan Prasad, S/o Late Somari Mahto | BiharSVC/162 6/2000 | M.-New Sarai Patelnagar,PO+Thana-Biharsharif,Dist.-Nalanda,Pin.-803101 | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 09/09/44 |
| 1791 | RAM SINGH RAWAT | DVC/0568/200 1 | P-15, KIRBY PLACE, DELHI CANTT-110010 | BVSc&AH/UPA U/2000 | 5.1.45 |
| 1792 | Ram Snchi Singh, S/o Late Ram Udar Sharma | BiharSVC/905/ 2000 | Vill.- Sikandarpur,PO+Thana-Muzaffarpur, Dist.-Muzaffarpur,Pin-844891 | B.V.Sc.&A.H./M U/68 | 27/05/44 |
| 1793 | Ram Surat Ray, S/o Late Saryug Ray | BiharSYC/205 5/2000 | Vill.-Pakaulliva,PO-Gorayepur, Thana-Avtaragar,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 25/11/46 |
| 1794 | Ram Swaroop Ram, S/o Late Chamari Ram | BiharSVC/992/ 2000 | Vill.-Kujami,PO-Jujami,Thana-Chandani,Dist.-Gaya | B.V.Sc.&A.H./R AU/71 | 20/07/48 |
| 1795 | Ram Vilas Prasad, S/o Sri Raghunandan Prasad | BiharSVC/112 1/2000 | VILL.+PO-Bhathar,Thana-Chandi,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R AU/71 | 23/11/48 |
| 1796 | Ram Vinod Singh, S/o Lata Paras Nath Singh | BiharSVC/136 4/2000 | Vill.-Naudiha,PO-Rahimpur,Thana-Sonpur,Dist.-Chaspra | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 03/01/46 |
| 1797 | RAMA G. PARAB | GOASVC/119/ 01 | KOTMBI - PALE, GOA - 403105 | BVSc&AH/GAU/ 01 | 19.10.76 |
| 1798 | RAMA KANT GAUTAM S/O SRI P.L. GAUTAM | UPVC/3208 | VILL.-SULTANPUR,PO-NERA,DISTT.KANNAUJ,U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/97 | 08.06.75 |
| 1799 | RAMA RAO D. S/O NARASAYYA | APSVC/03569/ 2000 | 10/154,RAJENDRANAGAR ,2ND LINE,SEETHARAMANILAY AM,GUDIVADA,KRISHNA | BVSc/APAU/79 | 18.11.40 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-------------|--|---------------------|--|-----------------------|------------|
| 1800 | RAMACHANDRA.N S/O BONALA NARAYANA | APSVC/03575 /2000 | 12-395-A,OPP:GOVERDHANA DOG CLINIC,3RD CROSS,SAINAGAR,ANAN | BVSc/U.OF AG.SC./94 | 01.07.68 |
| 1801 | RAMACHANDRAN REDDY K. S/O JAYARAMI REDDY | APSVC/03604 /2000 | KURAPARTHIVARIPALLE, BHODAYVANDLAPALLE(P), | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 10.06.76 |
| 1802 | Ramadhar Singh, S/o Late Thakur Dayal Singh | BiharSVC/154 6/2000 | Vill.+PO-Chaturbhujji Varanw,Thana-Peero,Dist.-Bhojpur (Arrah) | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 20/01/48 |
| 1803 | Ramadher Ishwar, S/o Late Brahmdeo Ishwar | BiharSVC/138 5/2000 | Vill.-Sivari,PO-Manjhual,Thana-Cheria Barivanpur,Dist.-Begusarai | B.V.Sc. & A.H./RAU/78 | 05/03/54 |
| 1804 | Ramakant Bhagat, S/o Late Mathura Prasad Bhagat | BiharSVC/191 2/2000 | Vill.+PO-Mahagama,Thana-Mahagama,Dist.-Godda | B.V.Sc. & A.H./BU/71 | 01/07/50 |
| 1805 | Ramakant Prasad Singh, S/o Sri Raghuvansh Naarayan Singh | BiharSVC/113 7/2000 | Vill.+PO-Akothi,Thana-Akothi (Gola),Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./R AU/71 | 20/07/49 |
| 1806 | Ramakant Tiwary, S/o Sri Rampujan Tiwary | BiharSVC/198 3/2000 | Vill-Pivano,PO-Anwal,Thana-Kopa Baktar,Dist.-Sarah | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 20/09/48 |
| 1807 | Raman Kumar Sinha, S/o Sri Tuleshwar Pd. Sinha | BiharSVC/922/ 2000 | Vill.-Arsandey,PO-Ranchi Vet. College,Thana-Kanke,Ranchi-834006, | B.V.Sc.&A.H./B AU/88 | 26/10/65 |
| 1808 | RAMANA MURTHY V.V. S/O CHINNA APPA RAO | APSVC/03601 /2000 | S/O V. PUNYAVATHI, PEDAPALLA, VIA: CHINTHALURU, E.G. DT. 533 232 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 26.10.73 |
| 1809 | RAMANAIAH J.V. S/O J. PANDAVULU | APSVC/03586 /2000 | VETY. ASST. SURGEON, BESIDES POST OFFICE, DHARMAJIGUDEM(P),W. G. DT. | BVSc&AH/APA U/92 | 06.12.65 |
| 1810 | RAMANARAYANA REDDY K. S/O K. CHENNA REDDY | APSVC/03549 /2000 | PLOT NO. 198, SESHANIVAS, KALYAN NAGAR, HYDERABAD-38. | BVSc&AH/APA U/67 | 02.07.42 |
| 1811 | RAMANUJ DAS S/O LT.RAMESH CH.DAS | TRIPURA/59/2 000 | C/O RATISH RN.DAS RAMNAGAR,ROAD-5,AGT.TRIPIURA(W) | BVSc&AH/BAU/ 82 | 05/01/58 |

| SNM | NAME | RRN | AB | QUALIF | DIS |
|------|--|--------------------|--|-----------------------|----------|
| 1812 | Ramashish Ram, S/o Sri Govardhan Paswan | BiharSVC/981/2000 | Moh.-Panchu Bigha,PO-Rampur Chay,Thana-Karpi,Dist.-Jehanabad | B.V.Sc.&A.H./R AU/78 | 10/05/53 |
| 1813 | Ramashish Singh, S/o Late Deoki Nandan Singh | BiharSVC/1273/2000 | Moh.-Rehi,PO+Thana-Dinara,Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./R AU/75 | 10/12/51 |
| 1814 | Ramashish Sinha, S/o Late Rakat Sinha | BiharSVC/1852/2000 | M-A/20,Ashokapuri,PO-Bihar Vet.Coll.,Than-Shashtrinagar,Dt.-Patna,P-800014 | B.V.Sc. & A.H./BU/60 | 01/02/35 |
| 1815 | Ramashray Prasad, S/o Late Chedi Bhagat | BiharSVC/892/2000 | Vill.-Murorpur,PO-Gaya,Thana-Kotwali, Dist.-Gaya | B.V.Sc.&A.H./R U/66 | 15/05/43 |
| 1816 | Ramashray Prasad, S/o Sri Harinandan Prasad | BiharSVC/1376/2000 | Moh.-Goshala Road,PO+Thana-Khusrupur,Dist.-Patna,Pin.-803202 | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 01/01/46 |
| 1817 | Ramashray Singh, S/o Late Kapildeo Singh | BiharSVC/1152/2000 | Vill.-Ahinaura,PO-Harnathpur,Thana-Mohariyan,Dist.-Kaimur (Bhabhya) | B.V.Sc.&A.H./R AU/68 | 29/08/58 |
| 1818 | Ramavtar Pd. Singh, S/o Sri Laljeet Singh | BiharSVC/1727/2000 | Vill.-Patehpur,PO-Rajhat,Thana-Akbarpur,Dist.-Nawada | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 05/01/45 |
| 1819 | Rambali Singh, S/o Late Gayas Singh | BiharSVC/1786/2000 | Vill.+PO-Naya Bigaha,Thana-Athmalgola,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 20/10/43 |
| 1820 | Ramchandra Choudhary, S/o Late Bholi Choudhary | BiharSVC/1635/2000 | Vill.+PO-Sripur,Thana-Kishanpur,Dist.-Supaul,Pin.-852138 | B.V.Sc. & A.H./RAU/73 | 02/06/49 |
| 1821 | Ramchandra Kumar 'Ravi',S/o Sri Hari Ballabh Pd. Gupta | BiharSVC/1071/2000 | V.+PO-Gamail,Thana-Bheriganj,Dist.-Madhepura,Pin-852101 | B.V.Sc.&A.H./R AU/94 | 21/03/70 |
| 1822 | Ramchandra Prasad, S/o Late Bhagwan Sah | BiharSVC/1386/2000 | M.-Krishna Sadan,Sagar Pokhra,PO+Thana-Betia,Dist.-W.Champaran,Pin-845438 | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 01/07/42 |
| 1823 | Ramchandra Prasad, S/o Late Ram Lakhman Pd. | BiharSVC/1102/2000 | Vill.+PO-Khongaon,Thana-Koilwar,Dist.-Arrah | B.V.Sc.&A.H. R U/68 | 11/06/47 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-------------|---|---------------------|--|-------------------------------|------------|
| 1824 | Ramchandra Singh, S/o Late Nageshwar Singh | BiharSVC/112 0/2000 | Vill.+PO-Hema, Thana-Lar, Dist.-Deoria | B.V.Sc.&A.H./R U/69 | 01/03/48 |
| 1825 | Ramcharitra Roy, S/o Sri Nawal Kishore Roy | BiharSVC/144 8/2000 | Vill.+PO-Gauripur, Thana-Vihpur, Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 07/07/44 |
| 1826 | RAMESH CHAND MEENA | RAJSVC/2700/ 2000 | V/P. NANGAL-LAT TEH. TODABHIM,KARAULI,RAJ ASTHAN | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 04.02.72 |
| 1827 | Ramesh Chandra Jha, S/o Sri Pukit Jha | BiharSVC/149 3/2000 | Vill.+PO-Pachrukhi, Thana-Babu Barhi, Dist.-Madhubani | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 03/01/48 |
| 1828 | RAMESH CHANDRA JOSHI S/O LATE SRI B.P. JOSHI | UPVC/3273 | B-56, SECTOR-26, NOIDA, U.P. | BVSc&AH/AGR A UNIV/80 | 04.10.38 |
| 1829 | Ramesh Chandra Prasad Yadav, S/o Sri Ram Swarup Prasad | BiharSVC/137 0/2000 | Moh.-Puraibag, PO-Barh (R.S.), Thana-Borh, Dist.-Patna, Pin-803211 | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 10/01/59 |
| 1830 | RAMESH CHANDRA S/O SRI RAM SINGH | UPVC/3284 | VILL-TERIWA DAHINGWAN, POST-GAVSGANJ, DIST. HARDOI (U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/99 | 14.07.73 |
| 1831 | Ramesh Chandra Singh, S/o Late Indrasan Singh | BiharSVC/145 4/2000 | Vill.+PO-Kiadumra, Thana-Cantambudh Nagar, Dist.-Siwan | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 20/08/46 |
| 1832 | Ramesh Chandra Verma, S/o Late Jagdeshwari Sharan Sinha | BiharSVC/140 3/2000 | M.-Hanuman Nagar, Upp.K.118, PO-Lohlanagar, Thana-Kankarbagh, Patna-800020 | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 07/04/43 |
| 1833 | Ramesh Chandra, S/o Late Baidyanath Lai | BiharSVC/187 6/2000 | M.-Old Post Office Road, Thana+Dist-Samastipur | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 16/10/45 |
| 1834 | Ramesh K R,S/o Ramanna K N | KARNSVC/318 9 | Dugganehalli Malavalli, Tq-Mandyā Dist | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 10.7.77 |
| 1835 | RAMESH KUMAR | RAJSVC/2690/ 2000 | V.SHYAMGARH,TEH.RAIS INGH NAGAR,SRI GANGANAGAR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 05.11.76 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|------------------------|--|-----------------------------|----------|
| 1836 | RAMESH KUMAR MISHRA S/O SHRI RAJENDRA PRASAD | MPSVC/1919/ 00 | VILLAGE SHIVLADA POST KASHIYARGAON DIST. RAWA-488001 | BVSc&AH/IGKV V/99-2000 | 17.02.73 |
| 1837 | Ramesh Kumar R S, S/o Sreeramaiah | KARN SVC/317 3 | Ronur Village and Post, Srinivasapura, Tq - Kolar Dist | BVSc&AH/UAS B'LORE/2000 | 22.7.77 |
| 1838 | Ramesh Prasad Singh, S/o Late Kapoor Singh | BiharSVC/106 2/2000 | Vill.-Mominpur, PO- Silari, Thana-Kargabar, Dist.- Rohtas | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 03/01/48 |
| 1839 | Ramesh Prasad, S/o Late Karu Garsye | BiharSVC/178 0/2000 | Vill.+PO-Beswak, Thana- Islampur, Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 02/07/43 |
| 1840 | Ramesh Ray, S/o Late Jagdeo Ray | BiharSVC/109 0/2000 | Vill.-Gaurchani, PO+Thana- Sesaram, Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./R U/67 | 13/01/43 |
| 1841 | Ramesh S/o Sh. Sohan Lai Jangra | HarSVC/1874 | 12/3 Vety. Clinics, CCS HAU, Hissar | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 21.3.76 |
| 1842 | RAMESH SHARMA S/O SH. JASWANT RAI | PB.SVC- 2195/2000 | MOHALLA DHANDIAN SULTANPUR IODHI, DIST. KAPURTHALA. | BVSc&AH/PAU/ 1999 | 01.08.76 |
| 1843 | Ramesh Uranw, S/o Late Sundra Uranw | BiharSVC/119 8/2000 | M.-Arsandev, PO- Boraiya, Thana-Kanke, Dist.- Ranchi, Pin-834007 | B.V.Sc.&A.H./B AU/93 | 16/09/66 |
| 1844 | Ramesha, S/o Chaluve Gowda | KARNASVC/3 163 | NO.C-77 Talagavadi, Maiavalli Tq, Mandy Dist | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 25.6.77 |
| 1845 | RAMESHWAR DAYAL GAUTAM S/O SRI POORAN MAL GAUTAM | UPVC/3187 | VILL & PO-SAHARI MAIDAN GARHI, DIST.-AL IGARH, U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 30.12.60 |
| 1846 | Rameshwar Dubey, S/o Sri Bishwnath Dubey | BiharSVC/207 6/2001 | Vill.-Govardhanpur, PO- Gagoli Via Dalmia Nagar, Thana-Akodi Gola, Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 10/10/44 |
| 1847 | RAMINDER SINGH | DVC/0559/200 0 | H.NO.-1869, SECTOR- B, FARIDABAD | BVSc&AH/H/ U/ 86 | 16/12/64 |

| SIR/M NAME | REGN | ADD | QUALIF | DOB |
|---|---------------------|---|-------------------------|------------|
| 1848 Ramjee Choudhary, S/o Late Laliteghwar Choudhary | BiharSVC/161 8/2000 | Moh.-Housing Colony,L.I.C. - 249,Dist.- Dhanbad | B.V.Sc. & A.H./RAU/73 | 01/01/44 |
| 1849 Ramjee Mandal, S/o Sri Ram Lakhan Mandal | BiharSVC/151 3/2000 | Vill.+PO-Ratansara,Thana-Ghoghordiha,Dist.- Madhubani | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 02/01/48 |
| 1850 Ramjee Prasad, S/o Late Siva Ballabh Sharan | BiharSVC/200 6/2000 | Vill.-Arsandey,PO+Thana-Kanke,Dist.-Ranchi,Pin- 834006 | B.V.Sc. & A.H./MU/62 | 14/10/39 |
| 1851 Ramlakhan Prasad, S/o Late Jhappsi Prasad | BiharSVC/197 2/2000 | Vill+PO-Dhurgoan,Thana-Ekangergarai,Dist.- Nalanda,Pin-801302 | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 11/11/44 |
| 1852 Ramnandan Prasad, S/o Sri Brahmdeo Sahani | BiharSVC/208 7/2001 | V.-Sonvarsha Ghat,PO-Sonvarsha Ghat,Thana-Chautham,Dt.-Khagaria | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 23/11/70 |
| 1853 Ramnath Prasad, S/o Late Nand Lal Pd. | BiharSVC/995/ 2000 | Vill.-Katarichak,PO-Sarasat,Thana-Naubatpur,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./R AU/73 | 03/07/46 |
| 1854 Ramnath Sahay, S/o Late Babu Lal Sahay | BiharSVC/861/ 2000 | Moh.-Kathatoli,PO-Sasaram,Thana-Sasaram, Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 15/01/44 |
| 1855 RAMTEKE VINOD DADAJI | MSVC/6369/20 00 | PITRUCHHAYA, B.J.K.SOCIETY, RANAPRATAP NAGAR, BALLARPUR, | BVSc&AH/PDK V/2000 | 01-01-76 |
| 1856 RAMU M. S/O M. MOHAN RAO | APSVC/03542/ 2000 | GEESUGONDA(P&M), WARANGAL DT.-506330 | BVSc&AH/APA U/98 | 04.05.74 |
| 1857 RAMUDU B. S/O SESHANNA | APSVC/03554/ 2000 | H.NO.19-71/I/I, KALYANPURI, UPPAL(M), HYDERABAD-500039 | BVSc/APAU/69 | 01.07.42 |
| 1858 RAMZAN CHOPAN | VCI/2216/00 | R/O QUILMUQUM,TEH.BANDIP .OF AS&T/99 ORA,DT- BARAMULLA,KASHMIR- | BVSc&AH/S.K.U | 27/10/72 |
| 1859 Rana Ashok Kumar Singh, S/o Late B.P.Singh | BiharSVC/111 1/2000 | V.+PO+Thana-Athmalgola,Dist.-Patna,Pin- 803211 | B.V.Sc.&A.H./B AU/87 | 02/02/60 |

| STUDY NAME | REG. | ADDRESS | QUALIFICATION | REG. NO. |
|--|---------------------|---|-----------------------------|----------|
| 1860 Rana Pratap Singh, S/o Sri Rameshwar Prasad Singh | BiharSVC/859/2000 | Vill.-Hematpur,PO-Mainpura, Thana-Arrah Sadar, Dist.-Arrah | B.V.Sc.&A.H./M LSU/83 | 17/06/61 |
| 1861 Rana Pratap, S/o Sri Rajendra Pd. Thakur | BiharSVC/939/2000 | Vill.-Amarpur,PO+Thana-Amarpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc.&A.H./B AU/84 | 25/03/61 |
| 1862 RANBAWLE REKHA PARASHRAM | MSVC/6296/2000 | ANTULE NAGAR, NEAR PHALA FLOOR MILL, HINGOLI, AKDLA RDAD, HINGOLI- | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 05-08-72 |
| 1863 Ranbeer Prasad Singh, S/o Late Deena Nath Singh | BiharSVC/203/0/2000 | Moh.-Rajapur,PD-G.P.D., Thana-Srikrishnapuri, Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 11/11/74 |
| 1864 Randheer Kumar, S/o Sri Bhuneshwar Sahu | BiharSVC/107/6/2000 | M.-Dhobi Tola,Hajipur,PD+Thana-Khagaria, Dist.-Khagaria, Pin-851204 | B.V.Sc.&A.H./R AU/91 | 06/01/66 |
| 1865 Randhir Singh S/o Sh. Shardha Nand | HarSVC/1675 | C/o Manoj Mahavir, Nav Deep Colony, Gangwa Road, Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 8.12.68 |
| 1866 Randhir Singh, S/o Sri Ramdhani Singh | BiharSVC/135/7/2000 | Vill.-Palakia,PD+Thana-Sherghati, Dist.-Gaya, Pin-824211 | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 08/07/49 |
| 1867 RANGA REDDY B. S/D B. RANGA REDDY | APSVC/03558/2000 | H.NO.25/236-12 C, SANGIVA NAGAR, NANDYAL, KURNDDL DT. | BVSc/APAU/70 | 10.07.48 |
| 1868 RANGASWAMY M B S/D G BASABVARAJAPPA | KARNASVC/3153 | MADAKARI PURA, CHITHRADHURGA TALUK AND DISTRICT | BVSc&AH/UAS DHARWAD/2000 | 13.03.77 |
| 1869 Rangasway,S/o Sh Maranna | Karna/3200 | Behind Ravi Nursing Home, Holaikere Road, Chitradurga Tq and Dist | BVSc&AH/UAS, Blore/2000 | 22.7.74 |
| 1870 Ranjan Kr. Jha, S/o Dr. Ganga Nath Jha | BiharSVC/121/6/2000 | Vill.+PO-Kaliganw, Thana-Singhwara, Dist.-Darbhanga | B.V.Sc.&A.H./R AU/92 | 02/08/67 |
| 1871 Ranjan Kumar Choudhary, S/o Late Geeta Nand Choudhary | BiharSVC/153/4/2000 | Vill.+PD+Thana-Bihpur, Dist.-Bhagalpur, Pin.- 853201 | B.V.Sc. & A.H./RAU/75 | 01/07/51 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|------|--|------------------------|--|-------------------------|----------|
| 1872 | Ranjeet Kr. Sinha, S/o Sri Hari Nandan Prasad | BiharSVC/113 9/2000 | Vill.+PO+Thana-Sabaur,Dist.-Bhagalpur,Pin-813210 | B.V.Sc.&A.H./B AU/83 | 15/08/60 |
| 1873 | Ranjeet Prasad Sinha, S/o Late Jawala Prasad Sinha | BiharSVC/198 4/2000 | Vill.+Prahlaipur,Thana-Ghaswari,Dist.-Patna,Pin-803308 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 05/07/71 |
| 1874 | Ranjeet Singh, S/o Late Munsi Singh | BiharSVC/201 6/2000 | Vill.-Mahima Korthu,PO-Mohanganj,Thana-Ghosi,Dist.-Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 06/03/42 |
| 1875 | Ranjeet Soren, S/o Sri Lakhan Soren | BiharSVC/112 9/2000 | Vill.-Chota Kurma,PO-Sripur Bazar,Thana-Mirsa Chowki, Sahebganj)-813208 | B.V.Sc.&A.H./R AU/97 | 12/12/72 |
| 1876 | Ranjit Kr. Bhagat, S/o Late Baieshwar Bhagat | BiharSVC/110 3/2000 | Vill.-Porar Sarma Toli,PO-Juriya,Thana-Sinha,Dist.-Lohardagga,Pin-835302 | B.V.Sc.&A.H./R AU/93 | 15/11/69 |
| 1877 | RANJIT SINGH P.B. S/O P.B. DHAN SINGH | APSVC/03649/ 2000 | PLOT NO. MIG-103, NORTH EXTENSIDN, SEETHAMMADHARA, VISAKHAPATNAM,530013 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 30.01.70 |
| 1878 | Raosab Dattaji Patil S/o Dattaji Patil | Karna/3138 | Chandeshwar Post Aurad Tq. Bidar Dist. | BVSc&AH/MAU/ 1998 | 1.1.72 |
| 1879 | RATAN DAS GUPTA S/O INDU BHUSAN DASGUPTA | TRIPURA/41/2 000 | "MONORAMA LOKENATH NIKETAN",WATER SUPPLY ROAD,P.O.AGARTALA | BVSc&AH/BCK VV/78 | 11/03/57 |
| 1880 | Ratan Kr. Dubey, S/o Sri Digambar Pd. Dubey | BiharSVC/999/ 2000 | Vill.+PO-Bandanwer,Thana-Pathorgema,Dist.-Godda | B.V.Sc.&A.H./R AU/86 | 21/07/61 |
| 1881 | RATAN KR. SAHA S/O SH.NAGENDRA CH. SAHA | TRIPURA/54/2 000 | QTR.NO.TYPE-III/2 KUMARITILL,P.O.-KUNJABEN,AGARTALA, TRIPURA(W) | BVSc&AH/BCK VV/82 | 10/10/55 |
| 1882 | Ratan Kumar Thakur, S/o Late Vishwakarma Thakur | BiharSVC/193 1/2000 | M-B.B.Pakhar,PO-Darbhanga,Thana-Laheriasarai,Dist.-Darbhanga. | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 20/08/51 |
| 1883 | Rathindra Nath Mukherjee, S/o Late Bhootnath Mukherjee | BiharSVC/119 7/2000 | M.-Patal Maidan Road,Kashipur,PO+Thana+Dist.-Samastipur,P.-848101 | B.V.Sc.&A.H./R AU/72 | 15/02/49 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD. | QUALIF | REG. |
|------|---|------------------------|--|------------------------------|----------|
| 1884 | RATHOD BALDAS RAJUSING | MSVC/6304/20 00 | AT DARAT, TAH. UMARKHD, DISTT. YEOTMAL-445207 | BVSc&AH/DR.P KDV/2000 | 29-05-72 |
| 1885 | RATHOD TULARAM TOPU | MSVC/6423/20 01 | AT VASANTRAO NAIK NAGAR, POST KADABGAON, TAL.AKKALKOT,SOLAPUR | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 01-06-76 |
| 1886 | RAUT SHASHIKANT SHANKARRAO | MSVC/6421/20 01 | RAUT BUILDING, NEAR R.T.O.CAMP, CHAUDHESHWAR, TAL.MALSHIRAR,SOLAPU | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 10-03-78 |
| 1887 | Rav Jitendra Prasad, S/o Late Rav Devendra Prasad | BiharSVC/198 8/2000 | M-Dayal Colony,PO-Chitruguptnagar,Thana-Kankarbagh,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 16/11/42 |
| 1888 | Ravi Kant,S/o Sh Baljeet Singh | HarSVC/1635 | H.No.940-Acre Behind PNB Quatabpur Rewari | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 1.1.77 |
| 1889 | RAVI KUMAR M. S/O SANYASI RAO | APSVC/03597/ 2000 | AMARAYAVALASA (V), CHALLAPETA(P), MENTADA(M), VIZIANAGARAM-535581 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 28.02.78 |
| 1890 | RAVI KUMAR N. S/O NARAYANA | APSVC/03603/ 2000 | 3/25, OPP:DAL FACTORY, DORASANIPALLE ROAD, PRODDATUR-516360 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 11.08.74 |
| 1891 | RAVI KUMAR S. S/O SIVANANDAM | APSVC/03577/ 2000 | SRINIVASA HATCHERIES LTD.,PLEADERGARI GRDN,MORSAPUDI(P),NU ZVID(M),KRISHNA,D | BVSc/TNVASU/ 95 | 15.06.72 |
| 1892 | Ravi M,S/o Mahadevappa M | KARNASVC/3 167 | Compinakere Street,Issur Post,Sikarpura Tq,Shimogga Dist. | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 24.7.76 |
| 1893 | Ravi Nandan, S/o Late Rang Pd. Sinha | BiharSVC/120 8/2000 | M.-New Area,Bisar Talab,PO-GPO,Dist.- Gaya,Pin-823001 | B.V.Sc.&A.H./R AU/91 | 06/04/85 |
| 1894 | RAVI PRASAD NEMA S/O SHRI S.L. NEMA | MPSVC/1897/ 00 | ASSOC. PROF. DEPT. OF POULTRY SC, KRISHINAGAR, ADHARTAL, JABALPUR - | BVSc&AH/JNKV V/76-77 | 28.08.55 |
| 1895 | Ravi Pratap Rao, S/o Late Gangadhar Rao | BiharSVC/203 8/2000 | Vill.+PO-Madhubeni,Thana- Dhanha,Dist.-W. Champaran | B.V.Sc. & A.H./BU/60 | 14/04/39 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-------------|---|------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 1896 | Ravi Shankar Kapoor, S/o Sri Satyendra Narayan Kapoor | BiharSVC/912/ 2000 | PO-Ranchi Vet.College,Thana- Kanke,Dist.-Ranchi,Pin- 834006 | B.V.Sc.&A.H./B AU/91 | 05/10/67 |
| 1897 | RAVI SHANKAR S/O SRI C.L. SANKHWAR | UPVC/3271 | VILL-PILKHINI, PO- PUKHRAYAN,DIST.- KANPUR,DEHAT,U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/97 | 01.03.70 |
| 1898 | Ravi Shankar Vidyarthi, S/o Sri Bishwambhar Prasad | BiharSVC/137 8/2000 | Vill.-Garar,PO- Husainganj,Thana- Ander,Dist.-Siwan | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 09/10/70 |
| 1899 | RAVINDER SINGH S/O SH. DALBARA SINGH | PB.SVC- 2219/2001 | VPO.BARWALI KHURD, TEHSIL KHAMANA, DIST. FATEHGARH SAHIB. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 20.09.76 |
| 1900 | RAVINDRA H. S/O RAM KRISHNARAO HANGE | APSVC/03595/ 2000 | H.NO.4-5-436, DHUKDHA, BHUKTAPOURA, ADILABAD DISTRICT. | BVSc&AH/MAR ATHWADA AG. U./98 | 04.10.75 |
| 1901 | Ravindra Nath Roy, S/o Late Ram Prasad Roy | BiharSVC/125 2/2000 | Vill.+PO+Thana- Karihudinpur,Dist.-Gajipur | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 28/07/44 |
| 1902 | Ravindra Nath Singh, S/o Late Raj Kumar Singh | BiharSVC/184 5/2000 | Vill.-Sherpur,PO- Gheghtha,Thana-Chapra Mufsil,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 10/05/46 |
| 1903 | Ravindra Nath Singh, S/o Sri Dhanraj Singh | BiharSVC/120 2/2000 | Vill.-Garara,PO+Thana- Sanjhauh,Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./R AU/80 | 20/01/55 |
| 1904 | Ravindra Pd. Singh, S/o Late Hardeo Singh | BiharSVC/102 8/2000 | Vill.+PO- Ramshahar,Thana- Barhara,Dist.-Arrah (Bhojpur) | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 03/01/43 |
| 1905 | RAVINDRA PRASAD SRIVASTAVA | VCI/2255/00 | VETY.ASSTT.SURGEON CENTRAL CATTLE BREEDING FARM,P.O. SUNAHEDA-2 ORISSA | BVSc&AH/CSA KEPV/80 | 01/01/55 |
| 1906 | Ravindra Prasad Srivastava,S/o Sh.Krushna Mohanlal | Orissa/1785 | Vety Asst.Surgeon,Central Cattle Breeding Farm,Sunabeda,Koraput | BVSc&AH/CSA KEPV/80 | 1.1.55 |
| 1907 | Raviprakash T S, S/o T.R Sitaram | KARNASVC/3 132 | 8th Cross,11 Main,S.S Puram,Tumkur | BVSc/UAS,B'lor e/97 | 4.5.74 |

| SNM NAME | REGN | ADD | QUALF | DOB |
|--|----------------------|--|----------------------|----------|
| 1908 RAVNEET KAUR D/O SH. BAKHSISH SINGH | PB.SVC-2182/2000 | HOUSE NO. 4881, GURU ARJAN DEV NAGAR, P/O KHALSA COLLEGE, AMRITSAR. | BVSc&AH/PAU/ 1999 | 27.01.76 |
| 1909 REENA LAIKER D/O SH. AMAR CHAND LAIKER | PB.SVC/2175/2000 | 613/1, HOUSEFED COMPLEX, PAKHOWAL ROAD, LUDHIANA. | BVSc&AH/MLS U/1986 | 29.11.62 |
| 1910 REJI VARGHESE | KERALASVC/ 2509/2000 | MUTHUKATTU HS., KOTTAPURAM ROAD, TIRISSURE PIN-680004 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 31.05.76 |
| 1911 REJIN MATHEWS V | KERELASVC/ 2483/2000 | VADAKKAN HS., CHOWANNOOR P.O., KUNNAMKULAM(VIA) TIRISSUR-680503 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 31.05.75 |
| 1912 REKHA BANU | PONDI/101/2000 | LAKSHMI HOMES, GOPALAN KADA STREET, IYANKUTTIPALAYAM, | BVSc/TNVASU/ 95 | 07.01.71 |
| 1913 RICHARD R. CHURCHIL | KERALASVC/ 2525/2001 | VOP-403, KAU STAFF QUARTERS, VETY. COLLEGE CAMPUS, MANNUTHY, TIRISSUR- | BVSc/TNV&AS U/94 | 31.07.71 |
| 1914 Ridonell Swer | Megh/169/01 | Nongthymmai, Shillong | BVSc/UAS B'lore/81 | 22.12.54 |
| 1915 RINCHIN LAMA | ARUNA/214/02 | VILL-SHERGAON, PO KALABTANG, DIST W/KAMANG | BVSc&AH/CSA UA&T/87 | 1.4.64 |
| 1916 Risoobar Dohtdong | Megh/181/01 | Umlingka, Shillong-793005 | BVSc&AH/AAU/ 91 | 1.3.65 |
| 1917 Rita Kumari Sinha, S/o Sri Janaradhan Pd. Sinha | BiharSVC/879/2000 | Moh-B2-Prof.Colony,North Shastry Nagar, Patna-800023 | B.V.Sc.&A.H./R AU/84 | 27/07/60 |
| 1918 Rodrick Nongrum | Megh/161/01 | Nongpoh | BVSc&AH/AAU/ 2000 | 27.11.74 |
| 1919 ROHIT KUMAR S/O SH. MANOHAR LAL | PB.SVC-2252/2001 | 313-E, SBS NAGAR, LUDHIANA. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 11.01.76 |

| SR# | NAME | REG# | ADD | QUALF | DOB |
|------|--|-------------------------|---|------------------------------|----------|
| 1920 | Rojlin Pushpa Tirki, S/o Late Luthar Tirki | BiharSVC/152 7/2000 | Moh.-Purana Loyadih,PO+Thana-Namkum,Dist.-Ranchi,Pin.-834010 | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 13/05/68 |
| 1921 | ROSA C.M. CHACKO | KERALASVC/ 2518/2000 | KUNNUMMEL(H),SOUTH ARYAD,ALLEPPNEY-6. | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 13.04.77 |
| 1922 | ROSE KARIATH S/O DR. A.P. ROSIA | KARNASVC/3 102 | 101 PLOT NO. 24, SHUBAN, APARTMENTS, P & T COLONY, SANJAY NAGAR, BANGALORE. | BVSc/UAS B'LORE/80 | 09.05.59 |
| 1923 | ROY DR. DIGANTA S/O BIJAN KUMAR ROY | ASM/1929/200 0 | BHAGADATTAPUR, BELTOLA, GUWAHATI-28 | BVSc&AH/AAU/ 99 | |
| 1924 | RUBY VIDYADHARAN | KERALASVC/ 2510/2000 | KOCHU PATTOOR (H), KARIYARA, P.O. PUNALUR, KOLLAM | BVSc&AH/AAU/ 2000 | 19.03.76 |
| 1925 | Rudradeo Singh, S/o Late Shividani Singh | BiharSVC/119 1/2000 | V.+PO-Bajnathpur,Thana-Bajnathpur,Dist.-Nawada | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 09/12/43 |
| 1926 | Rudragowda V Shantanavar,S/o Veeranagowda | KARNSVC/318 0 | Sri Gurukrupa Old Antarvalli Rd, Vidya Ng,6th Cross Renebennur,Haveri Dist | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 20.6.74 |
| 1927 | RUDRAPPA Y GURIKAR S/O YALLAPPA R GURIKAR | KARNASVC/3 114 | KOTUMACHAGI POST, GADAG TQ., AND DISTRICT | BVSc&AH/UAS DHARWAR/98 | 01.06.75 |
| 1928 | S. Mazhar Bari, S/o S. Abdul Kayum | BiharSVC/178 5/2000 | V.-Taz Colony,Panchayat Akhara,Thana-Kotwali Gaya,Dt.-Gaya,P-823001 | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 08/06/43 |
| 1929 | S.ARTHUR SYLVESTER | PONDI/132/20 01 | 487,MAHATHMA GANDHI ROAD,PONDICHERRY-605001 | BVSc&AH/PU/2 000 | 31/12/76 |
| 1930 | S.CHANDRASSEGAR | PONDI/129/20 01 | 10,PERUMAL KOIL STREET,MUTHIALPET,PO NDICHERY-3 | BVSc&AH/PU/2 000 | 07/11/76 |
| 1931 | S.KOTHANDARAMAN | PONDI/142/20 01 | 145,PERUMAL KOIL STREET,PONDICHERY-605001 | BVSc&AH/PU/2 000 | 23/06/77 |

| STUDY NAME | EDUCATION | AGE | QUALIF | DOB |
|--|------------------------|--|--------------------------|----------|
| 1932 S.M. Shakeel Ahamed, S/o S.M. Razza Karim | BiharSVC/124 2/2000 | Moh.-Jameeran Ki Gachi,Chandyara,Dist.- Muzafferpur | B.V.Sc.&A.H./M U/68 | 01/07/46 |
| 1933 S.M.Humayun Akhtar, S/o Late S.M.Abul Kheir | BiharSVC/856/ 2000 | VIII.-Samanpura,PO- B.V.College,Thana- Shastrinagar,Patna-800014 | B.V.Sc.&A.H./M U/64 | 26/09/41 |
| 1934 S.Md. Sayed Imam Hashmi, S/o Late Akhtar Imam Hashmi | BiharSVC/124 9/2000 | Moh.-Jawahar Chowk,PO+Thana- Sitamarhi,Dist.-Sitamarhi | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 15/09/42 |
| 1935 Saad Abu Muzaffar, S/o Late Md. Mohsin | BiharSVC/179 2/2000 | Moh.-Chuniman,PO- Khodaganj,Thana- Bahadurganj,Dist.- Kishanganj | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 15/03/46 |
| 1936 SABYASACHI BHATTACHARYA S/O LT.RAMA PRASAD | TRIPURA/70/2 000 | PWD ROAD,BOULAPASSA,KAIL ASAHar,TRIPURA (N),PIN-799277 | BVSc&AH/BAU/ 87 | 06/04/62 |
| 1937 Sachchidanand Pandey, S/o Late Ramdhari Pandey | BiharSVC/199 6/2000 | VIII.+PO- Pandeypatti,Thana- Pandeypatti,Dist.-Buxar | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 02/07/44 |
| 1938 Sachchidanand Pd. Sinha, S/o Sri Deonath Pd. Sinha | BiharSVC/102 9/2000 | Vill.-Sasbahana,PO- Birnاما,Thana- Ariyari,Dist.- Shekhpura,Pin.-805130 | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 09/05/43 |
| 1939 Sachchidanand Singh, S/o Late Baideo Singh | BiharSVC/878/ 2000 | VIII.-Rampur Khurhuriya,PO+Thana- Bhatri,Dist.-Deoria | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 07/10/46 |
| 1940 Sachchidanand Singh, S/o Late Bindeshwari Pd. Singh | BiharSVC/188 2/2000 | Vill.+PO-Kaithi,Thana- Chautham,Dist.-Khagaria | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 23/01/43 |
| 1941 Sachchidanand Mishra, S/o Pandit Murari Prasad Mishra | BiharSVC/890/ 2000 | Vill.+PO-Rajvara,Thana- Sahebganj,Dist.- Muzeffarpur,Pin-843125 | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 15/07/46 |
| 1942 Sedanand Mahto, S/o Sri Jagnnath Mahto | BiharSVC/175 1/2000 | M.-Jay Prakash Nagar,PO- Godda,Thanna+Dist.- Godda | B.V.Sc. & A.H./RAU/82 | 10/01/59 |
| 1943 Sadanand Ram, S/o Sri Raj Lal Ram | BiharSVC/189 6/2000 | V.-Ladui,Vishunpura,PO- Kanivari,Thana- Kargahar,Dt.-Rohtas,Pin- 802213 | B.V.Sc. & A.H./RAU/98 | 05/01/72 |

| SNUM | NAME | INUM | ADD | QUALF | DOB |
|-------------|---|------------------------|--|---------------------------|------------|
| 1944 | Safdar Khan, S/o Abdul Caffar Khan | BiharSVC/156 6/2000 | Moh.-Maharaja Hata, PO+Thana-Arrah, Dist.-Bhojpur, Pin.-802301 | B.V.Sc. & A.H./MU/62 | 25/12/41 |
| 1945 | SAGAR MANGESH ABHIMANYU | MSVC/6359/20 00 | DEEPGANGA SOCEITY, 106 GOPAL NAGAR, LANE NO.2, KALAYAN ROAD, | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 05-11-77 |
| 1946 | SAGARI RADHIKA RAMDAS W/O N. MADHUSUDHAN | APSVC/03675/ 2001 | A-21, SAINKPUR, SECUNDERABAD, PIN-500094. | BVSc&AH/HAR YANA AG.U./86 | 01.06.74 |
| 1947 | Sahaja Nand Roy, S/o Sri Narayan Roy | BiharSVC/171 9/2000 | Vill.+PO-Saidpur, Tola Gariyar, Thana-Gopalpur, Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 06/07/54 |
| 1948 | SAHAJA NAND SINGH S/O SRI BHAGMAT SINGH | UPVC/3185 | TAGORE NAGAR, BEHIND JAIL BALLIA, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/71 | 01.09.46 |
| 1949 | SAHARE AMOL MADHUKAR | MSVC/6360/20 00 | JAISWAL LAYOUT, SHINDEWAHI, TAL SHINDEWAHI, DIST. CHANDRAPUR-441222 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 19-08-77 |
| 1950 | Sahdeo Panjiyar, S/o Late Vanarasi Panjiyar | BiharSVC/119 5/2000 | Vill.+PO-Asarganj, Thana-Asarganj, Dist.-Munger | B.V.Sc.&A.H./M U/66 | 03/01/43 |
| 1951 | SAIBAL KANTI MONDAL | WBSVC/2799/ 2000 | RAMPURHAT SANGHATAPARA, BIRBHUM | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1952 | SAIKAT SAHA | WBSVC/2830/ 2000 | NARAYANPUR HILL MORE MORE, P.O. BALURGHAT, DT.D/DINAJPUR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 1953 | SAIKIA DR. JONMONI D/O SHRI GALAK CH. SAIKIA | ASM/1944/200 1 | C/O SHRI GOLAK CH. SAIKIA VILL. SAMAGURI, P.O. SAMAGURI, DIST. NAGAON(ASSAM) | BVSc&AH/AAU/ 2001 | |
| 1954 | SAIKIA DR. NITUL S/O SRI RAMESH CH. SAIKIA | ASM/1907/200 0 | VILL. BURHAKURI, P.O. BORDOLONI, DIST. DHEMAJI (ASSAM) | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 1955 | SAIKIA DR. TIKENDRAJIT S/O SRI TANKESWAR SAIKIA | ASM/1947/200 1 | VILL. BHETIANI, P.O. BATADRABA, DIST. NAGAON, PIN-782122 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |

| SIMILAR NAME | REGN | ADDRESS | QUALIFICATION | DATE OF BIRTH |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| 1956 Saiyad Rayajur Rahaman, S/o Abdur Rahaman | BiharSVC/162 2/2000 | Moh.-Kajivauchak,PO-Bhagalpur City,Thana-Tatarpur,Dist.-Bhagalpur,Pin.-8120 | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 02/01/43 |
| 1957 SAJAL CH.DAS S/O SUNIL CH.DAS | TRIPURA/99/2 000 | VILL-KALACHAND KOBRAPARA,BIRENDRAN AGAR,PS-JIRANIA,TRIPURA WEST | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | 18/12/75 |
| 1958 SAJAL KANTI MAJUMDAR S/O LT.SATISH | TRIPURA/62/2 000 | NO.12,KRISHNA NAGAR ROAD,NEAR VICTOR VIDEO CASSETTES, P.O-AGARTALA | BVSc&AH/MAU/ 84 | 12/01/61 |
| 1959 SAJAN GEORGE | KERALSVC/25 08/2000 | THALACHIRA HS., KALINGAPADAM, PANNIYANKARA P.O., PALAKKAD DIST.-678683 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 14.05.76 |
| 1960 Sajay Kumar Sinha, S/o Dr.Ram Das Sinha | BiharSVC/841/ 2000 | Mo.-Post-E,Boring Canal Road,Thana-Budha Colony,Dist-Patna, Pin-800001 | B.V.Sc.&A.H./B AIJ/82 | 14/10/60 |
| 1961 SAJITHA I.S. | KERALASVC/ 2461/2000 | K-4, KAILASNAGAR, KESAVADASAPURAM,PA TTOM PALACE P.O.,TRIVANDRUM- | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 16.05.77 |
| 1962 SAKAR PALECHA S/O SH. K.M. PALECHA | RAJSVC/2698/ 2000 | IV E 416- 417,JNV.COLONY,BIKANE R | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 29.12.74 |
| 1963 SAKET BADOLA S/O DR. S.P. BADOLA | UPVC/3256 | SMIRITI BHAWAN, UPPER KALABARH, KOTDWARA, PAURI, GARHWAL,U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 25.07.77 |
| 1964 SAKET KUMAR NIRANJAN S/O SRI KESHAV DAS NIRANJAN | UPVC/3230 | VILL.GAYAR,PO-AKORI DUBEY,DISTT.-JALAUN, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 20.06.76 |
| 1965 Saket Kumar, S/o Sri Surendra Pd. Yadav | BiharSVC/180 8/2000 | V.-+PO-Rajanisath,Thana-Murliganj,Dist.-Madhepura,Pin-852101 | B.V.Sc. & A.H./RAU/95 | 04/02/68 |
| 1966 SAKET PATHAK | RAJSVC/2691/ 2000 | BADA GAWADA BADI BASTI,PUSHKAR,AJMER | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 12.02.75 |
| 1967 SAKTI PADA SINGHA S/O SH.RAJENDRA KR. SINHA | TRIPURA/37/2 000 | ABHOYNAGAR (NEAR HINDI SCHOOL)AGT.TRIPURA WEST | BVSc&AH/BCK CVV/78 | 26/06/54 |

| SNUM | NAME | RNUM | ABD | QUALIF | DIS |
|------|--|------------------------|---|------------------------------------|----------|
| 1968 | SALAUDDIN QURESHI S/O SH. SHAMASHUDDIN | RAJSVC/2625/ 2000 | NEAR JAMA MASJID,SARMATHURA,B HOLPUR-328026 | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 01.01.73 |
| 1969 | SALPHALE GIRISH VITTHALRAO, S.O.SH. VITHALRAO SALPHALE | RAJSVC/2740/ 2001 | 2F2, SAI RATNA JAWAHAR NAGAR NAINWAN ROAD, BUNDI, RAJASTHAN | BVSc&AH/PKV/ 88 | 12-05-66 |
| 1970 | SALVE PRADIP BUWAJI, C/O B.A.SALVE | MSVC/6381/20 00 | R.NO.C-13, AT KESAPURI CAMP, MAJALGAON, TAL. MAJALGAON DIST. BEED- 431142 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 09-09-77 |
| 1971 | Sam Varghese | A&NSVC/79/2 000 | H.No.35,DP Street,Lilliput,Hadda(PO),P Or Blair-744102 | BVSc/TNV&AS U/2000 | 13.5.77 |
| 1972 | SAMANT SHVETA RAMESH | MSMVC/6357/ 2000 | VARSHA, SUGANDHA, H.NO.A-8, BAVANIMATA ROAD, AMBOLI, ANDHERI(WEST)- 400058 | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 11-05-78 |
| 1973 | SAMAR KANTI MITRA S/O SH.ANNADA CHARAN MITRA | TRIPURA/26/2 000 | 6,J.B.ROAD,KRISHNAGAR ,AGT.TRIPURA WEST | BVSc&AH/BCK VV/77 | 10/05/53 |
| 1974 | SAMARENDRA DAS S/O UPENDRA CH.DAS | TRIPURA/105/ 2000 | C/O P.B.CHAKRABORTY,EAST SIDE OF CIRCUIT HOUSE,KUNJABAN,ABHO | BVSc&AH/OUA T/89 | 05/01/64 |
| 1975 | SAMATHA V. D/O V. SHOURAIAH | APSVC/03620/ 2000 | ANAND BHAVAN, BEHIND ARMH SCHOOL, PERALA, CHIRALA, PRAKASAM DIST. | BVSc&AH/ANG RA/2000 | 16.08.77 |
| 1976 | SAMIR RANJAN DEBNATH S/O SH.RAMANI MOHAN | TRIPURA/93/2 000 | PG-KATHALIA,VILL- MAHESHPUR,SONAMURA TRIPURA(W) | BVSc&AH/AAU/ 93 | 05/01/65 |
| 1977 | SAMIRAN SAHA S/O RABINDRA KR.SAHA | TRIPURA/87/2 000 | TOWN PRATAPGARH,CENTRAL ROAO • EXTN.AGT.TRIPURA | BVSc&AH/MAU/ 88 | 07/11/62 |
| 1978 | SAMIRAN SINHA S/O BISWESWAR SINHA | TRIPURA/71/2 000 | VILL- TILAKPUR,P.O.BHAGABA NNAGAR,PO KAILASHA HAR | BVSc&AH/PAU/ 86 | 13/11/63 |
| 1979 | Samrendra Bahadur Singh, S/o Sipahi Singh | BiharSVC/113 4/2000 | Vill,+PO-Bikramganj,Oist.- Rohtas,Pin.-802212 | B.V.Sc.&A.H./R AU/94 | 15/08/68 |

| SLN# | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DIS |
|------|--|---------------------|---|---------------------------|----------|
| 1980 | Samudra B S/o Venkatarao | Karna/3082 | C/o Halgarkar House, Sri Ragavendra Colony, Bidar-585401 | BVSc&AH/UAS Dharwar/99 | 17.3.76 |
| 1981 | Sanat Kr. Pandit, S/o Sri Raghunandan Pandit | BiharSVC/109 3/2000 | Vill.-Sapahauna,PO-Mohanpur,Thana-Gearichak,Dist.-Patna,Pin-804453 | B.V.Sc.&A.H./R AU/88 | 24/08/65 |
| 1982 | Sandeep Halmandge,S/o Chandrakanth Halmandge | KARNSVC/31 79 | House No.9-8-83,Basavanagar Colony,Bidar | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 5.3.76 |
| 1983 | SANDEEP KAUR D/O SH. GURBAX SINGH | PB.SVC- 2223/2001 | FRIENDS COLONY, SALOH ROAD, NAWAN SHAHR | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 26.09.75 |
| 1984 | SANDEEP KUMAR AGARWAL S/O DR. P.C. AGARWAL | UPVC/3282 | 5/491, VIRAM KHAND LUCKNOW, U.P. | BVSc&AH/BAU/ 88 | 04.02.63 |
| 1985 | Sandeep Kumar Gupta, S/o Late Jagdish Prasad Gupta | BiharSVC/197 7/2000 | M-H.N.86/3,Ralchi Road,PO-Anwarganj,Thana/Roypurw a,Dist.-Kanpur,Pin-208003 | B.V.Sc. & A.H./CSAUAT/9 | 15/04/72 |
| 1986 | Sandeep Kumar S/o Sh. Vijay Partap Bharti | HarSVC/1663 | 338, 339 Sarojni Colony, Y. Nagar | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 24.9.77 |
| 1987 | Sandeep Kumar,S/o Sh Natri Ram | HarSVC/1639 | 1020/1,C-VI Sawanpuri Jagadhi | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 5.1.78 |
| 1988 | Sandeep S/o Balbir Singh | HarSVC/1658 | 147/1 Devi Nagar, Gohana, Sonepat | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 1.1.77 |
| 1989 | SANDEEP SINGH S/O SH. JAGTAR SINGH | PB.SVC- 2204/2000 | VILL. JARKHAR, P/O GHAWADDI, DIST. LUDHIANA | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 03.07.74 |
| 1990 | SANDEEPAN CHANDRA S/O LATE SHRI P.K. CHANDRA | MPSVC/1885/ 00 | 126, NARAYAN NAGAR, DISTT BHOPAL 462026 | GVSc/BENGAL VETY. COLL/49 | 15.12.29 |
| 1991 | Sandip Kumar, S/o Late Kamta Prasad | BiharSVC/141 7/2000 | Vill.-Laxmipur,PO-Madhepura,Thana+Dist.- Madhepura | B.V.Sc. & A.H./RAU/81 | 05/08/58 |

| SR. NO. | NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIFICATION | DOB |
|---------|--|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 1992 | SANGANAGOUDA S/O PARAMAPPAGOUDE | KARNASVC/3 076 | KEHSAVA NAGARA, BASAVANABAGEVAADI,BI JAPURA DT. | BVSc&AH/UAS DHARWAR/99 | 05.01.77 |
| 1993 | SANGEETA TIWARI D/O SHRI B.M. TIWARI | MPSVC/1910/ 00 | VETY. HOSPITAL CAMPUS MANDLA DIST. MANDLA-481001 | BVSc&AH/JNKV V/87-88 | 24.04.63 |
| 1994 | SANGITA D/O SH. BACHHARAJ BAFNA | RAJSVC/2701/ 2000 | C/O BAFNA CLINIC,GANDHI CHOWK,NEW LANE GANGASHAHAR,BIKANER | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 04.06.74 |
| 1995 | SANJAY ADHIKAR S/O RAMTARAK ADHIKARI | TRIPURA/80/2 000 | VILL.GOBINDAPUR (W),PO-KAILASHAHAIR NORTH TRIPURA | BVSc&AH/MAU/ 91 | 21/03/67 |
| 1996 | SANJAY AGRAWAL | RAJSVC/2637/ 2000 | H.NO.3660 SHITLA MALA STREET,NEEMDI POLICE THANA,PURANI BASTI,JAIPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 16.10.74 |
| 1997 | SANJAY DE S/O LT.SATYA RANJAN DE | TRIPURA/83/2 000 | J.C.BOSE GARANI KERCHOWMAHANI,KRISH NAGAR,AGT.TRIPURA WEST | BVSc&AH/AAU/ 92 | 14/12/69 |
| 1998 | SANJAY JAIN | RAJSVC/2641/ 2000 | C/O TIKARAM DEOCHANDRA JAIN,KHARANJA ROAD,KOTHI,DHOLPUR. | BVSc&AH/RAJ AGRI.UNIV./200 0 | 07.06.73 |
| 1999 | Sanjay Kr. Singh, S/o Sri Raj Kumar Singh | BiharSVC/123 2/2000 | VIII.+PO-Naudiha,Thana-Patan,Dist.-Palamu | B.V.Sc.&A.H./B AU/91 | 16/02/64 |
| 2000 | Sanjay Kr. Singh, S/o Sri Surendra Pd. Singh | BiharSVC/170 2/2000 | Vill.-Karsop,PO+Thana-Shambhuganj,Dist.-Banka,Pin.-813211 | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 04/10/66 |
| 2001 | SANJAY KUMAR | VCI/2208/00 | H.NO-393,VPO,GHEVRA,DELHI PIN-110081 | BVSc&AH/RAU/ 90 | 31/12/69 |
| 2002 | Sanjay Kumar Chakhaiyar, S/o Sri Vijay Kishore Pd.Chakhaiyar | BiharSVC/157 0/2000 | Moh.-Belwan,PO-Dumari Belwan,Thana-Madanpur,Dist.- Aurangabad | B.V.Sc. & A.H./BAU/91 | 12/01/66 |
| 2003 | Sanjay Kumar Hooda,S/o Sh Inder Singh Hooda | HarSVC/1618 | 928/28 Bharat Colony,Model Town Rohtak | BVSc&AH/RajA gri Uni/99 | 2.8.73 |

| रजिस्टरेशन नंबर | संस्थान | विवर | विकल्प | दृष्टि |
|---|------------------------|--|----------------------------|----------|
| 2004 Sanjay Kumar, S/o Late Bhola Prasad | BiharSVC/100 6/2000 | Vill.+PO-Hathiyanwa,Thana-Shekhpura,Dist.-Shekhpura | B.V.Sc.&A.H./B AU/96 | 03/07/70 |
| 2005 Sanjay Kumar, S/o Late Buresh Prasad | BiharSVC/176 4/2000 | Vill.-Tufanganj,PO-Sohsarai,Thana-Rahui,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/98 | 06/03/73 |
| 2006 Sanjay Kumar, S/o Sachchidanand Kumar | BiharSVC/144 7/2000 | Vill.-Chokandra, PO+Thana-Chewara,Dist.-Shekhpura | B.V.Sc. & A.H./RAU/93 | 02/10/68 |
| 2007 Sanjay Kumar, S/o Sri Kedar Nath Singh | BiharSVC/209 1/2001 | Vill.-Baikatpur,PO-Achey,Tharia-Koch,Dist.-Gaya | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 03/03/73 |
| 2008 Sanjay Kumar, S/o Sri Madan Prasad Singh | BiharSVC/204 1/2000 | Vill.-Gonaychak,PO+Thana-Sakohra,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 25/11/74 |
| 2009 Sanjay Kumar, S/o Sri Nand Kishore Singh | BiharSVC/205 4/2000 | Vill.+PO-Milki,Thana-Bihpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 15/01/71 |
| 2010 Sanjay Kumar, S/o Sri Ramchandra Sahu | BiharSVC/106 3/2000 | M.-New Madhukam Road No.2,Thana-Sukndeo Nagar, Dist.-Ranchi,Pin-834001 | B.V.Sc.&A.H./B AU/94 | 04/03/65 |
| 2011 Sanjay Kumar, S/o Sri Ramjee Prasad | BiharSVC/120 5/2000 | V.-Rajaura,PO-Sabi,Thana-Barbigha,Dist.-Shekhpura,Pin-811101 | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 30/03/73 |
| 2012 Sanjay Kumar, S/o Sri Sita Ram Prasad | BiharSVC/136 5/2000 | M.-Near Hanuman Gandhi Thana,PO+Thana-Rajgir,Dist.-Nalanda,Pin-803116 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 05/02/72 |
| 2013 Sanjay Kumar,S/o Sh Jage Ram | HarSVC/1630 | VPO Bachhod,T.Narnoi(M Garh) | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 18.6.73 |
| 2014 Sanjay Nath, S/o Sri Gupteshwar Nath | BiharSVC/195 3/2000 | M-New Area,Basar Talab,PO-G.P.O.-Gaya,Thana-Civil Line,Dist.-Gaya | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 10/11/68 |
| 2015 Sanjay Prasad, S/o Sri Rajendra Prasad | BiharSVC/136 2/2000 | Vill.-Satgaya,PO+Thana-Hariharganj,Dist.-Palamu | B.V.Sc. & A.H./BAU/92 | 02/03/69 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|---|--------------------|--|--------------------------|----------|
| 2016 | SANJAY SHARMA S/O SH. SHAM SUNDER SHARMA | PB.SVC-2238/2001 | 11, GHUMAN ROAD, NEAR RLY CROSSING NO. 22, PATIALA | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 07.04.76 |
| 2017 | Sanjay Yadav,S/o Sh A.S Yadav | HarSVC/1633 | VPO Kanina (M Garh) | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 3.7.76 |
| 2018 | Sanjay Yadav,S/o Sh G.L.Yadav | HarSVC/1632 | 11-Ref Model Town (Rewari) | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 5.5.75 |
| 2019 | SANJEET KUMAR S/O DR. CHIRANJI LAL | RAJSVC/2716/2000 | RZ.8E,PURAN NAGAR, PALAM COLON, NEW DELHI. | BVSc&AH/CCS HAU/95 | 06.09.72 |
| 2020 | SANJEEV GUMBER S/O SH. SHAM LAL GUMBER | PB.SVC-2212/2000 | ST. NO. 2, CHOWK NO. 4, JAIN NAGAR, ABOHAR, DIST. FEROZEPUR- 152116 | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 27.02.77 |
| 2021 | SANJEEV KAUSHIK | RAJSVC/2649/2000 | 95 F SAINT NAGAR,NEAR WOODEN STALL,HISAR,HARYANA | BVSc&AH/CCS HAU/93 | 02.04.71 |
| 2022 | Sanjeev Kr. Thakur, S/o Satyendra Kr. Thakur | BiharSVC/1515/2000 | Vill.+PO-Karua,Thana- Chakmchasi,Dist.- Samastipur,Pin.-848125 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 20/10/72 |
| 2023 | SANJEEV KUMAR AGARWAL S/O SRI BRINDAVAN DAS | UPVC/3237 | OPP. PANNA LAL DHARAMSHALA, HANUMAN GALI HATHRAS, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 04.08.75 |
| 2024 | Sanjeev Kumar Tiwary, S/o Sri Arjun Prasad Tiwary | BiharSVC/1980/2000 | Vill-Khamichak,PO+Thana- Amarpur,Dist.-Banka,Pin- 813101 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 05/01/69 |
| 2025 | Sanjeev Kumar, S/o Dr. Jaydeo Mandal | BiharSVC/1013/2000 | Vill.-Bhawanipur,PO- Nagarpara,Thana- Bihpur,Dist.-Bhagalpur,Pin- 853203 | B.V.Sc.&A.H./B AU/89 | 05/01/59 |
| 2026 | Sanjeev Kumar, S/o Dr. Ram Rahasya Singh | BiharSVC/1087/2000 | Vill.-Jalpura,PO- Sripalpur,Thana- Koilwar,Dist.-Arrah | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 01/01/72 |
| 2027 | Sanjeev Kumar, S/o Late Bal Kishore Singh | BiharSVC/1734/2000 | V-Nake NamSah Dargan Lane,Bhikhanpur,Thana- Kotwali,PO+Dt- Bhagalpur,P-812001 | B.V.Sc. & A.H./RAU/92 | 01/07/66 |

| राज्य नंमे | राज्य नंमे | अधिकारी | उपायकारी | उपायकारी |
|---|---------------------|--|-------------------------------|----------|
| 2028 Sanjeev Kumar, S/o Sri Dukharan Prasad | BiharSVC/960/ 2000 | Vill.-Lohra,PO- Lohra,Thana-Harmout,Dist- Nalanda,Pin-803110 | B.V.Sc.&A.H./B AU/96 | 27/12/67 |
| 2029 Sanjeev Kumar, S/o Sri Jageshwar Paswan | BiharSVC/197 3/2000 | Vill+PO-Laxmisagar,Thana- L.N.Mithila Un- Campus,Dist.- Darbhanga,Pin-848009 | B.V.Sc. & A.H./RAU/98 | 15/08/71 |
| 2030 SANJEEV P.S. S/O P.R. SAHEBRAO | APSVC/03531/ 2000 | MAREPALLY, MOGHA(P), MADNOOR(M), NIZAMABAD DT. | BVSc&AH/MAR ATHWADA AG.U./98 | 19.09.75 |
| 2031 Sanjeev Ranjan, S/o Sri G.P.S.Vidyarthi | BiharSVC/190 4/2000 | VILL.+PO-Sarsay,Thana- Sarsay,Dist.-Vaishali | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 01/09/67 |
| 2032 SANJEEVA RAO S. S/O BANGARU | APSVC/03667/ 2001 | CHERUVUMADHAVARAM(P), NELAKONDAPALLY(M), KHAMMAM DT.-507 169. | BVSc&AH/APA U/92 | 15.08.67 |
| 2033 SANJEEVAKUMAR R SHINDE S/O RAJABE B SHINDE | KARNASVC/3 141 | C/O DR. R.B. SHINDE QTR. NO. WA/204, T.S.P. COLONY, T.B. DAM, HOSPET | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 14.04.76 |
| 2034 SANJEV KHAN MEW | RAJSVC/2677/ -2000 | VILL.KAFANWARA, LAXAMANGARH,ALWAR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 21.12.71 |
| 2035 SANJIB DAS S/O LALMOHAN DAS | TRIPURA/90/2 000 | VILL.BARDOWALI PO.A.D.NAGAR,TRIPURA WEST,PIN-799003 | BVSc&AH/HPK VV/94 | 25/09/69 |
| 2036 SANJIB KUMAR PAL | WBSVC/2783/ 2000 | VILL BAJITPORE, P.O. LAXMINATHPORE, P.S.DOMKAL, DT. MURSHIDABAD. | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 2037 SANJIB MAJUMDAR S/O BARADA CHARAN MAJUMDAR | TRIPURA/18/2 000 | DHALESWAR (RENTED) AGARTALA | BVSc&AH/RAU/ 76 | 16/09/52 |
| 2038 SANJIV KUMAR S/O SH. VED VARAT | RAJSVC/2723/ 2000 | C/Q SH. DAL CHAND CHAUDHARY,86,SAVEEN A, JAISAMAND MAIN ROAD, UDAIPUR | BVSc&AH/GBP UA&T/92 | 30.06.69 |
| 2039 SANJIV MUNJOJI BHOSLE | RAJSVC/2611/ 2000 | A/P CHAPALI, TEH: BHIM, DIST. RAJSAMAND, VIA 95 DEOGARH, RAJASTHAN | BVSc&AH/MAU/ 95 | 03.05.72 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|-------------|--|-------------------------|---|---------------------------|------------|
| 2040 | SANKAR BHATTACHARYYA S/O BHUPESH CH. | TRIPURA/39/2 000 | COLLEGE TILLA, AGARTALA,PIN-799004 | BVSc&AH/BCK VV/80 | 02/03/55 |
| 2041 | SANKAR SEN S/O LT. PRATAP CH. SEN | TRIPURA/1/20 00 | 32- C.R.ROAD,P.O.AGARTALA 8 ,COLLEGE,TRIPURA | BVSc&AH/OU/5 | 03/01/37 |
| 2042 | SANKARA NARAYAN G. | KERALASVC/ 2520/2000 | 3/830,PERUNTHALMANNA (R),MELAPATTAMBI P.O., PATTAMBI,PALAKKAD PIN-679303 | BVSc/TNV&AS U/95 | 05.06.72 |
| 2043 | Sant Kumar Singh, S/o Late Pokhraj Singh | BiharSVC/199 2/2000 | Vill.-Arsandey,PO+Thana- R.V.College,Dist.- Ranchi,Pin-834006 | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 16/07/50 |
| 2044 | Santhosh Kumar D,S/o A Bomme Gowda | KARNASVC/3 097 | No.22,Byrappa Layout,RMV 2nd Stage,Nagashettahaly,Ban galore-94 | BVSc/UAS,B'lor e/98 | 8.4.76 |
| 2045 | SANTOSH KR. BHAUMIK S/O SH. HARE KRISHNA BHOWMIK | TRIPURA/28/2 000 | 2,VIVEKANANDA ROAD,MASTER PARA, TOWN PRATAPGARH,AGARTAL | BVSc&AH/BCK VV/77 | 07/04/54 |
| 2046 | Santosh Kr. Sinha, S/o Late Parmeshwar Pd. Sinha | BiharSVC/161 6/2000 | Moh.-Mahesh Niwas,Kadamkuan,Nala Road,Dist.-Patna,Pin:- 800003 | B.V.Sc. & A.H./MU/63 | 10/03/41 |
| 2047 | SANTOSH KUMAR JAIN S/O LATE SRI BABOOLAL JAIN | MPSVC/1933/ 01 | R-43, CIVIL LINE, TIKAMARH-472001 | BVSc&AH/JNKV V/77-78 | 29.08.53 |
| 2048 | Santosh Kumar S/o Sh. Arjun Das | HarSVC/1681 | VPO Gabipur, T. Barwala (Hisar) | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 5.1.75 |
| 2049 | SANTOSH KUMAR SINGH S/O SRI M.P. SINGH | UPVC/3315 | VILL.-BHIKNAPUR,PO- PATTI, NARENDRA PUR, DISTT. JAUNPUR | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 15.04.77 |
| 2050 | Santosh Kumar, S/o Sri Sidheshwar Prasad Singh | BiharSVC/196 0/2000 | Vill.-Khirbhaina,PO- Naromurar, Thana- Varasiganj, Dist. -Nawada- 805130 | B.V.Sc. & A.H./HPKU/97 | 25/05/71 |
| 2051 | SANTU DAS | WBSVC/2826/ 2000 | VILL KESHIARYBHUNIABARH P.O. PRATAPPUR, DT. MIDNAPUR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |

| SR. NO. | NAME | EDUCATIONAL QUALIFICATION | DATE OF BIRTH |
|---------|--|---|--------------------------------------|
| 2052 | Sapna Kumari, D/o Sri Ram Chandra Sahu | BiharSVC/143 9/2000 M.-South to BRB College, PO-Mohanpur Road, Thana+Dt.- Samastipur, Pin.-848101 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 01/07/72 |
| 2053 | SARADHI M. S/O SREERAMA MURTHY | APSVC/03633/ 2000 KOTAREDDY NAGAR, KANDUKURU, PRAKASAM DT.-523 105 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 15.04.77 |
| 2054 | SARAVANAN P. | KERALASVC/ 2521/2000 N.P.III-365 KAIKATTY,NELLIAMPATH Y,PALAKKAD PIN-678511 | BVSc/TNV&AS U/95 08.05.72 |
| 2055 | Sarda Tiwari, S/o Sri Deep Narayan Tiwari | BiharSVC/108 0/2000 M.-Ward No.10, Town Area, PO+Thana- Sewrahi, Dt.- Kushinagar, State-U.P. | B.V.Sc.&A.H./M U/70 07/05/47 |
| 2056 | SARFARAZ AHMED | VCI/2202/00 SUDHAN,VETY COLLEGE SKUAST JAMMU,R.S.PURA JAMMU(J&K)-181102 | BVSc&AH/SKU AS&T/00 26/8/70 |
| 2057 | SARMA DR. BABUL CHANDRA S/O LATE KANDARPESWAR DEV | ASM/1919/200 0 PROF. DEPTT. OF ANIMAL PHYSIOLOGY, C.V.SC., KHANAPARA-GHY-22 | BVSc&AH/AAU/ 75 |
| 2058 | SARMA DR. DILIP KUMAR S/O LATE DHANESWAR SARMA | ASM/1921/200 0 C/O SRI MALIN CH. SARMA, VILL. PATIKARA, P.O. JALKHANA DIST. NALBARI, ASSAM | BVSc&AH/AAU/ 2000 |
| 2059 | SAROJ KANTI GHOSH S/O SH. MAHIM CH. GHOSH | TRIPURA/42/2 000 P.O.RAMNAGAR ROAD-I, AGARTALA, TRIPURA (W) | BVSc&AH/BCK VV/80 28/04/53 |
| 2060 | SAROJ KUMAR S/O SRI VIRENDRA SINGH | UPVC/3280 VILL& PO-HARIPUR, DISTT. UNNAD (U.P.) - 241 502 | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 10.12.78 |
| 2061 | Saroj Kumar, S/o Dr. Devendra Prasad | BiharSVC/885/ 2000 Vill.-Madhopur, PO- Madhopur, Thana- Chandi, Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./B AU/96 02/12/68 |
| 2062 | Sarovar Sharan Singh, S/o Late Gunjo Pd. Singh | BiharSVC/151 7/2000 Vill.+PO- Mahsaura, Thana+Dist.- Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./RU/70 03/06/47 |
| 2063 | SARWAN SINGH KATARIA S/O SH. INDER SINGH KATARIA | PB.SVC- 2198/2000 VILL. CHUHARWALI, P/O ADAMPUR DOABA, DIST. JALANDHAR, PUNJAB | BVSc&AH/PAU/ 2000 01.10.75 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|---|---------------------|---|-------------------------------|----------|
| 2064 | Saryu Prasad Singh, S/o Late Nardayal Singh | BiharSVC/140 5/2000 | Vill.+PO-Mani,Thana-Vikramganj,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 13/07/46 |
| 2065 | Saryug Pd. Singh, S/o Late Mahadeo Prasad | BiharSVC/185 3/2000 | VIII.-Kokila,PO-Mirchaiganj,Thana+Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 15/03/43 |
| 2066 | Sashidhara R G,S/o Sh K R Govinda Reddy | Karna/3209 | Shashidhara Poultry Form,Mogalahalli,Molakalmur Tq,Chitradurga Dt | BVSc&AH/UAS B'llore/2000 | 30.4.78 |
| 2067 | SATAYANARAYANA REDDY A. S/O A. SAMBASIVA REDDY | APSVC/03578/ 2000 | DR. NO.15/1179-2, 3RD ROAD, SANJEEVANAGAR, TADPATRI-515411, | BVSc/APAU/69 | 01.06.45 |
| 2068 | SATHE ASHOK MANIK | MSVC/6406/20 01 | AT POST GUNWARE, TAL.PHALTAN, DIST.SATARA- 415523 | BVSc&AH/PDK V/1999 | 08-08-74 |
| 2069 | SATHYANARAYANA RAO M S/O M NANJUNDAIAH | KARNASVC/3 113 | C2, NAL CAMPUS AIRPORT ROAD, BANGALORE | BVSc/UAS B'LORE/70 | 29.11.46 |
| 2070 | Satikant Mishra, S/o Sri Kant Mishra | BiharSVC/187 1/2000 | M.-Flat No.25,Sri Kunj Apt.,PO+Thana-Budha Cly.,Patna-800001 | B.V.Sc. & A.H./BU/58 | 02/03/36 |
| 2071 | SATINDERJIT SINGH S/O SH. GURDIP SINGH | PB.SVC- 2236/2001 | VPO.BILGA, PATTI, MANSOOR, JALANDHAR | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 18.10.76 |
| 2072 | Satis Prasad, S/o Late Ram Triveni | BiharSVC/102 5/2000 | M.-Bhobhna Ward Bo.1,W.Bazar,PO+Thana-Bhobhna,Kaimur-821109 | B.V.Sc.&A.H./R AU/78 | 20/12/53 |
| 2073 | SATISH CHAND | RAJSVC/2636/ 2000 | V.P.O.,NUNHERA,TEH. SADPAU,DHOLPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 15.11.73 |
| 2074 | SATISH KUMAR S/O SH. BABU RAM | PB.SVC- 2226/2001 | H.NO.B-1-523, PREM NAGAR, NEAR BAWA SCHOOL, 151204, KOTKAPURA | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 08.04.77 |
| 2075 | Satish Kumar, S/o Sri Nand Kishore Prasad Singh | BiharSVC/191 8/2000 | Vill.-Ratanpura,PO-Dariyapur,Thana-Islampur,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/94 | 02/01/64 |

| SIMILAR NAME | REGN | ADD. | QUALIF | DOB |
|--|------------------------|---|---------------------------------|----------|
| 2076 Satish Kumar, S/o Sri Surendra Prasad Sah | BiharSVC/127 9/2000 | Moh.-BRB College,PO-Mohanpur Road, Thana+Dist.-Samastipur | B.V.Sc. & A.H./RAU/94 | 19/11/69 |
| 2077 SATISH SHARMA S/O SH. D.C. SHARMA | RAJSVC/2727/ 2000 | I/C GOVT. VET. HOSPITAL, DAWER,RAJSAMAND | BVSc&AH/CCS HAU/94 | 19.03.71 |
| 2078 Satya Narayan Prasad, S/o Sri Tej Narayan Prasad | BiharSVC/109 6/2000 | M.-Srikrishnapuri,Naya Tola,Thana-Kaji Mohmadpur,PO+Dist.- Muzaffarpur | B.V.Sc.&A.H./R AU/75 | 01/04/51 |
| 2079 Satya Narayan Roy, S/o LateJhamela Roy | BiharSVC/878/ 2000 | Moh.-Dariyapur Gola,PO-Bankipur,Thana-Kadamkuan, Patna-800004 | B.V.Sc.&A.H./M U/68 | 22/06/45 |
| 2080 SATYA NARAYAN SHARMA S/O SH. DEVI CHAND JI. | RAJSVC/2712/ 2000 | SATYAM, 88, RAJIVANAGAR, JODHPUR | BVSc&AH/UNI OF UDAIPUR/68 | 10.11.43 |
| 2081 Satya Narayan Singh, S/o Late Basudeo Singh | BiharSVC/143 1/2000 | Vill.-Ratan Tola,PO-Mehdavan,Thana-Maner,Dist.-Patna,Pin.- 801108 | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 01/01/54 |
| 2082 Satya Narayan Singh, S/o Late Shiv Bachan Singh | BiharSVC/165 4/2000 | Vill.-Bhokhari,PO-Bisodihari,Thana-Kargahar,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 01/11/47 |
| 2083 Satya Narayan Tiwari, S/o Late Rajendra Dutt Tiwari | BiharSVC/126 0/2000 | M.-Mahajan Toli No.2,PO-Arrah Town,Thana-Arrah Sadar,Dist.-Bhojpur, Arrah | B.V.Sc.&A.H./R U/68 | 14/07/49 |
| 2084 Satya Narayan Yadav, S/o Late Chandra Prasad Yadav | BiharSVC/145 0/2000 | Vill.+PO-Vazkhora,Thana-Kisanpur,Dist.-Supaul,Pin.- 847402 | B.V.Sc. & A.H./RAU/89 | 02/06/65 |
| 2085 SATYA NIDHI SHUKLA S/O LATE SHRI PREMSUKH SHUKLA | MPSVC/1920/ 00 | SHUKL RAJ ASHRAM, NAGAR BAG, CHHJATARPUR-471001 | BVSc&AH/IGKV V/99-2000 | 20.04.76 |
| 2086 SATYA PAL SINGH RATHI S/O SRI MANGE RAM | UPVC/3220 | 733, M.I.G. AVAS AVAM VIKAS COLONY, BULANDSHAHAR, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/99 | 04.01.58 |
| 2087 SATYA SUNDER DEB BERMA S/O BIRALAL DEB BARMA | TRIPURA/85/2 000 | NORTH BANAMALIPUR AGARTALA,TRIPURA WEST | BVSc&AH/BAU/ 88 | 02/11/64 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-------------|---|---------------------|--|-------------------------|------------|
| 2088 | Satyaender Singh,S/o Sh Narain Singh | HarSVC/1637 | H.No.387 Old Housing Board Colony,Rohtak | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 27.10.76 |
| 2089 | Satyajay Kerketta, S/o Sri Filip Kerketta | BiharSVC/171 0/2000 | Vill.-Sikariya,PO+Thana-Bhandariya,Dist.-Gadhiwa,Pin.-822125 | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 08/10/69 |
| 2090 | SATYANARAYANA G. S/O G. GANGANNA | AP SVC/03571/ 2000 | VELAVAPETA, KAIKLOOR, KRISHNA DT. 521 333. | BVSc/APAU/68 | 13.02.45 |
| 2091 | SATYANARAYANA M.V. S/O M. VENKATRAMANARASIA | AP SVC/03545/ 2000 | H.NO.1-11-25/2, BHAVANI COLONY, PREMVATHIPET, RAJENDRANAGAR, | BVSc&AH/APA U/87 | 31.10.65 |
| 2092 | SATYANARAYANA REDDY P. S/O P. VENKATESWARA | AP SVC/03530/ 2000 | NAGULAVARAM(P) MACHERLA (M), GUNTUR DISTRICT. | BVSc&AH/ANG RAU/99 | 15.06.74 |
| 2093 | Satyaprakash Narayan, S/o Late Satya Narayan Sahu | BiharSVC/107 9/2000 | Vill.+Thana-Kopa,PO-Kapa Bazar,Dist.-Chapra,Pin-841214 | B.V.Sc.&A.H /R AU/84 | 13/05/59 |
| 2094 | Satydeo Singh, S/o Late Harinandan Singh | BiharSVC/180 0/2000 | Vill.+PO-Moaap Kla,Thana-Tarari,Dist.-Arrah | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 02/09/42 |
| 2095 | Satyendra Kumar Chaudhary, S/o Sri Laxmeshwar Chaudhary | BiharSVC/208 1/2001 | Vill.+PO-Nehra,Thana-Merigachi,Dist.-Darbhanga | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 03/05/74 |
| 2096 | Satyendra Kumar, S/o Sri Hare Krishan Prasad | BiharSVC/183 1/2000 | Vill.-Govindpur,PO-Bangpur,Thana-Parbalpur,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./BAU/82 | 10/11/56 |
| 2097 | Satyendra Prakash, S/o Sri Deo Mangal Singh | BiharSVC/134 2/2000 | Vill.+PO-Sivarampur,Thana-Paliganj,Dist.-Patna,Pin-801110 | B.V.Sc. & A.H./RAU/81 | 09/07/55 |
| 2098 | SATYVRAT SINGH S/O SRI SITA RAM SINGH | UPVC/3304 | VILL-LAHASANI,PO-NAGARA,DIST.-BALLIA,U.P. | BVSc&AH/TNV &AScUNIV/98 | 14.09.74 |
| 2099 | SAURBH KUMAR GUPTA S/O SH. PURUSHOTTAM | RAJSVC/2728/ 2000 | NIMOD KUCHAMANCITY, NAGAUR, RAJASTHAN | BVSc&AH/CSA KEPVV/96 | 05.04.69 |

| STUDY NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|---|----------------------|--|-----------------------|----------|
| 2100 SAVITHA A. | KERALASVC/ 2495/2000 | AMMANATH(H), EDAKKULAM, P.O. THANGALUR, TIRISSUR PIN-680581 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 05.05.77 |
| 2101 SAWASE PRAVIN SUBHASH | MSVC/6403/20 00 | AT POST TUNGAT, TAL. PANDHARPUR, DISTL. SOLAPUR- 413304 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 02-06-78 |
| 2102 SAWLE GANESH KISHAN | MSVC/6377/20 00 | AT WARUD GAWLI, POST SAWAD, TAL.HINGOLI, DIST. HINGOLI- 431513 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 26-12-77 |
| 2103 Sayed Nazimuddin Ahamad, S/o Late Sayed Hashimuddin Ahamad | BiharSVC/122 8/2000 | M-Lodi Katra,Khan Bahadur Moinuddin Road,PO+Thana-Chowk Thana,Patna-800008 | B.V.Sc.&A.H./M U/66 | 10/05/45 |
| 2104 Seema Bhakor,D/o Sh Umed Singh | HarSVC/1629 | Sawant Hospital, Near Campu Chowk,Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 2.2.78 |
| 2105 SEENA S.I. | KERALASVC/ 2500/2000 | PUTHENVILA VEEDU,NEELASWARAM P.O.,PADINGJATTINKARA,K OTTARAKKARA PIN- | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 13.03.74 |
| 2106 SENAPATI DR.(MS) MITALI D/O SRI RUPESWAR SENAPATI | ASM/1916/200 0 | C/O SJT.R. SENAPATI, VILL.&P.O. PHULAGURI, DIST. NAGAON (ASSAM) | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 2107 SENTHIL KUMAR K. | KERALASVC/ 2457/2000 | 2/613, NAGARIPURAM, MANNUR P.O., PALAKKAD DIST. | BVSc/TNV&AS U/95 | 23.08.71 |
| 2108 Shahadat Hussain, S/o Late Hafiz Mehadi Hasan | BiharSVC/204 5/2000 | Vill.-Shamshernagar,PO-Polytechnique,Thana-Bhuli,Dist.-Dhanbad | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 11/02/54 |
| 2109 SHAHZAB SINGH S/O SH. MALKIT SINGH | PB.SVC- 2240/2001 | 42, SHANT PARK, NEAR AGGAR NAGAR-I, LUDHIANA | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 25.10.76 |
| 2110 SHAIK ABDUL RAHAMAN S/O SHAIK KHADEER SAHIB | APSVC/03583/ 2000 | GOLLAPETA(V), GUMPALAPADU(S.O.), NELLORE DT. | BVSc/APAU/75 | 01.07.48 |
| 2111 Shalendra Prasad, S/o Sri Ram Kishun Mahto | BiharSVC/136 9/2000 | Vill.-Bhareti,PO-Yogipur,Thana-Hilsa,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/92 | 15/01/67 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|-------------------------|--|-----------------------------|----------|
| 2112 | Shailendra Bharati, S/o Late Yogeshwar Pd. | BiharSVC/119 9/2000 | M.-Saraswati Nivas,PO-Lalpur,Thana-Near Lalpur,Ranchi-834001 | B.V.Sc.&A.H./B AU/84 | 01/01/60 |
| 2113 | Shailendra Kr. Singh, S/o Late Ram Chandrama Singh | BiharSVC/167 5/2000 | Vill.-Kadru,PO-Doranda,Thana-Agora,Dist.-Ranchi,Pin.-834002 | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 05/03/69 |
| 2114 | Shailendra Kr. Sinha, S/o Sri Parmeshwar Sinha | BiharSVC/114 1/2000 | M.-Sinha Niwas Saidpur,PO-Bankipur,Thana-Kadamkuan,Patna-800004 | B.V.Sc.&A.H./B AU/83 | 28/01/61 |
| 2115 | Shailendra Kr., S/o Late Praveg Singh | BiharSVC/151 4/2000 | Vill.-Manohar Bigha,PO-Telhara,Thana-Ekangersarai,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 28/06/47 |
| 2116 | Shailendra Pd. Singh, S/o Sri Sidheshwari Prasad Singh | BiharSVC/169 3/2000 | Vill.+PO-Rajendra Nagar,Road No.1,Thana-Kadamkuan,Dist.-Patna,Pin-800016 | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 12/04/45 |
| 2117 | SHAJI K.C. | KERALASVC/ 2441/2000 | 22/VI, MARAYOOR P.O.,IDUKKI DIST. PIN - 685620 | BVSc/TNV&AS U/92 | 12.05.69 |
| 2118 | Shakil Ahamed Md., S/o Md. Moiuddin Shaida | BiharSVC/100 2/2000 | Vill.-Janipur,Thana-Janipur, PO-Janipur,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./B AU/84 | 01/10/60 |
| 2119 | Shaligram Mandal, S/o Sri Sampatilal Mandal | BiharSVC/161 2/2000 | Vill.-Marendrapur,PO-Mohdivmath,Dist.-Madhubani,Pin-847452 | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 02/02/58 |
| 2120 | Shaligram Sharma, S/o Late Shivnandan Sharma | BiharSVC/128 1/2000 | Vill.+PO-Marmu,Thana-Ghoshi,Dist.-Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 03/11/44 |
| 2121 | Shambhu Kumar, S/o Late Jitendra Kumar | BiharSVC/977/ 2000 | Vill.-Sinduarah,PO-Manker,Thana-Chandi,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R AU/97 | 07/06/73 |
| 2122 | Shambhu Nath, S/o Late Tarkeshwar Pd. | BiharSVC/133 2/2000 | M.-Abadganj,SP Road,PO+Thana-Daltenganj,Dist.-Palamu,Pin-800020 | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 04/10/43 |
| 2123 | Shambhu Shran Singh, S/o Sri Ram Kripal Singh | BiharSVC/997/ 2000 | Vill.-Awathi,PO-Awathi,Thana-Dayath,Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./G BPUA&T/78 | 11/10/55 |

| SRM/N NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|--|-------------------------|---|--------------------------------------|----------|
| 2124 SHAMEEM H. | KERALASVC/ 2504/2000 | SHAREENA MANZIL, VLANGAMURI, NEYYATTINKARA, TRIVANDRUM-695121 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 18.05.76 |
| 2125 Shamshul Haque, S/o Md. Amin | BiharSVC/199 7/2000 | M-Millat Colony, Block Road, PO+Thana- Kanke, Dist.-Ranchi, Pin- 834006 | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 02/01/52 |
| 2126 SHANILA KUMAR P. D/O P.S.R. SANTA KUMAR | APSVC/03621/ 2000 | PUTRELA(P), KRISHNA DT.-521227 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 26.08.76 |
| 2127 Shankar Arun Kumar, S/o Sri Yamuna Prasad | BiharSVC/111 2/2000 | Vill.-Rampur, PO- Kachnama, Thana- Makhdumpur, Dist.- Jehanabad, Pin-804422 | B.V.Sc.&A.H./R AU/76 | 17/01/54 |
| 2128 Shankar Dayal Singh, S/o Late S.K. Singh | BiharSVC/147 7/2000 | Vill.+PO+Thana-Lar, Dist.- Deoria | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 13/12/44 |
| 2129 Shankar Kar, S/o Sri Shyamal Kanlikar | BiharSVC/198 4/2000 | V-Mandraj Bigha, PO-RS Gaya, Thana-Delha, Dist.- Gaya, Pin-823002- | B.V.Sc. & A.H./WBUAFS/2 000 | 19/05/75 |
| 2130 SHANKARAGOWDA S/O BHIMNEGOWDA N MUDIGOWDAR | KARNASVC/3 144 | HALLUR POST, BAGALKOTE TQ. AND DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 01.06.76 |
| 2131 SHARAD KUMAR S/O SRI ARVIND SINGH | UPVC/3209 | VIL.&P.O.-IBRAHIM PATTI, BALLIA, U.P. | BVSc&AH/KER ALA AGRI UNIV/2000 | 07.03.75 |
| 2132 SHARAD VISHNU BHALE S/O V.P. BHALE | MPSVC/1889/ 00 | F-8, POLYTECNIC CAMPUS RAJGARH ROAD, JHABUA - 457661 | BVSc&AH/JNKV V/85-86 | 11.08.63 |
| 2133 Sharavan Kr. Prasad, S/o Late Chotan Ram | BiharSVC/125 0/2000 | Vill.+PO+Thana- Parvalpur, Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R AU/74 | 07/12/49 |
| 2134 Sharda Kumar, S/o Late Nand Prasad | BiharSVC/157 9/2000 | Vill.-Laxmipur, PO- Gauripur, Thana- Pasotampur, Dist.-W. Champanar (Betiah) | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 15/06/48 |
| 2135 SHARMA DR.(MS) POORNIMA D/O MR. AVANINDRA KR. | ASM/1949/200 1 | C/O AMIT STORES, A.T. ROAD, JORHAT, PIN- 785001 (ASSAM) | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |

| SR. NO. | NAME | R. NO. | ADD. | QUALIF. | DOB |
|---------|---|------------------------|---|--------------------------|----------|
| 2136 | SHARMA DR.(MS)PANCHAMI D/O DR. JAGANNATH | ASM/1933/200 0 | C/O MS. B. UPADHAYA, GANESH MILL ROAD, TEZPUR, DIST. SONITPUR, ASSAM | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 2137 | Shashi Bhushan Pandey, S/o Late Vidyadhar Pandey | BiharSVC/901/ 2000 | Moh.-Cardanibagh,Thana- Gardanibagh,PO- Anisabad,Dist.-Patna,Pin- 800002 | B.V.Sc.&A.H./R AU/72 | 24/07/48 |
| 2138 | Shashi Bhushan Pd. Gupta, S/o Late. Nageshwar Pd. | BiharSVC/173 7/2000 | Vill.-Rampur Alauli,PO+Thana- Alauli,Dist.-Khagaria | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 05/05/58 |
| 2139 | Shashi Bhushan Pd. Sinha, S/o Sri Banke Bihari Prasad | BiharSVC/113 1/2000 | Vill.-Ishwaarchak,PO- Kathrahi,Thana-Bind,Dist.- Nalanda,Pin.-803101 | B.V.Sc.&A.H./R AU/92 | 19/01/66 |
| 2140 | Shashi Bhushan Verma, S/o Sri Premchand Verma | BiharSVC/141 6/2000 | Vill.-East Moravadi,PO-RV College Campus,Thana- Kanke,Ranchi-834008 | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 03/11/46 |
| 2141 | Shashi Bhushan Verma, S/o Sri Yogendra Pd. Verma | BiharSVC/131 7/2000 | M.-Friend's Colony,PO- Ashiananagar,Thana- Shastrinagar,Patna-800025 | B.V.Sc. & A.H./RAU/75 | 05/07/52 |
| 2142 | Shashi Bhushan Pd. Singh, S/o Sri Raja Ramchandra Pd. Singh | BiharSVC/114 5/2000 | Vill.+PO-Aiphani,Thana- Ariyari,Dist.-Shekhpura | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 13/07/48 |
| 2143 | SHASHI KANT RAGHUNATH RAUT, S/O. SH. RAGUNATH | RAJSVC/2756/ 2001 | 1/C, GOVT. VET. HOSPITAL DEGANA NAGOUR | BVSc&AH/KKV/ 97-98 | 09-03-76 |
| 2144 | Shashi Kr. Sinha, S/o Late Sukdeo Narayan Sinha | BiharSVC/166 8/2000 | Vill.+PO+Thana- Barharia,Dist.-Siwan | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 01/07/43 |
| 2145 | Shashibhushan Prasad, S/o Late Ramtahal Prasad | BiharSVC/177 1/2000 | Vill.+PO-Baris Maliva,Thana-Khagaria,Pin- 851203 | B.V.Sc. & A.H./RAU/89 | 01/03/64 |
| 2146 | Shashidhar Rao, S/o Late Baldeo Pd. Rao | BiharSVC/140 6/2000 | Vill.-Baratikar,PO- Leelatari,Thana- Barahat,Dist.-Banka | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 06/01/61 |
| 2147 | Shashidhar Singh, S/o Late Darwari Prasad Singh | BiharSVC/143 5/2000 | Vill.-Baniya,PO- Bhawanpur,Thana- Gopalpur,Dist.- Bhagalpur,Pin.-853204 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 11/12/69 |

| राज्य | नाम | राज्य | नाम | उमेर | दिनांक |
|-------|---|-------------------------|---|---------------------------|----------|
| 2148 | Shasikant Prasad, S/o Sri Ramkeshwar Singh | BiharSVC/131 6/2000 | Vill.-Bhaduha,PO-Itanagar,Thana-Rahni,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RAU/82 | 02/11/58 |
| 2149 | Shatrughan Pd. Singh, S/o Late Nityanand Singh | BiharSVC/170 0/2000 | Vill.+PO-Sonvarshaghat,Thana-Chauthom,Dist.-Khagaria,Pin.-851201 | B.V.Sc. & A.H./BAU/92 | 01/01/65 |
| 2150 | Shayam Mukund Sahay, S/o Late Shivnandan Pd. | BiharSVC/156 3/2000 | Vill.-Salempur,PO+Thana-Tikari,Dist.-Gaya | B.V.Sc. & A.H./RU/66 | 07/06/42 |
| 2151 | SHEEJA K. | KERALASVC/ 2455/2000 | LALITHA BHAVAN, NR. KSEB,VAZHAYILA RD.,PEROORKADA P.O., TRIVANDRUM-5. | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 29.03.71 |
| 2152 | SHEELA SALLY T. GEORGE | KERALASVC/ 2449/2000 | THADAMALAYIL MELUKAVU P.O. KOTTAYAM-686652 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 29.01.76 |
| 2153 | SHEENA JOSEPH | KERALASVC/ 2473/2000 | KIZHAKKALAYIL(H),NAKA PUZHA P.O.,KALLOORKAD(VIA),M UVATTUPUZHA,ERNAKUL | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 12.05.77 |
| 2154 | SHEKAR S/O SHIVANNA | KARNASVC/3 071 | CHINCHOLI (B)POST ALAND TQ.GULBARGA DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAR/99 | 03.06.76 |
| 2155 | Shekhar Kumar, S/o Sri Bhuneshwar Mahto | BiharSVC/204 0/2000 | Vill.+PO-Paharpur,Thana-Maidni Chak,Dist.-Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./RAU/88 | 14/01/64 |
| 2156 | SHELLY KAUR D/O SH. BHUPINDER SINGH | PB.SVC- 2250/2001 | H.NO.2516, PHASE-VII, MOHALI. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 21.12.75 |
| 2157 | Sheo Janan Singh, S/o Sri Sidhnath Singh | BiharSVC/828/ 2000 | Vill.-Maner Telpa, P.O.+Thana - Bikram, Dist. - Patna | B.V.Sc.&A.H./R AU/75 | 02/08/52 |
| 2158 | Sheo Mohan Lal S/o Late J.M. Lal Sinha | Karna/3095 | No. 255/99, Kundiri Rakabganj, Lucknow, Uttar Pradesh | BVSc&AH/UPA U/66 | 9.11.44 |
| 2159 | Sheo Shankar Singh, S/o Sri Sukhi Singh | BiharSVC/171 6/2000 | Vill.-Kearchi,PO+Thana-Kudra,Dist.-Kaimur | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 06/07/49 |

| SLN NO. | NAME | RNUM | ADD | QUALF | BB |
|------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 2160 | Sheopujan Kumar, S/o Sri Kanchan Thakur | BiharSVC/164 0/2000 | Vill.+PO- Pawai,Thana+Dist.- Aurangabad | B.V.Sc. & A.H./BAU/88 | 24/09/59 |
| 2161 | Sheshmuni Ram, S/o Sri Shivraj Ram | BiharSVC/170 4/2000 | Vill.-Thori Pandeypur,PO+Thana- Murar,Dist.-Buxer | B.V.Sc. & A.H./RAU/74 | 11/07/48 |
| 2162 | SHETA RAGHUWANSI D/O DR. RAJENDRA SINGH | UPVC/3276 | D/O RAJENDRA SINGH HEAD, L.E.S. DIVISION, IVRI, IZZAT NAGAR, BAREILLY, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 09.09.77 |
| 2163 | SHIKALGAR KHALID NIJAMUDDIN | MSVC/6414/20 01 | AT POST BAGANI, MOMIN GALLI, TAL.WALWA, DIST. SANGLI- 416302 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 22-05-78 |
| 2164 | SHIKHARE BHAVANA ANKUSH | MSVC/6404/20 01 | 151, AJMERI MOHALLA, GAVDEVI, DONGRI, ANDHERI, MUMBAI- 400058 | BVSc&AH/KKV/ 1999 | 15-09-75 |
| 2165 | Shilanath Jha, S/o Late Jaynandan Jha | BiharSVC/184 7/2000 | Vill.+PO+Thana- Fulparas,Dist.- Madhubani,Pin-847409 | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 03/01/44 |
| 2166 | SHILPA SOOD | VCI/2218/00 | 10/106, NEW CAMPUS, CCSHAU, HISAR-125004 | BVSc&AH/HVC/ 00 | 9.6.75 |
| 2167 | Shilpa Sood,S/o Sh Dev Raj Sood | HarSVC/1615/ | 10/10C,N Campus, HAU Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/99 | 9.6.75 |
| 2168 | SHINKAR DHANANJAY SUBHASH | MSVC/6390/20 00 | INFRONT OF ANGLO URDU HIGH SCHOOL, DEEPSHRI, PRATAP NAGAR, JALGAON | BVSc&AH/MPK V/2000 | 21-09-77 |
| 2169 | SHIRAZ KHAN S/O KHAN NAZARUDDIN KHAN | APSVC/03559/ 2000 | S/O SRI K.N.KHAN,PRINCIPAL,N.B .K.R.S&A COLLEGE, VIDYANAGAR, | BVSc&AH/APA U/98 | 12.06.74 |
| 2170 | SHITAN SINGH S/O SH. SHOJI RAM MEENA | RAJSVC/2717/ 2000 | V.P.O. TIKAR TEH. JOHAZPUR DIST. BHILWARA, RAJASTHAN | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 30.07.70 |
| 2171 | Shiv Chandra Pd. Gupta, S/o Sri Jahru Pd. Gupta | BiharSVC/138 3/2000 | Vill.-Madhupur,PO+Thana- Laukaha,Dist.-Madhubani | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 01/12/54 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|---|---------------------|---|------------------------------|----------|
| 2172 | Shiv Kumar Sharma, S/o Sri Pran Nath Sharma | BiharSVC/183 5/2000 | Vill.-Simura,PO-Mednipur Barahiya,Thana-Kurtha,Dist.-Jehanabad | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 02/03/47 |
| 2173 | SHIV KUMAR T. S/O T. LAXMAN RAO | APSVC/03534/ 2000 | H.NO.10- 64,"VISHNUWARDHAN NIVAS" RATHGALLY, MADNOOR, | BVSc&AH/MAR ATHWADA AG.U./99 | 16.02.77 |
| 2174 | Shiv Shankar Kumar, S/o Sri Bindeshwari Mahto | BiharSVC/206 4/2000 | M-Salimpur Ahra,Gali No.2,PO- Kadamkuan,Thana-Gandhi Maidan,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 28/01/77 |
| 2175 | Shiv Shankar Tiwari S/o Sh. Jay Narayan Tiwari | BiharSVC/112 4/2000 | Vill.+Thana+PO- Mashrak,Dist.-Saran (Chapra) | B.V.Sc.&A.H./R U/68 | 05/05/47 |
| 2176 | Shiv Shankar Upadhyay, S/o Late Deonandan Upadhyay | BiharSVC/130 4/2000 | Vill.-Mandiha,PO- Baranwka,Thana- Darihar,Dist.-Rohtas,Pin.- 821306 | B.V.Sc. & A.H./BAU/86 | 01/02/61 |
| 2177 | SHIVAKUMAR M S/O P MADAIAH | KARNASVC/3 126 | VINAYAKA NAGAR, TALKAD, T.N. PUR TQ., MYSORE DIST. | BVSc/UAS B'LORE/98 | 05.05.75 |
| 2178 | SHIVANANDA M.S. S/O SANGAPPA | KARNASVC/3 073 | DHAVALAGI POST MUDDEBIHAL,TQ BIJAPURA DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAR/99 | 23.10.76 |
| 2179 | Shivaraju T,S/o Thimmaiah R | KARNSVC/318 5 | Lingapura Siragate Post,Sira Road Tumkur Tq & Dist | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 10.7.77 |
| 2180 | Shivarajan Prasad Sinha, S/o Sri Vindyachal Pd. Sinha | BiharSVC/831/ 2000 | Moh.-Punaichak, Thana- Shastrinagar, Dist. - Patna, Pin - 800023. | B.V.Sc.&A.H./R AU/77 | 04/02/54 |
| 2181 | Shivendra Kr.Choudhary, S/o Sri Sanchi Pd. Choudhary | BiharSVC/926/ 2000 | Vill.-Rampur,PO- Bharkon,Thana- Amarapur,Dist.-Banka,Pin- 813126 | B.V.Sc.&A.H./R AU/93 | 04/2/65 |
| 2182 | Shivjee Pandey, S/o Sri Jagmohan Pandey | BiharSVC/179 7/2000 | Vill.+PO-Mahuanw, Thana- Biha,Dist.-Arrah,Pin- 802183 | B.V.Sc. & A.H./RAU/82 | 27/02/58 |
| 2183 | SHIVMOORTIPRASAD SHARMA S/O LATE SHRI GANGAPRASAD | MPSVC/1930/ 01 | BARA MOHALLA POST BAN SAGAR DISTT. REWA-486001 | BVSc&AH/JNKV V/82-83 | 01.01.59 |

| SR. NO. | NAME | RNUM | ADDRESS | QUALIF. | DOB |
|---------|--|------------------------|---|---------------------------|----------|
| 2184 | Shivmuni Upadhayay, S/o Late Juthan Upadhayay | BiharSVC/185 0/2000 | V.-Upadhaya Sagar,PO- Dapari,Thana- Ratnagadh,Dist.-Kaimur (Bhabhua) | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 08/08/42 |
| 2185 | Shivnandan Pd. Sinha, S/o Sri Deonath Prasad Singh | BiharSVC/171 4/2000 | Vill.-Balwapur,PO+Thana- Asthanwal,Dist- Nalanda,Pin-803107 | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 22/01/48 |
| 2186 | Shivpujan Singh, S/o Sri Yaduram Singh | BiharSVC/130 7/2000 | Vill.-Jewari,PO+Thana- Sayedraja,Dist.- Chandauli,State-U.P. | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 02/02/43 |
| 2187 | Shobhakant Pathak, S/o Late Ramchandra Pathak | BiharSVC/198 9/2000 | Vill.+PO-Gaura,Thanta- Teghra,Dist.-Begusarai | B.V.Sc. & A.H./RAU/80 | 02/01/55 |
| 2188 | Shobhakant Yadav, S/o Late Nand Kishore Yadav | BiharSVC/189 3/2000 | V.-Laxmipur,PO- Bhartichandwa,Thana- Udakishunganj,Dt.- Madhepura,P-852220 | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 15/01/54 |
| 2189 | Shradhendu Kr. Gupt, S/o Sri Rajendra Kr. Gupt | BiharSVC/923/ 2000 | Vill.-Shivganj,PO= Shivganj,Thana- Shivganj,Dist.-Arrah | B.V.Sc.&A.H./B AU/84 | 19/05/60 |
| 2190 | Shravan Kumar Sah S/o Sri Mahendra Sah | BiharSVC/114 9/2000 | Vill.+PO- Belamagh,Nehli,Motia,Thana Uttarpur,Samastipur- 848118 | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 01/11/71 |
| 2191 | Shravan Kurhar, S/o Late Radhey Prasad | BiharSVC/868/ 2000 | Vill.-Jelgovind,PO+Thana- Barh,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./R AU/78 | 01/03/53 |
| 2192 | Shravan Kumar, S/o Sri Janak Prasad | BiharSVC/156 2/2000 | Vill.-Bari Kevay,PO- Datyanwa,Thana- Shahjahanpur,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/90 | 01/01/61 |
| 2193 | Shrawan Kumar, S/o Sri Sadhusaran Kumar | BiharSVC/194 6/2000 | V-Nayakhanda,PO- Telwar,Thana- Harihatt,Dist.-Nalanda,Pin- 803204 | B.V.Sc. & A.H./RAU/98 | 25/05/72 |
| 2194 | SHREEDHAR PATEL S/O SRI SHIVA CHARAN PATEL | UPVC/3215 | VILL. SARSATPUR,PO- BAHUTHA,DIST.PRATAPG ARH,U.P.-230135 | BVSc&AH/UAS/ 97 | 18.03.74 |
| 2195 | SHREEKANTH NEERALAGI S/O BASAVANAGOWDA | KARNAsvc/3 074 | NEAR MUNESHWARA BUILDING, BADIKAMAN ROAD, BIJAPUR | BVSc&AH/UAS DHARWAR/99 | |

| SURNAME NAME | DEPT | ADD | QUALIF | BUS |
|---|------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| 2196 Shri Krishna Vasudev,S/o Sh Vasudev Mahadeo | HarSVC/1621 | H.No.106Q,Sector-9,Urbn Estate Karnal | BScVety/Uni of Bombay/58 | 7.8.34 |
| 2197 SHRIRAM SONI S/O SH. LAXMI NARAYAN SONI | RAJSVC/2705/ 2000 | NEW LANE NEAR GHOOM CHAKKR,GANGASHAHAR, 0 BIKANER | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 | 01.02.72, |
| 2198 SHRIRAME PRASHANT PANJABRAO | MSVC/6309/20 09 | AT POST JUWADI, TAL. SELOO, DIST. WARDHA- 442104 | BVSc&AH/DR.P DKV/99 | 18-02-74 |
| 2199 SHRISH CHANDRA S/O SRI N.P. SRIVASTAVA | UPVC/3205 | 63 G/2, STANLY ROAD, BELL (NEW COLONY),ALLAHABAD, U.P. | BVSc&AH/AGR A UNIV./72 | 30.12.47 |
| 2200 SHRISHAIL PADEDAR S/G BHIMAPPA RAMAPPA | KARNASVC/3 107 | HARUGERI POST, RAIBAG TALUK, BELGAUM DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/ 97 | 20.02.77 |
| 2201 SHWET GOSWAMI S/O SH. SURICHANDRA GOSWAMAI | RAJSVC/2709/ 2000 | OUTSIDE JASUZO GATE,MALIYOR KA MOHALLA,BIKANER | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 | 22.11.75 |
| 2202 SHWETA TRIVEDI D/O DR. AMRESH KUMAR | UPVC/3294 | 1/3/2 PHOOL BAGH, PANTNAGAR (U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/98 | 10.06.75 |
| 2203 Shyam Bihari Singh, S/o Sri Ram Janam Singh | BiharSVC/173 1/2000 | Moh.-Civil Line Buxar,PO+Thana+Dist.- Buxar | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 26/01/58 |
| 2204 SHYAM DR. KESHOB S/O MR. DIKENDRA SHYAM | ASM/1892/200 0 | VIL. & P.O. OUGURI SHYAM DIST. SIBSAGAR, PIN - 785 692 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 2205 Shyam Jee, S/o Late Bhagwan Mehta | BiharSVC/121 9/2000 | Vill.+PO-Nasariganj,Thana- Deegha,Dist.-Patna,Pin- 800002 | B.V.Sc.&A.H./M U/71 | 06/07/45 |
| 2206 Shyam Kant Singh, S/o Late Birja Singh | BiharSVC/147 3/2000 | Vill.-Dularpur,PO- Lakhanpur,Thana- Punam,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 | 01/02/62 |
| 2207 Shyam Lal Marandi,S/o Sri Gopal Marandi | BiharSVC/112 7/2000 | Vill.-Bhukurlya,PO-Cokula Kurawa,Thana- Baunsi,Dist.-Banka,Pin- 813104 | B.V.Sc.&A.H./R AU/97 | 31/12/69 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALF | |
|------|--|------------------------|---|-------------------------|----------|
| 2208 | Shyam Nandan Choudhary, S/o Late Surya Narayan | BiharSVC/157 4/2000 | M.-Sushil Babu Colony,PO- Head Post Office,Thana+Dist.- Madhubani,Pin.-847211 | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 12/06/44 |
| 2209 | SHYAM SINGH | DVC/0553/200 0 | 54,SAHAYOG APTS.MAYUR VIHAR,PHASE-1,DELHI-24 | BVSc&AH/GBJP UA&T/93 | 16/12/66 |
| 2210 | SHYAM SINGH S/O SRI RAKAM SINGH | UPVC/3218 | VILL.-BALEKI,PO- IQBALPUR,DIST.HARIDW AR,U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/93 | 16.12.66 |
| 2211 | Shyam Sundar Prasad, S/o Sri Shiv Mahto | BiharSVC/131 4/2000 | M.-Magadh Colony,Bari Pahari,PO+Thana-Sogorai,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./BAU/81 | 24/11/57 |
| 2212 | Shyam Sunder Baitha, S/o Sri Jugal Lal Baitha | BiharSVC/186 2/2000 | Moh.+PO-Ujjain Tola, Thana+Dist.-Bettiah,Pin- 845428 | B.V.Sc. & A.H./RAU/79 | 15/04/55 |
| 2213 | SHYAM SUNDER S. S/O S. LINGAIAH | APSVC/03592/ 2000 | 41-C, APHB,OLD SANTOSH NAGAR COLONY, SAIDABAD(P), HYDERABD-59 | BVSc&AH/APA U/67 | 08.07.43 |
| 2214 | SHYAMAL DASGUPTA S/O LT.MONORANJAN DAD GUPTA | TRIPURA/67/2 000 | S/O LT.MONORANJAN DAS GUPTA A.K.ROAD,JOYNAGAR,AG T.-799001 | BVSc&AH/MAU/ 87 | 03/02/65 |
| 2215 | ShyamDeo Narayan Choudhary,S/o Late Jagdip Narayan | BiharSVC/150 4/2000 | Vill.+PO-Gaura,Thana-Teghre,Dist.-Begusarai | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 16/08/46 |
| 2216 | SIDDHARTHA CHAKRABORTY S/O SH. HARI PADA | TRIPURA/43/2 000 | FAKIRBARI,NEAR ADVISOR CHOWMAHANI, AGARTALA,TRIPURA (W) | BVSc&AH/BCK VV/81 | 17/03/57 |
| 2217 | SIDDHARTHA THAKUR S/O COL. I.S. THAKUR | UPVC/3295 | C/O COL. I.S. THAKUR, VILL.-MATAYARA, P.O. NAROLA, DIST. - MONDI, H.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/98 | 21.02.74 |
| 2218 | Sidharth Kr. Jaiswal, S/o Late Shivchandra Jaiswal | BiharSVC/126 7/2000 | Vill.+PO-Bhagwanpur,Thana-Bhagwanpur,Dist.-Vaishali,Pin-844114 | B.V.Sc.&A.H./B AU/83 | 02/03/59 |
| 2219 | Sidhinath Tiwari, S/o Pandit Marihar Tiwari | BiharSVC/177 5/2000 | M.-Harivatika Pokhar,PO+Thana-Betiah,Dist.- W.Champaran,Pin-845438 | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 08/01/43 |

| STUDY NAME | REGISTRATION NO. | NAME | QUALIFICATION | DOB |
|---|----------------------|---|-----------------------|----------|
| 2220 SILAMBAN S. S/O S. SUBBA RAO | AP@VVC/03568/ 2000 | 16-11-16/N/40, PRASANTHI NAGAR, MOOSARAMBAGH, HYDERABAD-500 036 | BVSc/TNVASU/ 92 | 27.05.69 |
| 2221 Silnang Rasul Marak | Megh/160/01 | Hawakhana, Tura | BVSc&AH/AAU/ 2000 | 20.8.74 |
| 2222 SIMIREBECCA JOSEPH | KERALASVC/ 2501/2000 | T.C.11/1684, PLAMOODU, CHARACHIRA ROAD, TRIVANDRUM PIN-695003 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 14.05.75 |
| 2223 SIMRAN D/O SH. JASPAL SINGH | PB.SVC- 2210/2000 | NO.5970, PHASE-III, MODERN HOUSING COMPLEX, MANI-MAJRA, CHANDIGARH | BVSc&AH/WANG RAU/2000 | 12.7.76 |
| 2224 SIMRINDER SINGH SODHI S/O SH. DAVINDER SINGH | PB.SVC- 2264/2001 | H.NO.6833, PEOPLE STREET, K.Kp. ROAD, MUKATSAR -152 026 | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 27.10.75 |
| 2225 SINDHU K.A. | KERALASVC/ 2485/2000 | KALLUPARAMBIL HS., KOZHENCHERRY EAST P.O., PATHANAMTHITTA PIN-689641 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 18.05.76 |
| 2226 SINDHU T. | KERALASVC/ 2451/2000 | AMBALATHIL HOUSE, NALLUR, FEROKE, KOZHIKODE-673631 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 23.02.76 |
| 2227 Singh Nath Roy, S/o Sri Kailash Roy | BiharSVC/104 9/2000 | Vill.+PO-Rampur,Thana- Rajpur,Dist.-Buzar,Pin- 802114 | B.V.Sc.&A.H./B AU/83 | 08/01/61 |
| 2228 SINOUVASSANE B. S/O K. BALAYAN | APSVC/03679/ 2000 | DR. NO.3, SANGAM DAIRY, P&I, VETERINARY OFFICER, VADLAMUDI, GUNTUR DIST. | BVSc/TNVASU/ 91 | 03.06.63 |
| 2229 SIPA DAS MRS. D/O SH.DINESH DAS | TRIPURA/88/2 000 | NORTH BANAMALIPUR AGARTALA,TRIPURA(W), PIN-799001 | BVSc&AH/JNKV V/90 | 14/08/67 |
| 2230 Sipiriyen Guria, S/o Sri Amrus Gurja | BiharSVC/134 3/2000 | Vill.-Chapri,PO+Thana- Barwadih,Dist.- Ralamau,Pin-822111 | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 21/11/69 |
| 2231 SISIR KUMAR PAL S/O MONOMOHAN PAUL | TRIPURA/19/2 000 | ABHOYANAGAR VETY. COMPLEX, PO- ABHOYNAGAR AGT. 799005, TRIPURA WEST | BVSc&AH/RAU/ 76 | 1.6.51 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALF | REG |
|-------|---|----------------------|--|-----------------------|----------|
| 2232 | Sivakumar.M | Pondi/95/2000 | 85,5th Cross, Kumaran Nagar,Lawspet,Pondicherry -605008 | BVSc/TNAU/85 | 16.3.61 |
| 2233 | Sivaram Singh, S/o Late Kapileshwar Pd. Singh | BiharSVC/105 9/2000 | M.-Nilkanth Colony,Ashiana Nagar,A.C.Colony,B,Shastri Nagar,Patna-800025 | B.V.Sc.&A.H./R AU/74 | 02/07/51 |
| 2234 | Siyasharan Prasad, S/o Sri Hari Dayal Mahto | BiharSVC/127 0/2000 | Vill.-Haidarchak,PO-Khairampur,Thana-Islampur,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./B AU/88 | 06/01/57 |
| 2235 | SMARAJIT DEBNATH S/O SH. SACHINDRA KR. DEBNATH | TRIPURA/57/2 000 | BANAMALIPUR(BIZALI ROAD)OPP.-SHDE POWER HOUSE,AGARTALA,TRIPU | BVSc&AH/BCK VV/76 | 24/01/51 |
| 2236 | SMITHA J.P. | KERALASVC/ 2474/2000 | VALYOLIPARAMBIL HOUSE,MOOKKANNOOR P.O. PIN-683577 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 23.05.73 |
| 2237 | SMITHA J.S. | KERALASVC/ 2459/2000 | TC.36/298(4),25 MANAVA NAGAR, PETTAH P.O., TRIVANDRUM-695024 | BVSc&AH/WBU A&FS/2000 | 11.11.77 |
| 2238 | Smt.Rasmi Bela Kuzur, D/o Sri Prem Prakash Kuzur | BiharSVC/182 3/2000 | Moh.-Katra Chowk,PO+Thana+Dist.- Shekhpura,Pin.-888105 | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 01/06/68 |
| 2239 | Sneh, S/o Dr. Anil Kumar Singh | BiharSVC/894/ 2000 | Vill.-Nayagaon,Thana-Parvatta, Dist.-Khagria, Pin- 851215 | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 15/09/73 |
| 2240. | SOHAN LAL S/O SH. MALKIAT SINGH | PB.SVC- 1839/2000 | VPO. KALWAN,TEHSIL ANANDPUR SAHIB, DISTRICT ROPAR. | BVSc&AH/PAU/ 1996 | 22.03.69 |
| 2241 | SOLIMOL V. JACOB | KERALASVC/ 2480/2000 | VAZHUTHANAPPILLIL(H), POTTEMPLAVU P.O.NADUVIL(VIA),KANN UR DIST.PIN-670582 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 10.03.76 |
| 2242 | SOM DUTTA SINGH S/O SRI DHAN SINGH | UPVC/3196 | LUMBINI HOUSE, 14- MAHATMA PHULE STREET, NAVEEN NAGAR, DISTT.- | BVSc&AH/GBP UA&T/92 | 04.08.68 |
| 2243 | SOMINDER SINGH JUNEJA S/O SH. HARPAL SINGH JUNEJA | PB.SVC- 2205/2000 | HIG-915-B, HOUSING BOARD, SECTOR III, RANJIT AVENUE, AMRITSAR 143001 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 5.12.76 |

| SIMM NAME | ENRUM | ADD | QUALIF | DATE |
|--|-------------------------|---|--------------------------|----------|
| 2244 SONAWALE VIJAY BHANUDAS | MSVC/6289/20 00 | SABLE CHAWL, B.K.90/CAMP NO.1, VILASNAGAR-1, DIST. THANE-421001 | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 15-01-74 |
| 2245 Sondarwell Tham S/o Kwilington Ksanlah | Megh/163/01 | Jaiaw Laitdom, Shillong | BVSc&AH/AAU/ 92 | 18.6.64 |
| 2246 SONOWAL DR.(MS) MRIDUSHMITA D/O MR. NILAKANTA SONOWAL | ASM/1939/200 1 | C/DMR.NILAKANTA SONOWAL,VIL.GOBINDAP UR,PO- PANITOLA,DIST.TINSUKIA | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 2247 SONU JAISWAL S/O SRI HANUMAN PRASAD JAISWAL | UPVC/3274 | C/O SRI GOKARAN NATH JAISWAL, MUSAFIRKHANA, SULTANPUR, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 13.03.76 |
| 2248 SOUVIK GHOSH | WBSVC/2789/ 2000 | PLOT-3, BLOCK-'B' BANGUR AVENUE, CALCUTTA-55 | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 2249 SREEJITH N. BHASKARAN | KERALASVC/ 2516/2000 | KRISHNAVILASAM, KUMARAMPURAM, KOTTAMKAITHA,HARIPAD PIN-690548 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 30.12.77 |
| 2250 SREEKRISHNAN R | PONDI/105/20 00 | 100 RAJAJI NAGAR EXTN, 32ND CROS STREET, AVVAI NAGAR, LAWSPET | BVSc&AH/KAU/ 87 | 28.05.64 |
| 2251 Sreekumar.D | Pondi/96/2000 | B-2,Vety College Complex,Kurumbapet, Pondicherry-60509 | BVSc&AH/KAU/ 83 | 17.04.61 |
| 2252 SREELAKSHMI P. D/O P. SANJEEVA NAIDU | APSVC/3600/2 000 | KAMMAVARIPALLI(B.O.), VADDIRALA (S.O.), CUDDAPAH, DT. 516432 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 15.05.76 |
| 2253 SREENATHACHAR T. S/O T. NARAYANACHAR | APSVC/03680/ 2001 | H.NO.14-212, KAMALANAGAR, ANANTAPUR | BVSc/APAU/82 | 22.01.60 |
| 2254 SREENIVASU B. S/O B. PANTHULU | APSVC/03561/ 2000 | H.NO.7-2-11, DWARAKANAGAR, KHAMMAM-507002. | BVSc&AH/APA U/98 | 10.10.72 |
| 2255 SREERMANNARAYANA T. S/O T. VENKATESWARLU | APSVC/03652/ 2000 | MUKTHINUTALAPADU(P), ONGOLE(M), PRAKASAM DT. 523262 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 25.09.74 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | |
|------|--|------------------------|---|--------------------------|----------|
| 2256 | Sri Krishan Singh, S/o Late Prabhu Singh | BiharSVC/121 2/2000 | Vill.+PO-Dosut,Thana-Varsaliganj,Dist.-Nowada' | B.V.Sc.&A.H./R U/67 | 22/01/44 |
| 2257 | Sri Krishna Rai, S/o Late Ramnath Rai | BiharSVC/115 3/2000 | Vill.-Bharkhar,PO+Thana-Mohama,Dist.-Kaimur (Bhabhua) | B.V.Sc.&A.H./R AU/72 | 04/01/48 |
| 2258 | SRI LAKSHMI K. D/O K.V.A.N. RAJU | APSVC/3602/2 000 | D/O K.V.A.N. RAJU, AJAMANDA, VIZIANAGARAM DT.531240 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 14.03.75 |
| 2259 | Sri Ram Gupta, S/o Sri Badri Ram | BiharSVC/158 1/2000 | Moh.-Kargali Bazar,PO+Thana-Bermo,Dist.-Bokaro,Pin.-829104 | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 12/02/60 |
| 2260 | Sri Ram Sharan, S/o Late Laxmi Narayan | BiharSVC/191 3/2000 | M.-Shapna Niwas,Argar Road,PO-Lalla Pokhar,Thana+Dt.- MungherP-811201 | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 05/09/40 |
| 2261 | SRI VIDYA DEVI D. D/O D. VENKATESWARLU | APSVC/03614/ 2000 | LIG 131, APHB COLONY, ANANTAPUR-515001 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 01.08.76 |
| 2262 | SRIDEVI V. D/O V. KRISHNA MURTHY | APSVC/03562/ 2000 | 77/12, M.V.P. COLONY, VISAKHAPATNAM-530017 | BVSc&AH/APA U/98 | 01.08.74 |
| 2263 | Sridevi,S.B | Pondi/84/2000 | 12,Indira Gandhi St,Tagore Ng,Lawspet Post,Pondicherry-8 | BVSc/TNVASU/ 2000 | 17.1.76 |
| 2264 | SRIHARITHA M. D/O M. VISWANATHA REDDY | APSVC/03611/ 2000 | 4-53, INDIRA NAGAR, PILER, CHITTOOR DT. | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 05.05.76 |
| 2265 | SRIKANTH P. S/O P. POTHURAJU | APSVC/03676/ 2000 | C/O NALLURI ANJAIAH,#8/498(B), PANDARIPURAM, ONGOLE, PRAKASAM DT. | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 28.05.75 |
| 2266 | Srinandan Pd. Sinha, S/o Late Ambika Pd. Sinha | BiharSVC/130 8/2000 | M.-Swami Sahianand Nagar,PO-Kishan Bhawan,Thana-Sadar,Dist.- Muzafferpur | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 18/08/42 |
| 2267 | Srinarayan Parihar, S/o Late Fakir Parihar | BiharSVC/184 3/2000 | Vill:+PO+Thana-Khutauna,Dist.- Madhubani,Pin-847227 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 05/03/66 |

| SN/RM | NAME | RNUM | ABD | QUALIF | DOB |
|-------|---|-------------------------|---|------------------------|----------|
| 2268 | Srinath D.N, S/o D.V Narayana Sharma | KARNASVC/3 105 | Behind Sobagu Theatre,Rojiipur,Doddadbal lapura | BVSc/UAS,B'l/or e/97 | 17.9.74 |
| 2269 | Srinath Mishra, S/o Late Pandit Gauri Nath Mishra | BiharSVC/881/ 2000 | Moh.-Fulawri Gali,PO-Patnacity,Thana-Machorhatta,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./M U/62 | 08/09/42 |
| 2270 | SRINIVAS REDDY BELLUR S/O B.S. THIPPA REDDY | KARNASVC/3 111 | NO.9-9-107, SRINIVAS, AKKA MAHADEVI COLONY, BVB COLLEGE ROAD, BIDAR | BVSc&AH/UAS DHARWAD/99 | 08.09.76 |
| 2271 | SRINIVASAIAH P V | PONDI/104/20 00 | 2, TYPE V QUARTERS, RG COLLEGE OF VETY AND ANI SC, KARUMBAPET, | BVSc/UAS/76 | 28.02.55 |
| 2272 | SRINIVASAIAH SUMANTH S/O S M SRINIVASAIAH | KARNASVC/3 123 | NO.506, 18TH CROSS, VIJAYANAGAR RAILWAY LAYOUT, MYSORE | BVSc/UAS B'LORE/98 | 10.10.74 |
| 2273 | SRINIVASALU S. S/O G.V. SEETHARAM | KARNASVC/3 083 | NO. 1659, 38TH CROSS, A. MAIN JAYANAGAR EAST END, BANGALORE-69 | BVSc&AH/UAS B'LORE/69 | 01.08.44 |
| 2274 | SRINIVASAMURTHY S/O MADHAVARAO DESAI | KARNASVC/3 090 | GUMGERA POST KUSTAGI TQ. KOPPAL DT. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/99 | 08.07.76 |
| 2275 | Sripati Singh, S/o Late Chandrapati Singh | BiharSVC/172 2/2000 | Vill.+PO-Pachahi, Thana-Madhepur, Dist.-Madhubani | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 10/09/44 |
| 2276 | SRIRAM K. | KERALASVC/ 2513/2000 | PLOT NO. 270,HARI NAGAR,POONKUNNAM,T HRISSUR-680002 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 19.01.77 |
| 2277 | Stiphen Joseph, S/o Late Santosh Joseph | BiharSVC/151 6/2000 | Vill.-Tantipara,PO+Thana-Pakur | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 17/07/51 |
| 2278 | SUBBA RAO M. S/O M. DURGA PRASAD | APSVC/03681/ 2001 | PLOT NO.84/25, BLOCK-D, AUTONAGAR, VISAKHAPATNAM-530012. | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 02.03.75 |
| 2279 | SUBEDAR YADAV S/O SRI BHAGAWAN DEEN YADAV | UPVC/3186 | VILL-RAMWAPUR, POST-TINICH, DISTT-BASTI, U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 01.07.55 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-------------|---|------------------------|--|-----------------------|------------|
| 2280 | Subelal Prasad, S/o Late Ram Lagan Prasad | BiharSVC/155 4/2000 | Vill.+PO-Ajaypur,Thana-Noorsarai,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 15/01/59 |
| 2281 | Subhash Chandra Chaudhary, S/o Sri Kamta Prasad Chaudhary | BiharSVC/155 3/2000 | Moh.-Budhan Uddin Chak,PO-Barh,R.S.,Thana-Barh,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/79 | 23/11/50 |
| 2282 | Subhash Chandra Hindustani,S/o Sri Rambali Tanti | BiharSVC/178 1/2000 | Vill.+PO+Thana-Jammui,Dist.-Jammui,Pin-811307 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 05/04/73 |
| 2283 | Subhash Chandra Rai, S/o Late Shadhu Sharan Rai | BiharSVC/116 1/2000 | Vill.+PO-Kuchtila,Thana-Nuon,Dist.-Bhabhua | B.V.Sc.&A.H./R U/67 | 01/07/46 |
| 2284 | SUBHASH JAISWAL S/O SRI H.N. JAISWAL | UPVC/3301 | 20/1, AVAS VIKAS COLONY, RAZDEPUR, RAUZA, GHAZIPUR, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/84 | 01.08.61 |
| 2285 | SUBHASIS CHAKRABARTI S/O SH. CHANDRASEKHAR | TRIPURA/63/2 000 | RAMNAGAR ROAD-8,AGT.C/O MR.CHANDRA SHEKHAR CHAKRABORTY,P.O- | BVSc&AH/OUA T/84 | 01/12/61 |
| 2286 | Subodh Jeetan Hansdak,S/o Sri Bhadu Hansdak | BiharSVC/130 0/2000 | Vill.-Pokhariya,PO-Aamgachi,Thana-Kathikund,Dist.-Dumkka,Pin.-814103 | B.V.Sc. & A.H./RAU/94 | 22/01/64 |
| 2287 | SUBODH KR.DAS S/O UPENDRA KR. DAS | TRIPURA/46/2 000 | SOUTH BANK OF AMAR SAGAR,PO.R.K.PUR UNDAIPUR,SOUTH TRIPURA | BVSc&AH/BCK VV/80 | 21/04/57 |
| 2288 | Subodh Kumar, S/o Sri Mahendra Pd. Thakur | BiharSVC/121 5/2000 | V.+PO+Thana-Kamtaul (South Side),Dist:- Darbhanga,Pin.-847304 | B.V.Sc.&A.H./R AU/98 | 08/02/74 |
| 2289 | Subodh Kumar, S/o Sri Pranmohan Singh | BiharSVC/101 0/2000 | Vill.-Manik Pathad, PO-Patnada,Thana-Pulli Dumer,Dist.-Banka,Pin.-813101 | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 05/01/71 |
| 2290 | Subodh Prasad Singh, S/o Late Rupnarayan Singh | BiharSVC/190 0/2000 | Vill.+PO-Tetrababad, Chandpura,Thana-Gangor,Dist.-Khagaria | B.V.Sc. & A.H./RAU/85 | 26/06/60 |
| 2291 | Subodh Ranjan Verma, S/o Sri Rajendra Pd. Verma | BiharSVC/145 5/2000 | Vill.-Lalderwaja,PO+Thana+Dist.-Munger,Pin.-811201 | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 12/01/59 |

| SR. NO. | NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIF. | DOB |
|---------|--|------------------------|--|------------------------------|----------|
| 2292 | Subramanya M C,S/o Chickasubbanna | KARNASVC/3 169 | Muddenahalli POst,Chikkaballapur Tq,Kolar Dist | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 21.7.77 |
| 2293 | Subrato Sarkar, S/o Sri Devesh Chandra Sarkar | BiharSVC/165 7/2000 | Moh.-New Area,Hamidganj,PO+Thana -Daltanganj,Dist.-Palamau | B.V.Sc. & A.H./RAU/95 | 25/03/68 |
| 2294 | SUBRAYA PAL K S/O K SUDHAKAR PAI | KARNASVC/3 125 | PLOT NO. 7, 1ST AVENUE, N.M.P.T. HOUSING COLONY, KULAI HOSABETTU, | BVSc/UAS B'LORE/96 | 20.07.70 |
| 2295 | Sudama Prasad Giri, S/o Late Goswami Punvadeo Giri | BiharSVC/207 2/2001 | Vill.-Godmamathia,PO- Segar Tola,Thana- Rivilganj,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./RAU/71 | 12/07/48 |
| 2296 | SUDARSANA RAO P. S/O P. VENKAT RATHNAM | APSVC/03618/ 2000 | KOTASTREET, CHENNUR(P), GUDUR(M), NELLORE DT.-524 406. | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 12.05.76 |
| 2297 | SUDARSANAM K. S/O K. RAMANAIAH | APSVC/03634/ 2000 | SRI BALAJI FINANCE CORPN, PVR BLDGS, BHAVANIPURAM, VIJAYAWADA KRISHNA | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 04.09.74 |
| 2298 | Sudarshan Prasad, S/o Sri Mishri Ram | BiharSVC/165 1/2000 | Vill.-Fazalganj,PO+Thana- Sasaram,Dist.-Rohtas | B.V.Sc. & A.H./RAU/76 | 01/03/51 |
| 2299 | Sudarshan Prasad, S/o Sri Ramsagar Prasad | BiharSVC/117 6/2000 | V.-Vande Vishanpur,PO- Dharampur Bande,Thana- Tajpur,Dist.-Samestipur | B.V.Sc.&A.H./R AU/87 | 10/02/60 |
| 2300 | Sudhakar Jha, S/o Late Shashi Bhushan Jha | BiharSVC/143 4/2000 | Vill.+PO- Narayanpur,Thana- Bihpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 15/01/51 |
| 2301 | SUDHAKAR SINGH S/O SRI RANANJAY SINGH | UPVC/3249 | 32, A, RAJENDRA NAGAR, BALWAGHAT, ALLAHABAD, U.P. | BVSc&AH/KKV/ 95 | 03.03.68 |
| 2302 | SUDHAKAR V. S/O BULLAIAH | APSVC/03609/ 2000 | H.NO.1-3-40, BHAVANAGAR COLONY,PONNUR, GUNTUR DIST. | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 08.08.77 |
| 2303 | Sudhakara M L,S/o Lakshmana L | KARNSVC/318 7 | ANUVA,Opp To Govt Primery School,Melekote,Tumkar | BVSc&AH/UAS, B'llore/2000 | 29.5.77 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|---|-------------------------|--|------------------------------------|----------|
| 2304 | SUDHANGSHU PAIK | WBSVC/2813/ 2000 | VILL. & P.O. ANISHMATI P.S. DHANTALA, DT. NADIA | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 2305 | Sudhanshu Bhushan, S/o Dr. Chandra Bhushan Tripathi | BiharSVC/184 0/2000 | M.- Chiraivatanr,Khasmahal,Rd .No.1,PO-G.P.O.,Thana- Jakkanpur,Patna-800001 | B.V.Sc. & A.H./RAU/99 | 16/10/75 |
| 2306 | Sudhanshu Jha,S/o Sri Baidyanath Jha | BiharSVC/874/ 2000 | M.O.-Matisaur,PO- Matisaur,Thana- Jandaha,Dist.-Vaishali | B.V.Sc.&A.H./R AU/84 | 27/01/60 |
| 2307 | SUDHEER ARAVIND T. | KERALASVC/ 2505/2000 | CHAITHANYA, ATHAVANAD P.O., MALAPPURAM | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 24.05.76 |
| 2308 | Sudhendu, S/o Sri Bhuvneshwar Sharma | BiharSVC/963/ 2000 | M.-Koily,PO-Koily, Thana- Manpur,Dist.-Sitamarhi | B.V.Sc.&A.H./R AU/92 | 07/02/67 |
| 2309 | Sudhir K, S/o Murthy K G | KARNASVC/3 098 | C/oK.M.K Govinda Rao,82/3,Ist Main,10th Cross Govindaraj Nagar,Bagalore | BVSc/UAS,B'lor e/98 | 11.6.75 |
| 2310 | Sudhir Kr. Sinha, S/o Sri Ram Kripal Lal | BiharSVC/164 2/2000 | Moh.-Satdhara,Jail Road,Mahajan Toli No.1,PO+Thana+Dist.- Arrah,Pin-802301 | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 02/01/59 |
| 2311 | SUDHIR KUMAR | GOASVC/115/ 01 | FLAT NO.6, GAUR APTS, MANGOR HILL, VASCO- DEGAMA | BVSc&AH/GAU/ 00 | 1.8.77 |
| 2312 | SUDHIR KUMAR NARANG S/O SH. MOHAN LAL | RAJSVC/2706/ 2000 | C/O SH. SATPAL GROVER,WARD NO. 7,PILI BANGAN,HANUMANGARH | BVSc&AH/CCS HAU/92 | 24.02.70 |
| 2313 | Sudhir Kumar, S/o Sri Radhakant Singh | BiharSVC/120 9/2000 | M.-S.D.O. Road,PO+Thana- Hajipur,Dist.-Vaishali,Pin- 844101 | B.V.Sc.&A.H./R AU/86 | 04/04/61 |
| 2314 | Sudhir Ranjan Kr. Sanani, S/o Sri Anandi Sahani | BiharSVC/161 3/2000 | Vill.+Thana+PO- Rupauli,Dist.-Purnea,Pin- 854201 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 05/12/68 |
| 2315 | SUHASINI T. RAJU D/O D. SUNKANNA | APSVC/03654/ 2000 | BLOCK-8,FL.- 2,225/A,RUKMINI DEVI COLY,WEST MAREDPALLY,SECUNDE | BVSc&AH/WB U.OF A&F SC./2000 | 17.08.78 |

| STUDY NAME | REG. NO. | ADDRESS | QUALIF | DATE |
|---|------------------------|---|--------------------------|----------|
| 2316 SURIINDER SINGH | DVC/0561/200 0 | SH.GURAYAL SINGH,1/7,VIJAY NAGAR, DELHI 85 | BVSc&AH/PAU/ | 02/05/61 |
| 2317 Sujata Mukherjee, S/o Sri Lokenath Mukherjee | BiharSVC/182 4/2000 | Moh.-Nabagram,PD- Nildih,Thana- Raghunathpur,Dist.- Purulia,State-W.B. | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 31/07/70 |
| 2318 SUJATHA SINGH D/O T.C. HARINATH SINGH | APSVC/03650/ 2000 | JUPALLY ARCADE, FLAT NO. 202, ECIL 'X' ROADS, HYDERABAD | BVSc&AH/APA | 05.12.75 |
| 2319 SUJIT DAS | WBSVC/2809/ 2000 | VILL & P.O. TALBAGICHA KHARAGPUR, DT. MIDNAPORE | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 2320 SUKHDAVINDER SINGH SIDHU S/O SH. GURCHARAN SINGH | PBSVC- 2199/2000 | H.NO.318-D, NEW AZAD NAGAR, FEROZEPUR CITY -152 002. | BVSc&AH/PAU/ | 24.01.75 |
| 2321 SUKHDEEPAK SINGH S/O SH. PARAMJIT SINGH | PB.SVC- 2247/2001 | VPO. SUDHAR, LUDHIANA | BVSc&AH/PAU/ | 05.12.75 |
| 2322 SUKHJIT SINGH GILL S/O SH. C.S. GILL | PB.SVC- 2220/2001 | VPO.JASPAL BANGAR, LUDHIANA, PUNJAB | BVSc&AH/PAU/ | 27.09.75 |
| 2323 Sukhial Gagraye, S/o Sri Lal Singh Gagraye | BiharSVC/148 1/2000 | M.- HatgamhoriaHangergutu,P O+Thana- Hatgamaheria,W.Singhbhu | B.V.Sc. & A.H./BAU/90 | 05/01/64 |
| 2324 Sukhvinder Singh,S/o Sh. Harchand | HarSVC/1648 | Gali No. 10, Patel Nagar, Hisar | BVSc&AH/CCS | 3.4.75 |
| 2325 Sukndev Mukhia, S/o Sri Dev Narayan Mukhia | BiharSVC/168 2/2000 | Vill.-Duriyan,PO- Bhawanpur,Thana- Pratappur,Dist.-Supaul,Pin- 852135 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 02/02/71 |
| 2326 SUKUMAR SEN S/O SH.NABIN CH. SEN | TRIPURA/45/2 000 | NUTANPALLI,KRISHNANA GAR,AGARTALA,TRIPURA (W) | BVSc&AH/BCK | 01/01/57 |
| 2327 SUKUMAR SHETTY S/O BABU SHETTY | KARNASVC/3 087 | PARAVATHI NILAYA,PADUMUNDU,SAI BAR KATTE POST,SHIRLYARA | BVSc/UAS B'LORE/98 | 01.06.72 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|---|------------------------|--|------------------------------|-----------|
| 2328 | SULTANA DR. (MS.) BEGUM NAZRIN W/O SH. SALIM SATTAR | ASM/1928/200 0 | C/O DR. A. SATTAR, JURIPAR PANJABARI, GUWAHATI, PIN-781037 | BVSc&AH/AAU/ 2000 | |
| 2329 | Suman Kr. Toppo, S/o Sri Jagat Pal Toppo | BiharSVC/160 0/2000 | Moh.-Kokar Pahon Toli,PO+Thana- Beriyatu,Dist.-Ranchi,Pin- 864009 | B.V.Sc. & A.H./BAU/90 | 14/03/60 |
| 2330 | Suman Kumar, S/o Sri Sitamdeo Modi | BiharSVC/129 1/2000 | Vill.+PO+Thana- Markacho,Dist.-Koderma | B.V.Sc. & A.H./RAU/94 | 01/01/69 |
| 2331 | Suman Nath Mishra, S/o Late Upendra Nath Mishra | BiharSVC/171 1/2000 | Vill.+PO-Madhavpur,Thana- O Parvatta,Dist.- Khagaria,Pin.-851215 | B.V.Sc. & A.H./BAU/99 | 23/01/69 |
| 2332 | SUMAN, D/O SH.SUNDER LAL | RAJSVC/2745 /2001 | C/O. DR. RAMESHWAR SHARMA, D1/27 VYAS COLONY BIKANER | BVSc&AH/CCS HAU/98 | 08-01-76 |
| 2333 | Sumati Kusur, D/o Sri Phagua Kusur | BiharSVC/115 8/2000 | Vill.-Makunda,PO- Itki,Thana-Itki,Dist.- Ranchi,Pin-835301 | B.V.Sc.&A.H./B AU/96 | 07/01/69 |
| 2334 | SUMIT SABHARWAL | OVC/0558/200 0 | DR. S.K.SABHARWAL,1A- 19A MIG PH.1,ASHOK VIHAR,DELHI-52 | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 10/05/77 |
| 2336 | SUMIT VIRMANI | VCI/2282/01 | C/O B.K.MUDGAL 4B-22 TALWANDI KOTA RAJASTHAN-324005 | BVSc&AH/RAU/ 99 | 11/09/73 |
| 2335 | SUMIT VIRMANI | RAJSVC/2610 /2000 | C-3/303 A(SFS) PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI. | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV/99 | 11.09.73 |
| 2337 | SUNDARESAN A. S/O V. ARUMUGAM | APSVC/03682 /2001 | 5-11-548, VIDYARANYAPURI, HANAMKONDA, WARANGAL DT.-506009 | BVSc/TNVASU/ 95 | 13.01.73 |
| 2338 | SUNEEL KUMAR O. S/O O. NARAYANA REDDY | APSVC/03639 /2000 | 15/901, VENKATARAMAPURAM, NELLORE -524001 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 23.06.76 |
| 2339 | SUNIL CH.ACHERJEE S/O SH.JOGESH CH.JYOTIRBHUSAN | TRIPURA/10/2 000 | BHATI ABHOYNAGAR(BITARBA N),P.O.AGARTALA,TRIPU RA WEST | BVSc&AH/CAL CUTTA UNI/71 | ,26/04/47 |

| SN/NO. | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DATE |
|--------|--|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 2340 | Sunil Kr. Patel, S/o Sri Shanichar Manjhi | BiharSVC/167 0/2000 | Vill.-Thalpos,PO-Matta,Thana-Pakri Varanwa,Dist.-Nawada | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 10/02/67 |
| 2341 | Sunil Kr. Singh, S/o Late Maneshwar Pd. Singh | BiharSVC/125 1/2000 | Vill.-Lagama,PO-Singhia,Dist.-Samastipur | B.V.Sc.&A.H./B AU/91 | 01/01/64 |
| 2342 | Sunil Kr. Sinha, S/o Sri Dulari Singh | BiharSVC/165 0/2000 | Vill.+PO-Kolawan,Thana-Harnaut,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 20/07/61 |
| 2343 | Sunil Kr. Verma, S/o Sri Banarsi Pd. Verma | BiharSVC/146 0/2000 | Vill.-Hardahchak,PO-Koshi College,Thana+Dist.-Khagaria,Pin.-851205 | B.V.Sc. & A.H./RAU/86 | 10/12/62 |
| 2345 | SUNIL KUMAR | RAJSVC/2687 /2000 | S/OSH.BHAGIRATH MAL CHAUDHARY,SALASAR RD.,DULIAN BASS,P.O.SUJANGARH,C | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./20 00 | 18.11.74 |
| 2344 | SUNIL KUMAR | RAJSVC/2645 /2000 | 1/1093,MALVIYANAGAR. | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 14.01.74 |
| 2346 | SUNIL KUMAR GUPTA S/O SRI GAYA PRASAD GUPTA | UPVC/3300 | H.NO. 224, MOH. KHUSIPURA,RATH DISTT.-HAMIRPUR,U.P.- 210 431 | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 01.07.74 |
| 2347 | SUNIL KUMAR RATHORE S/O SRI R.S. RATHORE | UPVC/3206 | NEW COLONY, LODHIPUR, SHAHJAHANPUR, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/96 | 02.08.73 |
| 2348 | SUNIL KUMAR S/O SRI SHYAM BEHARI LAL | UPVC/3213 | M/S RAGHUBIR SARAN & CO. MANDI FATHEY GANJ, BULANDSHAHAR(U.P.) | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 09.10.73 |
| 2349 | SUNIL KUMAR SHARMA | RAJSVC/2640 /2000 | 11/1355,MALVIYA NAGAR,JAIPUR | BVSc&AH/RAJ. AGRI. UNIV./2000 | 21.06.72 |
| 2350 | Sunil Kumar Singh, S/o Sri Bharasa Singh | BiharSVC/172 9/2000 | Vill.-Suphuli,PO-Poariawa,Thana-Masaudhi,Dist.-Pati | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 03/04/59 |
| 2351 | Sunil Kumar Singh, S/o Sri Sidheshwar Pd. Singh | BiharSVC/142 0/2000 | Vill.-Bharsara,PO+Thana-Bihia,Dist.-Arrah (Bhojpur) | B.V.Sc. & A.H./BAU/89 | 05/01/64 |

| SL. NO. | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|---------|---|------------------------|---|--------------------------|----------|
| 2352 | Sunil Kumar, S/o Sri Brajnandan Prasad Singh | BiharSVC/140 1/2000 | Vill.-Tufanganj, PO-Sosarai,Thana-Rahui,Dist.-Nalanda,Pin-803118 | B.V.Sc. & A.H./RAU/91 | 23/12/59 |
| 2353 | Sunil Kumar, S/o Sri Radheyshyam Pd. Bhagat | BiharSVC/142 2/2000 | Vill.-Shermari Basar,PO+Thana-Peerpainti,Dist.-Bhagalpur,Pin-813209 | B.V.Sc. & A.H./BAU/87 | 15/11/61 |
| 2354 | Sunil Kumar, S/o Sri Shiv Shankar, Singh | BiharSVC/139 8/2000 | Vill.-Bulakipur, PO-Pokharvinda,Thana-Righa | B.V.Sc. & A.H./RAU/84 | 08/12/61 |
| 2355 | Sunil Kumar,S/o Sh Lakhmi Chand | HarSVC/1628 | 41 RDS House, HAU Hisar HAU/2000 | BVSc&AH/CCS | 1.4.76 |
| 2356 | Sunil Tiwari, S/o Dr.Yogendra Tiwari | BiharSVC/105 0/2000 | V.+PO-Suiya Bazar,Thana-Katoriya,Dist.-Banka,Pin.-813106 | B.V.Sc.&A.H./R AU/94 | 23/11/68 |
| 2357 | Sunilkumar SC, S/o Chandrappa | KARNSVC/318 8 | Somenahalli,Yadavanahalli, Post Arasikere,Tq-Hassan Dist. | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 18.5.78 |
| 2358 | Suranjan Sarkar, S/o Late Shiv Prasad Sorka | BiharSVC/143 2/2000 | Moh.-Station Road,PO+Thana-Jamtara,Dist.-Dumka,Pin.-815351 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 11/11/72 |
| 2359 | Surender Mohan Dande,S/o Sh Sher Singh Dande | HarSVC/1640 | V Kheri Markender Colony, PO Sirsia Dt- K Shetra | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 7.8.75 |
| 2360 | Surendra Choudhary, S/o Sri Munni Choudhary | BiharSVC/113 5/2000 | Vill.+PO+Thana-Sajhauli, Dist.-Bikramganj | B.V.Sc.&A.H./R AU/76 | 03/10/50 |
| 2361 | SURENDRA DATTA GUPTA S/O SHRI PRAYAG DATTA GUPTA | MPSVC/1881/ 00 | D-69, HARISHANKARPURAM, ZHANSI ROAD, GWALIOR 474002 | BVSc&AH/JNKV V/72 | 16.04.47 |
| 2362 | Surendra Kumar Singh, S/o Late Raghuvansh Kumar Singh | BiharSVC/862/ 2000 | Moh.-South Akona,PO-South Akona,Thana-Udvantnagar, Dist.-Arrah | B.V.Sc.&A.H./R AU/74 | 05/07/48 |
| 2363 | Surendra Kumar Singh,S/o LateRamracha Singh | BiharSVC/117 4/2000 | Vill.+PO-Nema,Thana-Lar, Dist.- Deoria | B.V.Sc.&A.H./R U/66 | 26/01/43 |

| STUDY NAME | REGN | ADD | QUALIF | |
|--|--------------------|--|------------------------------|----------|
| 2364 Surendra Kumar, S/o Sri Sadhusharan Yadav | BiharSVC/952/2000 | M-Ward No.1,Hasipur,PO+Thana-Khagaria,Dist.-Khagaria | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 01/07/46 |
| 2365 Surendra Narayan Mishra, S/o Sri Satya Narayan Mishra | BiharSVC/1887/2000 | Vill.-Dhoigadh,PO-Dhoi,Thana-Darbhanga,Dist.-Darbhanga,Pin-846005 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 12/01/70 |
| 2366 Surendra Nath Singh, S/o Late Brajnandan.Singh | BiharSVC/1453/2000 | Moh.-Court Area, PO+Thana+Dist.-Jehanabad,Pin.-804408 | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 10/01/47 |
| 2367 Surendra Nath, S/o.Late Karu Lal | BiharSVC/1623/2000 | M.-Sudha Sadan,Road No.14,East Ashok Nagar,Kankarbagh,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 01/10/37 |
| 2368 Surendra Pd. Sharma, S/o Late Ramashish Sharma | BiharSVC/1474/2000 | Vill.+Thana-Bidha Colony,PO-G.P.O,Dist.-Patna,Pin.-800001 | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 01/02/46 |
| 2369 Surendra Pd. Sinha, S/o Sri Ambika Prasad | BiharSVC/1001/2000 | M.-Tarkeshwar Nath Path,PO-Chiraiyatan,Thana-Kankerbagh,Dist.-Patna | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 15/12/43 |
| 2370 Surendra Pd. Srivastava, S/o Late Danri Lal | BiharSVC/1667/2000 | Vill.+PO-Indaur,Thana-Itari,Dist.-O Buxar | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 04/04/47 |
| 2371 Surendra Pd. Yadav, S/o Sri Kamleshwari Pd. Yadav | BiharSVC/1855/2000 | M.-Bankmens Colony,PO-Chitragupt Nagar,Thana-Patrakar Nagar,Patna-800020 | B.V.Sc. & A.H./RAU/84 | 31/12/58 |
| 2372 Surendra Pd.Sinha, S/o Late Dr.Naravan Lal | BiharSVC/855/2000 | M-Shekhpura,Baily Road,106-B-1,Narayan Sri Apt,Thana-Shastrinagar,Patna-14 | B.V.Sc.&A.H./B U/60 | 25/08/39 |
| 2373 Surendra Sah, S/o Late Joogo Sah. | BiharSVC/1762/2000 | Vill.-Baswa,PO-Basbitti,Thana-Supaul,Dist.-Surul,Pin.-852130 | B.V.Sc. & A.H./RAU/95 | 25/08/67 |
| 2374 SURENDRAKUMAR CHAUKE S/O SHRI SIYARAM CHAUKE | MPSVC/1886/00 | ASST. VETY. FIELD OFFICER, I/C A.I.C. MURRAH DISTT. JABALPUR 482006 | BVSc&AH/JNKV V/99 | 02.07.62 |
| 2375 SURESH CHAND MEENA | RAJSVC/2693/2000 | V. MOHACHA KA PURA,P. MOHACHA,TEH.GANGAPUR CITY,D.SAWAI MADOPUR-322203 | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./2000 | 10.05.73 |

| SLN# | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOS |
|-------------|--|------------------------|--|------------------------------------|------------|
| 2376 | Suresh Chandra Vidyaarthi, S/o Late Molavi Pd. Singh | BiharSVC/121 4/2000 | V.-Prasavanna,PO-Roypur Koyal Bigha,Thana- Thorvari,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./R AU/69 | 05/06/45 |
| 2377 | Suresh Kr. Verma,S/o Late Brahma Prasad | BiharSVC/103 7/2000 | Vill.- Ramchandrapur,PO+Thana -Thori,Dist.-Gopalganj | B.V.Sc.&A.H./M U/66 | 01/12/42 |
| 2378 | SURESH KUMAR BANSIWAL S/O SH. RAGHUNATH PRASAD | RAJSVC/2622/ 2000 | NEAR GIRLS SCHOOL,SEWAR,BHARA TPUR | BVSc&AH/RAJ AGRI. UNIV./2000 | 12.05.73 |
| 2379 | SURESH KUMAR SHRIVASTAVA S/O SHRI KISHAN DAYAL | MPSVC/1915/ 00 | VETY. HOSPITAL CAMPUS, DISTT. SEHORE-466001 | BVSc&AH/JNKV V/99-2000 | 13.07.59 |
| 2380 | Suresh Kumar, S/o Sri Narayan Mahto | BiharSVC/160 5/2000 | Vill.-Sipah,PO- Ranabigaha,Thana- Deepnagar,Dist.- Nalanda,Pin-803101 | B.V.Sc. & A.H.BAU/97 | 12/10/69 |
| 2381 | Suresh Kumar,S/o Sh Harchand | HarSVC/1652 | VPO Koharar, Via Mahar (Rewari) | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 1.5.76 |
| 2382 | SURESH N SAJJAN S/O NINGAPPA V SAJJAN | KARNASVC/3 069 | BANNIKOPPA,YELBURGA TQ,KOPPAL DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAR/199 9 | 01.06.76 |
| 2383 | Suresh Prasad Singh, S/o Sri Sudama Prasad Singh | BiharSVC/195 8/2000 | Vill.-Gyanwti Lua,PO- Budhu Chak,Thana- Peerpainty,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./BAU/88 | 01/01/59 |
| 2384 | Suresh Prasad, S/o Sri Jagdish Prasad | BiharSVC/100 4/2000 | Vill.-Gopalwad,PO- Gopalwad,Thana- Sammera,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 26/11/48 |
| 2385 | Suresharagarachar,S/o Sh.Rachayya Saragarachar | Karna/3197 | Rajajinagar,Kvkanoor,Yeld burga Tq,Koppal Dist | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 11.2.77 |
| 2386 | SUREWADE RAVIKUMAR VENTATRAOQ | MSVC/6395/20 00 | AT POST BARBADA, TAL.NAVEGAON (KH), DIST. NANDED- 431602 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 10-06-74 |
| 2387 | SURINDER YADAV S/O SH. SURJA RAM YADAV | RAJSVC/2707/ 2000 | VETY. OFFICER,VETERINARY HOSP.DAULAT PURA,SHRI | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./96 | 17.07.74 |

| SNM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|---------------------|---|------------------------|----------|
| 2388 | SURJEET SINGH S/O SH. JIWAN SINGH | PB.SVC-2192/2000 | VPO.BHADOUR, TEHSIL BARNALA, DISTRICT SANGRUR. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 05.04.71 |
| 2389 | Surya Deo Pd. Choudhary, S/o Late Kodaiy Choudhary | BiharSVC/969/2000 | Vill.-Gheghwa,PO-Ghegwa,Thana-Madhuban,Dist.-Motihari | B.V.Sc.&A.H./R AU/74 | 11/12/50 |
| 2390 | SURYA PRASAD V. S/O V. SURYANARAYANA | APSVC/03564/2000 | C/O G.S.R. ANJANEYULU, DR. 7A-11-5 MAIN BAZAR, ELURU-534001,W.G. DT. | BVSc&AH/APA U/87 | 10.05.64 |
| 2391 | Suryanarayan,Mandal, S/o Sri Ganouri Mandal | BiharSVC/132 5/2000 | M.-Baddipara,Naya Gaon,PO-Jamalpur,Thana-East Colony,Dist.-Munger, | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 21/04/56 |
| 2392 | SURYANARAYANA G. S/O DEEKSHATULU | APSVC/03563/2000 | PLOT NO. 30, VETERINARY COLONY, DR. NO. 54-16-1/1, VIJAYAWADA-520008 | BVSc/APAU/77 | 02.07.36 |
| 2393 | Suryavansh Thakur, S/o Late Ram Lakan Thakur | BiharSVC/195 6/2000 | Vill.-Paraye,PO-Charaye,Thana-Chantpur,Dist.-Palamau,Pin-822113 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 22/07/73 |
| 2394 | SURYAVANSHI PRASHANT RAMCHANDRA | MSVC/6379/2000 | AT POST KUDUS, TALUKA WADA, DIST. THANE | BVSc&AH/KKV/ 2000 | 30-12-77 |
| 2395 | SUSAN KUMAR SARKAR | WBSVC/2806/2000 | VILL & P.O. CHANCHAL P.S. CHANCHAL, DT. MALDA | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 2396 | Sushil Kr. Sinha, S/o Sri Kameshwar Pd. Sinha | BiharSVC/132 0/2000 | M.-New Dak Bangla Road,PO-Jamal Road,Thana-Gandhi Maidan,Patna-800001 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 07/02/70 |
| 2397 | Sushil Kumar, S/o/Sri Mahendra Kumar | BiharSVC/146 8/2000 | Vill.+PO-Sonbarsha,Thana-Vilhpur,Dist.-Bhagalpur,Pin.- 853201, | B.V.Sc. & A.H./BAU/87 | 17/01/62 |
| 2398 | SUSHIL P. S/O P. SATISH | APSVC/03536/2000 | C/O B. HANUMANDLU, VIRAYA HOTEL, SOMWARPET, NIRMAL, ADILABAD DT. | BVSc&AH/MAR AG.U./2000 | 13.06.77 |
| 2399 | Sushma Pardhia, S/o Sri Japendra Pardhia | BiharSVC/197 9/2000 | M-Hinu Shukla Colony,PO-Hinu,Thana-Doranda,Dist.- Ranchi,Pin-834002 | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 05/12/67 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|------|---|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 2400 | SUYASH VARDHAN BHAL | DVC/0554/200 0 | ADITI BHAL, A-10, DRONACHARYA APTS, MAYUR VIHAR, EXT N.DELHI | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | 14.9.72 |
| 2401 | SWAGAT SIBBAL S/O SH. M.C. SIBBAL | PB.SVC- 2203/2000 | H-33 N-AREA, AIRPORT CHOWK, CHANDIGARH | BVSc&AH/HPK VV/1990 | 19.07.68 |
| 2402 | SWAPAN DEBNATH,S/O PRAFULLA DEBNATH | TRIPURA/64/2 000 | VILL- MOHANPUR,P.O.MAJLISH PUR,TRIPURA WEST | BVSc&AH/PAU/ 86 | 10/01/62 |
| 2403 | SWAPAN KUMAR PAUL S/O SH. SURESH CH. PAUL | TRIPURA/29/2 000 | C/O PROF.S.C.PAUL,P.O.AGA RTALA COLLEGE,TRIPURA | BVSc&AH/BCK VV/77 | 01/05/53 |
| 2404 | Swapan Rajak, S/o Late Yudhisthir Rajak | BiharSVC/133 7/2000 | Vill.+PO-Hendaljuri,Thana- Ghatshila,Dist.-East Singhbhum | B.V.Sc. & A.H./BAU/89 | 05/07/63 |
| 2405 | Swarajya Thakur, S/o Late Srikanth Thakur | BiharSVC/202 4/2000 | Vill.-Arsandey,PO- Boraiva,Thana-Kanke,Dist.- Ranchi | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 09/08/47 |
| 2406 | Syed Ibne Hasan, S/o Late Sayed Mansurul Hasan | BiharSVC/179 8/2000 | Vill.+PO- Chandanopatti,Thana- Hayaghat,Dist.-Darbhanga | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 09/01/44 |
| 2407 | SYED MEER ALTAF HUSSAINI S/O SYED MUSA | KARNASVC/3 148 | H.NO. TS 993/80, A/1, MEHABHOOD NAGAR, NEAR RING ROAD, GULBARGA | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 07.08.78 |
| 2408 | SYED RAFIUDDIN S/O SYED NIZAMUDDIN | APSVC/03598/ 2000 | JAMA MASJID STREET, OPP. ANDHRA BANK, VIKARABAD, R.R. DT. | BVSc&AH/MAR ATHWADA AG. U./79 | 04.07.55 |
| 2409 | SYED SHARFUDDIN S/O SYED RASOOL HUSSAINI | APSVC/03672/ 2001 | F2, SRINIVAS APTS., SRINIVASAPURAM, RAMANTHAPUR, HYDERABD | BVSc&AH/APA U/72 | 01.06.46 |
| 2410 | Syed Tayyeb Hussain,S/o Late Ali Bakhsh Hussain | BiharSVC/965/ 2000 | Vill.-Saralya,PO- Aurangabad,Thana- Amjhore,Dist.-Rohtas,Pin- 821312 | B.V.Sc.&A.H./R U/68 | 02/02/46 |
| 2411 | T. LAZAR MATHEW | DVC/0517/99 | EC-285, MAYA ENCLAVE, NEW DELHI-64 | BVSc/KERALA UNI/64 | 12.7.42 |

| STUDY NAME | REGN | AGE | QUALIF | |
|---|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 2412 T.P.BALAGOPALAN | PONDI/112/20 00 | 44,PUDUPET, LAWSPET MAIN ROAD, PONDICHERRY-605008 . | BVSc&AH/KAU/ 83 | 29/07/60 |
| 2413 TAGO BAGE | ARUNA/183/9 8 | C/O TAYO HANE, CLF, NIRJULI, DIST PAPUM- PARE, PO NIRJULI | BVSc&AH/AAU/ | 10.2.71 |
| 2414 TAJUDDIN USTA S/O SH. GULAM RASUALL USTA | RAJSVC/2721/ 2000 | USTO KA MOHALLA, BIKANER, RAJASTHAN. | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 09.11.71 |
| 2415 TAMAL KRISHNA RAY S/O KSHITISH CH. RAY | TRIPURA/73/2 000 | C/O GOPAL NAHA, DHALIAI, SONAMURA, TRIPURA WEST - 799131 | BVSc/UAS B'LORE/88 | 12.8.66 |
| 2416 TAMBOLI SLAIM RAMJAN | MSVC/6386/20 00 | AT POST MAHULI, TAL.KAHANAPUR, DIST.SANGLI- 415310 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 06-09-77 |
| 2417 TAPAN JYOTI ROY | WBSVC/2792/ 2000 | HARINGHATA FARM, QR. NO. GK/5, P.O. MOHANPUR, DT. NADIA | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 2418 TAPAN RAY S/O LT.CHITTA RN.RAY | TRIPURA/102/ 2000 | PO-KANCHANBARI,C/O JADHULAL ROY | BVSc&AH/OUA T/99 | 01/01/74 |
| 2419 TAPAS BANDYOPADHYAY | WBSVC/2795/ 2000 | SAINTHIA 132 K.V. SUB- STATION, P.O. SAINTHIA, DT. BIRBHUM | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 2420 TAPAS KUMAR BISWAS | WBSVC/2815/ 2000 | VILL NATUN BUINCHA(FULIA NETAJI NAGAR),P.O.BUINCHA,P. S. SANTIPUR,DT.NADIA | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 2421 TAPAS KUMAR DUTTA | VCI/2228/00 | SCIENTIST,CIRG,MAKHD OOM,PO.FARAH,MATHUR A.U.P-281122 | BVSc&AH/BCK VV/89 | 13/12/63 |
| 2422 Tapeshwar Kumar, S/o Sri Yugeshwar Prasad | BiharSVC/164 6/2000 | V.-Rosalpur Khurd,PO- Darbhanga,Thana- Bahadurpur,Dt.- Darbhanga,Pin.-846002 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 02/01/72 |
| 2423 Tapeshwar Tiwary, S/o Late Rajdeo Tiwary | BiharSVC/203 3/2000 | Vill.+PO-Gorkhari,Thana- Bikram,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/62 | 01/07/37 |

| SL. NO. | NAME | RNUM | ADM | QUALIF | DOB |
|---------|---|-------------------|---|------------------------------|----------|
| 2424 | TARA BOTHRA | RAJSVC/2680/2000 | D/O SH. DHARAM LAL BOTHRA,BABA RAMDEV ROAD,MAIN BAZAR,GANGASHAHR,BI | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./2000 | 20.08.76 |
| 2425 | TARALKAR DYNESHWAR NIVARTI | MSVC/6332/2000 | AT SONGAON POST LOKHANDI SAWARGAON, TALUKA AMBEJOGAI, DIST. | BVSc&AH/MAU/2000 | 26-12-77 |
| 2426 | Tarkeshwar Singh, S/o Sri Jagdish Kr. Singh | BiharSVC/949/2000 | M-Ramsa Sheonagari,PO-Telpa,Thana-Chapra,Dist-Chapra,Pin-841301 | B.V.Sc.&A.H./R AU/91 | 28/12/64 |
| 2427 | Tarni Prasad Mandal, 'S/o Late Kamal Narayan Mandal | BiharSVC/104/2000 | M.+PO-Kerjaiyn Uttar Tolla,Thana-Kerjaiyn Bazar,Dt.-Supaul,Pin.-852215 | B.V.Sc.&A.H./R AU/96 | 12/02/68 |
| 2428 | TARUN KUMAR S/O SRI HARISH CHAND GARG | UPVC/3262 | 26, LAXMI VIHAR, GHAZIABAD, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 30.03.76 |
| 2429 | Tej Narayan Singh, S/o Late Dhurandhar Pd. Singh | BiharSVC/146/2000 | Moh.-Pokhra,PO+Thana-Hazipur,Dist.-Vaishali | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 03/01/47 |
| 2430 | Tej Narayan Singh, S/o Sri Ram Gulam Singh | BiharSVC/136/2000 | M.-Akashvani Chowk,Thana-Kotwali,PO+Dist.-Bhagalpur,Pin-812001 | B.V.Sc. & A.H./MU/64 | 18/10/42 |
| 2431 | Tejkumar Ram Baitha, S/o Sri Jageshwar Baitha | BiharSVC/194/2000 | Moh-R.S.C.(Gate),PO+Thana-Kanke,Dist.-Ranchi,Pin-834006 | B.V.Sc. & A.H./BAU/89 | 16/01/62 |
| 2432 | TERANGPI DR. (MS.) ALEENA D/O SH. PARNO TERANG | ASM/1903/2000 | LORULANGSO MARKET COMPLEX P.O. DIPHU-782460, KARBI-ANGLONG, ASSAM | BVSc&AH/AAU/2000 | |
| 2433 | THAKRE SHARMISTHA JANBARAO | MSVC/6372/2000 | COSMOPOLITION SOCIETY, WARDHA ROAD, SOMALWADA, NAGPUR- 440025 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 31-07-77 |
| 2434 | Thakur Abhay Nath Singh, S/o Late Janak Singh | BiharSVC/177/2000 | Vill.-Majilishpur,PO-Allipur Hatta,Thana-Mahnor,Dist.-Vaishali | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 01/02/47 |
| 2435 | Thandavamurthy.C | Pondi/94/2000 | A-1,Staff Qtr,Rajiv Gandhi Coll of Vety & Anima Sci, Kurumbapet,Pondicherry | BVSc/APAU/73 | 6.06.50 |

| STUDY NAME | REGN | ADDRESS | QUALIFICATION | DATE |
|---|-------------------------|--|------------------------------|----------|
| 2436 Thingujam Chaa Tolenkhomba | Mani/371/00 | Uripok Sorbon Thingel | BVSc&AH/AAU/ 00 | 1.1.76 |
| 2437 THIPPESWAMY L S/O LACHINMANAIK | KARNASVC/3 154 | HOSAHATTY, ISAMUDHARA POST CHITHRA DHURGA DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 22.07.76 |
| 2438 THIRUMURUGAN P. | KERALASVC/ 2445/2000 | ISWARYA NIVAS, III/711 A, OZHUVALATHADAM VALARA P.O. ADIMALI, IDUKKI-686691 | BVSc/TNV&AS U/95 | 04.01.70 |
| 2439 THIRUPPATHY VENKATACHALAPATHY R. | KERALASVC/ 2444/2000 | 49, FLAT, STAFF QUARTERS, VETERINARY COLLEGE, MANNUTHY, THRISSUR- | BVSc/TNV&AS U/92 | 15.04.69 |
| 2440 THOMAS VIJO JOY | KERALASVC/ 2488/2000 | PRAIKARA, Mavelikara P.O., ALAPPUZHA PIN - 690101 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 24.03.74 |
| 2441 Thongbam Niranjan Singh | Mani/366/00 | Sagolband Tera Amudon, Imphal | BVSc&AH/JNKV V/00 | 25.9.73 |
| 2442 THORAT VINOD JALINDAR | MSVC/6391/20 00 | AT POST MESINGI TAL. SANGOLA, DIST.SOLAPUR- 413307 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 09-12-77 |
| 2443 Thrimurthy Nayaka M H,S/o Hosallappa M K | KARNASVC/3 170 | Manne Post, Thyamagondalu,H.O.Nelam angala Taluk,Bangalore Dist | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 9.8.74 |
| 2444 TITO THOMAS | KERALASVC/ 2499/2000 | NADAVALLIL HOUSE, PULLIYOOR GARDENS, NALANCHIRA, TRIVANDRUM-15 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 02.01.76 |
| 2445 TITSON PINHEIRO | KERALASVC/ 2447/2000 | CHEENIKKAPARAMBIL HS.,SOUTH BAZAR,EAST END RD.,IRINJALAKUDA,THRIS | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 04.12.73 |
| 2446 TRANGADIA BHAVESHKUMAR JAYANTILAL | VCI/2300/01 | L.I.T.C HOSTEL AT SARDAR KRUSHINAGAR- 385506 TAL DANTIWADA DT- BANASKAN | BVSc&AH/GAU/ 00 | 13/03/77 |
| 2447 TRBHUVAN PRASAD S/O SRI MAHANGU RAM | UPVC/3268 | VILL.-HISAMUDDIN PUR, POST- PIPRA DIST. AMBEDKARNAGAR, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 10.04.75 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-------------|---|------------------------|---|------------------------|------------|
| 2448 | Tribeni Sharma, S/o Sri Bhagwan Pd. Sharma | BiharSVC/166 1/2000 | Vill.-Khabhario,PO+Thana-Arwal,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/80 | 01/01/56 |
| 2449 | TULASI RAM J. S/O J. SUBBARAYUDU | APSVC/03647/ 2000 | 5/25, S/O RAYUDU (KJS), KONDAPETA(P), CHENNUR(M), CUDDAPAH DT. -516 162 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 02.06.75 |
| 2450 | TULSIDAS CHAUDHURY S/O BINOY KR.CHAUDHURY | TRIPURA/84/2 000 | GOBINDAPUR(EAST),PO-KAILASHAHAIR NORTH TRIPURA,PIN-799277 | BVSc&AH/BCK VV/2000 | 28/02/61 |
| 2451 | UDAI BHAN MALL S/O SRI S.B. MALL | UPVC/3224 | 220/222, DIWAN BAZAR, GORAKHPUR (U.P.) | BVSc&AH/AGR A UNIV./76 | 07.07.51 |
| 2452 | Uday Kumar Sinha, S/o Sri Dwarika Sinha | BiharSVC/145 2/2000 | Vill.+PO-Ichahos,Thana-Islampur,Dist.-Nalanda,Pin.-801303 | B.V.Sc. & A.H./BAU/95 | 16/02/69 |
| 2453 | Uday Kumar, S/o Sri Yugal Kishore Prasad | BiharSVC/140 2/2000 | Vill.+PO-Hotwar,Thana-Sadar,Dist.-Ranchi,Pin-835217 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 07/05/73 |
| 2454 | Uday Narayan Prasad, S/o Sri Upendra Narayan Prasad | BiharSVC/107 4/2000 | Moh.-Polhariya,PO+Thana-Begusarai,Dist.-Begusarai,Pin.-851101 | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 10/05/44 |
| 2455 | Udheshwar Mahto, S/o Late Manik Mahto | BiharSVC/114 7/2000 | Vill.-Ratnadih,PO-Kayaridih,Thana-Bagodar,Dist.-Giridih | B.V.Sc.&A.H./R U/69 | 09/11/47 |
| 2456 | UDIT JAIN S/O SRI K.K. JAIN | UPVC/3199 | 250, MANAS NAGAR, MATHURA, U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 06.09.74 |
| 2457 | Ujjwal Kumar, S/o Sri P. Prasad | BiharSVC/844/ 2000 | Moh.-Chandmari Road,Surya Path,PO-Lohia Nagar,Thana-Kankarbagh,Patna-800020 | B.V.Sc.&A.H./R AU/94 | 14/08/69 |
| 2458 | UMA CHOUDARY A. D/O A. CHENCHU SUBBA RAO | APSVC/03630/ 2000 | KRISHNA NAGAR, 7TH LINE, KUNDUL ROAD, GUNTUR-522006 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 22.09.76 |
| 2459 | Uma Kant Singh, S/o Sri Angad Pd. Singh | BiharSVC/120 0/2000 | V.+PO-Bari Kadar Janna,Thana+Dist.-Sahebganj,Pin.-816109 | B.V.Sc.&A.H./R AU/89 | 02/01/62 |

| SHM NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|---|----------------------|---|------------------------|----------|
| 2460 Uma Kant Yadav, S/o Late Akhileshwari Pd. Yadav | BiharSVC/950/2000 | M-Madhura,PO+Thana-Tarapur,Dist.-Munger | B.V.Sc.&A.H./R AU/74 | 15/01/49 |
| 2461 UMA MAHESWARI | PONDI/108/2000 | 18, JANSI STREET, INDIARA GANDHI NAGAR, ORLEANPET, PONDICHERRY-605001 | BVSc/TVASU/9 2 | 25/09/67 |
| 2462 Uma Prasad Sinha, S/o Late Kailash Sinha | BiharSVC/133, 9/2000 | Vill.-Husainchok,PO-Charma,Thana-Masaudhi,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 03/04/48 |
| 2463 Uma Shankar Pd. Singh, S/o Late Devendra Pd. Singh | BiharSVC/169 6/2000 | Vill.-Khandpar,PO-Kawadpur,Thana-Suryagadha,Dist.-Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./RAU/88 | 06/03/60 |
| 2464 UMAKANT MISHRA, S/O. SH. S.P.MISHRA | RAJSVC/2760/2001 | 1/C, GDVT. VET. HOSPITAL, JAWALI PALI RAJASTHAN | BVSc&AH/CSA DPV/99 | 15-08-73 |
| 2465 Umang Miglani,S/o Sh N.K.Miglani | HarSVC/1654 | H.No. 27, Shastri Nagar Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/2006 | 26.3.77 |
| 2466 Umashankar Pd. Srivastava, S/o Sri Kant Prasad | BiharSVC/183 2/2000 | Moh.-Choti Kela Bari,PO+Thana-Munger,Dist.-Munger | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 08/01/48 |
| 2467 Umashankar Prasad, S/o Late Jagannath Prasad | BiharSVC/205 9/2000 | M-Priyadarshi Nagar,PO-Danapur Cant,Thanbadanapur,Dt.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/67 | 18/01/40 |
| 2468 Umashankar Prasad, S/o Sri Sadhu Sharan Prasad | BiharSVC/160 1/2000 | Moh.-Ashok Nagar,PO-Lohianagar,Thana-Kankarbagh,Dist.-Patna,Pin.-800020 | B.V.Sc. & A.H./BAU/86 | 26/01/62 |
| 2469 Umashankar Sharma, S/o Sri Udho Singh | BiharSVC/155 9/2000 | Vill.-Hatia,PO-Ghoswari,Thana-Bakhtiyarpur,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./OUAT/75 | 12/01/53 |
| 2470 Umashankar Sinha, S/o Late Shivpujan Sinha | BiharSVC/145 6/2000 | M.-Hariharpur Lalgadh,PO-Gantambudh Narar,Thana-Barharia,Dist.-Siwan | B.V.Sc. & A.H./RU/67 | 12/05/46 |
| 2471 Umesh Chandra Shukla, S/o Late Jagdish Pd. Shukla | BiharSVC/158 3/2000 | Vill.-Sidhua Asthan,PO+Thana-Pararama,Dist.-Kushinagar,State-U.P. | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 01/07/45 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-------------|---|------------------------|--|--------------------------|------------|
| 2472 | Umesh Chandra Singh, S/o Late Dr. Baidvanath Singh | BiharSVC/101 4/2000 | Vill.-Rosra,PO- Rosra,Thana-Rosra,Dist.- Samastipur | B.V.Sc.&A.H./M U/66 | 04/04/44 |
| 2473 | Umesh Choudhary, S/o Sri Chandeshwar Choudhary | BiharSVC/148 4/2000 | Vill.+PO-Parthu,Thana- Ekangersarai,Dist.- Nalanda,Pin.-801301 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 21/07/70 |
| 2474 | Umesh Kant Choudhary, S/o Late Ramchandra Choudhary | BiharSVC/161 9/2000 | V- ChandchorMathurapur,PO- Mathurapur,Thana- Ajiyarpur,Dt.-Samastipur,P- | B.V.Sc. & A.H./RAU/79 | 01/10/55 |
| 2475 | Umesh Kumar Gupta, S/o Sri Jitendra Nath | BiharSVC/107 0/2000 | V.-Choti Badalpura,PO- Khagaul,Thana- Danapur,Patna-801105 | B.V.Sc.&A.H./R AU/82 | 11/11/59 |
| 2476 | Umesh Kumar, S/o Late Prasadi Mandal | BiharSVC/155 2/2000 | Vill+PO-Rani Diyara,Thana- Peerpainti,Kahalgaon,Dist.- Bhagalpur,Pin.-813222 | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 08/03/71 |
| 2477 | Umesh Pd. Srivastava S/o Sh. Gorakh Lal | BiharSVC/131 5/2000 | Vill.-Proraha,PO- Gobraura,Via Lauria,Thana-Sathi,Dist.- Betiah,P.-845453 | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 03/01/46 |
| 2478 | Umesh Prasad, S/o Sri Sukhdeo Prasad | BiharSVC/135 0/2000 | Vill.-Govi Bigha,PO- Tulsigadh,Thana- Chandi,Dist.-Nalanda,Pin- 803108 | B.V.Sc. & A.H./BAU/82 | 31/03/58 |
| 2479 | Umeshwari Sharma, S/o Late Paras Singh | BiharSVC/174 2/2000 | Vill.-Sondiha,PO- Guraru,Thana-Konch,Dist.- Gaya | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 29/08/42 |
| 2480 | UPADHYAY SHAILENDRASHANKAR RAJENDRAPRASAD | MSVC/6366/20 00 | BEL-BHAGWANTRAO D ED.COLLEGE,RAMPURI WNO.11,CHMORSHI ROAD GADCHIROLI- | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 16-12-77 |
| 2481 | Upendar Kansal,S/o Sh Jai Bhagawan | HarSVC/1617 | H.NO.86 C/oArya Cloth House,Purana Bazar,Ismailabad (KKR) | BVSc&AH/CCS HAU/99 | 27.5.76 |
| 2482 | Upendra Kumar Singh, S/o Late Ramrup Singh | BiharSVC/141 0/2000 | Vill.-Gamhari,PO+Thana- Uphora,Dist.-Aurangabad | B.V.Sc. & A.H./RAU/87 | 03/01/63 |
| 2483 | Upendra Kumar, S/o Sri Jagdish Prasad | BiharSVC/198 6/2000 | V.-Chandanbag Naya Tola,PO+Thana+Dist.- Munger,Pin-811201 | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 16/04/57 |

| SR# | NAME | RNUM | ADDRESS | QUALIFICATION | DATE |
|------|--|-------------------------|--|-----------------------------|----------|
| 2484 | Upendra Narayan Yadav, S/o Late Birbal Yadav | BiharSVC/186 8/2000 | Vill.-Reuta,PO- Gopalpur,Thana- Chanan,Dist.-Lakhisarai | B.V.Sc. & A.H./BAU/82 | 06/06/57 |
| 2485 | Upendra Nath Pandey, S/o Late Ramashish Pandey | BiharSVC/171 5/2000 | Vill.+PO+Thana- Ramgadhwa,Dist.-Motihari | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 13/07/47 |
| 2486 | Upendra Pandit, S/o Sri Shreedhar Pandit | BiharSVC/207 7/2001 | Vill.-Mahadevapur,PO- Ghogha,Thana- Sonhousa,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/2000 | 18/09/74 |
| 2487 | USHA KIRAN BHAGAT D/O SHRI NAKA RAM BHAGAT | MPSVC/1871/ 00 | P.O. PUNDOORDADHIRI, DISTT SARGUJA M.P. 497119 | BVSc&AH/JNKV V98-99 | 5.2.71 |
| 2488 | Usha N,W/o Dr.Pradeen Kumar N.R | KARNASVC/3 099 | Tattur Post and Village Soraba Taluk, Shimoga, Dist | BVSc/UAS,B'lor e/99 | 1.6.75 |
| 2489 | Usha Rani,G C, D/o Chidananda N | KARNSVC/318 3 | 1124/1,II Block,3rd Main Vidyaranyapura,BEL Layout,Bangalore-97 | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 10.4.78 |
| 2490 | UTTAM SAHA S/O SH. SATYENDRA CH.SAHA | TRIPURA/74/2 000 | C/O LT.SATYENDRA CH.SAHA,SOUTH OF KAMAR PUKUR,P.O- AGT.COLLEGE,TRIPURA(| BVSc&AH/MAU/ 87 | 10/12/63 |
| 2491 | UTTAM SARKAR | WBSVC/2840/ 2001 | P.O. & VILL. BILSHI-II, P.S. TUFANGANJ, DT. COOCHBEHAR | BVSc&AH/WBU AFS/2000 | |
| 2492 | UZMA D/O SRI FAROOQ AHMAD KHAN | UPVC/3279 | C/O I/137, G.B. PANT UNIVERSITY, PANTNAGAR, U.S. NAGAR | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 08.09.77 |
| 2493 | V.COUMARANE | PONDI/138/20 01 | 156,YANAM VENGATACHALAM,PILLAI STREET, PONDICHERRY- 1 | BVSc&AH/PU/2 000 | 30/05/78 |
| 2494 | V.L. BHAGYA LAKSHMI | KERALASVC/ 2497/2000 | AMBADI, TC 18/2036, ANNOOR, THRUMALA P.O., TRIVANDRUM, PIN- 695006 | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 31.01.76 |
| 2495 | V.MAROUDAM | PONDI/143/20 01 | 18,S.M.V.PURAM,VILLIAN UR, PONDICHERRY- 605110 | BVSc&AH/PU/2 000 | 22/12/77 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|------|---|------------------------|--|--------------------------|----------|
| 2496 | V.NARASINGARAO | PONDI/124/20 00 | V.V.P.NAGAR,PONDICHE RRY-605009 | BVSc/APAU/74 | 01/06/51 |
| 2497 | VAIDYA VILAS MAHADEO | MSVC/6350/20 00 | VAIDYA PARIWAR, AMBEDKAR WARD, AT DADAPUR, POST RAMGAD, GADCHIROLI- | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 07-06-76 |
| 2498 | Vaidyanath Jha, S/o Sri Surya Narayan Jha | BiharSVC/169 7/2000 | Vill.+PO-Meehaul,Thana- Pandaul,Dist.-Madhubani | B.V.Sc. & A.H./RAU/79 | 14/08/52 |
| 2499 | Vaidyanath Prasad, S/o Late Laxman Pd. | BiharSVC/177 6/2000 | Vill.-Makhdumpur,PO- Paithnao,Thana- Islampur,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 03/01/46 |
| 2500 | Vaidyanath Singh, S/o Late Ramnath Singh | BiharSVC/174 1/2000 | Vill.-Dhomariya,PO- Madanpur,Thana+Dist.- Arena,Pin.-854333 | B.V.Sc. & A.H./BAU/84 | 06/01/61 |
| 2501 | VANE SHYAM RAVINDRA | MSVC/6365/20 00 | C/O R.G.VANE, VANE LANE, AKOT, TAL.AKOT, DIST. AKDLA-444101 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 30-06-78 |
| 2502 | VANEET MALHOTRA, S/O SH. JIWAN KUMAR MALHOTRA | PB.SVC- 2229/2001 | H.NO.B-35/118, BAKSHI GANDA SINGH STREET, SIRHANDI BAZAR, PATIALA. | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 07.03.76 |
| 2503 | VARAPRASADA REDDY K.N. S/O K. SUBBA REDDY | APSVC/03645/ 2000 | RACHERLA (P)&(M), GIDDALUR(TQ), PRAKASAM DT./523368 | BVSc&AH/ANG RAU/2000 | 30.08.74 |
| 2504 | VARINDER KUMAR, S/O SH. BANARSI DASS | PB.SVC- 2185/2000 | HOUSE NO. 717, STREET NO. 12, NEW MODEL HOUSE, JALANDHAR CITY-144 003 | BVSc&AH/PAU/ 2000 | 08.11.76 |
| 2505 | VARUN KUMAR S/O SRI GHANSHYAM DASS | UPVC/3309 | D-2211, INDIRA NAGAR, LUCKNOW, U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/2001 | 25.02.76 |
| 2506 | VASAVA KIRAN KUMAR ARVINDBHAI | VCI/2287/01 | DEPT. OF MICROBIOLOGY VETY.COLG.GUJ. AGRI.UNI.SARDAR | BVSc&AH/GAU/ 99 | 11/06/74 |
| 2507 | VAZ RANDHIR CLAYTON | GOASVC/117/ 01 | C/1 DINA HOUSING COLONY, ALTO-DE- PORVORIM, BARDE | BVSc&AH/KKV/ 00 | 8.5.78 |

| SNOM | NAME | REGN NO | ADD | QUALIF | DOB |
|------|--|-------------------------|--|--------------------------|----------|
| 2508 | Ved Prakash Giri, S/o Sri Goswami Punyadeo Giri | BiharSVC/162 5/2000 | Vill.-Godna Mathia,PO+Thana- Revelganj,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./BAU/81 | 12/07/56 |
| 2509 | VEERAMANI P. | KERALASVC/ 2526/2001 | QUARTER NO. B/9, TEACHERS QUARTERS, VETY., COLLEGE CAMPUS, MANNUTHY | BVSc/TNV&AS U/93 | 31.03.70 |
| 2510 | Velovia Momin | Megh/176/01 | New Kench's Trace, Shillong-13 | BVSc&AH/JNKV V/99 | 6.12.73 |
| 2511 | VENKATA RAMANAIAH D. S/O D. POTHULURAI | APSVC/03638/ 2000 | 14/72, POST OFFICE STREET, PORUMAMILLA CUDDAPAH DT. 516 193. | BVSc&AH/APA U/89 | 25.06.67 |
| 2512 | VENKATA RAMESH G. S/O LAKSHMIKANTHAM | APSVC/03574/ 2000 | VETY. ASST. SURGEON, VETY. DISPENSARY, VINAYAKAPURAM(P), KHAMMAM-507301 | BVSc&AH/APA U/89 | 14.11.65 |
| 2513 | VENKATA SUBBAIAH D. S/O D. SUNKANNA | APSVC/03656/ 2000 | H.NO.5-760-A- 120,GAYATRI ESTATE, KURNool. | BVSc&AH/APA U/94 | 01.06.64 |
| 2514 | VENKATA SURESH T. S/O T. PADMANABHAM | APSVC/03555/ 2000 | D.NO.69-12-12,ENG. COLLEGE(P), KAKINADA- 533003 | BVSc&AH/ANG RAU/98 | 18.06.75 |
| 2515 | Venkateshwar Nath Pandey, S/o Late Gupteshwar Pandey | BiharSVC/114 6/2000 | Vill.-Mahuaari,PO- Jamuaanw, Thana- Agiganw, Dist.-Arrah (Bhojpur) | B.V.Sc.&A.H./R AU/78 | 30/06/53 |
| 2516 | VENU T. S/O T. SATYANARAYANA | APSVC/03539/ 2000 | ADDEPALLI, BHATTIPROLU (P&M), GUNTUR DT.-522 256 | BVSc&AH/ANG RAU/99 | 22.07.75 |
| 2517 | VENUGOPAL S | PONDI/103/20 00 | 2, FIRST FLOOR, FIRST CROSS STREET, KURINJI NAGAR, PONDICHERRY 605008 | BVSc&AH/UAS/ 88 | 04.03.66 |
| 2518 | VIBHUTE MADHUKAR KISHNNRAO | MSVC/6283/20 00 | ASHOK NAGAR, MUKHED TAH, MUKHED, DIST. NANDED-431715 | BVSc&AH/MAU/ 2000 | 12-07-76 |
| 2519 | Vidya Nand Mauoor, S/o Sri Sidheshwar Nath Mauoor | BiharSVC/153 5/2000 | Vill.+PO-Gahruan,Thana- Pareri,Dist.-Bhojpur (Arrah) | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 02/07/46 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOS |
|------|--|---------------------|---|--------------------------|----------|
| 2520 | Vidya Sagar Singh, S/o Late Parmeshwar Pd.Singh | BiharSVC/843/ 2000 | Vill.+Post-Besvak,Thana-Islampur,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./B AU/91 | 05/12/66 |
| 2521 | Vidya Sagar, S/o Sri Ganga Sagar | BiharSVC/951/ 2000 | M-Bhagat Chowki,PO-Nauwgadhi,Thana-Mufsil,Dist.-Munger | B.V.Sc.&A.H./R AU/93 | 06/10/64 |
| 2522 | Vidyanand Verma, S/o Late Sharda Pd. | BiharSVC/168 6/2000 | Vill.+PO+Thana-Nagar Utari Gadhwa,Dist.-Dadhwa | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 11/11/43 |
| 2523 | VIJAY KASHNIA | RAJSVC/2606/ 2000 | G.V. SENIOR SECONDARY SCHOOL SANGRIA, DIST. HANUMANGARH | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 20.07.76 |
| 2524 | Vijay Kishore Bara, S/o Sri Kalemant Bara | BiharSVC/163 4/2000 | V.-Atakora Tetar Toli,PO-Mahadev Chaimiri,Thana-Bharno,Dist.-Gumla | B.V.Sc. & A.H./RAU/96 | 07/01/72 |
| 2525 | Vijay Kr. Baitna, S/o Late Ramlagan Baithna | BiharSVC/176 0/2000 | Moh.+PO-Buti,Thana-Sadar Ranchi,Dist.-Ranchi,Pin.-835217 | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 25/10/70 |
| 2526 | Vijay Kr. Dung Dung, S/o Sri Hilariyus Dung Dung | BiharSVC/117 5/2000 | V.-Kasaunga Deepa Toli,PO-Simdega,Thana-Thethaitanger,Dt.-Gumla,Pin-835223 | B.V.Sc.&A.H./B AU/89 | 25/08/65 |
| 2527 | Vijay Kr. Sinha, S/o Late Awadh Bihari Lal | BiharSVC/137 3/2000 | Moh.-Imlital Gandmpash,PO-Imlital,Thana-Danapur Cant,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/70 | 01/01/48 |
| 2528 | VIJAY KUMAR BABUBHAI PARMAR | VCI/2257/01 | NEAR DHAPSA BOARD,NAROLI BHILAD ROAD,NAROLI DADRA AND NAGAR HAVELI-U.T | BVSc&AH/KKV/ 95 | 17/09/73 |
| 2529 | Vijay Kumar Jha, S/o Sri B.M.Jha | BiharSVC/197 0/2000 | Vill.-Ujan,PO-Lohna Road,Thana-Sakatpur,Dist.-Darbhanga | B.V.Sc. & A.H./CCSHAU/94 | 02/09/71 |
| 2530 | VIJAY KUMAR S/O SH. BALVIR CHAND | PB.SVC- 2179/2000 | C/O S.BALDEV RAJ PARJAPAT, KARA BARA ROAD, VPO. SALEM TABRI, DIST. LUDHIANA | BVSc&AH/PAU/ 1999 | 18.06.75 |
| 2531 | Vijay Kumar Singh, S/o Late Ram Nath Singh | BiharSVC/101 5/2000 | Vill.-Dhararo,Thana-Karthatan,Dist.-Vaishali,Pin.-844119 | B.V.Sc.&A.H./R AU/93 | 18/10/66 |

| SR.NO. | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | BUS |
|--------|--|---------------------|---|-----------------------|----------|
| 2532 | Vijay Kumar Sinha, S/o Late Ramvash Singh | BiharSVC/858/2000 | Vill.-Annaith,PO-Arrah,Thana-Nawada,Dist.-Arrah,Pin.-802301 | B.V.Sc.&A.H./M U/68 | 31/01/46 |
| 2533 | Vijay Kumar, S/o Late Saryug Ram | BiharSVC/134 8/2000 | Moh.-Pusa Bazar,PO-Pusa Farm,Thana-Pusa,Dist.-Samastipur,Pin-848125 | B.V.Sc. & A.H./RAU/88 | 02/03/60 |
| 2534 | Vijay Kumar, S/o Sri Bhagirath Prasad | BiharSVC/108 5/2000 | Vill.-Bajrang Bigha,PO-Bimaba,Thana-Kashichak,Dist.-Nawada | B.V.Sc.&A.H./B AU/87 | 11/01/63 |
| 2535 | VIJAY MAHATO | VCI/2226/00 | DEPTT.OF PHARMACOLOGY COLL.OF V.S.GUJARAT AGRIL.UNI.SARDAR | BVSc&AH/GAU/ 97 | 25/5/75 |
| 2536 | VIJAY PAL S/O SH. SURJEET SINGH | RAJSVC/2722/ 2000 | V.P.O. PALRA, JHAJJAR,HARYANA.. | BVSc&AH/CCS HAU/93 | 27.06.70 |
| 2537 | Vijay Pd. Mandal, S/o Sri Sahdeo Mandal | BiharSVC/180 4/2000 | Vill.-Bhola Tola,PO+Thana-Kahalgaon,Dist.-Bhagalpur,Pin-813222 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 01/01/78 |
| 2538 | Vijay Shankar Giri, S/o Sri Deo Lal Giri | BiharSVC/104 2/2000 | M. Son Barsa Tola,PO+Thana-Marihi,Dist.-Chapra | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 05/02/45 |
| 2539 | VIJAY SHANKAR SINGH PATEL S/O SRI SHIV SARAN SINGH | UPVC/3189 | VILL. BIRAHARA, PO-FURSATAR, DISTT.-BALLIA, U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/2000 | 02.10.73 |
| 2540 | VIJAY SHANKAR SINGH S/O SRI GIRJA PRASAD SINGH | UPVC/3297 | VILL-VARAGAVAN,PO-TENDUA KALAN DISTT. MIRZAPUR | BVSc&AH/CSA UA&T/96 | 04.10.63 |
| 2541 | Vijay Shankar Singh, S/o Hari Shankar Singh | BiharSVC/108 2/2000 | Vill.+PO-Ramchandrudra,Thana-Panapur,Ost.-Chapra | B.V.Sc.&A.H./B AU/91 | 15/01/60 |
| 2542 | Vijay Shankar Singh, S/o Sri Parsuram Singh | BiharSVC/165 3/2000 | Vill.+PO-Sonhan,Thana-Bhabhua,Dist.-Kaimur | B.V.Sc. & A.H./RU/70 | 01/01/48 |
| 2543 | Vijay Shunker Jha, S/o Sri Shishta Nand Jha | BiharSVC/153 2/2000 | Vill.-Fulsara,PO-Balua Kahiyanjanj,Thana-Plasi,Dist.-Areria,Pin.-854333 | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 02/01/57 |

| SR# | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|------|---|-------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 2544 | VIJAY SINGH | RAJSVC/2694/ 2000 | V.BANSROLI,P.LEHCHOR O,KALAN,TEH.BAYANA,B HARATPUR-321401 | BVSc&AH/RAJ. AGRI.UNIV./200 0 | 13.03.73 |
| 2545 | VIJAYA BAHADUR SINGH S/O SHRI RANCHHOREPRASAD | MPSVC/1896/ 00 | NEAR THE PUSHKAR GAS GODOWN, NEHRU NAGAR, REWA 486001 | BVSc&AH/JNKV V/86-87 | 21.02.64 |
| 2546 | Vijayant Das, S/o Sri Suresh Lal | BiharSVC/194 7/2000 | Vill.+PO-Bheerwara,Thana- Sindhia,Dist.-Samastipur | B.V.Sc. & A.H./BAU/97 | 06/10/71 |
| 2547 | VIJAYASHANKAR K | VCI/2263/01 | 6/64, KALANGANI (P.O.) NAMAKKAL (DIST.) - 637014 | BVSc&AH/MAU/ 97 | 27/02/75 |
| 2548 | Vijaykant Ram, S/o Sri Sukhdeo Ram | BiharSVC/185 1/2000 | Vill.-Deepwan,PO+Thana- Gadhwa,Dist.-Gadhwa,Pin- 822114 | B.V.Sc. & A.H./BAU/91 | 10/01/63 |
| 2549 | Vijendra Kumar, S/o Sri Harish Chandra Ram | BiharSVC/108 4/2000 | Vill.-Mandordih, PO- Chapuvadih,Thana- Bengabad,Dist.-Giridih | B.V.Sc.&A.H./B AU/87 | 08/01/60 |
| 2550 | Vijendra Prasad Singh, S/o Sri Janak Prasad Singh | BiharSVC/193 8/2000 | V.-Najipur,PO- Chandohaur,Thana- Ujiyarpur,Dt.- Samastipur,Pin-848114 | B.V.Sc. & A.H./WBUAFS/2 000 | 02/01/70 |
| 2551 | VIJU VIJAYAN | KERALASVC/ 2481/2000 | VEZHAPARAMBIL, TITTAMEL, CHENIGANNUR, ALAPPUZHA DIST. - | BVSc&AH/KAU/ 2000 | 10.05.76 |
| 2552 | Vikas Chaudhry,S/o Sh Karan Singh | HarSVC/1653 | H.No. 377/24, Jagdish Colony, Rohtak | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 24.12.77 |
| 2553 | VIKAS CHOPRA S/O SH. SANT SARUP SINGH | PBSVC- 2202/2000 | SUBASH CHOWNK, 13/69, KAPURTHALA | BVSc&AH/WBU A&FS/2000 | 30.03.78 |
| 2554 | Vikas Kumar Sinha, S/o Sri Pravesh Kumar Sinha | BiharSVC/195 4/2000 | M-Shekhpura,Near Karpuri Bhawan,PO- B.V.College,Thana- Shastrinagar,Dt.-Patna | B.V.Sc. & A.H./Dr.PDKV/9 8 | 25/09/76 |
| 2555 | Vikas Yadav S/o Sh. A.K. Yadav | HarSVC/1668 | 492, Sector-15 A, Hisar | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 13.6.76 |

| SERIAL NUMBER | REGISTRATION NUMBER | ADDRESS | QUALIFICATION | DATE OF BIRTH |
|---------------|--|---|---------------------------|---------------|
| 2556 | VIKAY KUMAR SINGH S/O SRI RAM PUJAN SINGH | UPVC/3235 VILL.&PO-BHELARA, DISTT.-JAUNPUR (U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 08.09.74 |
| 2557 | VIKHETO N. SOHE | NSVC/51/98 C/O N. SUMI, RTD. A.D.C. MIDLANE, KOHIMA, NAGALAND | BVSc&AH/DR. PDKV/98 | 23.3.74 |
| 2558 | VIKRAM SINGH S/O SRI TELU RAM TYAGI | UPVC/3238 B-31, GURUNANAK PURA, MODI NAGAR, GHAZIABAD, U.P. | BVSc&AH/AGR A UNIV./70 | 02.01.45 |
| 2559 | Vimal Kant Das, S/o Dr.Jitendra Nath Dag | BiharSVC/103 0/2000 V.-+PO-Ukhram,Thana- Behera,Dist.- Darbhanga,Pin.-827421 | B.V.Sc.&A.H./M U/66 | 16/07/44 |
| 2560 | VIMALENDU KUMAR BHATT S/O. SRI K.N. BHATT | UPVC/3311 VILL.-PUNDA,PO- RITHUKHAR,DISTT.GORA KHPU,U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/ | 04.11.74 |
| 2561 | Vinay Kr. Jha, S/o Dr. Baidyanath Jha | BiharSVC/181 6/2000 M-Harihar Singh Road,Morabadi,Thana- Bariyat,PO+Dist.-Ranchi,P- 834008 | B.V.Sc. & A.H./BAU/95 | 23/12/71 |
| 2562 | Vinay Kr. Singh, S/o Late Tej Narayan Singh | BiharSVC/187 0/2000 V.-Prakap Nagar,PO- Gangajala,Dist.- Saharsa,Pin-852201 | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 03/02/49 |
| 2563 | VINAY KUMAR K. S/O K.S. JANARDHANA RAO | APSVC/03635/ 2000 MANDAPAKA, NEAR TANUKU, WEST GODAVARI DIST. | BVSc&AH/Ang RAU/2000 | 16.07.78 |
| 2564 | Vinay Kumar Sinha, S/o Late Beni Madhav Pd.Sinha | BiharSVC/834/ 2000 Moh.-Paar Mawada,Gaya Road,P.O.+Thana- Nawada,Dt.-Nawada,Pin- 805110 | B.V.Sc.&A.H./M U/64 | 01/10/42 |
| 2565 | Vinay Kumar, S/o Sri Shiv Shankar Sahay | BiharSVC/942/ 2000 M-Keshopur,PO+Thana- Jamalpur,Dist- Murigher,Pin-811212 | B.V.Sc.&A.H./B CKVV/87 | 25/09/64 |
| 2566 | Vinay Shankar Verma, S/o Late Lalta Pd. Verma | BiharSVC/173 6/2000 M-Rajendra Path,Murlihill Masjid Lane,Thana- Kotwali,PO+Dt.-Gaya,Pin- 823002 | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 05/01/59 |
| 2567 | Vindeshwar Singh, S/o Sri Rambachan Singh | BiharSVC/184 4/2000 Vill.+PO-Lahrabad,Thana- Peero,Dist.-Bhojpur | B.V.Sc. & A.H./RAU/80 | 21/02/55 |

| SLN# NAME | RNUM | ADD. | QUALF | DOB |
|---|-------------------------|--|--------------------------|----------|
| 2568 Vindeshwari Singh, D/o Sri Ram Janam Singh | BiharSVC/189 7/2000 | V.-Vishunpur Jagdishpur,PO-Amnaur,Thana-Madhaura,Dist.-Chapra | B.V.Sc. & A.H./RAU/79 | 03/01/54 |
| 2569 Vineet Arora, S/o Sh Mulakh Raj | HarSVC/1644 | 320/13, Multani Chowk, HSR | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 30.9.76 |
| 2570 VINEET CHANDRASEKHAR PANICKER | KERALASVC/ 2519/2000 | PUTHENPURAICKAL,P.O. PODIYADI,THIRUVALLA,PA THANAMTHITTA | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 20.12.77 |
| 2571 VINEET KUMAR UPADHYAY S/O SRI RAM SURAT UPADHYAY | UPVC/3184 | VILL-DHARIKPUR, PO. PREM KA PUR, DISTT-J AUNPUR, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/94 | 02.03.68 |
| 2572 Viney Kumar Dubey, S/o Sri Harishankar Dubey | BiharSVC/162 4/2000 | Vi.-Sudhar Chap,PO-Vriti Mahlyariya,Thana-Lauriya,Dt.-W.Champaran,P-845453 | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 13/06/59 |
| 2573 Vinit Kumar Upadhyay, S/o Sri Ram Surat Upadhyay | BiharSVC/192 8/2000 | Vill.-Dharikpur,PO-Premkapura,Thana-Sujanganj,Dist.-Jaunpur | B.V.Sc. & A.H./GBPUAT/94 | 02/03/68 |
| 2574 VINOD KHANNA | DVC/0552/200 0 | C/O MANMOHAN KHANNA,D-1/145,LAJPAT NAGAR, NEW DELHI-24 | BVSc&AH/IGKV V/97 | 17/07/71 |
| 2575 VINOD KHANNA | VCI/2239/00 | 2/52, OLD DOUBLE STOREY LAJPAT NAGAR IV NEW DELHI | BVSc&AH/IGKV /96-97 | 17/07/71 |
| 2576 Vinod Kr. Mukta, S/o Sri Kedar Nath Singh | BiharSVC/181 5/2000 | Vill.-Choti Aanth,PO-Bari Aant,Thana-Nalanda,Dt.-Nalanda,P-803114 | B.V.Sc. & A.H/RAU/99 | 25/12/70 |
| 2577 VINOD KUMAR DWIVEDI S/O LATE SRI BUDDHI LAL | UPVC/3200 | 25/A, NEW MALL GODAM, SAHODERPUR, PRATAPGARH, U.P. | BVSc&AH/CSA UA&T/96 | 09.06.58 |
| 2578 Vinod Kumar Kushvaha, S/o Late Ramlakhan Pd. | BiharSVC/118 7/2000 | V.-Kanhaivanagar,PO+Thana-Nawada,Dist.-Nawada,Pin-805110 | B.V.Sc.&A.H./B AU/81 | 12/09/55 |
| 2579 VINOD KUMAR S/O SRI S.S. SINGH | UPVC/3263 | C/D SHIV SHANKAR YADAV, VILL.&PO-MIRZAPUR DISTT. GHAZIPUR, (U.P.) | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 09.08.75 |

| STUDY NAME | REGN | ADDRESS | QUALIFICATION | DATE |
|---|------------------------|---|-----------------------------|----------|
| 2580 VINOD KUMAR SHRIWAS S/O MOHANLAL SHRIWAS | APSVC/03591/ 2000 | KASILA FARMS LTD., NATHANAIPALLY(V), NALLAVALY(P), NARASAPUR-502513 | BVSc&AH/MAU/ 90 | 19.06.66 |
| 2581 VINOD KUMAR SINGH S/O SRI M.B. SINGH | UPVC 3239 | VILL.& P.O.-ATHAISI, DISTT. SULTANPUR, U.P. | BVSc&AH/GBP UA&T/81 | 01.08.59 |
| 2582 Vinod Kumar Singh, S/o Sri Mahesh Pd. Singh | BiharSVC/116 8/2000 | M.-Prabhat Kunj,Pankhatoli,Thana-Jaji Mohammadpur,PO+DL- Muzafferpur | B.V.Sc.&A.H./M U/69 | 07/07/46 |
| 2583 Vined Kumar, S/o Late Harihar Ray Yadav | BiharSVC/180 1/2000 | Vill.-Shahpur, Geruari, PO- Shavani, Thana- Bakhtyarpur, Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./BAU/83 | 28/05/60 |
| 2584 Vinod Kumar, S/o Late Ram Jeevan Singh | BiharSVC/105 4/2000 | M-Patel Nagar,Islampur,PO+Thana- Islampur,Dist.-Nalanda,Pin- 801303 | B.V.Sc.&A.H./B AU/93 | 09/09/66 |
| 2585 Vinod Kumar, S/o Sri Baldeo Choudhary | BiharSVC/182 2/2000 | Moh.-Katra Chowk,PO+Thana+Dist.- Shekhpura,Pin.-888105 | B.V.Sc. & A.H./BAU/96 | 22/12/68 |
| 2586 Vinod Kumar, S/o Sri Rajkeshwar Prasad | BiharSVC/147 9/2000 | Vill.+PO+Thana-Chopra Ramnagar,Via- Banmankri,Dist.-Purnea | B.V.Sc. & A.H./BAU/93 | 15/01/68 |
| 2587 Vinod Saini,S/o Sh. Jogvender | HarSVC/1649 | 281/20 Sainipura, Rohtak | BVSc&AH/CCS HAU/2000 | 19.8.77 |
| 2588 VINODKUMAR DESHMUKH S/O SHRI BHASKAR RAO | MPSVC/1883/ 00 | VETY. HOSPITAL BHAVRA DISTT. JHABUA 457661 | BVSc&AH/JNKV V/90-91 | 25.05.68 |
| 2589 Vinuthan M K,S/o Sh Kodappa B T | Karna/3199. | 4th Division,5th Cross,Kadappa BUilding,Vinoba Nagar,Tumkur-5 | BVSc&AH/UAS, B'lore/2000 | 15.9.76 |
| 2590 VIPUL KUMAR SINGH S/O SRI VIKRAM SINGH | UPVC/3290 | 5812, ARAZI BAGH, AZAMGARH, (U.P.)276 001 | BVSc&AH/GBP UA&T/2000 | 05.09.77 |
| 2591 Virendra Kr. Gupta, S/o Dr. Vishundeo Pd. Gupta | BiharSVC/957/ 2000 | M.-Vimla Sadan,Daulatganj,PO- Chapra,Thana-Bhagwan Bazar,Chapra-841301 | B.V.Sc.&A.H./R U/69 | 05/11/46 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALF | DOB |
|-------------|---|------------------------|--|------------------------|------------|
| 2592 | Virendra Kr. Singh, S/o Sri Ganesh Pd. Singh | BiharSVC/161 0/2000 | Vill.+PO-Jhalari,Thana-Rupauli,Dist.-Pumea,Pin.-854301 | B.V.Sc. & A.H./RAU/72 | 01/12/48 |
| 2593 | Virendra Kr. Verma, S/o Sri Shambhu Sharan Verma | BiharSVC/178 7/2000 | M.-Durga Charan Lane,PO-Guljarbag,Thana-Khachkalla,Dist.-Patna | B.V.Sc. & A.H./MU/65 | 06/09/42 |
| 2594 | Virendra Kr.Sinha, S/o Late Vrindavan Bihari Sharan | BiharSVC/848/ 2000 | Moh.-&PO-Devi Asthan,Lane,Chirivatanr,Thana - Jakkapur,Patna-800001 | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 21/10/45 |
| 2595 | Virendra Kumar Ray, S/o Sri Ramdhani Ray | BiharSVC/200 0/2000 | Vill+PO-Umarpur,Divar,Thana-Buxar,Dist.-Buxar | B.V.Sc. & A.H./RAU/77 | 17/01/54 |
| 2596 | Virendra Kumar Singh, S/o Late Yogendra Narayan Singh | BiharSVC/190 8/2000 | Vill.-Bhawanipur,PD-Nagarpara,Thana-Bihpur,Dist.-Bhagalpur | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 01/04/45 |
| 2597 | Virendra Kumar Tiwary, S/o Late Abdhut Tiwary | BiharSVC/200 8/2000 | M-Malinagar,PO-Malinagar Targhar,Thana-Chakra Mabesi,Dt-Samastipur(848125) | B.V.Sc. & A.H./MU/66 | 06/08/47 |
| 2598 | Virendra Kumar, S/o Sri Ramadhar Ram | BiharSVC/188 5/2000 | V.+PO-Ranisagar,Thana-Shahppur Patli,Dist.-Arrah,Bhojpur-802181 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 14/01/71 |
| 2599 | Virendra Kumar, S/o Sri Ramadhar Singh | BiharSVC/105 7/2000 | Vill.+PO-Karhari,Thana-Kingar,Dist.-Jehanabad | B.V.Sc.&A.H./R AU/73 | 05/01/51 |
| 2600 | Virendra Kumar, S/o Sri Suresh Prasad | BiharSVC/163 9/2000 | V.+PO-Ratanpur,Thana-Barivarpur,Dist.-Mingher,Pin-811211 | B.V.Sc. & A.H./BAU/91 | 01/01/63 |
| 2601 | VIRENDRA SINGH S/O SRI DATA RAM | UPVC/3193 | A-251, AVAS VIKAS COLONY, BUDAUN 243601 (U.P.) | BVSc&AH/AGR A UNIV./58 | 10/07/34 |
| 2602 | VISHAL DEEP S/O SH. JATI RAM | PB.SVC- 2188/2000 | H.NO.B-II-908, BALMIK NAGAR, NEAR GEETA BHAWAN, SUNAM . | BVS&AH/PAU/ 2000 | 09.04.77 |
| 2603 | VISHAL MAHAJAN S/O SH. BAL KRISHAN MAHAJAN | PB.SVC- 2235/2001 | INDRA COLONY, GALLI NO. 4, PATHANKOT. | BVSc&AH/PAU/ 99 | 26.05.76 |

| SIMILAR NAME | REGISTRATION NUMBER | ADDRESS | EDUCATIONAL QUALIFICATION | DATE OF BIRTH |
|---|---------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 2604 Vishnu Deo Mahto, S/o Late Gonar Mahto | BiharSVC/169 5/2000 | Vill.-Salaura,PO+Thana-Barbari Bazar,Dist.- Begusarai,Pin-848201 | B.V.Sc. & A.H./MU/71 | 30/06/46 |
| 2605 Vishnu Prasad Manjhi, S/o Late Uchit Manjhi | BiharSVC/206 6/2000 | Vill.-Bela,PO-Belsira,Thana-Fullidumar,Dist.-Banka | B.V.Sc. & A.H./RAU/83 | 05/01/57 |
| 2606 Vishnu Sharan Mahto, S/o Sri Jyoti Lal Mahto | BiharSVC/153 9/2000 | VILL.+PO-Palani,Thana-Baliapur,Dist.-Dhanbad | B.V.Sc. & A.H./BAU/94 | 01/01/69 |
| 2607 Vishnudeo Prasad, S/o Late Ganauri Mahto | BiharSVC/196 7/2000 | Vill.-Baghi,PO-Chakvay,Thana-Varsaliganj,Dist.-Nowada | B.V.Sc. & A.H./MU/68 | 20/06/46 |
| 2608 Vishwanath Kr. Gupta, S/o Late Ramchandra Pd. | BiharSVC/973/ 2000 | M-Indira Nagar,Road No.2,PO-G.P.O.,Thana-Kankarbagh,Patna-800001 | B.V.Sc.&A.H./M U/67 | 08/02/46 |
| 2609 Vishwanath Pd. Choudhary, S/o Sri Mahendra Choudhary | BiharSVC/177 2/2000 | M.-Bazeedpur Bazar,PO+Thana-Vidyapati Nagar,Dt.- Samastipur,P-848503 | B.V.Sc. & A.H./MU/69 | 15/01/47 |
| 2610 VISWESWAR K.C. S/O K. CHANDRASEKHAR | APSVC/03540 /2000 | H.NO.394/D CLASS, CIB QUARTERS, KACHIGUDA, HYDERABAD-500027 | BVSc&AH/VANG RAU,98 | 25.05.72 |
| 2611 VITAL GOLBHAVI S/O BASAPPA GOLBHAVI | KARNASVC/3 140 | TUNGAL POST, JAMKHANDI TQ, BAGAL KOTE DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 01.06.77 |
| 2612 VITHAL POSHATTI M. S/O M. POSHATTI GIRMAJI | APSVC/03532 72000 | C/OYESHAL POTANNA,H.NO.1/2306,R AKESHPET BODHAN,BODHAN(M),NI | BVSc&AH/MAR ATHWADAAG. U/97 | 05.09.71 |
| 2613 Vivek Kumar Sinha, S/o Dr. Rajeev Ranjan Pd.Sinha | BiharSVC/118 5/2000 | VILL.+PO-Murar,Thana-Murar,Dist.-Buzar | B.V.Sc.&A.H./B AU/92 | 01/10/66 |
| 2614 Vivek Kunj, S/o Dr. Kunj Bihari Pd. Agrawal | BiharSVC/169 8/2000 | M.-D/23,Indrapuri,PO-BV College,Thana-Shastrinagar,Dist.- Patna,Pin.-800014 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 30/09/74 |
| 2615 Vivekanand Mandal, S/o Sri Prithvirajchandra Mandal | BiharSVC/143 6/2000 | VILL.+PO-Bari Kadher Janna,Thana+Dist.- Sahebganj,Pin.-816109 | B.V.Sc. & A.H./RAU/97 | 11/02/70 |

| SNUM | NAME | RNUM | ADD | QUALI | DOB |
|-------------|---|-------------------------|--|-------------------------------|------------|
| 2616 | Vrind Prasad, S/o Late Harkeshwar Singh | BiharSVC/182 7/2000 | Vill.+PO-Bagha, Thana-Harnaut, Dist.-Nalanda. | B.V.Sc. & A.H./RAU/73 | 03/06/49 |
| 2617 | VRINDA MENON K. | KERALASVC/ 2456/2000 | 26/521, CONVENT ROAD, CHEMBUKAVU, THRISSUR-680020 | BVSc&AH/CCS & HAU/97 | 05.05.74 |
| 2618 | WADKAR DIPTI KAMALKANT MISS | MSVC/6334/20 00 | RAJDEEP SOCIETY,D/55, GOKHALE ROAD, NAUPADA, THANE-400602 | BVSc&AH/KKV/ 25-09-77 | |
| 2619 | WALSE SANTOSH HARIBHAOO | MSVC/6409/20 01 | AT POST NIRGUDSAR, TAL.AMBEGAON, DIST.PUNE- 412406 | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 30-01-77 |
| 2620 | WALUNJ SAMEER SHANKAR | MSVC/6401/20 00 | AT POST AWASARI(BK) TAL.AMBEGAON, DIST.PUNE- 412406 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 05-02-77 |
| 2621 | WARBHE PRASHANT VITTAL | MSVC/6392/20 00 | AT POST NAGRI, TAL.WORORA, DIST. CHANDRAPUR | BVSc&AH/DR.P DKV/2000 | 03-08-77 |
| 2622 | Wess Edmund Litting S/o A.E. Gassah | Megh/182/01 | Khimusniang, Jowai | BVSc&AH/MAU/ 19.2.59 83 | |
| 2623 | Willington Passah S/o (L) K. Slong | Megh/173/01 | Nongrah, Shillong | BVSc&AH/AAU/ 20.12.57 81 | |
| 2624 | YADAV MAHENDRA MOHAN | MSVC/6315/20 00 | AT POST NIMGOT(BETH), TAL. BARAMATI, DSIT. PUNE- 412102 | BVSc&AH/MPK V/2000 | 22-09-77 |
| 2625 | YADAV SANDEEP SOPANRAO | MSVC/6311/20 00 | AT POST SASPADE, TAL. SATARA, DIST. SATARA- 415519 | BVSc&AH/MAU/ 20-06-78 2000 | |
| 2626 | Yadu Nandan Pd. Sinha, S/o Late Sadhu Shran Sinha | BiharSVC/968/ 2000 | M.-Chandmari, PO- Chandmari, Thana- Danapur, Dist.-Patna, Pin- 801503 | B.V.Sc.&A.H./R U/68 | 28/02/45 |
| 2627 | YADWINDE R SINGH S/O SH. GURMAT SINGH | PB.SVC- 2197/2000 | VPO. BADURKHAN, DIST. SANGRUR, PUNJAB | BVSc&AH/PAU/ 15.02.74 2000 | |

| SR/NM NAME | ENCL | AMT | QUALF | REMARKS |
|---|---------------------|---|---------------------------|----------|
| 2628 YAGHVALKAYA S/O SHRI HARICHARANLAL | MPSVC/1877/ 00 | BILTHARA ROAD, BALIYA DISTT BALIYA U.P. | BVSc&AH/JNKV V/67 | 01.07.42 |
| 2629 YAMANAPPA S/O BALAPPA HARIJAN | KARNASVC/3 158 | KOLIHAL, YELLBURGA TQ., KOPPAL DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 01.06.76 |
| 2630 YASH PAL SHAHNI S/O SHRI HARBANSHLAL SHAHNI | MPSVC/1934/ 01 | 18, TAIGOR NAGAR, NARMADA ROAD, DISTT.- JABALPUR-482004 | BVSc&AH/JNKV V/78 | 01.07.55 |
| 2631 Yogendra Kumar, S/o Late Haricharan Shaw | BiharSVC/118 4/2000 | V.+PO-Nasariganj,Thana-Nasariganj,Dist.-Rohtas | B.V.Sc.&A.H./R AU/89 | 04/07/60 |
| 2632 Yogendra Pd.Singh, S/o Sri Bhola Singh | BiharSVC/998/ 2000 | Vill.-Khapaspur,PO-Bali-Belchi,Thana-Chandi,Dist.-Nalanda | B.V.Sc.&A.H./B AU/83 | 02/01/57 |
| 2633 Yogendra Prasad Singh, S/o Sri Mangal Prasad Singh | BiharSVC/133 8/2000 | V.-Narda,PO-Bhairoganj,Thana-Bhairoganj,Dist.-W. Champaran,Pin-845106 | B.V.Sc. & A.H./RAU/82 | 31/12/57 |
| 2634 Yogendra Sah, S/o Sri Ramdeo Sah | BiharSVC/105 2/2000 | Vill.+PO-Mahisaur,Thana-Jandaha,Dist.-Vaishali | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 09/11/45 |
| 2635 Yogendra Singh, S/o Late Harikishore Singh | BiharSVC/160 8/2000 | Vill.-Meduka,PO-Singhajeetpur,Thana-Baniyapur,Dist.-Chapra (Saran) | B.V.Sc. & A.H./RU/69 | 01/04/47 |
| 2636 YOGESHA T G S/O GANGADHARAPPAT L | KARNASVC/3 162 | THONDIGANAHALLI, BANAVARA HOBIL, ARASIKERE TQ., HASSAN DIST. | BVSc&AH/UAS DHARWAD/200 0 | 20.01.74 |
| 2637 YOGINATH SHUKLA S/O SHRI MOOLCHAND SHUKLA | MPSVC/1924/ 01 | MIG PLOT NO.34, PRIYA DARSHINI NAGAR ITARSI,DIST. HOSHANGABAD-461111 | BVSc&AH/JNKV V/72 | 16.05.49 |
| 2638 Yograj Ramesh Karan, S/o Dr. Rajeshwari Prasad | BiharSVC/842/ 2000 | Vill.-Metora,P.O.-Ativanwan,Thana-Chogi,Dist.-Jehanabad | B.V.Sc.&A.H./M U/71 | 16/06/46 |
| 2639 YUBRAJ KOTHARE S/O SHRI TULARAM KOTHARE | MPSVC/1927/ 01 | VILLAGE MANPUR POST LANZI, DIST. BALAGHAT-481222 | BVSc&AH/IGKV /99-2000 | 07.09.72 |

| SR. NO. | NAME | RNUM | ADD | QUALIF | DOB |
|---------|---|------------------------|--|----------------------------|----------|
| 2640 | Yugendradeo Narayan Sharma, S/o Sri Ram Narayan Chaubey | BiharSVC/125 3/2000 | Vill.-Pande Dihri,PO-Sakla Basar,Thana-Korakat,Dist.- Rohtas | B.V.Sc.&A.H./M U/65 | 08/01/44 |
| 2641 | Yugeswar Pd. Singh, S/o Late Itwar Singh | BiharSVC/166 6/2000 | Vill.- Chandrapura,PO+Thana-Daha Bigha,Dist.-Nalanda | B.V.Sc. & A.H./RU/68 | 05/04/47 |
| 2642 | Yugeswar Prasad, S/o Late Budhdeo Prasad | BiharSVC/126 3/2000 | Vill.+PO-Nawada,Thana-Nawada,Dist.- Bhojpur,Arrah-802301 | B.V.Sc.&A.H./M U/70 | 25/06/48 |
| 2643 | Zachariah George | A&NSVC/77/2 000 | C/o Zulaika Stores,Lamba Pahad,Wimberlyguri, South Andaman | BVSc&AH/WBU AS&T/2000 | 22.11.76 |
| 2644 | Zafer Alam Khan, S/o Late Dr.M. Tahir Khan | BiharSVC/860/ 2000 | Moh.-Nowak Mangit,PO-Mahendru,Thana-Sultanganj, Patna-800006 | B.V.Sc.&A.H./R U/67 | 01/06/43 |
| 2645 | ZAHOOR AHMAD SHEIKH | VCI/2213/00 | SALOORA GANDERBAL,PO.TULAMU LLA,DISTT.SRI NAGAR,J&K-191131 | BVSc&AH/S.K.U OFAS&T/99 | 10/1/75 |
| 2646 | ZARINA AZIZ | GOASVC/116/ 01 | PLOT NO. 12-A, HOUSING BOARD COLONY - MAPUSA | BVSc&AH/GAU/ 00 | 23.8.78 |
| 2647 | Zonum Sangi, S/o Sri Changliama | BiharSVC/198 7/2000 | V-Abhanda Bokarganj,PO+Thana-Laheriaesarai,Dist- Darbhanga,P-846001 | B.V.Sc. & A.H./RAU/98 | 15/11/73 |